


भा० दि० जैनसंघ-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य
प्राकृत संस्कृत आदि भाषाओंमें निबद्ध दि० जैनागम,
दर्शन, साहित्य, पुराण आदिको यथासम्भव
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करना



सञ्चालक

भा० दि० जैनसंघ

ग्रन्थाङ्क १-७

प्रातिस्थान

मैनेजर

भा० दि० जैनसंघ

चौरासी, मथुरा

मुद्रक—पं० शिवमारायण (उपाध्याय, बी० ए०)
नया संसार प्रेस भद्वैनी, वाराणसी ।

Sri Dig Jain Sangha Granthamala No I-VII
KASAYA-PAHUDAM
VII
PRADESHAVIBHAKTI

BY
GUNADHARACHARYA

WITH
CHURNI SUTRA OF YATIVRASHABHACHARYA

AND
THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF
VIRASENACHARYA THERE-UPON

EDITED BY
Pandit Phulachandra Siddhantashastrī
EDITOR MAHABANDHA
JOINT EDITOR DHAVALA.

Pandit Kailashachandra Siddhantashastrī

Nyayatirtha, Siddhantarātna,
Pradhanadhyapak, Syadvada Digambara Jain
Vidyālaya, Varanasi

PUBLISHED BY
THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT,
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year—]

[—Vira Niravan Samvat 2468

Aim of the Series:—

**Publication of Digambara Jain Siddhanta,
Darsana, Purana, Sahitya and other works
in Prakrit Sanskrit etc, possibly with Hindi
Commentary and Translation**

DIRECTOR:—

**SRI BHARATAVARSHIYA
DIGAMBARA JAIN SANGHA
NO. 1. VOL. VII.**

To be had from:—

**THE MANAGER
SRI DIG. JAIN SANGHA,
CHAURASI. MATHURA,**

U. P. (INDIA)

Printed by

PT. S N UPADHYAYA, B. A

Naya Sansar Press, Bhadaini Varanasi.

800 Copies,

Price Rs. Twelve only

प्रकाशककी ओरसे

कसायपाहुडके छठे भागके प्रकाशित होनेसे छै मास पश्चात् ही उसके सातवें भागको पाठकोंके हाथोंमें अर्पित करते हुए हमें सन्तोषका अनुभव होना स्वाभाविक है ।

छठे भागमें प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व अनुयोगद्वारा पर्यन्त भाग मुद्रित हुआ है । शेष भाग, भीष्माभीष्म तथा स्थितिके साथ इस सातवें भागमें है । इसीसे इस भागका कलेवर छठे भागसे बहुत अधिक बढ़ गया है । इस भागके साथ प्रदेशविभक्ति अधिकार समाप्त हो जाता है और जयधवलाका भी पूर्वाध समाप्त हो जाता है । शेष उत्तरार्थ भी सात या आठ भागोंमें प्रकाशित होगा ।

इस समय बाजारमें कागज की स्थिति युद्धकालीन जैसी हो गई है । कागजका मूल्य ड्योड़ा हो जाने पर भी बाजारमें कागज उपलब्ध नहीं है । अतः अगला भाग प्रकाशित होनेमें विलम्ब होना संभव है ।

यह भाग भी भा० दिगम्बर जैन संघके अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्द्र जी डोगरगढ़ तथा उनकी दानशीला धर्मपत्नी श्रीमती नवदावाईजीके द्वारा प्रदत्त द्रव्यसे हुआ है । कुण्डलपुरमें संघके अधिवेशन पर सेठ साहवने जयधवलाजीके प्रकाशनके लिये ग्यारह हजार रुपया प्रदान किया था । इस वर्ष वामौरामे संघके अधिवेशनके अवसर पर आपने पाँच हजार एक रुपया इसी मदमें और भी प्रदान किया है । सेठ साहव और उनकी धर्मपत्नीकी जिनवाणीके प्रति यह भक्ति तथा उदारता अनुकरणीय है । उनकी इस उदारताके लिये जितना भी धन्यवाद दिया जाये, थोड़ा है ।

सेठसाहव की इस दानशीलतामें प्रेरणात्मक सहयोग देनेका श्रेय पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीको है । आप ही जयधवलाके सम्पादन तथा मुद्रणका भार उठाये हुए हैं । अतः मैं पण्डितजी का भी आभारी हूँ ।

काशीमें गङ्गा तट पर स्थित स्व० बाबू छेदीलालजीके जिन मन्दिरके नीचेके भागमें जयधवला कार्यालय अपने जन्म कालसे ही स्थित है और यह स्व० बाबू छेदीलालजीके पुत्र स्वर्गीय बाबू गणेशदास तथा पौत्र बा० सालिगरामजी तथा बा० ऋषभदासजीके सौजन्य तथा धर्मप्रेमका परिचायक है । अतः मैं उनका भी आभारी हूँ ।

जयधवला कार्यालय
भदौनी, वाराणसी
दीपावली-२४८५

कैलाशचन्द्र शास्त्री
मंत्री साहित्य विभाग
भा० दि० जैन संघ

होती है। अब वहीं उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सो ये सादि और अध्रुव इस तरह दो प्रकार की ही होती हैं। जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणिकाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए वह सादि और अध्रुव है। तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कादाचित्क हैं, इसलिए ये भी सादि और अध्रुव हैं। यह ओघ प्ररूपणा है। आदेशसे सब गतियाँ परिवर्तनशील हैं, अतः उनमें उक्त सब प्रदेशविभक्तियाँ सादि और अध्रुव ही होती हैं। आगे अन्य मार्गाणाओमें भी इसी प्रकार विचार कर घटित कर लेना चाहिए। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, मध्यकी आठ कषाय और पुरुषवेदके विना आठ नोकपाय इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणिकाके अन्तिम समयमें प्राप्त होती है, अतः इनकी भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सादि और अध्रुव तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तियाँ अनादि, ध्रुव और अध्रुव होती हैं। पुरुषवेदके उद्यसे क्षणकश्रेणि पर चढ़ा हुआ जो गुणितकर्मांशवाला जीव जब स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिको पुरुषवेदमें संक्रमित करता है तब पुरुषवेदकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब पुरुषवेद और ब्रह्म नोकपायोके द्रव्यको संञ्चलन क्रोधमें संक्रमित करता है तब संञ्चलन क्रोधकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संञ्चलन क्रोधके द्रव्यको संञ्चलनमानमें संक्रमित करता है तब संञ्चलनमानकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संञ्चलनमानके द्रव्यको संञ्चलन मायामें संक्रमित करता है तब संञ्चलन मायाकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तथा यही जीव जब संञ्चलन मायाके द्रव्यको संञ्चलन लोभमें संक्रमित करता है तब संञ्चलन लोभकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तथा इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षणिकाके अन्तिम समयमें होती है। इस प्रकार इन पाँचोंकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए ये सादि और अध्रुव हैं। तथा इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति अनादि, ध्रुव और अध्रुव हैं। मात्र पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म क्षणिककर्मांश अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति सादि भी बन जाती है। तथा इन पाँचोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकारकी है। जब तक इनकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति नहीं प्राप्त होती तब तक तो यह अनादि, ध्रुव और अध्रुव है और उत्कृष्टके बाद यह सादि है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये प्रकृतियाँ सादि और सान्त हैं, इसलिए इनके चारों ही पद सादि और अध्रुव हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ कादाचित्क हैं, जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणिकाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए ये तीनों सादि हैं। तथा क्षणिकाके पूर्व इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति नियमसे होती है इसलिए तो यह अनादि है। तथा क्षणिकाके बाद पुनः संयुक्त होने पर यह सादि है। ध्रुव और अध्रुव विकल्प तो यहाँ सम्भव हैं ही। इस प्रकार इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति चारों प्रकारकी प्राप्त होती है। यह ओघप्ररूपणा है। आदेशसे अचञ्छुदर्शन और भव्यमार्गाणामें ओघप्ररूपणा बन जाती है। मात्र भव्यमार्गाणामें ध्रुव भङ्ग सम्भव नहीं है। शेष सब मार्गाणाएँ परिवर्तनशील हैं, अतः उनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट आदि चारों विभक्तियाँ सादि और अध्रुव ही प्राप्त होती हैं।

स्वामित्व—सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्मांशिक जीव होता है जो बादरपृथिवीकायिकोंमें और बादर त्रसोंमें परिभ्रमण करके अन्तमें दो बार सातवें नरकके नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कम पूरी आयु बिता चुका है। यहाँ उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी किस समय होता है इस सम्बन्धमें दो मत हैं। एक मतके अनुसार अन्तर्मुहूर्त नरकायु शेष रहनेपर उसके प्रथम समयमें होता है और दूसरे मतके अनुसार

नरकके अन्तिम समयमें होता है। मिथ्यात्व, बारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए। जो गुणितकर्मांशिक दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव जब मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमित करता है तब वह सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। तथा जब वही जीव सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें संक्रमित करता है तब वह सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्मांशिक जीव होता है जो अन्तमें ईशान कल्पमें उत्पन्न होकर उसके अन्तिम समयमें स्थित है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसे अन्तमें असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराकर पत्न्यके असंख्यातवर्ष भागप्रमाण कालके द्वारा स्त्रीवेदका पूरण कराकर प्राप्त करना चाहिए। जो गुणितकर्मांशिक जीव क्रमसे नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और पुरुषवेदको यथायोग्य पूरकर अन्तमें मनुष्योंमें उत्पन्न होकर शीघ्र ही कर्मोंका क्षय करता हुआ जब स्त्रीवेदको पुरुषवेदमें संक्रमित करता है तब पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब पुरुषवेदको क्रोधसंस्वलनमें संक्रमित करता है तब क्रोधसंस्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब क्रोधसंस्वलनको मानसंस्वलनमें संक्रमित करता है तब मानसंस्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब मानसंस्वलनको मायासंस्वलनमें संक्रमित करता है तब मायासंस्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है और वही जीव जब मायासंस्वलनको लोभसंस्वलनमें संक्रमित करता है तब लोभसंस्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। यह ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व है। ओघसे सामान्य मोहनीयकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिका स्वामी क्षपितकर्मांशिक जीव क्षपणाके अन्तिम समयमें होता है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षपितकर्मांशिक जीव होता है जो अन्तमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते समय मिथ्यात्वकी दो समय कालवाली एक स्थितिको प्राप्त है। तथा वही जीव जब दर्शनमोहनीयकी क्षपणा किये बिना मिथ्यात्वमें जाकर दीर्घ उद्वेलना कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करते हुए अपने अपने समयमें दो समय कालवाली एक स्थितिको प्राप्त होता है तब वह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका स्वामी होता है। मध्यकी आठ कषायोंके विषयमें ऐसा क्षपितकर्मांशिक जीव लेना चाहिये जो अभव्योके योग्य जघन्य प्रदेशविभक्ति करके त्रसोमें उत्पन्न हुआ है और वहाँ आगमोक्त क्रिया व्यापार द्वारा उसे और भी कम करके अन्तमें क्षपण कर रहा है। ऐसे जीवके जब इनकी दो समय कालवाली एक स्थिति शेष रहती है तब वह इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब अनन्तानुबन्धीकी बार बार विसंयोजना कर लेता है और अन्तमें दो छ्वासठ सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन करके पुनः उसकी विसंयोजना करता है तब वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी दो समय कालवाली एक स्थितिके रहते हुए उनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका भी क्षपितकर्मांशिक जीव ही अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें उद्भयस्थितिके सद्भावमें जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षपक पुरुषवेदी होता है जो जघन्य घोलमान योगसे पुरुषवेदका बन्ध करके उसका संक्रमण करते हुए अन्तिम समयमें स्थित है। इसी प्रकार संस्वलन क्रोध, मान और मायाकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी घटित कर लेना चाहिये। लोभ संस्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी क्षपक अधःकरणके अन्तिम समयमें होता है। तथा छह नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी भी ऐसा क्षपक होता है जो अन्तिम स्थिति काण्डकके संक्रमणके अन्तिम समयमें स्थित है। यह ओघसे जघन्य स्वामित्व है। आदेशसे

इसके अन्तरकालका निषेध किया है। यह ओघप्ररूपणा है। आदेशसे गति आदि मार्गणाओंमें यह अन्तरकाल अपनी अपनी विशेषताको समझ कर घटित कर लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय—यह प्ररूपणा भी जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे दो प्रकारकी है। नियम यह है कि जो उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं होते और जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं होते। यह अर्थपद है। इसके अनुसार यहाँ ओघसे और चारों गतियोंकी अपेक्षा मूल और उत्तर प्रकृतियोंका आलम्बन लेकर भङ्गविचयका विचार करते हुए ये तीन भङ्ग निष्पन्न किये गये हैं—१ कदाचित् सब जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं, २ कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं और एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला है तथा कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं और नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भी इसी प्रकार तीन भङ्ग कहने चाहिए। किन्तु इन भङ्गोंको कहते समय जहाँ निषेध किया है वहाँ विधि करनी चाहिए और जहाँ विधि की है वहाँ निषेध करना चाहिए। ये भङ्ग ओघसे तो बन ही जाते हैं। साथ ही चारो गतियोंमें भी बन जाते हैं। मात्र लब्धपर्याप्तमनुष्य यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा प्रत्येकके आठ आठ भङ्ग होते हैं। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भी पूर्वोक्त प्रकारसे सब कथन कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य पदकी योजना करनी चाहिए।

भागाभाग—इस अनुयोनद्वारमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट तथा जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा कौन किसके कितने भागप्रमाण हैं इसका विचार किया गया है। सामान्यसे सब जीव अनन्त हैं। उनमेंसे अधिकसे अधिक असंख्यात जीव एक साथ उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका वन्ध कर सकते हैं, इसलिए दृष्ट्योस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण और शेष अनन्त बहुभागप्रमाण जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले जीव अधिकसे अधिक असंख्यात ही होते हैं। इसलिए इनकी अपेक्षा असंख्यातवें भागप्रमाण उत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव और असंख्यात बहुभागप्रमाण अनुत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव होते हैं। सामान्य तिर्यञ्चोमें यह प्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र गतिसम्बन्धी शेष अचान्तर भेदोंमें अपने अपने संख्यातप्रमाणको दृष्टिमें रख कर इसका विवेचन करना चाहिए। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भागाभागका विचार उत्कृष्टके समान ही है यह स्पष्ट ही है, इसलिए इसकी अपेक्षा पृथक् विवेचन न करके उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है। सामान्य मोहनीयकर्मकी अपेक्षा भागाभागका विचार नहीं किया है यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए।

परिमाण—इस अनुयोगद्वारमें उत्कृष्टादि चारों प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके परिमाणका निर्देश किया गया है। सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मांशिक जीवोंके यथास्थान होती है और ऐसे जीव असंख्यात होते हैं, इसलिए मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात है। इसके सिवा शेष सब संसारी जीवोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए उनका परिमाण अनन्त है। मिथ्यात्व, वारह कपाय और आठ नाकपायोंकी अपेक्षा यह परिमाण इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और

अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोका परिमाण भी उक्त प्रकारसे जान लेना चाहिए। पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दर्शनमोहनीयकी क्षणणके समय तथा चार संवलयन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षणणके पूर्व यथास्थान प्राप्त होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोका परिमाण संख्यात और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोका परिमाण सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात तथा शेषकी अपेक्षा अनन्त होता है। यह ओघप्ररूपणा है। गतिमार्गणाके अन्तर्भेदोमे स्वामित्वके अनुसार अपनी अपनी विशेषताको जानकर इसे घटित कर लेना चाहिए। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा विचार करने पर सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका परिमाण संख्यात और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका परिमाण सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात तथा शेषकी अपेक्षा अनन्त प्राप्त होता है। कारणका विचार स्वामित्वको देख कर लेना चाहिए। गतिमार्गणा आदिके अन्य भेदोंमे भी स्वामित्वका विचार कर सामान्यसे मोहनीय और सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह परिमाण जान लेना चाहिए। विशेष विचार मूलमे किया हो है।

क्षेत्र—मोहनीयकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी यह क्षेत्र इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा कुछ विशेषता है। बात यह है कि इन प्रकृतियोंकी सत्तावाले कुछ जीव ही असंख्यात हैं, इसलिए इनके चारों पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। यह ओघ प्ररूपणा है। गति आदि अन्य मार्गणाओमे अपनी अपनी विशेषता जानकर क्षेत्रका विचार कर लेना चाहिए।

स्पर्शन—सामान्यसे मोहनीय और छञ्चीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा अनुत्कृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा शेष पदवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। कारणका विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए। यह ओघप्ररूपणा है। गति आदि अन्य मार्गणाओमे अपनी अपनी विशेषताको समझकर यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा काल—सामान्यसे मोहनीयकी तथा मिध्यात्व, वारह कपाय और आठ नोकपायोकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यदि नाना जीव युगपत् करें तो एक समय तक करते हैं और निरन्तर करें तो आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक करते रहते हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलि ० असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। तथा इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, चार संवलयन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक साथ या लगातार करनेवाले जीव संख्यातसे अधिक नहीं होते, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है। तथा इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वदा है, क्योंकि इनकी सत्तावाले जीवोंका सर्वदा सद्भाव बना रहता है। यह ओघसे उत्कृष्ट प्ररूपणा है। जघन्य

प्ररूपणाकी अपेक्षा विचार करनेपर सामान्यसे मोहनीय और सभी उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिकाले जीवोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तिकाले जीवोका काल सर्वदा है। कारणका विचार सर्वत्र कर लेना चाहिए। यह ओघसे जघन्य प्ररूपणा है। आदेशसे सब मार्गणाओमें सब प्रकृतियोंकी चारो विभक्तिकाले जीवोका काल अपनी अपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर जान लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर—सामान्यसे मोहनीय तथा उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति यदि कोई जीव न करे तो कमसे कम एक समयका और अधिकसे अधिक अनन्त कालका अन्तर पड़ता है, इसलिए इन सबकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त होता है। तथा इन सबकी अनु-कृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा अन्तर-कालका निषेध किया है। यह ओघ प्ररूपणा है। अन्य मार्गणाओमें अपनी अपनी विशेषताको जानकर यह अन्तरकाल-घटित कर लेना चाहिए।

सन्निकर्ष—सामान्यसे मोहनीय कर्म एक है, इसलिए उसमें सन्निकर्ष घटित नहीं होता। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह अवश्य ही सम्भव है। इस अनुयोगद्वारमें यह बतलाया गया है कि मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंमेंसे एक एक प्रकृतिका उत्कृष्ट या जघन्य प्रदेशस्तकर्म रहते हुए अन्य प्रकृतियोंमेंसे किन प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है और किन प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती। तथा जिन प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है उनका प्रदेशस्तकर्म अपने अपने उत्कृष्ट या जघन्यकी अपेक्षा किस मात्राको लिए हुए होता है। इस प्रकार ओघ और आदेशसे निरूपण कर यह प्रकरण समाप्त किया गया है।

भाव—सब कर्मोंका वन्ध औदायिक भावकी मुख्यतासे होता है और तभी जाकर उनकी सत्ता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर सामान्यसे मोहनीय कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवोंके औदायिक भाव जानना चाहिए।

अल्पबहुत्व—मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकाले जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि वे एक साथ असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते। तथा उनसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिकाले जीव अनन्तगुणे हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक मोहनीय कर्मकी सत्ता पाई जाती है। इसी प्रकार मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्तिकाले जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि एक साथ एक कालमें वे संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते। तथा उनसे अजघन्य प्रदेशविभक्तिकाले जीव अनन्तगुणे हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक मोहनीयकर्मकी सत्ता पाई जाती है। यह ओघ प्ररूपणा है। अन्य मार्गणाओमें अपनी अपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर यह अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिए। यह सामान्यसे मोहनीय कर्मकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका विचार है, उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी इसे मूलको देखकर जान लेना चाहिए, क्योंकि मूलमें इसका हेतुपूर्वक विस्तारके साथ विचार किया है।

भुजगारविभक्ति—भुजगारविभक्तिमें भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य इन चार पदोका अवलम्बन लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन तेरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशस्तकर्मका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है।

पदनिक्षेप—सुजगारविशेषको पदनिक्षेप कहते हैं। इस अधिकारमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि तथा अवस्थितपद इन सबका आश्रय लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन तीन अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तरप्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मका विचार किया गया है।

वृद्धि—पदनिक्षेपविशेषको वृद्धि कहते हैं। इस अधिकारमें यथासम्भव वृद्धि और हानिके अवान्तर भेदों तथा यथासम्भव अवक्तव्यविभक्ति और अवस्थितविभक्तिका आश्रय लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीवकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन तरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मका विचार किया गया है।

सत्कर्मस्थान—मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान कितने हैं इसका निर्देश करते हुए मूलमें बतलाया है कि उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जिस प्रकार कथन किया है उसी प्रकार प्रदेशसत्कर्मस्थानोका भी कथन कर लेना चाहिये। फिर भी विशेषताका निर्देश करते हुए प्रकृतमें प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अधिकार उपयोगी बतलाये हैं।

भीनाभीनचूलिका

पहले उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका विस्तारके साथ विचार करते समय यह बतलाया आये हैं कि जो गुणितकर्मांशिक जीव उत्कर्षण द्वारा अधिकसे अधिक प्रदेशोंका सञ्चय करता है उसके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है और जो क्षपितकर्मांशिक जीव अपकर्षण द्वारा कर्मप्रदेशोंको कमसे कम कर देता है उसके जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए यहाँपर यह प्रश्न उठता है कि क्या सब कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण या अपकर्षण होना सम्भव है, वस इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिए यह भीनाभीन नामक चूलिका अधिकार अलगसे कहा गया है। साथ ही इसमें संक्रमण और उदयकी अपेक्षा भी इसका विचार किया गया है। इस सबका विचार यहाँपर चार अधिकारोंका आश्रय लेकर किया गया है। वे अधिकार ये हैं—समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व।

समुत्कीर्तना—इस अधिकारमें अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयसे भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अस्तित्वकी सूचना मात्र दी गई है। प्रकृतमें भीन शब्दका अर्थ रहित और अभीन शब्दका अर्थ सहित है। तदनुसार जिन कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदय होना सम्भव नहीं है वे अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु माने गये हैं। और जिन कर्मपरमाणुओंके ये अपकर्षण आदि सम्भव हैं वे इनसे अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु माने गये हैं।

प्ररूपणा—इस अधिकारमें अपकर्षण आदिसे भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु कौन हैं इसका विस्तारके साथ विचार किया गया है। उसमें भी सर्वप्रथम अपकर्षणकी अपेक्षा विचार करते हुए बतलाया गया है कि उदयावलिके भीतर स्थित जितने कर्मपरमाणु हैं वे सब अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले और शेष सब कर्मपरमाणु अपकर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं। तात्पर्य यह है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण न होकर वे क्रमसे यथावस्थित रहते हुए निर्जराको प्राप्त होते हैं, इसलिए वे अपकर्षणके अयोग्य होनेके कारण अपकर्षणसे भीन

स्थितिवाले माने गये हैं। किन्तु इनके सिवा शेष जितने कर्मनिषेक हैं उनके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है, इसलिए वे इसके योग्य होनेके कारण अपकर्षणसे अश्लीन स्थितिवाले माने गये हैं। यहाँपर इतना विशेष समझना चाहिए कि उदयावलिसे ऊपर प्रत्येक निषेकमे ऐसे बहुतसे कर्मपरमाणु होते हैं जो निकाचितरूप होते हैं, अतः उनका भी अपकर्षण नहीं होता। पर वे सर्वथा अपकर्षणके अयोग्य नहीं होते, क्योंकि दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धीसम्बन्धी ऐसे परमाणुओंका अनिष्टित्करणमें प्रवेश करनेपर और चारित्रमोहनीयसम्बन्धी ऐसे परमाणुओंका अनिष्टित्करण गुणस्थानमें प्रवेश करनेपर निधत्ति और निकाचनाकरणकी व्युच्छित्ति हो जानेसे अपकर्षण होने लगता है, इसलिए प्रकृतमें ये कर्मपरमाणु भी अपकर्षणसे श्लीन स्थितिवाले हैं इसका निर्देश नहीं किया है, क्योंकि अवस्थाविशेषमें इनमें अपकर्षणकी योग्यता मान ली गई है। परन्तु उदयावलिके भीतर स्थित जितने कर्मपरमाणु होते हैं उनमें त्रिकालमें भी ऐसी योग्यता नहीं पाई जाती है, अतः प्रकृतमें मात्र उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंको ही अपकर्षणसे श्लीन स्थितिवाला बतलाया गया है। सासादन गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयका अपकर्षण नहीं होता, इसलिए यहाँपर भी यही समाधान समझ लेना चाहिए।

उत्कर्षणकी अपेक्षा श्लीन और अश्लीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका निर्देश करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता। उदयावलिके बाहर यदि विवक्षित कर्मका वन्ध हो रहा हो तो ही उसके सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होता है। उसमें भी जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति उत्कर्षणके योग्य हो उनका ही उत्कर्षण होता है अन्यका नहीं। खुलासा इस प्रकार है—मान लो उदयावलिसे उपरितन स्थितिमें स्थित जो निषेक है उसके जिन परमाणुओंकी शक्तिस्थिति अपनी व्यक्त स्थितिके बराबर है। अर्थात् जिन्हें बँधे हुए एक समय अधिक उदयावलिसे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि इन कर्मपरमाणुओंमें शक्तिस्थितिका अत्यन्त अभाव है। इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय शेष है। अर्थात् जिन्हें बँधे हुए दो समय अधिक उदयावलिसे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका भी उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँपर निषेकका तो अभाव है ही, अतिस्थापना भी कमसे कम जघन्य आवाधा प्रमाण नहीं पाई जाती। इस प्रकार इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति दो समय और तीन समय आदिको उलंघनकर जघन्य आवाधाप्रमाण शेष है। अर्थात् जिन्हें बँधे हुए जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका भी उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँपर अतिस्थापनाके पूरा हो जानेपर भी निषेकका अत्यन्त अभाव है। इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय अधिक आवाधाप्रमाण शेष है। अर्थात् जिन्हें बँधे हुए एक समय अधिक आवाधाकालसे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका एक समय अधिक आवाधाप्रमाण उत्कर्षण होकर आवाधाके ऊपरकी स्थितिमें निषेक होना सम्भव है, क्योंकि यहाँपर अतिस्थापनाके साथ एकसमय प्रमाण निषेक ये दोनो पाये जाते हैं। इसी प्रकार इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण, तीन समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण इत्यादि क्रमसे एक वर्ष, वर्षपृथक्त्व, एक सागर, सागरपृथक्त्व, दस सागर, दस सागरपृथक्त्व, सौ सागर, सौ सागरपृथक्त्व, हजार सागर, हजार सागरपृथक्त्व, लाख सागर, लाख सागरपृथक्त्व, कोड़ों सागर, कोड़ी सागरपृथक्त्व, अन्तःकोड़कोड़ी, कोड़ाकोड़ी सागर और

कोड़ाकोड़ी सागरपृथक्त्वप्रमाण शेष है। अर्थात् उक्त शेष स्थितिको छोड़कर बाकी की कर्मस्थिति के बराबर काल बीत चुका है तो उन कर्म परमाणुओं का आवाधाप्रमाण अतिस्थापना को छोड़कर अपनी-अपनी योग्य शेष रही शक्तिस्थितिप्रमाण स्थिति तक उत्कर्षण होकर निक्षेप होना सम्भव है।

यहाँ यह जो एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिको माध्यम बनाकर उत्कर्षण-का विचार किया जा रहा है सो उस स्थितिमें किस निषेकके कर्मपरमाणु हैं और किसके नहीं हैं इसका विचार करते हुए धतलाया है कि जिसका बन्ध किये हुए एक समय, दो समय और तीन समय आदिके क्रमसे एक आवलि काल व्यतीत हुआ है उन सब निषेकोंके कर्मपरमाणु विवक्षित स्थितिमें नहीं पाये जाते। कारण यह है कि बन्धके बाद एक आवलिकाल तक न्यूनतम बन्धका अपकर्षण नहीं होता और आवाधा कालके भीतर निषेक रचना नहीं होती, अतः विवक्षित स्थितिके पूर्व एक आवलि काल तक बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मपरमाणुओंका उस स्थितिमें नहीं पाया जाना स्वाभाविक है। हां इस एक आवलिसे पूर्व बन्धको प्राप्त हुए समयप्रवर्द्धोंके कर्म परमाणु अपकर्षण होकर वहाँ पाये जाते हैं इसमें कोई वाधा नहीं आती। फिर भी ऐसे कर्म-परमाणुओंका यदि उत्कर्षण हो तो उनका निक्षेप एक समय अधिक एक आवलिक्रम कर्मस्थितिके अन्ततक हो सकता है। मात्र इनका निक्षेप तत्काल बंधनेवाले कर्मके आवाधा कालके ऊपर ही होगा यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। यह दूसरी प्ररूपणा है जो नवकबन्धकी मुख्यतासे की गई है। पहली प्ररूपणा प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मों की मुख्यतासे की गई थी, इसलिए ये दोनों प्ररूपणाएँ स्वतंत्र होनेसे इनका मूलमें अलग अलग विवेचन किया गया है।

यहाँ दूसरी प्ररूपणाके समय अवस्तुविकल्पोंका भी निर्देश किया गया है। किन्तु प्रथम प्ररूपणाके समय उनका निर्देश नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ यह शंका होती है कि क्या प्रथम प्ररूपणाकी अपेक्षा एक भी अवस्तु विकल्प नहीं होता सो इसका समाधान यह है कि अवस्तु-विकल्प तो यहाँ भी सम्भव है। अर्थात् विवक्षित स्थिति (एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थिति) में इससे पूर्व उदयावलिप्रमाण निषेकोका सङ्गठन नहीं पाया जाता फिर भी यह बात बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है, इसलिए प्रथम प्ररूपणाके समय इन अवस्तु विकल्पोंका निर्देश नहीं किया है। विशेष खुलासा मूलमे यथास्थान किया ही है, इसलिए इसे वहाँसे विशेष रूपसे समझ लेना चाहिए।

उदयावलिके ऊपर जो प्रथम स्थिति है उसकी विवक्षासे यह प्ररूपणा की गई है। किन्तु इसके ऊपरकी स्थितिकी अपेक्षा प्ररूपणा करने पर अवस्तुविकल्प एक बढ़ जाता है, क्योंकि उदयावलिके भीतरकी सब स्थितियोंमें स्थित निषेकोंके कर्मपरमाणु तो इसमें पाये ही नहीं जाते, साथ ही उससे उपरितन स्थितिमें स्थित निषेकके कर्मपरमाणु भी नहीं पाये जाते; क्योंकि इन निषेकोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति इस विवक्षित स्थितिके पूर्व ही समाप्त हो जाती है। तथा भीनस्थितिविकल्प एक कम होता है, क्योंकि आवाधामें एक समयकी कमी हो जानेसे भीनस्थितिविकल्पोंमें भी एक समयकी कमी हो गई है। मात्र इसकी अपेक्षा अमीन स्थितियोंमें भेद नहीं है। यह प्रथम प्ररूपणाकी अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार दूसरी प्ररूपणाको ध्यानमें रखकर विचार कर लेना चाहिए। तथा आगे भी इसी प्रकार विचार कर किस निषेकके कितने कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थिति हैं और कितने कर्मपरमाणु अमीनस्थिति हैं। साथ ही उनमें अवस्तुविकल्प कितने हैं और जिनका उत्कर्षण हो सकता है उनका वह कहाँ तक होता है इत्यादि

बातोंका पूर्वोक्त प्ररूपणा और उत्कर्षण आदिके नियमोंको ध्यानमें रखकर विचार कर लेना चाहिए। मूलमें इसका विस्तारसे विचार किया ही है, इसलिए यहां विशेष नहीं लिखा जा रहा है।

संक्रमणकी अपेक्षा महीन और अमहीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका विचार करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुए जितने निषेक हैं उनके कर्मपरमाणु संक्रमणसे महीनस्थितिवाले और शेष अमहीनस्थितिवाले हैं। मात्र न्यूनतन बन्धका बन्धावलि कालतक अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदि नहीं होता, इतनी विशेषता यहाँ और समझनी चाहिए।

उदयकी अपेक्षा महीन और अमहीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका विचार करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि जिस कर्मने अपना फल दे लिया है वह उदयसे महीनस्थिति वाला है और शेष सब कर्म उदयसे अमहीन स्थितिवाले हैं।

स्वामित्व—यहाँ तक प्रकृति विशेषका आलम्बन लिए बिना सामान्यसे यह बतलाया गया है कि किस स्थितिमें स्थिति कितने कर्म परमाणु अपकर्षण आदिसे महीनस्थितिवाले और अमहीन स्थितिवाले हैं। आगे मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कर्मकी अपेक्षा महीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ऐसे चार भेद करके उनके स्वामित्वका विचार करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अपकर्षण आदिकी अपेक्षा उत्कृष्ट महीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी गुणितकर्मांशिक जीव और अपकर्षण आदिकी अपेक्षा जघन्य महीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी क्षपितकर्मांशिक जीव होता है। इसमें जहाँ विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है।

अल्पबहुत्व—इसमें मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कर्मकी अपेक्षा अपकर्षण आदिसे महीन-स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

स्थितिगचूलिका

पहले उत्कृष्टादिके भेदसे प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे विचार कर आये हैं। साथ ही अपकर्षण आदिकी अपेक्षा महीन और अमहीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका भी विचार कर आये हैं। किन्तु अभी तक उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंका विचार नहीं किया गया है, इसलिए इसी विषयका विस्तारसे विचार करनेके लिए स्थितिग नामक चूलिका आई है। इसमें जिन अधिकारोंका आश्रय लेकर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिका विचार किया गया है वे अधिकार ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व।

समुत्कीर्तना—इस अधिकारमें उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं यह स्वीकार किया गया है। जो कर्मपरमाणु उदय समयमें अग्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं वे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिसे अग्रस्थिति ली गई है। एक समयप्रबद्धकी विविध स्थितियोंके जितने कर्मपरमाणु उदयके समय अग्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं उन सबकी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। जो कर्मपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निक्षिप्त होते हैं, अपकर्षण और उत्कर्षण होकर भी उदय कालमें वे यदि उसी स्थितिमें स्थित रहते हैं तो उनकी निषेकस्थितिप्राप्त संज्ञा

है। जो कर्मपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निक्षिप्त होते हैं वे यदि उत्कर्षण या अपकर्षण हुए बिना उदयकालमें उसी स्थितिमें रहते हैं तो उनकी यथानिषेकस्थितिप्राप्त संज्ञा है। तथा बन्धके समय जो कर्मपरमाणु जिस निषेकस्थितिमें प्राप्त हुए हैं वे उदयके समय यदि उसी निषेकस्थितिमें न रहकर जहाँ कहीं दिखलाई देते हैं तो उनकी उदयस्थितिप्राप्त संज्ञा है। इसप्रकार उत्कृष्टस्थितिप्राप्त आदिके भेदसे ये कर्मपरमाणु चार प्रकारके हैं यह निश्चित होता है।

स्वामित्व—इस अधिकारमें मिथ्यात्व आदि अचान्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त चार प्रकारके कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ये चार भेद करके उनके स्वामित्वका विचार किया गया है।

अल्पबहुत्व—इस अधिकारमें उक्त सब भेदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

इसप्रकार इतना कथन करनेके बाद चूलिका सहित प्रदेशविभक्ति अधिकार समाप्त होता है।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
एक जीवकी अपेक्षा काल	१-२५	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य-अजघन्य	
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका काल	२	भागाभागाका विचार	४०
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालका अन्य रूपसे निर्देश	३	परिमाण	४०-४३
शेष कर्मोंके कालका निर्देश	४	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट परिमाणका विचार	४०
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके कालमें विशेषताका निर्देश	५	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य और अजघन्य परिमाणका निर्देश	४३
सब प्रकृतियोंके जघन्य कालके जाननेकी सूचनामात्र	६	क्षेत्रका निर्देश	४४
उच्चारणके अनुसार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कालका निर्देश	७	उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रका निर्देश	४४
जघन्य और अजघन्य कालका निर्देश	१७	जघन्य और अजघन्य क्षेत्रका निर्देश	४४
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	२५-३७	स्पर्शनका कथन	४५-५०
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर	२५	उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्पर्शनका कथन	५५
शेष कर्मोंके अन्तरके जाननेकी सूचना	२६	जघन्य और अजघन्य स्पर्शनका कथन	५७
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तरके विषयमें विशेषताका निर्देश	२६	नानाजीवोंकी अपेक्षा काल	५०-५३
सब प्रकृतियोंके अन्तरकालके जाननेकी सूचनामात्र	२७	उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कालका कथन	५०
उच्चारणके अनुसार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अन्तरका निर्देश	२७	जघन्य और अजघन्य कालका कथन	५३
जघन्य और अजघन्य अन्तरका निर्देश	३२	नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर	५३-५४
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	३७-३९	उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अन्तरका कथन	५३
चूणिकारकी सूचनामात्र	३७	जघन्य और अजघन्य अन्तरका कथन	५४
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्गविचय	३७	सन्निकर्षका कथन	५४-७४
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य-अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका भङ्गविचय	३९	उत्कृष्ट सन्निकर्षका कथन	५४
भागाभाग	३९-४०	जघन्य सन्निकर्षका कथन	६२
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट भागाभागाका विचार	३९	अल्पबहुत्वका कथन	७४-१३३
		ओघसे उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व कथन	७४
		नरकातिमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व कथन	८२
		शेष गतियोंमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	९०
		एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	९१
		ओघसे जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका सकारण निर्देश	९६
		नरकातिमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	११६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
शेष गतियोंमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	१२३	भागामाग	२११
मनुष्यगतिमें ओषके समान जाननेकी विशेष सूचना	१२३	परिमाण	२१६
एकेन्द्रियोंमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	१२४	क्षेत्र	२१७
भुजगार विभक्तिका कथन	१३३-१७१	स्पर्शन	२१८
भुजगार विभक्तिके तेरह अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	१३३	नान जीवोंकी अपेक्षा काल	२२२
समुत्कीर्तना	१३३	नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर	२२६
स्वामित्व	१३४	भाव	२२६
एक जीवकी अपेक्षा काल	१३६	अल्पबहुत्व	२२६
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	१४२	सत्कर्मस्थान	२३५-२३५
नानाजीवोंकी अपेक्षा मङ्गलविचय	१४६	मङ्गलाचरण	२३४
भागामाग	१५०	सत्कर्मस्थानोंका कथन	२३४
परिमाण	१५३	तीन अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	२३४
क्षेत्र	१५५	प्ररूपणा	२३४
स्पर्शन	१५६	प्रमाण	२३५
नानाजीवोंकी अपेक्षा काल	१६३	अल्पबहुत्व	२३५
नानाजीवोंको अपेक्षा अन्तर	१६६	भीनाभीनचूलिका	२३५-३६६
भाव	१८६	मङ्गलाचरण	२३५
अल्पबहुत्व	१६६	भीन और अभीन पदकी विशेष व्याख्या	
पदनिक्षेप	१७१-१८७	जाननेकी सूचना	२३५
पदनिक्षेप और वृद्धिका स्वरूपनिर्देश	१७१	विभाषा शब्दका अर्थ	२३६
पदनिक्षेपके तीन अनुयोगद्वारोंके नाम	१७२	भीनाभीन अधिकारके कथनकी सार्थकता	२३६
उत्कृष्ट समुत्कीर्तना	१७२	यह अधिकार चूलिका क्यों कहा गया है इसका निर्देश	२३६
जघन्य समुत्कीर्तनाकी सूचनामात्र	१७३	प्रकृतमें चार अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	२३७
उत्कृष्ट स्वामित्व	१७३	समुत्कीर्तना पदका अर्थ	२३७
जघन्य स्वामित्व	१८४	समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार	२३७-२३८
उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	१८५	अपकर्षण आदिकी अपेक्षा भीनस्थितिक	
जघन्य अल्पबहुत्व	१८६	कर्मोंका अस्तित्व कथन	२३७
वृद्धिविभक्ति कथन	१८७-२३४	विशेष खुलासा	२३७
तेरह अनुयोगद्वारोंकी सूचना	१८७	प्ररूपणा अनुयोगद्वार	२३७-२७५
समुत्कीर्तना	१८७	कौन कर्म अपकर्षणसे भीनस्थितिक है इसका निर्देश	२३६
स्वामित्व	१८६	अपकर्षणसे अभीनस्थितिक कर्मोंका व्याख्यान	२४०
एक जीवकी अपेक्षा काल	१६३	कौन कर्म उत्कर्षणसे भीनस्थितिक है इसका निर्देश	२४२
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	२०१	कौन कर्म उत्कर्षणसे अभीनस्थितिक है इसका निर्देश	२४७
नाना जीवोंकी अपेक्षा मङ्गलविचय	२०८		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
एक समय अधिक उदयावलि की अन्तिम स्थितिमें नवकर्षणके कौन कर्मपरमाणु नहीं हैं इसका निर्देश	२५१	पूर्वोक्त प्रत्येक भीनस्थितिक कर्म उत्कृष्ट आदि की अपेक्षा चार प्रकारके होते हैं इसका निर्देश	२७५
उसी स्थितिमें कौन परमाणु हैं इसका निर्देश	२५२	स्वामित्व	२७५-३५६
उस स्थितिमें नवकर्षणके जो कर्मपरमाणु हैं उनका कितना उत्कर्षण हो सकता है इसका निर्देश	२५३	मिथ्यात्वके अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा भीन-स्थितिक कर्मों के उत्कृष्ट स्वामी का निर्देश	२७६
दो समय अधिक उदयावलि की अन्तिम स्थितिकी अपेक्षा कथन	२५८	सम्यक्त्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश	२८४
तीन समय अधिक आबलिसे लेकर आबलिकम आबाधा तक की स्थितियोंकी अपेक्षा जाननेकी सूचना	२६०	सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश	२८७
एक समय कम आबलिसे न्यून आबाधाकी अन्तिम स्थितिमें कितने विकल्प नहीं होते हैं और कितने विकल्प होते हैं इसका निर्देश	२६१	अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश	२६२
जो होते हैं उनमें कौन उत्कर्षणसे भीन-स्थितिक हैं और कौन अभीनस्थितिक हैं इसका निर्देश	२६३	मध्यकी आठ कषायोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन	२६४
एक समय कम आबलिसे न्यून आबाधाकी अन्तिम स्थितिके विकल्पका कथन करके आगेकी एक समय अधिक स्थितिके विकल्पोंका निर्देश व उत्कर्षणसे भीन-भीन विचार	२६६	क्रोधसंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३००
उससे एक समय अधिक स्थितिकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे विचार	२७०	मानसंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०२
एक समय अधिक जघन्य आबाधा तक पूर्वोक्त क्रम चलता है इसका निर्देश	२७१	मायासंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०३
दो समय अधिक जघन्य आबाधासे लेकर उत्कर्षणसे भीनस्थिति कर्मप्रदेश नहीं होते इसका निर्देश	२७२	लोभसंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०३
सक्रमणसे भीनस्थितिक और अभीनस्थितिक कर्मप्रदेशोंका निर्देश	२७३	स्त्रीवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०५
उदयसे भीनस्थितिक और अभीनस्थितिक कर्म प्रदेशोंका निर्देश	२७४	पुरुषवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०६
		नपुंसकवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन	३०७
		छह नोकषायोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०८
		मिथ्यात्वकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व कथन	३१२
		सम्यक्त्वकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व कथन	३२०
		सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्वामित्व सम्यक्त्वके समान जाननेकी सूचना	३२२
		आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, मय और जुगुप्साकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३२२
		अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३२८
		नपुंसकवेदकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३३४
		स्त्रीवेदकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३४६
		आरति-शोककी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३५०
		अल्पबहुत्व	३५६-३६६
		मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंमें चारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	३५६
		जघन्य भीनस्थितिक अल्पबहुत्व	३५८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
स्थितिगचूलाका	३६६-४५१	नपुं सकवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि	
मङ्गलाचरण	३६६	द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	४२३
स्थितिग पदकी विभाषाकी सूचना	३६६	जवन्य स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वके जाननेकी	
स्थितिग पदका अर्थ	३६६	सूचना	४२३
यह अधिकार भी चूलाका है इसका निर्देश	३६७	सब कर्मोंके जवन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके	
प्रकृतोपयोगी तीन अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	३६७	स्वामीका निर्देश	४२४
तीनों अनुयोगद्वारोंका लक्षणनिर्देश	३६७	मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदय-	
समुत्कीर्तना	३६६-३७४	स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीका निर्देश	४२४
स्थितिप्राप्त द्रव्य चार प्रकारका है इसका		मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामी-	
निर्देश	३६७	का निर्देश	४३०
उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूप कथन	३६८	सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामी-	
निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३७०	को मिथ्यात्वके समान जाननेकी सूचना,	
यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३०१	साथ ही कुछ विशेषताका निर्देश	४३५
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३७२	सम्यक्त्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थिति-	
प्रत्येकके उत्कृष्टादि चार भेदोंका निर्देश	३७३	प्राप्त द्रव्यके जवन्य स्वामीका निर्देश	४३६
स्वामित्व	३७४-४४५	सम्यग्मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त	
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि		द्रव्यका स्वामी सम्यक्त्वके समान है इसका	
द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	३७४	अपनी विशेषताके साथ निर्देश	४३७
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अग्रस्थिति-		सम्यग्मिथ्यात्वके निषेक और उदयस्थितिप्राप्त	
प्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	४००	द्रव्यके जवन्य स्वामीका निर्देश	४३८
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, आठ कषाय और छह		अनन्तानुबन्धियोंके निषेक और यथानिषेक-	
नोक्षायोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान		स्थितिप्राप्त द्रव्यके जवन्य स्वामीका निर्देश	४६८
जाननेकी सूचना	४०३	अनन्तानुबन्धियोंके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके	
आठ कषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके		जवन्य स्वामीका निर्देश	४४०
स्वामित्वमें विशेषताका निर्देश	४०३	वारह कषायोंके निषेक और उदयस्थितिप्राप्त	
छह नोक्षायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके		द्रव्यके जवन्य स्वामीका निर्देश	४४२
स्वामित्वमें विशेषताका निर्देश	४०४	वारह कषायोंके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके	
श्लोषत्वंलानके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि		जवन्य स्वामीका निर्देश	४४२
द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	४०५	पुरुषवेद, हास्य, रति, मय और जुगुप्साके विषय-	
त्वंलानमान, माया और लोभके विषयमें		में वारह कषायोंके समान जाननेकी सूचना	४४४
त्वंलान श्लोषके समान जाननेकी सूचना	४१६	स्वीवेद, नपुं सकवेद, अरति और शोकके यथा-	
पुरुषवेदके चारों स्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट		निषेकस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके जवन्य	
स्वामित्वाका निर्देश	४२०	स्वामीका निर्देश	४४५
स्वीवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके		अल्पबहुत्व	४४६-४५१
स्वामित्वाका निर्देश	४२०	सब कर्मोंके चारों उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तोंके	
		अल्पबहुत्वका निर्देश	४४६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
जघन्य अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	४४७	अनन्तानुबन्धियोंके चारों जघन्य स्थितिप्राप्तों-	
मिथ्यात्वके चारों जघन्य स्थितिप्राप्तोंके अल्प-		के अल्पबहुत्वका निर्देश	४५०
बहुत्वका निर्देश	४४७	न्तीवेद, नपु सकवेद, अरति, और शोकके	
सम्यक्त्व, मय्यगिमथ्यात्व. बारह कथाय,		चारों जघन्य स्थितिप्राप्तोंका अल्पबहुत्व	
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके		अनन्तानुबन्धीके समान है इसका निर्देश	४५१
चारों जघन्य स्थितिप्राप्तोंका अल्पबहुत्व			
मिथ्यात्वके समान है इसकी सूचना	४५०		

कसायपाहुडस्स
प दे स वि ह ती
पंचमो अत्थाहियारो



सिरि-जइवसहाइरियविरइय-चुण्णिमुत्तसमण्णिदं

सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइइं

क सा य पा हु डं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका

जयधवला

तत्थ

पदेविहत्ती णाम पंचमो अत्थाहियारो



❁ कालो ।

§ १. कालो उच्चदि त्ति भण्णिदं होदि ।

❁ काल ।

§ १. कालका कथन करते हैं यह सक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ।

§ २. सुगमं ।

❀ जहण्णुक्कस्सेणेगसमओ ।

§ ३. सत्तमपुढविणेरइयस्स उक्कस्साउअस्स चरिमसमए चेव उक्कस्सपदेस-संतकम्मसुवलंभादो ।

❀ अणुक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ।

§ ४. सुगमं ।

❀ जहण्णुक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ ५. चतुगदिणिगोदे पडुच्च एसो कालणिहेसो । णिच्चणिगोदे पुण पडुच्च अणा-दिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो च होदि, अलद्धतसभावाणमुक्कस्स-दच्चाणुवत्तीदो । अणुक्कस्सपदेसविहत्तीए अणंतकालावट्ठाणं कथं घट्ठे ? ण, उक्कस्सपदेसट्ठाणप्पहुट्ठि जाव जहण्णट्ठाणं ति एदेसु अणंतेसु ट्ठायेसु अणंतकालावट्ठाणं पडि विरोहाभावादो ।

❀ मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवका कितना काल है ?

§ २. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३. क्योंकि सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ट आयुके अन्तिम समयमें ही उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म उपलब्ध होता-है ।

❀ अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ।

§ ४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनोंके बराबर है ।

§ ५. चतुगोति निगोद जीवकी अपेक्षा कालका यह निर्देश किया है । नित्य निगोद जीवकी अपेक्षा तो अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल होला है, क्योंकि जिन जीवोंने त्रसभावको नहीं प्राप्त किया है उनके उत्कृष्ट द्रव्यकी प्राप्ति सम्भव नहीं है ।

शंका—अनुत्कृष्ट-प्रदेशविभक्तिका अनन्त कालतक-अवस्थान कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेशस्थानसे लेकर जघन्य प्रदेशस्थान तक जो अनन्त स्थान हैं उनमें अनन्त काल तक अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

❀ अण्णोवदेसो जहण्णेण असंखेज्जा लोगा ति ।

§ ६. सब्बे जीवपरिणामा असंखेज्जलोगमेत्ता चेव णाणता, तहोवदेसाभावादो । तत्थुक्कस्सपदेससंतकम्मकारणपरिणामकत्वावं मोत्तूण सेसपरिणामद्वायेसु अवद्वाण-कालो जह० असंखेज्जलोगमेत्तो चेव तम्हा अणुक्कस्सपदेसकालो जह० असंखेज्जलोग-मेत्तो ति इच्छियव्वो । ण च पदेसुत्तरादिकमेण संतकम्मद्वायेसु परिब्भमणियमो अत्थिं, एकसराहेण अणंताणि द्वाणाणि उल्लंघियूण वि परिब्भमणुवल्लंभादो' । एदं केसिं पि आइरियाणं वक्खाणंतरं । एदेसु दोसु उवदेसेसु एक्केणेव सच्चेण होद्व्वं, अण्णोणविरुद्धत्तादो । तदो एत्थ जाणिदूण वत्तव्वं ।

❀ अधवा खवगं पडुच्च वासपुधत्तं ।

§ ७. गुणित्कम्मसियलक्खरोणांगतूण सत्तमाए पुढवीए उक्कस्सपदेसं करिय पुणो समयाविरोहेण एइदिससु मणुस्सेसु च उववज्जिय अंतोसुहत्तंभहिअद्वस्सेहि संजमं पडिवज्जिय णिव्वुइं गयम्मि अणुक्कस्सदव्वस्स वासपुधत्तमेत्तकालुवल्लंभादो ।

❀ अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ६. कारण कि जीवोंके सब परिणाम असंख्यात लोकमात्र ही होते हैं, अनन्त नहीं होते, क्योंकि इस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके कारणभूत परिणामकलापको छोड़कर शेष परिणामोंमें अवस्थित रहनेका जघन्य काल असंख्यात लोक-प्रमाण ही है, इसलिए अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है ऐसा स्वीकार करना चाहिए । और उत्तरोत्तर एक एक प्रदेशके अधिकके क्रमसे सत्कर्मस्थानोंमें परिभ्रमण करनेका कोई नियम नहीं है, क्योंकि एक साथ अनन्त स्थानोंको उल्लंघन करके भी परिभ्रमण पाया जाता है । यह किन्हीं आचार्योंका व्याख्यानन्तर है सो इन दो उपदेशोंमेंसे एक उपदेश ही सत्य होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उपदेश परस्परमें विरोधको लिये हुए हैं, इसलिए यहाँपर जानकर व्याख्यान करना चाहिए ।

❀ अथवा क्षपककी अपेक्षा वर्षपृथक्त्वप्रमाण काल है ।

§ ७. क्योंकि जो जीव गुणितकर्मशिककी विधिसे आकर सातवीं पृथिवीमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मको करके पुनः युथाशास्त्र एकेन्द्रियोंमें और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्ष कालके द्वारा संयमको ग्रहणकर मुक्तिको प्राप्त होता है उसके अनुत्कृष्ट द्रव्यका वर्ष पृथक्त्वप्रमाण काल उपलब्ध होता है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि गुणितकर्मशिकविधिसे आकर जो अन्तमें उत्कृष्ट आयुके साथ दूसरी चार सातवें नरकमें उत्पन्न होता है उसके अन्तिम समयमें ही मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति देखी जाती है । इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालके विषयमें दो उपदेश पाये

❀ एवं सेसाणं कम्माणं णादूण एदच्चं ।

§ ८. तं जहा—अट्टकसाय-सत्तणोकसायाणं मिच्छत्तभंगो, जहणुक्कसकालेहि उक्कसाणुक्कस्सद्वविसएहि ततो भेदाभावादो । अणंताणुवंधिचउक्कस्स वि मिच्छत्त-भंगो चव । णवरि अणुक्कस्स० जहएणेण अंतोमुहुत्तं, अणंताणुवंधिचउक्कं विसंजोइय पुणो संजुत्तो होदूण अंतोमुहुत्तेण विसंजोइदम्मि तदुवलंभादो । चदुसंज०-पुरिस० उक्क० जहणु० एगस० । अणुक्क० अणादि-अपज्ज० अणादि-सपज्ज० सादि-सपज्ज० । जो सो सादि-सपज्ज० तस्स जहणुक्क० अंतो० । इत्थि० उक्क०

जाते है। एक उपदेशके अनुसार वह अनन्त काल प्रमाण बतलाया है। इसकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने जो लिखा है उसका भाव यह है कि नित्य निगोद जीव दो प्रकारके होते हैं—एक वे जो अव्यक्त न तो निगोदसे निकले हैं और न निकलेंगे। इनकी अपेक्षा तो मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त है। हां जो नित्य निगोदसे निकलकर क्रमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्त कर देते हैं उनकी अपेक्षा अनादि-सान्त काल है। पर चूर्णिसूत्रमे इन दोनों प्रकारके कालोंका ग्रहण न कर इतर निगोद जीवोंकी अपेक्षा कालका विचार किया गया है। आशय यह है कि एक बार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके जो क्रमसे इतर निगोदमें चले जाते हैं उनके वहांसे निकलकर पुनः उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके प्राप्त करनेमे अनन्त काल लगता है, इसलिए चूर्णिसूत्रमें मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है। यह एक उपदेश है। किन्तु एक दूसरा उपदेश भी मिलता है। इसके अनुसार मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अनन्तप्रमाण न प्राप्त होकर असंख्यात लोकप्रमाण बन जाता है। उन आचार्योंके मतसे इस उपदेशके कारणका निर्देश करते हुए वीरसेन आचार्य लिखते हैं कि जीवोंके कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण ही उपलब्ध होते हैं और सब प्रदेशसत्कर्मस्थानोंमें जीव क्रमसे ही प्राप्त होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, अतः जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण बननेमे कोई बाधा नहीं आती। अनुत्कृष्टके जघन्य कालके विषयमे ये दो उपदेश हैं। यह कह सकना कठिन है कि इनमेंसे कौन उपदेश सच है, इसलिए यहाँ दोनोंका संग्रह किया गया है। यह सम्भव है कि गुणितकर्मशिक जीव सातवें नरकके अन्तमे उत्कृष्ट प्रदेशसचय करके और वहांसे निकलकर क्रमसे मनुष्य होकर वर्षष्टयवत्त्व कालके भीतर मोहनीयका क्षपण कर दे। इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षष्टयवत्त्वप्रमाण भी कहा है।

❀ इसी प्रकार शेष कर्मोंका जानकर ले जाना चाहिए ।

§ ८. खुलासा इस प्रकार है—आठ कषाय और सात नोकषायोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट द्रव्यविशेषकी अपेक्षा मिथ्यात्वसे इनमे कोई भेद नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी मिथ्यात्वके समान ही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके और संयुक्त होकर जो अन्तर्मुहूर्तमे पुनः इसकी विसंयोजना करता है, उसके उक्त काल पाया जाता है। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि सान्त और सादि-सान्त है। उसमें जो सादि-सान्त काल है उसकी

जहण्णु० एगस० । अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि वासपुधत्तेण सादि०, उक्क०
अणंतकालं । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं उक्क० पदे०वि० केव० कालादो होदि ?
जहण्णुकस्सेण एगसमओ ।

§ ६. एदेसिं चैव अणुकस्सदव्वकालपदुप्पायणद्वयुत्तरसुत्तं भणदि—

❀ एवरि सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं अणुकस्सदव्वकालो जहण्णोण
अंतोसुहूर्त्तं ।

अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त्त है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

विशेषार्थ—इन सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्वके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए यहाँ सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मात्र जिस प्रकृतिकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालमें कुछ विशेषता है उसका यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त्त क्यों है इसके कारणका निर्देश मूलमें ही किया है। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अभयोंकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, भयोंकी अपेक्षा अनादि-सान्त और क्षपकश्रेणिमें सादि-सान्त कही है। क्षपकश्रेणिमें इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद अन्तर्मुहूर्त्त कालतक अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सम्भव है, इसलिए इनकी सादि-सान्त अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त्त कहा है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मांशिक ऐसे जीवके भी होती है जो अन्तमें पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण आयुके साथ असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर आयुके अन्तिम समयमें स्थित है। उसके बाद यह जीव देव होता है और देव पर्यायसे आकर ऐसे जीवका वर्षपृथक्त्वकी आयुवाला मनुष्य होकर मोक्ष जाना भी सम्भव है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद उसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका इससे कम काल सम्भव नहीं है। यही कारण है कि यहाँपर इसका जघन्य काल वर्षपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्षप्रमाण कहा है। यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल कहा गया है उनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वके समान ही है यह बिना कहे ही जान लेना चाहिए, क्योंकि कालमें मिथ्यात्वसे जितनी विशेषता थी वही यहाँ पर कही गई है।

§ ६. अब सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रव्यके कालका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रव्यका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त्त है ।

§ १०. कुदो ? सम्मतं पडिवण्णणिससंतकम्मियम्मि सम्मतसंतमतोमुहुत्तं धरिय खविददंसणमोहणीयम्मि तदुवलंभादो । उक्कस्ससामियस्स वा खवयस्स अणुक्कस्सम्मि पदिय णिससंतीकरणेण सव्वजहण्णंतोमुहुत्तमेत्तकालो वचव्वो, पुच्चिव्वलादो वि एदस्स जहण्णभावदंसणादो ।

❀ उक्कस्सेण वेच्छावट्टिसागरोवमाणि साधिरेयाणि ।

§ ११. णिससंतकम्मियमिच्छाइट्ठिम्मि सम्मतं पडिवज्जिय पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलि० असं०भागमेत्तकालेण चरियुव्वेत्तणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मतं घेत्तूण पढमच्छावट्ठिं भमियं पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण चरियुव्वेत्तणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मतं घेत्तूण विदियत्तावट्ठिं भमिय पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलिदो० असं०भागमेत्तकालेणुव्वेत्तिसम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्तम्मि तदुवलंभादो ।

§ १०. क्योंकि इन दो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जो जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्वकी सत्तावाला होकर दर्शनमोहनीयकी क्षण्य करता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट द्रव्यका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है । या इनके उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी जो क्षण्य जीव इन्हें अनुत्कृष्ट करके निःसत्त्व कर देता है उसके इनके अनुत्कृष्ट द्रव्यका सघन्य जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालसे भी यह काल जघन्य देखा जाता है ।

❀ उत्कृष्ट काल साधिक दो ज्ञयासठ सागरप्रमाण है ।

§ ११. क्योंकि इन दो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर पुनः मिथ्यात्वमें जाकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक इनकी उद्वेगना करते हुए अन्तिम उद्वेगनाकाण्डककी अन्तिम फालिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और प्रथम ज्ञयासठ सागर काल तक भ्रमण करके पुनः मिथ्यादृष्टि हुआ । तथा वहाँ पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उद्वेगना करते हुए चरम उद्वेगना काण्डककी अन्तिम फालिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करके द्वितीय ज्ञयासठ सागर काल तक उसके साथ भ्रमण करता रहा और अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेगना की उसके उक्त काल उपलब्ध होता है ।

विशेषार्थ—यहाँपर दो चूर्णिसूत्रों द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका निर्देश किया गया है । ऐसा करते हुए वीरसेन स्वामीने जघन्य काल दो प्रकारसे घटित करके बतलाया है । प्रथम उदाहरणमें तो ऐसा जीव लिया है जिसके इन दो कर्मोंकी सत्ता नहीं है । ऐसा जीव सम्यग्दृष्टि होकर अन्तर्मुहूर्तमें यदि इनकी क्षण्य करता है तो उसके इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल उपलब्ध होता है । दूसरे उदाहरणमें ऐसा क्षण्य जीव लिया है जो इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला है ।

❀ जहण्णकालो जाणिट्ठण एवेद्वो ।

§ १२. सुगमं ।

§ १३. एवं चुण्णिसुत्तमस्सिदूण कालपरुवणां करिय संपहि एत्थुच्चारणाइरिय-
वक्खाणकमं भणिस्सामो । कालो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए
पयदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० मिच्छत्त-अट्ठक०-सत्तणोक० उक्क० पदे०
विहत्ती० केवचिरं काला० ? जहण्णुक० एगस० । अणुक० ज० वासपुधत्तं, उक्क०
अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । एवं अणंताणु०चउक्क० । णवरि अणुक० ज०
अंतो० । सम्मत-सम्मापि० उक्क० पदेस० जहण्णुक० एगस० । अणुक० ज० अंतो०,
उक्क० वेच्चावट्ठिसागरोमाणि सादि० । चदुसंज०-पुरिसवेदाणं उक्क० पदे० जहण्णुक०

इस जीवके अन्तर्मुहूर्तमें इन कर्मोंकी नियमसे क्षपणा हो जाती है, इसलिए इसके भी इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल उपलब्ध होता है। इस प्रकार अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके ये दो उदाहरण उपस्थित कर बीरसेन स्वामी प्रथमकी अपेक्षा द्वितीयको ही प्रथममें उपयुक्त मानते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रथमकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जितना काल है उससे दूसरे उदाहरणकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल स्पष्टतः कम है और जघन्य कालमें जो सबसे न्यून हो वही लिया जाता है। यह तो इन दोनों कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके जघन्य कालका विचार हुआ। उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण स्वयं बीरसेन स्वामीने किया ही है। यहाँ इतना ही संकेत करना है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाका काल पत्यके असंख्यातत्वं भागप्रमाण होकर भी न्यूनाधिक है, इसलिए जहाँ जिस कर्मकी अन्तम उद्देलनाकाण्डककी अन्तम फालि प्राप्त हो वहाँ उसके सद्भावमें रहते हुए अन्तम समयमें ही सम्यक्त्वको प्राप्त कराना चाहिए।

❀ जघन्य कालको जानकर ले जाना चाहिए ।

§ १२. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—इस चूर्णिसूत्रमें जघन्य पदसे तात्पर्य मिथ्यात्व आदि अट्ठाईस प्रकृतियोंके जघन्य द्रव्यसे है। उसका जघन्य और उत्कृष्ट जो काल हो उसे जानकर घटित कर लेना चाहिए यह बात इस चूर्णिसूत्रमें कही गई है।

§ १३. इस प्रकार चूर्णिसूत्रके आश्रयसे कालका कथन करके अब यहाँ पर उच्चारणाचार्यके व्याख्यानके क्रमको कहेंगे। काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, आठ कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षपृथक्त्वप्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो-

एगस० । अणुक० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो सादिओ सपज्ज० । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णिदे सो-जहण्णु० अंतो० । इत्थिवेद० उक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि वासपुधत्तेणवभहियाणि, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ १४. आदेसेण० णेरइएसु मिच्छत्त-सोलसक०-व्वणोको० उक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० अंतो० । कुदो ? सत्तमाए पुट्ठीए समयहिय-असंखे० फइयमेत्तावसेसे आउए दव्वमुक्कस्सं करिय विदियसमयमादिं कादूण अंतो-मुहुत्तमेत्तकालं अणुकस्सदव्वेणच्छिय णिगगयस्स तदुवलंभादो । णेरइयचरिमसमए पदेसस्सुक्कस्सामित्तं पखुविदसुत्तेण सह एदस्स वक्खाणस्स कथं ण विरोहो ? विरोहो चेव । किं तु आउवबंधयद्धाकालमि जादपदेसक्खयादो उवरिमकालपदेससंचओ बहुओ त्ति जइवसहाइरिओवएसो तेण णेरइयचरिमसमए चेव उक्कस्सपदेससामित्तं । उच्चारणा-इरियाणं पुण अहिप्पाएण उवरिमसंचयादो आउअबंधकालमि जादपदेसक्खओ

छथासठ सागरप्रमाण है । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है । उनमेंसे जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है । उसकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षप्रथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट अनन्त काल है जां असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है ।

विशेषार्थ—यहाँ उच्चारणाचार्यके व्याख्यानमें वही सब काल कहा गया है जो कि चूर्णिसूत्रों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । मात्र चूर्णिसूत्रमें मिथ्यात्व आदि की अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल तीन प्रकार से बतलाया गया है सो यहाँ अनन्त काल और असंख्यात लोकप्रमाण काल इन दो को छोड़कर एकका ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि उक्त तीन प्रकारके कालोंमें से सबसे जघन्य काल यही प्राप्त होता है और यह निर्विवाद है ।

§ १४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नाकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि सातवीं पृथिवीमें आयुके एक समय अधिक असंख्यात स्पर्धकमात्र शेष रहने पर उक्त कर्मोंके द्रव्यको उत्कृष्ट करके और दूसरे समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक अनुत्कृष्ट द्रव्यके साथ रहकर निकलनेवाले जीवके उक्त काल पाया जाता है ।

शंका—नारकीके अन्तिम समयमें प्रदेशसत्कर्मके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रके साथ इस व्याख्यानका विरोध कैसे नहीं प्राप्त होता ?

समाधान—उक्त सूत्रके साथ इस व्याख्यानका विरोध तो है ही, किन्तु आयुबन्धके काल में जो प्रदेशोंका ज्ञय होता है उससे आगेके कालमें होनेवाला प्रदेशोंका संचय बहुत है यह यतिवृषभाचार्यका उपदेश है, इसलिए इस उपदेशके अनुसार नारकीके अन्तिम समयमें ही उत्कृष्ट प्रदेशस्वामित्व प्राप्त होता है । परन्तु उच्चारणाचार्यके अभिप्रायसे आयुबन्ध कालसे आगेके

बहुओ त्ति तेण आउअवंधे चरिमसमयअपारउडे चेव उकस्ससामित्तं होदि णि तदो आणाकणिट्टदाए णिण्णयाभावादो त्थप्पं काळण वक्खाणोयन्वं । उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । णवरि अणंताणु०चउक० जह० एगसमओ । कुदो ? चउवीससंत-कम्मियउवसमसम्मादिट्ठिम्मि सासणं गंतूण अणंताणुबंधिसंतमुप्पाइय विदियसमए णिप्पित्तिदम्मि तदुवलंभादो । उक्क० तं चेव । सम्मत-सम्मामि० उक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । तिण्हं वेदाणमुक्क० पदेस० जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

कालमें होनेवाले सञ्चयसे आयुवन्धके कालमें प्रदेशोका स्य बहुत होता है इसलिए आयु वन्धके प्रारम्भ होनेके पूर्व अन्तिम समयमें ही अर्थात् आयुवन्ध प्रारम्भ होनेके अनन्तर पूर्व समयमें ही उच्छ्रष्ट स्वामित्व होता है । अतएव जिनाज्ञाका निरर्थक न होनेसे इस विषयको स्थगित करके व्याख्यान करना चाहिए ।

उक्त प्रकृतियोंकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका उच्छ्रष्ट काल तेतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो उपशमसम्यग्दृष्टि नारकी जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर और अनन्तानुवन्धीचतुष्कके सत्त्वको उत्पन्न करके दूसरे समयमें अन्य गतिमें चला जाता है उसके एक समय काल पाया जाता है । तथा उच्छ्रष्ट काल वही है । अर्थात् तेतीस सागर ही है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल एक समय है । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल तेतीस सागर है । तीनों वेदोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल एक समय है । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उच्छ्रष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्ति सातवें नरकमें आयुवन्धसे पूर्व अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल एक समय कहा है तथा उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद नरकभवमें जो अन्तर्मुहूर्त काल शेष बचता है वह इन कर्मोंकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल है और इसका उच्छ्रष्ट काल सम्पूर्ण तेतीस सागर उस नारकीके होता है जिसके उस पर्यायमें उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्ति नहीं होती । यही कारण है कि उक्त कर्मोंकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उच्छ्रष्ट काल तेतीस सागर कहा है । मात्र अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिए कारण सहित इस कालका निर्देश अलगसे किया है । यहाँ अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य कालका निर्देश करके 'उक्क० तं चेव' कहकर उच्छ्रष्ट काल भी कह दिया है पर इससे यह मिध्यात्व आदिकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिके उच्छ्रष्ट काल से अलग है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अन्यथा 'तं चेव' पद देनेकी कोई सार्थकता नहीं थी । सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्ति उच्छ्रष्ट स्वामित्वके अनुसार एक समयके लिए होती है, इसलिए इसका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल एक समय कहा है । तथा जो जीव अपनी-अपनी उद्वेलनाके अन्तिम

१५. पढमाए जाव छट्टि ति मिच्छत्त-वाररसक०-णवणोक० उक्क० पदेस० जहणुक्क० एगस० । अणुक्क० जह० पढमाए दसवस्ससहस्साणि समज्जणाणि । कुदो समज्जणत्तं ? उप्पणणपढमसमए पदेसस्स जादुक्कस्ससंतत्तादो । सेसासु पुढवीसु जह० सगसगजहणणद्विदीओ समज्जणाओ, उक्क० सगसगुक्कस्सद्विदीओ । एदमणंताणु०-चउक्क०-सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं । णवरि अणुक्क० ज० एगस० । सत्तमीए णिरओधं । णवरि इत्थि-पुरिस-णउंसयवेदाणमुक्क० पदे० जहणुक्क० एग० । अणुक्क० ज० षावीसं सागरोवमाणि, उक्क० तेत्तीसं साग० । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० जहणुक्क० एग० । अणुक्क० ज० अंतो० । कुदो ण एगसमओ ? सत्तमाए पुढवीए सासणगुणेण णिग्गमाभावादो । उक्क० तेत्तीसं सागरो० ।

समयमे नरकमे उत्पन्न होता है इसके वहाँ इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक देखी जाती है, अतः इन दोनों प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । इसका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नरकमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा नरककी जघन्य स्थितिमेसे इस एक समयको कम कर देने पर तीनों वेदोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य आयुप्रमाण होता है और इसका उत्कृष्ट काल नरककी उत्कृष्ट आयुप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

१५. पहली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमे मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्रथम पृथिवीमें एक समय कम दस हजार वर्ष है ।

शंका—एक समय कम क्यों है ?

समाधान—क्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे ही उत्कृष्ट सत्त्व होता है ।

शेष पृथिवियोंमें उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल छहोमे अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । सातवीं पृथिवीमे सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बार्हस सागर है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसूर्त है ।

शंका—एक समय क्यों नहीं है ?

समाधान—क्योंकि सातवीं पृथिवीसे सासादन गुणस्थानके साथ निर्गमन नहीं होता है । तथा उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—प्रथमादि छह पृथिवियोंमें, गुणितकर्मांशविधिसे आये हुए जीवके नरकमें

§ १६. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणो० उक्क० पदे० जहणुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० खुद्दाभवग्गहर्णं । एदं समयुणं ति किं ण उच्चदे ? ण, णेरइधेहिंतो णिग्गयस्स अपज्जत्तएसु अणंतरसमए उववादाभावादो । अणंताणु० चउक्क०-इत्थिवेदाणमेगस० । सव्वासिसुक्क० अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्ठा । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० पदे० जहणुक्क० एग० । अणुक्क० ज० एग०, उक्क०

उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इन नरकोंमें उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। मात्र इन नरकोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य नारकियोंके समान भी सम्भव है, इसलिए इन नरकोंमें इसका जघन्य काल एक समय कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्रथमादि छह नरकोंमें जो गुणितकर्मांशिक जीव आकर और वहाँ उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें यथाशास्त्र उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके अन्तिम समयमें होती है, अतः इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनकी उद्वेलनामें एक समय शेष रहने पर जो उक्त नरकोंमें उत्पन्न होता है उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय देखी जाती है, अतः उक्त नरकोंमें इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है और इसका उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सातवीं वृथिवीमें अन्य सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल सामान्य नारकियोंसे जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उस प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र जिन प्रकृतियोंमें कुछ विशेषता है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति तो गुणितकर्मांशिक जीवके यहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस एक समयको सातवें नरकी जघन्य स्थितिसे कम कर देनेपर यहाँ उनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा बाईस सागर प्राप्त होता है और इसका उत्कृष्ट काल यहाँकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व ओषके समान है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पूरा तीस सागर कहा है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं बनता इसके कारणका निर्देश भूलमें ही किया है।

§ १६. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चामे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्षुल्लक भवप्रहाराप्रमाण है।

शंका—इसे एक समय कम क्यों नहीं कहते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नारकियोंमेंसे निकले हुए जीवका अनन्तर समयमें अपर्याप्तक जीवों के उत्पन्न नहीं होता।

अनन्तानुबन्धीचतुष्क और क्षीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

तिणिण पलिदोवमाणि पलिदोवमस्स असं० भागेण सादिरे० ।

§ १७. पंचिंदियतिरिक्खतियन्मि छब्बीसं पयडीणमुक्कं पदे० जहण्णुक्कं एगसं० । अणुक्कं जं खुद्धा० अंतोमु०, अणंताणु० चउक्कं० इत्थिवेदाणमेगसं०, उक्कं सन्वासिं तिणिण पलिदोवमाणि पुव्वकोटिपुधत्तेणभहियाणि । सम्मत-सम्मा-मिच्छत्ताणमित्थिवेदभंगो ।

अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवर्ष भाग अधिक तीन पत्य प्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ सब कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अपने अपने स्वामित्व के अनुसार एक समयके लिए होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । आंगिकी मार्गणाओंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए, इसलिए आगे सब कर्मोंकी मात्र अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालका स्पष्टीकरण करेंगे । तिर्यच्चोमें जघन्य आयु क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है । मात्र यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिए इसका अलगसे निर्देश किया है । जो स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करनेके बाद एक समय तक तिर्यच्चोमें रहकर देव हो जाता है उसके स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है और जिस तिर्यच्चने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके तिर्यच्च पर्यायमें रहनेका काल एक समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थान प्राप्त करके उससे संयुक्त हुआ है उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तिर्यच्चों में सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है । सम्यक्त्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वकी अपेक्षा भी बन जाता है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए । तथा जो तिर्यच्च पत्यके असंख्यातवर्ष भागप्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना करते हुए अन्तमें तीन पत्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं और वहाँ अधिकतर समय तक सम्यक्त्वके साथ रहते हुए इनकी सत्ता बनाये रग्वते हैं उनके इस सब कालके भीतर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता बनी रहती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवर्ष भाग अधिक तीन पत्य कहा है ।

§ १७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चत्रिकमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल तिर्यच्चोमें क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और शेष दो में अन्तर्मुहूर्त है । किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चोंकी जघन्य स्थिति क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और शेष दो की अन्तर्मुहूर्त है । तथा सबकी कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है, इसलिए इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्रमसे क्षुल्लक भवग्रहण-

§ १८. पंचि०तिरि०अपज्ज० छन्वीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० खुद्धाभव० समज्जणं, उक्क० अंतो० । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमेवं चैव । णवरि अणुक्क० ज० एगस० । एवं मणुसअपज्जत्ताणं ।

§ १९. मणुसतियम्मि अट्टावीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० खुद्धा० अंतो० समज्जणं, उक्क० सगट्ठिदी । णवरि सम्म०-सम्माभि०-अणंताणु०चउक्क०-इत्थिवेद० अणुक्क० ज० एगस० । चतुसंज०-पुरिस० अणुक्क० ज० अंतोमु० ।

प्रमाण और अन्तर्मुहूर्त कहा है तथा उच्छ्रष्ट काल पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य कहा है । मात्र अनन्तानुवन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य तिर्यञ्चोके समान यहाँ भी बन जाती है, इसलिए यहाँ इसका जघन्य काल एक समय कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी प्ररूपणा स्त्रीवेदके समान घटित हो जाती है, इसलिए उसे उसकी प्ररूपणाके समान जानने की सूचना की है ।

§ १८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे छन्वीस प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल एक समय है । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवप्रहरणप्रमाण और उच्छ्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल कम कर देने पर यहाँ अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, इसलिए इन जीवोंमे छन्वीस प्रकृतियोंकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवप्रहरणप्रमाण और उच्छ्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्य सब काल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे इसी प्रकार जानने की सूचना की है । मात्र इनकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका उद्वेलना की अपेक्षा एक समय काल भी प्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त विभक्तिका जघन्य काल अलगसे एक समय कहा है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे यह कालप्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ १९. मनुष्यत्रिकमे अट्टाईस प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल एक समय है । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवप्रहरणप्रमाण है और एक समय कम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है और उच्छ्रष्ट काल अपनी कायस्थिति-प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । तथा चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिमेसे कम कर देने पर अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमे एक समय कम क्षुल्लक भव प्रहरणप्रमाण और शेष दो प्रकारके मनुष्योंमे एक समय कम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कहा है । इनमें

§ २०. देवगदीए देवेसु भिच्छ०-वारसक०-सत्तणोक० उक्क० पदे० जहणुक्क० एग० । अणुक्क० जह० दसवस्ससहस्साणि समज्जणाणि, उक्क० तेतीसं सागरो० । एवं सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं । णवरि अणुक्क० ज० एगस०, उक्क० तं चेव । एवं पुरिस-णजंसयवेदां । णवरि अणुक्क० ज० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि ।

§ २१. भवण०-वाण०-जोइसि० छ्वीसं पयडीणमुक्क० पदे० जहणुक्क०

इसका उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । मात्र इनमें सम्यक्त्वका उद्वेलना और क्षणिकी अपेक्षा तथा सम्यागिमिथ्यात्वका उद्वेलनाकी अपेक्षा, अनन्तानुबन्धीचतुष्कका संयोजना होकर सासादन गुणस्थानके साथ विवक्षित पर्यायमें एक समय रहनेकी अपेक्षा और स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद एक समय तक अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके साथ विवक्षित पर्यायमें रहनेकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाने से वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा चार संवत्तन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त जो ओषसे घटित करके बतला आये हैं वह मनुष्यत्रिकमें सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ २०. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और सात नोकषायकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्यगिमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है । पुरुषवेद और नपुंसकवेदका काल भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और सात नोकषायकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणित कर्मांशिक जीवके यहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष कहा है । उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । शेष प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तो यही है । मात्र जघन्य कालमें अन्तर है । सम्यक्त्वका उद्वेलना और क्षणिकी अपेक्षा, सम्यगिमिथ्यात्व हा उद्वेलनाकी अपेक्षा और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका संयोजना होकर सासादन गुणस्थानके साथ एक समय विवक्षित पर्यायमें रहनेकी अपेक्षा एक समय काल बन जाता है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति पर्यायपमकी स्थितिवाले देवोंके अन्तिम समयमें होती है, इससे कम स्थितिवालेके नहीं, इसलिए तो इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा दस हजार वर्ष कहा है और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ऐशान रूपमें होती है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भी जघन्य काल पूरा दस हजार वर्ष कहा है ।

§ २१. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट

एगस० । अणुक० जह० जहण्णट्टिदी समजणा, उक० अप्पण्णो उक्कस्सट्टिदीओ ।
णवरि अणंताणु०चउक० जह० एगस० । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमणंताणु०-
चउक०भंगो ।

§ २२. सोहम्मादि जाव सहस्सारो त्ति मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० उक०
पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० सग-सगजहण्णट्टिदीओ समजणाओ, उक०
सग-सगुक्कस्सट्टिदीओ । अणंताणु०चउक०-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं एवं चेव । णवरि
अणुक० जह० एगस०, उक० तं चेव ।

§ २३. आणदादि जाव णवगेवेज्जा त्ति छव्वीसं पयडीणं उक० पदे०

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान है ।

विशेषार्थ—उक्त देवोंमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य देवोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसके जघन्य काल एक समयका अलगसे निर्देश किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान कहनेका कारण यह है कि यहाँ पर इनका भी उद्देलनाकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २२. सौधर्म कल्पसे लेकर सहस्तर कल्प तकके देवोंमें मिध्यात्व वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रारम्भमें कही गई वार्डस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है । मात्र सौधर्म और ऐशान कल्पमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उस पर्यायके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इन सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । तथा शेष प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य देवोंके समान यहाँ भी घटित हो जाती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है । यहाँ सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

§ २३. आनत कल्पसे लेकर नौ भ्रैवेयक तकके देवोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट

जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० खुदाबंधपाढो समऊणो, उक० सगद्धिदी ।
णवरि अणंताणु०चउकस्स अणुक० पदे० जह० एगस० । एवं सम्मत-सम्मा-
मिच्छत्ताणं ।

§ २४. अणुदिसादि जाव सव्वट्टसिद्धि ति सत्तावीसं पयहीणमुक० पदे०
जहण्णुक० एगस० अणुक० जह० जहण्णद्धिदी समयूणा, उक० सणुकस्सद्धिदी ।
णवरि अणंताणु०चउक० अणुक० जह० अंतोसु० । सम्मत० उक० पदेसजहण्णुक०
एगस० । अणुक० जह० एगस०, उक० सगद्धिदी । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल
ध्रुल्लकबन्धके पाठके अनुसार एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी
अपेक्षासे जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति
अपने अपने भवके प्रथम समयमें सम्भव है। तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति स्वामित्वके
अनुसार यद्यपि भवके प्रथम समयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वामित्वप्ररूपणामें गुणित-
कर्मांशविधिसे आकर जो द्रव्यलिंगके साथ मरकर और वहाँ उत्पन्न होकर विवक्षित वेदके
पूरणकालके अन्तिम समयमें स्थित है उसके तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति बतलाई है पर
ध्रुल्लकबन्धके पाठके अनुसार तीनों वेदों सहित उक्त सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका
जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण बतलाया है सो विचार कर
घटित कर लेना चाहिए। मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल
एक समय सामान्य देवोके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है।
तथा यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय
ही है, क्योंकि सम्यक्त्वका उद्वेलना और क्षपणाकी अपेक्षा तथा सम्यग्मिथ्यात्वका उद्वेलनाकी
अपेक्षा एक समय काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इनकी प्ररूपणा अनन्तानु-
बन्धीचतुष्कके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

§ २४. अनुदिसासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य
काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-
प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य
काल अन्तमुहूर्त है। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके एक समयको अपनी अपनी जघन्य स्थितिमेंसे कम
कर देने पर सत्ताईस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, इसलिए
वह एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। मात्र जो वेदकसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी

§ २५. जहणए पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त-एकारसकसाय-णवणोकसाय० जहणपदे जहण्णुक्स्सेण एगसमओ । अजहण्णे० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो । सम्मत-सम्माभिच्छत्ताणं जहणपदे जहण्णुक्० एगसमओ । अजह० ज० अंतोमु०, उक्क० वेळावट्ठि सागरोवमाणि सदियेयाणि । अणंताणु०चउक्क० ज० पदेस० जहण्णुक्क० एगस० । अज० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो सादिओ सपज्जवसिदो । जो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णिहेसो—जह० अंतोमु०, उक्क० अद्धपोमालपरियट्ठं देसूणं । लोभसंजल० जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० तिण्णि भंगा । जो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्तं ।

विसंयोजना क्रिये बिना वहाँ उत्पन्न हुआ है और अन्तर्मुहूर्त कालमें उनकी विसंयोजना कर देता है उसके इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक ही देखी जाती है, इसलिए इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । क्षपणाकी अपेक्षा सम्यक्त्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय यहाँ भी सम्भव होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । इन सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । इस प्रकार यहाँ तक ओघसे और चारों गतियोंमें कालका विचार किया । आगे अपनी अपनी विशेषताको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

§ २५. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, ग्यारह कथाय और नौ लोकाधारोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है । उनमें जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है—जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिके तीन भङ्ग हैं । उनमें जो सादि-सान्त भङ्ग है उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अपने अपने स्वामित्वके अनुसार ओघ और आदेशसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक ही होती है, इसलिए उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल सर्वत्र एक समय कहा है । अतः यहाँ केवल सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके कालका विचार करेंगे । मिथ्यात्व आदि इकीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसका काल अभव्यों या अभव्योंके समान भव्योंकी अपेक्षा

१. ता० प्रवौ 'जो सो सादियो' इति पाठः ।

§ २६. आदेशेण णेरइएसु मिच्छत्त-सत्तणोकसाय० जह० पदे० जहण्णुक० एग-समओ । अज० जह० अंतोद्यु०, उक्क० तेत्तीसं सागरोदमाणि । सम्मत्त-सम्माभि०-अर्णताणु०चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । वारसक०-भय-दुगुंछाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० ज० दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोदमाणि ।

अनादि-अनन्त और इतर भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं। इनका सत्त्व होकर क्षपणा द्वारा कमसे कम अन्तर्मुहूर्तमें अभिभाव हो सकता है और जो प्रारम्भमें, मध्यमें और अन्तमें इनकी उद्वेलना करते हुए दो छयारठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहता है उसके साधिक दो छयासठ सागर काल तक इनका सत्त्व देखा जाता है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर बड़ा है। इनका सत्त्व अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त नहीं होता, इसलिए ये दो भङ्ग नहीं कहे हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्क अनादि सत्तावाली होकर भी विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भङ्ग कहे हैं। तथा सादि-सान्तके कालका निर्देश करते हुए वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि विसं-योजनाके वाद अन्तर्मुहूर्तके लिए इनकी सत्ता होकर पुनः विसंयोजना हो सकती है। तथा उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गलप्रमाण कहा है, क्योंकि कोई जीव इस कालके प्रारम्भमें और अन्तमें इनकी विसंयोजना करे और मध्यमें न करे यह सम्भव है। लोभकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिके भी तीन भङ्ग हैं। अनादि-अनन्त भङ्ग अभव्योंके होता है। अनादि-सान्त भङ्ग भव्योंके जघन्य प्रदेशविभक्तिके पूर्व होता है और सादि-सान्त भङ्ग जघन्य प्रदेशविभक्तिके वादमें होता है। इसकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपक जीवके अधःकरणके अन्तिम समयमें होती है। इसके वाद इसका सत्त्व अन्तर्मुहूर्त काल तक ही पाया जाता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

§ २६. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व और सात नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है। वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, क्षीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति नारक पर्याय-में अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर हो यह भी सम्भव है, इसके वाद इनकी वहाँ अन्तर्मुहूर्त काल तक अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। तथा क्षपितकमाशिविधिते आकर नरकमें उत्पन्न हुए जिसे अन्तर्मुहूर्त काल हो जाता है उसके पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेश-विभक्ति होती है और इससे पूर्व अन्तर्मुहूर्त काल तक अजघन्य प्रदेशविभक्ति रहती है, इसलिए इन सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। सम्यक्त्व आदि छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय अनुकृष्टके समान घटित कर लेना चाहिए। वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें

§ २७, पहमाए जाव छट्टि त्ति मिच्छत्त-इत्थि-णवुंसयवेदाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० जहणुक्कदिदी, उक्क० सगुक्कस्सदिदी । सम्मत्त-सम्मायि०-अणंताणु०-चउक्काणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगुक्कस्सदिदीओ । वारसक०-भय-दुग्गुछाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० जहणुक्कदिदी समऊणा, उक्क० सगदिदी । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोसु०, उक्क० सगदिदीओ ।

§ २८, सत्तमाए मिच्छत्त-अणंताणु०-चउक्क०-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेद--हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोसुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं सम्मत्त-सम्मायिच्छत्ताणं । णवरि अज० जह० एगस० ।

प्राप्त होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष कहा है। सब अद्वाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है।

§ २७. प्रथम पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—प्रथमादि छह पृथिवियोंमें उत्कृष्ट आयुवाले जीवके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य स्वामित्व बतलाया है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। सम्यक्त्व आदि छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिए। आगे भी जहाँ यह काल इतना कहा हो वहाँ वह इसी प्रकार जानना चाहिए। वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इतका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। पुरुषवेद आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रारम्भमे अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इन अद्वाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

§ २८. सातवीं पृथिवीमे मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

वारसक-भय--दुगुंझाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० चावीसं सागरोवभाणि, उक्क० तेतीसं सागरोवभाणि ।

६ २६. तिरिक्खेसु तिरिक्खेसु मिच्छत्त०--वारकसाय--भय--दुगुंझित्थि-
णयुंसयवेदाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक्क०
अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जह० पदे० जहणुक्क०
एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पल्लिदोवभाणि पल्लिदो० असंखे०-
भागेण सादिरियाणि । अणंताणु०चउक्क० जह० जहणुक्क० एगस० । अज० जह०
एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-
सोगाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० अणंतकाल०-
मसंखे०पो०परियट्टा ।

इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वार्डिस सागर है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—सातवीं पृथिवीमे ओघके समान स्वामित्व है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि वारह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त वन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। सम्यक्त्वद्विक्रमा भङ्ग उक्त प्रकृतियोंके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उद्वेलनाकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय वन जानेसे वह अलगसे कहा है। वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वार्डिस सागर कहा है। इन अट्टाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है।

§ २६. तिर्यङ्गगतिमे तिर्यञ्चोमें मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल लुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके वरावर है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवर्ष भाग अधिक तीन पत्य है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके वरावर है। पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अनन्त काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके वरावर है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोकी जघन्य भवस्थिति लुल्लकभवग्रहणप्रमाण है और जघन्य भवस्थितियाले जीवोके मिथ्यात्व आदि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति

§ ३०. पंचिदियतिरिक्वतियम्मि मिच्छतित्थि-णवुंसयवेद-वारसक०-भय-दुगुंझाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० खुद्दाभवग्गहणमंतोमुहुत्तं, उक्क० सगट्ठिदी । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणमेवं चेव । णवरि अज० जह० एगस० । पंचणोकसायाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतो०, उक्क० सगट्ठिदी ।

§ ३१. पंचिदियतिरिक्वअपज्जत्ताणं मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंझ० जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० खुद्दाभवग्गहणं समयुणं, उक्क० अंतोमु० ।

होती नहीं, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल लुल्लभव-ग्रहणप्रमाण कहा है । तथा तिर्यञ्चोकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । यहाँ सम्यक्त्वद्विककी एक समय तक सत्ता उद्वेलनाकी अपेक्षा वन जाती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा जो पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना कर सत्त्व नाश हुए विना तीन पत्यकी आयुवाले तिर्यञ्चोमे उत्पन्न होकर और सम्यक्त्वको उत्पन्न कर अन्त तक इनकी सत्ता बनाये रखते हैं उनके इतने काल तक इनकी सत्ता दिखलाई देनेसे यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पत्य कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय पहले अनेक वार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । तथा इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वके समान है यह स्पष्ट ही है । इसी प्रकार पुरुषवेद आदि पाँचकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । तथा इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्रथम नरकके समान घटित कर लेना चाहिए ।

§ ३०. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल सामान्यसे पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोमें लुल्लभवग्रहणप्रमाण और शेष दोमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है । पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ— यहाँ अन्य सब स्पष्टीकरण सामान्य तिर्यञ्चोके समान कर लेना चाहिए । केवल दो बातोंमें विशेषता है । एक तो पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोकी जघन्य भवस्थिति अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति-का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । दूसरे इन तीनों प्रकारके तिर्यञ्चोकी कायस्थिति पूर्वकोटि-प्रयत्न अधिक तीन पत्य है और इतने काल तक यहाँ अद्वाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति हुए विना भी सत्ता रह सकती है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है ।

§ ३१. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोलें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका

एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं । णवरि अज० जह० एगसमओ । सत्तणोक० जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जहण्णुक० अंतोसु० । एवं मणुसअपज्जत्ताणं ।

§ ३२. मणुसतियम्मि मिच्छत्त-वारसक०-णवणोकसायाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगसमओ । अज० जह० खुदाभव० अंतोसु, उक्क० सगट्ठिदी । सम्मत्त-सम्माभि०-अणंताणु०चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगट्ठिदीओ ।

जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । सात नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कम लुल्लकभवग्रहणप्रमाण कहा है । सम्यक्त्वद्विकके अजघन्य प्रदेशसत्त्वका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है । तथा सात नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवग्रहणके अन्तर्मुहूर्त बाद होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा यहाँ सभी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है ।

§ ३२. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, वारह कपाय और नौ नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें लुल्लक भवग्रहणप्रमाण और शेष दोमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण तथा तीनोंमे उत्कृष्ट काल अपनी कायस्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सरयग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंकी जघन्य स्थिति लुल्लकभवग्रहणप्रमाण, शेष दोकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण तथा तीनोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि अधिक तीन पत्यप्रमाण होती है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व आदि वारिस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें लुल्लकभवग्रहणप्रमाण, शेष दोमे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट काल तीनोंमें कायस्थितिप्रमाण कहा है, क्योंकि इन तीनों प्रकारके मनुष्योंमें क्षणिके समय यथायोग्य स्थानमे उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके उक्त कालके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती । अब रहीं शेष छह प्रकृतियों सो इनमेसे जिन जीवोने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनामे एक समय शेष रहने पर मनुष्य पर्याय प्राप्त की है उनके इन दो प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तथा जो मनुष्य अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजता करके मनुष्य पर्यायमें एक समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होते हैं उनके इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है, इसलिए यहाँ इन छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल कायस्थिति-

§ ३३. देवगईए देवेसु मिच्छत्तिथि-णडुंसयवेदाणं जह० पदे० जहणुक्कस्स० एगस० । अज० जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवमणंताणु०-चउक्क०-सम्म०-सम्भामिच्छचारणं । णवरि अज० जह० एगस० । चारसक०-भय-दुगुंछाणं मिच्छत्तभंगो । पंचणोक० जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोसुहु०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

§ ३४. भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति मिच्छत्तिथि-णडुंसयवेदाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० जहणुद्विदी, उक्क० उक्कस्सद्विदी । सम्मत्त०-सम्भामि०-अणंताणु०-चउक्काणं जह० पदेस० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० उक्क०द्विदी । चारसक०-भय-दुगुंछाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० जहणुद्विदी समयूणा, उक्क० उक्कस्सद्विदी । पंचणोक०

प्रमाण है यह स्पष्ट ही है । मात्र सन्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होकर अभाव न हो जाय ऐसा करते हुए उनका सत्य बनाये रखना चाहिए ।

§ ३३. देवगतिमे देवोमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—देवोमे स्वामित्वको देखते हुए मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर बन जाता है, इसलिए यह काल उक्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच नोकषायोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनके अजघन्य प्रदेशसत्कर्मके जघन्य कालमें अन्तर है, इसलिए वह अलगसे कहा है । उनमेसे प्रारम्भकी छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय तो मनुष्योंके समान यहाँ भी घटित हो जाता है । मात्र पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति देवोमें उत्पन्न होनेके अन्तसुहूर्तवाद सम्भव है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुहूर्त कहा है ।

§ ३४. भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवैयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है ।

जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० सगद्धिदीओ ।

§ ३५. अणुहिसादि जाव अचराइदो ति भिच्छत्त-सम्मामि०-इत्थि-एणुंसय-वेदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० ज० जहण्णुद्धिदी, उक्क० उक्कस्सद्धिदी । सम्मत्त० जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगद्धिदी । एवमणंताणु०चउयक०-इस्स-रदि-अरदि-सोगाणं । णवरि अज० जह० अंतोमु० । वारसक०-पुरिस-भय-हुगुञ्जाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० जहण्णुद्धिदी समउणा, उक्क० सगद्धिदी ।

श्रीर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । पाँच नीक्यायोंकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भयके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । शेष काल सुगम है, क्योंकि उसका सामान्य देवोंमें स्पष्टीकरण आये हैं । इसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए ।

§ ३५. अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सन्ध्यात्व, सन्ध्यात्व, सन्ध्यात्व और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सन्ध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, हान्य, रति, अरति और शोककी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट काल, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति जघन्य आयुवाले जीवोंके भयके प्रथम समयमें सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है । कृतकृत्यवेदके कालमें एक समय शेष रहने पर ऐसा जीव मरकर यहाँ उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सन्ध्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । अनन्तानु-बन्धीचतुष्क आदि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भयके अन्तर्मुहूर्त वाद प्राप्त होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । वारह कपाय आदि की जघन्य प्रदेशविभक्ति भयके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । इन सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

§ ३६. सव्वहसिद्धिम्मि मिच्छ०-सम्मामि०-वारसक०-इत्थि-पुरिस-णहुंसय-वेद-भय-हुगुंघाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० तेतीसं सागरो-वमाणि समऊणाणि, उक्क० तेतीसं सागरो० । सम्म० नह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि । अणंताणु० चउक्क०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोसु०, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि । एवं जाणिदूणं पेद्वं जाव अणाहारि चि ।

एवं कालानुगमो समतो ।

❀ अंतरं ।

§ ३७. पइज्जासुत्तमेदं सुगमं ।

❀ मिच्छुत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतरं जहणुक्कस्सेय अणंत-कालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ ३६. सर्वार्थसिद्धिमें मिथ्यात्व, सन्धिमिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक-वेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर हैं और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं । सन्धक्त्व प्रकृतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं । अनन्तानुवन्धीचतुष्क, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं । इस प्रकार जान कर अनाहारक मार्गीणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होनेसे इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर कहा है । द्रुतकृत्यवेदकका एक समय काल यहाँ उपलब्ध हो सकता है, इसलिए सन्धक्त्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्क आदि प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्भव है, इसलिए उसका जघन्य काल अन्त-र्मुहूर्त कहा है । सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । यहाँ तक जो काल कहा है उसे देखकर वह अनाहारक मार्गीणातक घटित कर लेना चाहिए, इसलिए उसे इसके समान ले जानेकी सूचना की है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

❀ अन्तर ।

§ ३७. यह प्रतिज्ञा सूत्र सुगम है ।

❀ मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है ।

§ ३८. गुणितकर्मसियस्स अगुणितकर्मसियभावमुवणमिय जहण्णेण उक्कसेण वि अणंतेण कालेण विणा पुणो गुणितभावेण परिणमणसत्तीए अभावादो । जहण्णेण असंखेजा लोगा ति अंतरं किण्ण परुविदं ? ण, तस्सुवदेसस्स अपवाइज्जमाणत्तजाणावणहं तदपरुवणादो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं एदच्चं ।

§ ३९. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा-अट्ठकसाय-अट्ठणोकसायाणं मिच्छत्तभंगो । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० मिच्छत्तभंगो ।

❀ एवरि सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चट्ठुसंजलणाणं च उक्कसपदेसविहत्तिअंतरं णत्थि ।

§ ४०. कुदो ? खवगसेहीए समुप्पणत्तादो ।

एवमुक्कस्सपदेसविहत्तिअंतरं समत्तं ।

§ ३८. क्योंकि जो गुणितकर्मांशिक जीव अगुणितकर्मांशिकभावको प्राप्त होता है उसके जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार अनन्त कालके विना पुनः गुणितकर्मांशिकरूपसे परिणमन करनेकी शक्ति नहीं पाई जाती ।

शंका—गुणितकर्मांशिक जीवका जघन्य अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वह उपदेश अपवाइज्जमाण है इस वातका ज्ञान करानेके लिए वह नहीं कहा ।

विशेषार्थ—पहले काल प्ररूपणाके समय चूर्णिसूत्रमें अन्य उपदेशके अनुसार मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण कह आये हैं, इसलिए यहाँ यह शंका की गई है कि उसी उपदेशके अनुसार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण भी कहना चाहिए था । वीरसेन स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि वह उपदेश अप्रवर्तमान है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए चूर्णिसूत्रकारने यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है ।

❀ इसी प्रकार शेष कर्मोंका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

§ ३९. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—आठ कपाय और आठ नोकपायोका भङ्ग मिथ्यात्व के समान है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी आठ कपाय और आठ नोकपायोंके साथ परिणामना न करके अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ऐसा कहा है सो उसका कारण यह है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालमें मिथ्यात्वसे कुछ अन्तर है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए वीरसेन स्वामीने उसका अलगसे निर्देश किया है ।

❀ इतनी विशेषता है कि सम्पक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, पुरुषवेद और चार संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४०. क्योंकि इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्रेणियमें उत्पन्न होती है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

❀ अंतरं जहण्यं जाणिदूण षेदव्वं ।

§ ४१. एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, जहण्णपदेसविहत्तियाणं सव्वेसिं पि अंतराभावादो ।

एवमंतरं समत्तं ।

४२. संपहि चुण्णिमुत्तेण देसामासिएण सूइदमत्थमुच्चारणाइरिएण परुविदं वत्तइस्सामो । अपुणस्सत्थो चेव किण्ण बुच्चदे ? ण, कत्थ वि चुण्णिमुत्तेण उच्चारणाए भेदो अत्थि त्ति त्थभेदपटुप्पायणदुवारेण पडणस्सत्तियाभावादो ।

§ ४२. अंतरं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सयं च । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णिदो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्चत्त-अट्ठक०-अट्ठणोक० उक्क० पदेस-विहत्तिअंतरं जहण्णुक० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । अणुक० जहण्णुक० एगस० । सम्मत्त०-सम्मामि० उक्क० पदेसविह० णत्थि अंतरं । अणुक० पदे० जह० एगस०, उक्क० उवट्ठपोग्गलपरियट्ठं । अणंताणु० चउक्क० उक्क० पदे० जहण्णुक० अणंत० मसंखे०-पो० परियट्ठा । अणुक० जह० एगस०, उक्क० वेव्वावट्ठिसागरोवमणि देसूणाणि । पुरिसवेद-चदुसंज० उक्क० पदे० णत्थि अंतरं । अणुक० पदे० जहण्णुक० एगस० ।

❀ जघन्य अन्तरकाल भी जानकर ले जाना चाहिए ।

§ ४१. इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि सभी जघन्य प्रदेशविभक्तियोंका अन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ४२. अब चूर्णिसूत्रके द्वारा देशामर्षकरूपसे सूचित हुए जिस अर्थका उच्चारणाचार्यने कथन किया है उसे बतलाते हैं ।

शंका—अपुनरुक्त अर्थको ही क्यों नहीं कहते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कहीं पर चूर्णिसूत्रसे उच्चारणामे भेद है, इसलिए उस भेदके कथन द्वारा पुनरुक्त दोष नहीं आता । अर्थात् उसके पुनः कथन करने पर भी वह अपुनरुक्तके समान हो जाता है ।

§ ४३. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, आठ कपाय और आठ नोकपायोकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुवन्धी-चतुष्करी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो ज्ञासठ सागरप्रमाण है । पुरुषवेद और चार संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक

§ ४४. आदेशेण णेरइएसु मिच्छं-वारसंकं-छण्णोकं उक्कं पदे० णत्थि अंतरं । अणुक्कं पदे० जहण्णुक्कं एगसं । सम्मं-सम्मापिं-अणंताणुं चउक्कं उक्कं पदे० णत्थि अंतरं । अणुक्कं जहं एगसं, उक्कं तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदाणमुक्कस्साणुक्कस्सपदे० णत्थि अंतरं । एवं सत्तमाए पुढवीए ।

समय है ।

विशेषार्थ—गुणितकर्मांशविधि एक वार समाप्त होकर पुनः उत्तरे प्रारम्भ होनेसे अनन्त काल लगता है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि सत्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा मिथ्यात्व आदि सत्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक समय कहनेका यही कारण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्वेगना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका क्रमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण काल तक सत्त्व न पाया जाय यह सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क ये विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं । इनका सत्त्व अधिकसे अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर काल तक नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशासत्त्व दर्शनमोहकी क्षणिके समय तथा पुरुषवेद और चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशासत्त्व चारित्रमोहकी क्षणिके समय होता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल न प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है ।

§ ४४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सातवीं वृथिवीमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकमें गुणितकर्मांश जीवके भवमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व आदि ज्ञीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । यह वहाँ एकपर्यायमें दो वार सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालके निषेधका यही कारण है । तथा सम्यक्त्व और तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । अथ रहा अनुत्कृष्टका विचार सो मिथ्यात्व आदि ज्ञीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यतः मध्यमें होती है अतः इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । सम्यक्त्व-द्विक उद्वेगना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं । यहाँ इनका

§ ४५, पदमाए जाव छट्टि ति मिच्छ०-वारसक०-णवणोक० उक्कस्साणुक्कस्स-पदे० गत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० उक्क० पदे० गत्थि अंतरं । अणुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० सगसगट्टिदीओ देसूणाओ । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० गत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा ।

§ ४६, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ०-वारसक०-अट्टणोक० उक्कस्सा-णुक्कस्सपदे० गत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० ओघं । अणंताणु०चउक्क० उक्क० गत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णिण पल्लिदोवमाणि देसूणाणि । इत्थिचेद०

सत्त्व कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागर तक न हो यह सम्भव है, अतः यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । मात्र सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति मध्यमें होती है, इसलिए भी इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है और अनन्तानुवन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना एक समयके लिए नहीं होती, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षासे ही प्राप्त करना चाहिए । तीनों चेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया है । यह सब अन्तर परुवणा सातवें नरकमें अविकल वन जाती है, इसलिए यहाँ सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ४५. प्रथमसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय और नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल न प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है । मात्र विसंयोजनाकी अपेक्षा अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण वन जाता है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका अलगसे विधान किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म एकवार ही प्राप्त होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा यह आयुमें अन्तर्मुहूर्त जाने पर प्राप्त होता है और वे उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उद्वेलना प्रकृतियाँ होनेसे यहाँ इनका कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण काल तक सत्त्व न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है ।

§ ४६. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोमें मिथ्यात्व, वारह कपाय और आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग जोपके समान है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट

उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणुक्क० एगस० । एवं पंचिंदियतिरिक्खतियस्स । णवरि सम्म०-सम्मामि० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क० तिणिण पत्तिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियाणि । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० अद्दावीसं पयडीणमुक्कसाणुक्क० णत्थि अंतरं ।

§ ४७. मणुसगदीए मणुस्सेसु मिच्छ०-अद्दकसाय-णव्वंस०-इस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुञ्जाण उक्कसाणुक्कस्स० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्क० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । चदुसंजल०-पुरिस०--इत्थिवेद० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणुक्क० एगस० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं । मणुसअपज्ज० पंचिंदिय-

प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसीप्रकार पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिको अद्दाइस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । ओघमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अन्तरकालका जो भङ्ग कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव नहीं है यह गुणितकर्माशिविधिके देखनेसे स्पष्ट हो जाता है । पर ये विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । यहाँ स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व भोगभूमिसे पत्यका असंख्यातवों भागप्रमाण कालजाने पर होता है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । इसकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्टही है । पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें यह अन्तरप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन तिर्यञ्चोकी कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्यप्रमाण है, इसलिए इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होने यहाँ इनकी अपेक्षा अन्तरकालका अलगसे निर्देश किया है । पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिको सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है ।

§ ४७. मनुष्यगतितमें मनुष्योमें मिध्यात्व, आठ कपाय, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्चोके समान है । चार संज्वलन, पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों-

तिरिक्त्वा अपज्जत्तभंगो ।

§ ४८. देवगदीए देवेसु मिच्छ०-वारसक०-णवणोक० उक्क० अणुक्क० णत्थि
' । सम्म०-सम्मापि० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क०
एक्कीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । अणंताणु० च उक्क० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क०
जह० अंतोसु०, उक्क० एक्कीसं साग० देसूणाणि । एवं भवणादि जांउ उवरिमगेवज्जा
त्ति । णवरि सगद्विदीओ भाणिदव्वाओ । अणुदिसादि जाव सच्चद्विसिद्धि ति
अट्ठावीसं पयडीणमुक्कससाणुक्कसस० णत्थि अंतरं । एवं णेद्वं जाव अणाहारि ति ।

से जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम
समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध
किया है । सम्यक्त्व आदि छह प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चकोके समान है यह स्पष्ट ही है,
क्योंकि एक तो इनकी भी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । दूसरे इनमें
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य ही प्राप्त होता है, इसलिए पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्चकोके समान यहाँ भी अन्तरकाल वन जाता है । चार संज्वलन आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति
क्षपकप्रेषिमें एक समयके लिए और चूर्णिसूत्रके अनुसार खीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति
भोगभूमिमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल जाने पर प्राप्त होती है, इसलिए इनकी
अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त
कालप्रमाण कहा है । इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है ।
मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोगे अन्तरकालपरूपणा सामान्य मनुष्योंके समान वन जाती है,
इसलिए इनमें उनके समान जाननेकी सूचना की है । तथा स्वामित्व और कायस्थिति आदि
की अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोसे मनुष्य अपर्याप्तकोंमें कोई अन्तर नहीं है, इसलिए
यहाँ मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ४९. देवगतिमे देवोमे मिध्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट और
अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इक्कीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका
अन्तरकाल नहीं है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम इक्कीस सागर है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोंमें
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम इक्कीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी
अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए । अनुदिससे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अट्ठाईस
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इस प्रकार अहारक
मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह तो
स्पष्ट ही है । अब रहा अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका विचार सो देवोंमें मिध्यात्व आदि
वाँईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अनुकृष्ट
प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व ये उद्वेलना

§ ४६. जहणणए पयदं । दुविहो णिहे सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छं-एकारसकं-णवणोकं जहणणाजहणणपदे० णत्थि अंतरं । सम्मं-सम्मापिं-जहं णत्थि अंतरं । अजं जहं एगसं, उक्कं उवडुपोग्गलपरियट्ठा । अणंताणुं-चउक्कं जहं णत्थि अंतरं । अजहं जहं अंतोमुं, उक्कं वेच्चावडिसागरो० देमूणाणि । लोभसंजं जं णत्थि अंतरं । अजं जहणणुकं एमसमओ ।

§ ५०. आदेसेण खेरइएसु मिच्छं-तिग्णिवेदं-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जहं णत्थि अंतरं । अजं जहणणुकं एगसं । वारसकं-भय-दुग्गंछां जहणणा-प्रकृतियों हैं । इनका कमसे कम एक समय तक और अधिक से अधिक कुछ कम इकतीस सागर तक सत्त्व नहीं पाया जाता । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका कमसे कम अन्तर्मुहूर्त तक और अधिकसे अधिक कुछ कम इकतीस सागर काल तक सत्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें यह अन्तर प्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इनकी भवस्थिति अलग अलग हैं, इसलिए इनमें कुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी भवस्थिति ग्रहण करनेकी सूचना की है । अनुदिशसे लेकर आगेके सब देवोंमें भवके प्रथम स्मयमें स्व प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । यह जो अन्तरप्ररूपणा कही है इसे ध्यानमें रखकर आगेकी मार्गणाओंमें वह घटित की जा सकती है, इसलिए उनमें इसी प्रकार ले जानेकी सूचना की है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ४६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और नौ नोकपायोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण है । लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ—ओघसे मिथ्यात्व आदि अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी रूपणाके समय योग्य स्थानमें होती है, इसलिए इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व उल्लेखना प्रकृतियों हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियों हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल वन जानेसे उसका अलगसे उल्लेख किया है । तथा लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक होनेके बाद भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है ।

§ ५०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट

हृण्ण० गत्थि अंतरं । सम्प्र०-सम्पामि० जह० गत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक० तेतीसं सागरो० देसूणाणि । अर्गंताणु०चउक० जह० गत्थि अंतरं । अज० जह० अंतोमु०, उक० तेतीसं सागरो० देसूणाणि । एवं सत्तमाए पुढवीए ।

६५१. पढमाए जाव छट्टि ति मिच्छ०-वारसक०-इत्थि-गणुंस०-भय-हुयुंछ० जहृण्णाजहृण्ण० गत्थि अंतरं । सम्प्रत्त०-सम्पामि०-अर्गंताणु०चउक० जह० गत्थि अंतरं । अज० ज० एगस० अंतोमु०, उक० सग-सगद्धिदीओ देसूणाओ । पंच-गोक० जह० गत्थि अंतरं । अज० जहृण्णुक० एगस० ।

अन्तरकाल एक समय है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सन्धन्त्व और सन्धग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरक आदि चारों गतियोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपित कर्मांशिक जीवके दोनेके कारण प्रत्येकमें दो वार सम्भव नहीं है, इसलिए सर्वत्र इसके अन्तर-कालका निषेध किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर कालका विचार करने पर नारकियोंमे मिथ्यात्व आदि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति वहां उत्पन्न होनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । सन्धन्त्व, सन्धग्मिध्यात्व ये दो उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क विरुद्धोपना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल वन जानेसे उसका अलगसे निर्देश किया है । इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके दोनो प्रकारके अन्तरकालको आगे भी इसी आधारसे घटित कर लेना चाहिए । मात्र सर्वत्र जघन्य अन्तरकाल तो एक समान है । उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है । केवल अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें वह कुछ कम तीन पत्य ही करना चाहिए । यहाँ वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें तेतीस हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया है । सातवीं पृथिवीमे यह रूपणा अविकल वन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

६५१ प्रथमसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमे मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सन्धन्त्व, सन्धग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ—पयमादि छह पृथिवियोंमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी नरकसे

§ ५२. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ०-वारसक०-इत्थि-णवुंस०-भय-
दुगुंझाणं जहण्णाजहण्ण० गत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० ओघं । अणंताणु०चउक्क०
जह० गत्थि अंतरं । अज० ज० अंतोसु०, उक्क० तिण्णि पळ्ळिदो० देसणाणि ।
पंचणोक्क० जह० गत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक्क० एगस० । एवं पंचिदियतिरिक्ख-
तियस्स । णवरि सम्म०-सम्मामि० जह० गत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क०
सगद्धिदी देसूणा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-
भय-दुगुंझा० जहण्णाजहण्ण० गत्थि अंतरं । सत्तणोक्क० जह० गत्थि अंतरं । अज०
जहण्णुक्क० एगस० ।

निकलनेके अन्तिम समयमे और शेष की तरकमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशविभक्तिके होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा शेष पाँच नोकषायोक्ती जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी सामान्य नारकियो के समान है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है।

§ ५२. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। पाँच नोकषायोक्ती जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सात नोकषायोक्ती जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

विशेषार्थ — तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म तीन पत्यकी आयुके अन्तिम समयमें सम्भव है। वारह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसत्कर्म तिर्यञ्च पर्याय ग्रहण करनेके प्रथम समयमे सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए इनका भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है। अनन्तानुवन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं। इनका सत्त्व कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालतक और अधिकसे अधिक कुछ कम तीन पत्य काल तक न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। पाँच नोकषायोक्ती जघन्य प्रदेशविभक्ति तिर्यञ्चोमे उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद प्रतिपत्त प्रकृतियोंके वन्धके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है। पञ्चन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें यह अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता

§ ५३. मणुस-मणुसपज्जत्तएसु^१ मिच्छं-एकारसक०-णवणोक्क० जहण्णाजहणण०
णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क०
तिण्णि पल्लिदोवमाणि पुव्वकोडिपुथत्तेणवभहियाणि । अणंताणु०चउक्क० जह० णत्थि
अंतरं । अज० जह० अंतोसु०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० देसणाणि । लोभसंज० जह०
णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक्क० एगस० । एवं मणुस्सिणीणं । णवरि पुरिसवेद०
लोभसंजलणभंगो । मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

है, उसे सान्धान्य तिर्यञ्चोके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट अन्तरकालमें कुछ विशेषता है, इसलिए इनके अन्तरकालका निर्देश अलगसे किया है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होनेके बाद यहाँ पुनः इनका सत्त्व रूम्भन नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा शेष सात नोकषायोकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध होनेके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है।

§ ५३. मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तिकोमें मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। लोभ संव्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इतमें पुरुषवेदका भङ्ग लोभ-संव्वलनके समान है। मनुष्य अपर्याप्तिकोमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—सान्धान्य मनुष्य आदि तीनों प्रकारके मनुष्योमें मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षणिके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। मात्र मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अथःप्रवृत्तरणके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य उद्वेलनाकी अपेक्षा वन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य विलंबोजनार्थी अपेक्षा वन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा संव्वलन लोभकी जघन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ क्षणिके अन्तर्मुहूर्त पूर्व होती है, इसलिए इसकी अजघन्य

१. सः०प्रती 'मणुसजपज्जत्तएसु' इति पाठः ।

§ ५४. देवगदीए देवेसु मिच्छ०-वारसक०-इत्थि०-णवुंस०-भय-दुग्घा० जहण्णा-जहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतोसु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक्क० एगस० ।

§ ५५. भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति मिच्छ०-वारसक०-इत्थि०-णवुंस०-भय-दुग्घा० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस० अंतोसु०, उक्क० सग-सगट्ठिदीओ देसूणाओ ।

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । मनुष्य अपर्याप्तकोंका भङ्ग पञ्च निद्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है यह स्पष्ट ही है ।

§ ५४. देवगतिमे देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-काल एक समय है ।

विशेषार्थ—देवोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके अन्तिम समयमें तथा वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवग्रहणके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होकर पुनः सत्त्व तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना होकर पुनः सत्त्व अन्तिम अवैयक तक ही सम्भव है । आगे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना नहीं होती और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना तो होती है पर उन जीवोंको नीचे गिरना सम्भव नहीं होनेसे पुनः सत्त्व नहीं होता, इसलिए इन छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । इनमेंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । यहाँ पुरुषवेद आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रारम्भमें अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर प्रतिपन्न प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है ।

§ ५५. भवनावसियोंसे लेकर उपरिम अवैयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा

पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० गत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० ।

§ ५६. अणुदिसादि जाव सव्वहसिद्धि ति अहावीसं पयडीणं जहण्णाजहण्ण० गत्थि अंतरं । णवरि हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमागदभंगो । एवं जाव अणाहारए त्ति पीदे अंतरं समत्तं होदि ।

❀ गाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—जहण्णाकस्सभेदेहि । अट्टपदं कादूण सव्वकम्ममाणं णेदवो ।

§ ५७. एदस्स सुत्तस्स देसामासियस्स उच्चारणाइरियवक्खवाणं परुवेमो । गाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयदं । तत्थ अट्टपदं—अहावीसं पयडीणं जे उक्कस्सपदेसरस्स विहत्तिया ते अणुक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । जे अणुक्कस्सपदेसस्स विहत्तिया ते उक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । विहत्तिएहि पयदं, अविहत्तिएहि अन्ववहारो । एदेण

उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ -- सामान्य देवोमे सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालको जिसप्रकार घटित करके वत्ता आये हैं उसी प्रकार यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए ।

§ ५६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति और शोक प्रकृतिका भङ्ग आनत कल्पके समान है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जानेपर अन्तरकाल समाप्त होता है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व आदि कुछ प्रकृतियोंकी भवके अन्तिम समयसे और कुछकी भवके प्रथम क्षणमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव नहीं होनेसे उक्तका निषेध किया है । मात्र हास्य आदि चार प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति पदार्थग्रहणके अन्तर्मुहूर्त वाद होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

❀ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे भङ्गविचय दो प्रकारका है । सो इस विषयमें अर्थपद करके सब क्रमोंका ले जाना चाहिए ।

§ ५७. यह सूत्र देशासर्पक है । इसके उच्चारणाचार्य कृत व्याख्यानका कथन करते हैं— नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उत्तम यह अर्थपद है—जो अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे उनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्तिवाले हैं । तथा जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे उत्कृष्ट प्रदेश विभक्तिवाले हैं । यहाँ विभक्तिवाले जीवोंका प्रकरण है, क्योंकि अविभक्तिवालोंका व्यवहार नहीं

अद्वयपदेण दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण । तत्थ ओघेण अट्ठावीसं पयडीणं उक्कस्सपदेसस्स सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया १, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च २, सिया अविहत्तिया विहत्तिया च ३ । अणुक्कस्सपदेसस्स सिया सव्वे जीवा विहत्तिया १, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च २, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ३ । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसतिय-सव्वदेवे त्ति । मणुसअपज्ज० अट्ठावीसं पयडीणं उक्कस्सपदेसविहत्तियाणं अविहत्तिएहि सह अट्ठ भंगा । अणुक्कस्सपदेसविहत्तियाणं पि अविहत्तिएहि सह अट्ठ भंगा वत्तवा । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

हे । इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे कदाचित् सब जीव अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-अविभक्तिवाले हैं १ । कदाचित् अविभक्तिवाले बहुत जीव हैं और विभक्तिवाला एक जीव है २ । कदाचित् अविभक्तिवाले बहुत जीव हैं और विभक्तिवाले बहुत जीव हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशकी अपेक्षा कदाचित् सब जीव विभक्तिवाले हैं १ । कदाचित् बहुत जीव विभक्तिवाले हैं और एक जीव अविभक्तिवाला है २ । कदाचित् बहुत जीव विभक्तिवाले हैं और बहुत जीव अविभक्तिवाले हैं ३ । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्यत्रिक और सब देवोंसे जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंके अविभक्तिवाले जीवोंके साथ आठ भङ्ग होते हैं । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंके भी अविभक्तिवाले जीवोंके साथ आठ भङ्ग करने चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां अट्ठाईस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले और अविभक्तिवाले तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंके भङ्ग कहकर फिर चार गतियोंमें वे वतलाये गये हैं । उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट योगसे होती है । वह सदा सम्भव नहीं है, इसलिए कदाचित् एक भी जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला नहीं होता, कदाचित् एक जीव उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाला होता है और कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा तीन भङ्ग होते हैं । भङ्ग मूलमें ही कहे हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा विचार करने पर भी तीन भङ्ग ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कदाचित् सब जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक होते हैं, कदाचित् शेष सब जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक होते हैं और एक जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका धारक नहीं होता और कदाचित् नाना जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके धारक होते हैं और नाना जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक नहीं होते, इसलिए इस अपेक्षासे भी तीन भङ्ग बन जाते हैं । लब्धपर्याप्त मनुष्योंको छोड़कर गति मार्गणाके अन्य सब भेदांमें यह ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्य अपर्याप्तक यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों प्रदेशविभक्तिवालोंके अपने-अपने अविभक्तिवालोंके साथ एक और नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ-आठ भङ्ग बन जानेसे उनका संकेत अलगसे किया है । भङ्गोंकी यह पद्धति अनाहारक मार्गणातक अपनी-अपनी विशेषताके साथ घटित हो जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गणातक उक्त प्ररूपणाके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

§ ५८, जहणए पयदं, तं चेष अट्टपदं । णवरि जहणमजहणं ति भाणिद्वं । अट्टावीसं पयडीणं जहणपदेसविहत्तियाणं तिणिण भंगा । अजहणपदेसविहत्तियाणं तिणिण चेष भंगा । एवं सव्वखेरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसतिय-सव्वदेवा ति । मणुसअपज्ज० जहण्णाजहण० अट्ट भंगा । एवं णेद्वं जाव अणाहारि ति ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो ।

§ ५९, संपहि एदेण अहियारेण सूचिदसेसाहियाराणमुच्चारणं भणिस्सामो । भागाभागो दुविहो-जहणओ उक्खस्सओ चेदि । उक्खस्से पयदं । दुविहो णिद्वे सो-ओयेण आदेसेण य । ओयेण छव्वीसं पयडीणमुक्क० पदेसविहत्तिया जीवा सव्व-जीवाणं केव० ? अणंतभागो । अणुक० सव्वजीवाणं केव० ? अणंता भागा । सम्म०-सम्मामि० उक्क० पदेसविहत्ति० सव्वजी० के० ? असंखेज्जदिभागो । अणुक० सव्वजी० के० ? असंखे० भागा । एवं तिरिक्खोघं ।

§ ५८. जघन्यका प्रकरण है वही अर्थपद है। इतनी विशेषता है कि उल्ट्ट और अनुल्ट्टके स्थानमे जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए। अट्टाईस प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशविभक्तिकाले जीवोके तीन भङ्ग होते हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिकाले जीवोके भी तीन भङ्ग होते हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्यत्रिक और सब देवोमे जानना चाहिए मनुष्य अपर्यात्कोमे जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा आठ आठ भङ्ग होते हैं। इस प्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पहले उल्ट्ट और अनुल्ट्ट प्रदेशविभक्तिकाले जीवोकी अपेक्षा ओघसे और चारों गतिओमे जहाँ जितने भङ्ग सम्भव हैं वे घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेने चाहिए। मात्र यहाँ उल्ट्ट और अनुल्ट्टके स्थानमे जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए।

इस प्रकार नाना जीवोकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

§ ५९. अब इस अधिकारसे सूचित हुए शेष अधिकारोकी उच्चारणाका कथन करते हैं। भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उल्ट्ट। उल्ट्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंकी उल्ट्ट प्रदेशविभक्तिकाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं। अनुल्ट्ट प्रदेशविभक्तिकाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। सन्यक्त्व और सन्यग्निश्चयात्वकी उल्ट्ट प्रदेश-विभक्तिकाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनुल्ट्ट प्रदेशविभक्तिकाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं। असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार सानान्य तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए।

विशेषार्थ—मोहनीयकी सत्तासे युक्त इल जीव राशि अनन्तानन्त है। उसमेसे ओघसे ईर्गत प्रकृतियोंकी उल्ट्ट प्रदेशविभक्तिकाले जीव अधिकसे अधिक असंख्यात हो सकते हैं। चार संख्यत और पुरुषवेइकी उल्ट्ट प्रदेशविभक्तिकाले जीव अधिकसे अधिक संख्यात हो सकते हैं। शेष सब जीव अनुल्ट्ट प्रदेशविभक्तिकाले होते हैं, इसलिए यहाँ छव्वीस प्रकृतियोंकी उल्ट्ट

§ ६०. आदेसेण षेरइएसु अट्टावीसं पयडीणं उक्क० सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । अणुक्क० असंखेज्जा भागा । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस०—मणुसअपज्ज०—देव-भवणादि जाव अवराइदो ति वत्तव्वं । मणुसपज्ज०—मणुस्सिणि-सव्वद्वसिद्धेसु अट्टावीसं पयडीणमुक्क० पदे० सव्वजी० केव० ? संखे०—भागो । अणुक्क० संखेज्जा भागा । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

§ ६१. जहण्णए पयदं । जहण्णए उक्कस्सभंगो । णवरि जहण्णाजहण्णं ति भाणिदव्वं । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

एवं भागाभागो समत्तो ।

§ ६२. परिमाणं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिदे सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०—बारसक०—अट्टणोक० उक्कस्सपदेसविहत्तिया

प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त बहुभागप्रमाण कहे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले ही कुल जीव असंख्यात होते हैं । उनमें भी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यातवें भागप्रमाण हो सकते हैं । शेष अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यात बहुभागप्रमाण कहे हैं । सामान्य तिर्यञ्च अनन्तप्रमाण हैं, इसलिए इस मार्गणांमे ओघ प्ररूपणा बन जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ६०. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्च इन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमे कथन करना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव बहुभागप्रमाण हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां जिन मार्गणाओंकी संख्या असंख्यात है उनमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण वतलाये हैं । तथा जिन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है उनमे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण वतलाये हैं । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६१. जघन्यका प्रकरण है । जघन्यका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके स्थानमे जघन्य और अजघन्य ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ६२. परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, बारह कषाय और आठ नोकषायोंकी

॥ ५ ? असंखेज्जा । अणुक० पदे० केत्ति० ? अणता । सम्मच०-सम्मामि० उक्क०
'देसवि० केत्ति० ? संखेज्जा । अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । चदुसंज०-पुरिस०
उक्क० पदे० केत्ति० ? संखेज्जा । अणुक० पदे० केत्ति० ? अणता ।

§ ६३. आदेसेण गिरय० सत्तावीसं पयडीणमुक्क०-अणुक० पदे० केत्ति० ?
असंखेज्जा । सम्मच० उक्क० पदे० के० ? संखेज्जा । अणुक० पदे० केत्ति० ?
असंखेज्जा । एवं पढमाए । विद्यादि जाव सत्तमि चि अट्टावीसं पयडीणमुक्कस्स०-
अणुकस्स० केत्ति० ? असंखेज्जा ।

§ ६४. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु छ्वीसं पयडीणं उक्क० पदे० केत्ति० ?
असंखेज्जा । अणुक० केत्ति० ? अणता । सम्मच० उक्क० पदे० केत्ति० ? संखेज्जा ।
अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । सम्मामि० उक्कस्साणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा ।

उच्छ्रष्ट विभक्तियाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ?
अनन्त हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ? संख्यात
हैं । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी
उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव
कितने हैं ? अनन्त हैं ।

विशेषार्थ — जोषसे चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्रेणिये
होती है, इसलिए इनकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । सम्यक्त्व
और सम्यग्मिध्यात्वकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्ति ज्ञाथिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके समय होती है,
इसलिए इनकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोका परिमाण भी संख्यात कहा है । शेष कथना
सुगम है ।

§ ६३. आदेशसे नारकियोमे सत्ताईस प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव
कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्वकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।
अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवीमे
जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट
और अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ — यहां सामान्यसे नारकियोमे और पहली पृथिवीके नारकियोमे कृतकृत्य-
वेदकसम्यग्दृष्टि उत्पन्न होते हैं और इनका अधिकसे अधिक परिमाण संख्यात होता है, इसलिए
जन्मे सम्यक्त्व प्रकृतिकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । शेष
कथन सुगम है । इसी प्रकार आगे भी अपने अपने परिमाण और दूसरी विशेषताओंको जान
कर सब प्रकृतियोंके उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोका परिणाम ले आना
चाहिए । उल्लेखनीय विशेषता न होनेसे हम अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं ।

§ ६४. तिर्यञ्जगतिमे तिर्यञ्जोमे छ्वीस प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं ? अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्वकी उच्छ्रष्ट
प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । सम्यग्मिध्यात्वकी उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव कितने हैं ?

पंचिदियतिरिक्ख--पंचि०तिरिक्खपज्जत्ताणं पढमपुढविभंगो । पंचिदियतिरिक्ख-
जोणिणीणं विदियपुढविभंगो । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० अट्टावीसं पयडीणमुक्कस्सा-
णुक० पदे० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं मणुसअपज्ज०-भवण०-वाण०-जोदिसिए त्ति ?

§ ६५. मणुसगदि० मिच्छ०-वारसक०--छण्णोको० उक्कस्साणुक० पदे०
असंखेज्जा । सम्म०-सम्मामि०-चट्टुसंज०-तिण्णिणवेदाणमुक्क० केत्ति० ? संखेज्जा ।
अणुक० पदे०वि० केत्ति० ? असंखेज्जा । मणुसपज्जत्त०-मणुसिणीसु सच्चद्वसिद्धि०
अट्टावीसं पयडीणमुक्क०-अणुक० पदेस० केत्ति० ? संखेज्जा ।

§ ६६. देवगदीए देवेसु सोहम्मादि जाव सहस्सरो त्ति पढमपुढविभंगो ।
आणदादि जाव अवरइदो त्ति अट्टावीसं पयडीणं उक्क० पदे०वि० केत्ति० ? संखेज्जा ।
अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं णेदच्चं जाव अणाहारि त्ति ।

असंख्यात हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोमें पहली पृथिवीके समान
भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमे दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
अपर्याप्तकोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना
चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि
जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग वन जानेसे उनके समान
जाननेकी सूचना की है । परन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव
नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग वन जानेसे उनके समान जाननेकी
सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
चार संज्वलन और तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनु-
त्कृष्ट प्रदेश विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी और
सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने
हैं ? संख्यात हैं ।

६६. देवगतिमें देवोंमें तथा सौधर्म कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें पहली
पृथिवीके समान भङ्ग है । अज्ञान कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें अट्टाईस
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—वारहवें कल्प तक तिर्यञ्च भी मरकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहाँ तकके
देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग वन जानेसे उनके समान जानने की सूचना की है । तथा
आग्रेके देवोंमें मनुष्य ही मर कर उत्पन्न होते हैं, इसलिए अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-
विभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात प्राप्त होनेसे वहाँ वह उत्क्रमण कहा है । शेष कथन
सुगम है ।

§ ६७, जहणण पयदं । दुविहो णिदो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण
वीसं पयडीणं जहं केत्तिं ? संखेज्जा । अजं केत्तिं ? अणंता । सम्मो-
न्नामिं जहं पदेविं केत्तिं ? संखेज्जा । अजं के ? असंखेज्जा । एवं
। ५ ।

§ ६८, आदेसेण णेरइएसु अट्ठावीसं पयडीणं जहं के ? संखेज्जा । अजं
केत्तिं ? असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्जो-
देव-भयणादि जाव अवरइदो त्ति । मणुसपज्जो-मणुसिणी-सव्वद्वसिद्धिं सव्वपदां
के ? संखेज्जा । एवं गेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ६७ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश—ओघसे
छत्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेश-
विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेश-
विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—छत्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणका समय यथायोग्य
स्थानमें होती है । यतः इनकी क्षण करनवाले जीव संख्यात होते हैं, अतः
इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । इनकी अजघन्य
प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त होते हैं यह स्पष्ट ही है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी
जघन्य प्रदेशविभक्ति अन्य विशेषताओंके रहते हुए अपनी अपनी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें
होती है । यतः ये जीव भी संख्यात ही होते हैं, अतः इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका
परिमाण संख्यात कहा है । इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात होते हैं यह
स्पष्ट ही है । सामान्यसे तिर्यञ्च अनन्त होते हैं, इसलिए उनमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती
है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र उनमें स्वामित्वका विचार कर
परिमाण घटित करना चाहिए ।

§ ६८ आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने
हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार
सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे
लेकर अपराजित विमान तकके देवों जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थ-
सिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इस प्रकार अनाहारक
मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियोंसे लेकर पूर्वोक्त सब मार्गणाओंमें संख्यात जीव ही
सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करते हैं, इसलिए सर्वत्र अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तथा मनुष्य पर्याप्त आदि तीन
मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है और शेषका असंख्यात है, इसलिए इनमें अपने अपने
परिमाणके अनुसार अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण
कज है ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

§ ६६. खेत्तापुगमो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ च । उक्कस्से पयदं ।
दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छ्वीसं पयडीणमुक्कं पदे-
विहत्तिया केवडि खेते ? लोगं असंखे० भागे । अणुक्कं केव ? सव्वलोगे । सम्म-
सम्माभिं उक्कं-अणुक्कं पदे० केव ? लोगं असंखे० भागे । एवं तिरिक्खमाणं ।

§ ७०. आदेसेण णेरइएसु अट्ठावीसं पयडीणमुक्कं-अणुक्कं लोगं असंखे०-
भागे । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेवा त्ति । एवं णेदव्वं
जाव अणाहारि त्ति ।

§ ७१. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण
सव्वपयडीणं जह०-अज० उक्कस्साणुक्कस्सपदे० भंगो । एवं सव्वमगगणासु णेदव्वं ।

§ ६६. चेत्तानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव करते हैं और उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ ओघसे उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उक्त प्रकृतियोंकी सत्तावाले ओष सब जीवोंके सम्भव है और उनका क्षेत्र सर्व लोक है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सामान्य तिर्यञ्चोमें यह क्षेत्र घटित हो जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७०. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पूर्वोक्त सामान्य नारकी आदि उक्त मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । आगे अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार विचार कर क्षेत्र घटित किया जा सकता है, इसलिए उन मार्गणाओंमें उक्त क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंके समान है । इसी प्रकार सब मार्गणाओंमें ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—सर्वत्र सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वको देखनेसे

§ ७२. पोसणं दुविहं—जहणणमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०-
ओघेण आदेसेण य । ओघेण छ्वीसं पयडीणमुक्क० पदेसविहत्तिएहि केवडियं खेत्तं
पोसिदं ? लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० सच्चलोगो । सम्म०-सम्मामि० उक्क०
पदे० केव० ? लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो अट्ठचोदस
भागा देसूणा सच्चलोगो वा ।

§ ७३. आदेसेण णेरइएसु अट्ठावीसं पयडीणमुक्क० लोग० असंखे०भागो ।
अणुक्क० लोग० असंखे०भागो छचोदस भागा देसूणा । एवं सत्तमाए । पढमाए पुढवीए
खेत्तभंगो । विदियादि जाव छट्ठि त्ति अट्ठावीसं पयडीणमुक्क० खेत्तं । अणुक्क० लोग०
असंखे०भागो एक-वे-तिण्णिण-चत्तारि-पंचचोदस भागा देसूणा ।

विदित होता है कि इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके समान बन जाता है, इसलिए उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७२. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उच्छ्रष्ट । उच्छ्रष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छ्वीस प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिके स्वाभित्वको देखनेसे विदित होता है कि उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक सम्भव नहीं है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा छ्वीस प्रकृतियोंकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्ति एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी सम्भव है, इसलिए इनकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग है, क्योंकि ये जीव पत्यके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होते, इसलिए इनका वर्तमान स्पर्शन उक्त क्षेत्रप्रमाण ही प्राप्त होता है । तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थान आदिकी अपेक्षा यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और मारणाण्णित्तक व उपपादपदकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है ।

§ ७३. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । दूसरीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुच्छ्रष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार और कुछ कम पाँच वटे

§ ७४. तिरिक्खेसु तिरिक्खेसु छच्चीसं पयडीणमुक्क० लोग० असंखे०-
भागो । अणुक्क० सव्वलोगो । सम्म०-सम्माभि० उक्क० खेतं । अणुक्क० लोग०
असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सव्वर्पंचिदियतिरिक्खेसु अट्टावीसं पयडीणं उक्क०
लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० लोगस्स असंखे०भागो सव्वलोगो वा । एवं
सव्वमणुस्साणं ।

§ ७५. देवगदीए देवेसु अट्टावीसं पयडीणमुक्क० खेतभंगो । अणुक्क० लोग०
असंखे०भागो अट्ट-णवचोदसभागा देसूणा । एवं सोहम्मीसाणार्णं । भवण०-वाण०-
जोइसि० अट्टावीसं पयडीणमुक्क० खेतं । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो अट्टुट्ट-अट्ट-

चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहां जिस नरकका जो स्पर्शन है उसे ध्यानमें रखकर सब प्रकृतियोंकी
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका अतीत स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ७४. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोमें छच्चीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोमें अट्टाईस प्रकृतियों-
की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब मनुष्योंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्च समस्त लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें छच्चीस प्रकृतियोंकी
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । मात्र
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व-
द्विककी अपेक्षा कहीं गई विशेषता सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी बन
जाती है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । सब मनुष्योंमें भी
यही व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान जाननेकी सूचना की
है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७५. देवगतिमें देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन
क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके
कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार
सौधर्म और ऐशान कल्पमें जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें अट्टाईस
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम

णवचोदस० देसूणा । सणक्कुमारदि जाव सहस्सरो ति अट्टावीसं पयडीणं उक्क० खेतं । अणुक्क० लोग० असंखे० भागो अट्टचो० देसूणा । आणदादि जाव अच्चुदो ति अट्टावीसं पयडीणमुक्क० खेतं । अणुक्क० लोग० असंखे० भागो छचोदस० देसूणा । उवरि खेतभंगो । एवं पेदव्वं जाव अणाहारए त्ति ।

§ ७६. जहणणए पयदं । दुविहो णिदोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छव्वीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे० भागो । अज० सव्वलोगो । सम्म-सम्मापि० जह० अज० लोग० असंखे० भागो अट्ट-चोद० देसूणा सव्वलोगो वा ।

§ ७७. आदेसेण णेरइएसु अट्टावीसं पयडीणं ज० लोग० असंखे० भागो । अज० लोग० असंखे० भागो छचोदस० देसूणा । एवं सत्तमाए । पढमाए पुढवीए खेतभंगो । विदियादि जाव छट्ठि त्ति अट्टावीसं पयडीणं जह० खेतं । अज० लोग०

आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकुमारसे लेकर सहस्वार करुप तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनत करुपसे लेकर अच्युत करुप-तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आगे क्षेत्रके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र अपने अपने वर्तमान आदि स्पर्शनको ध्यानमें रख कर सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकार है—ओघ और आदेश । ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके अराख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यन्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सम्यन्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सन्त्व है और देवोंके विहारघत्स्वस्थान आदिके समय भी हो सकती है । तथा इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ही, इसलिए इनकी दोनों प्रकारकी प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७७. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग

असंखे० भागो एक-वे-तिपिण-चत्तारि-पंचचोदस भागा वा देसूणा ।

§ ७८. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु छ्वीसं पयडीणं जह० खेवं । अज० सव्व-लोगो । सम्म०-सम्मामि० जह० अज० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । सव्व-पंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्सेसु छ्वीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे० भागो । अज० लोगस असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्मामि० जह०-अज० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा ।

§ ७९. देवगदीए देवेसु छ्वीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे० भागो । अज० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोदस० देसूणा । सम्म०-सम्मामि० जह० अज० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोद० देसूणा ।

§ ८०. भवण०-वाण०-जोइसि० चावीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०-

है । दूसरीसे लेकर छठी तककी पृथिवियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा क्रमसे त्रसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार और कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिकी अपेक्षा जो स्पर्शन घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । आगे भी अपनी अपनी विशेषता जानकर स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

§ ७८. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज और सब मनुष्योंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ७९. देवगतिमें छ्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ तथा कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य देवोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति दीर्घ आयुवाले देवोंमें होती है और उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनकी अपेक्षा स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८०. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें बाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति-

भागो । अज० लोग० असंखे०भागो अद्दुह-अह-णवचो० देसूणा । सम्म-सम्मापि० जह०-अज० लोग० असंखे०भागो अद्दुह-अह-णवचोदस० देसूणा । णवरि जोदिसि० सम्म०-सम्मापि० जह० लोग० असंखे०भागो अद्दुहा वा अहचोद० देसूणा । अणंताणु०४ जह० लोग० असंखे०भागो अद्दुह-अहचोद० देसूणा । अज० लोग० असंखे०भागो अद्दुह-अह-णवचो० देसूणा ।

§ ८१. सोहम्मीसाण० देवोधं । णवरि अणंताणु०चउक्क० जह० लोग०-स असंखे०भागो अहचोद० देसूणा ।

§ ८२. सणक्कुमारदि जाव सहस्सरो ति वावीसं पयडीणं जह० खेत्तं । अज० लोग० असंखे०भागो अहचो० देसूणा । सम्म०-सम्मापि०-अणंताणु०चउक्क०

वाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषी देवोमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—उक्त देवोमें एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति नहीं होती, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण नहीं कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८१. सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोमें सामान्य देवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सौधर्मिकमें विहारवत्त्वस्थान आदिके समय भी अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति घन जाती है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण भी कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ८२. सनह्मारसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोमें वाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति-

जह०-अज० लोग० असंखे०भागो अहचोह० देसूणा । आणदादि जाव अचुदो ति वावीसं पयहीणं जह० लोग० असंखे०भागो । अज० लोग० असंखे०भागो अहचोह० देसूणा । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक० जह०-अज० लोग० असंखे०भागो अहचोह० देसूणा । उवरि खेत्तभंगो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

❀ सव्वकम्माणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वो ।

§ ८३. सुगममेदं सुत्तं । संपहि एदेण सुत्तेण सूचिदत्त्यस्स उच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—कालो दुविहो, जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहंसो—ओयेण आदेसेण य । ओयेण पिच्छत्त-वारसक०-अट्टणोक० उक्क० पदेसवि० जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वद्धा । सम्म०-सम्मामि०-चदुसंज०-पुरिसवेदं० उक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समयो । अणुक्क० सव्वद्धा ।

वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनतसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें वाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्करी जघन्य और अनन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनसे ऊपरके देवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

❀ सव कर्माका नाना जीवोंकी अपेक्षा काल करना चाहिए ।

§ ८३. यह सूत्र सुगम है । अब इस सूत्रसे सूचित हुए अर्थकी उच्चारणा वतलाते हैं । यद्य, काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—श्लोच और आदेश । श्लोचसे मिध्यात्व, वारह कषाय और आठ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति काल सर्वदा है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, चार संव्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति काल सर्वदा है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक हो और द्वितीय समयमें न हो यह सम्भव है, इसलिए सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जघन्य काल एक समय कहा है । तथा मिध्यात्व आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी अपेक्षा लगातार असंख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है और शेष सात प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी

§ ८४. आदेसेण षेरइएसु सत्तावीसं पयडीणसुकु० पदे० जह० एगसं०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुकु० सव्वद्धा । सम्मत्त० ओघं । एवं पढमाए । विदियादि जात्र सत्तमि त्ति अट्ठावीसं पयडीणसुकु० पदे० जह० एगसं०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुकु० सव्वद्धा ।

§ ८५. तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्ताणं पढमपुढविभंगो । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीणं विदियपुढविभंगो । एवं पंचिदिय-तिरिक्खअपज्जत्ताणं ।

§ ८६. मणुस्सगदीए मणुस्स० मिच्छत्त-वारसक०-झण्णोक० उक्क० पदे० जह० एगसं०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुकु० सव्वद्धा । सम्म०-सम्माभि०-चदुसंजल० तिण्हं वेदाणसुकु० जह० एगसं०, उक्क० संखेज्जा समया । अणुकु० सव्वद्धा । मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु अट्ठावीसं पयडीणसुकु० पदे० जह० एगसं०, उक्क०

अपेक्षा निरन्तर संख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। नाना जीवोंकी अपेक्षा ऐसा समय नहीं प्राप्त होता जब किसी प्रकृतिकी सत्ता न हो, इसलिए सबकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा कहा है।

§ ८४. आदेशसे नारकियोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। सम्यक्त्व प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवी तक प्रत्येक पृथिवीमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें और पहली पृथिवीमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें सम्यक्त्व प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ८५. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्च, पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त जीवोंमें पहिली पृथिवीके समान भङ्ग है। पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है। पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

विशेषार्थ—भारम्भके तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंमें कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ८६. मनुष्यगतिमें मनुष्योमें मिथ्यात्व, चारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संव्वलन और तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोगोंमें अट्ठाईस

संखे० समया । अणुक० सञ्चद्धा । एवमाणदादि जाव सञ्चद्धसिद्धि त्ति ।

§ ८७. मणुसअपज्ज० छ्वीसं पयहीणणुक० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक० जह० खुद्दाभव० समउणं, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० एवं चेव । णवरि अणुक० जह० एगस० ।

§ ८८. देवगदीए देवाणं पढमपुढविभंगो । एवं सोहम्मादि जाव सहस्सारो त्ति । भवण०-वाण०-जोइसि० विदियपुढविभंगो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है । इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक के देवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंमें जिस प्रकार ओघमें घटित करके वतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र खीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल इनमें अपने स्वामित्वके अनुसार संख्यात समय ही प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी परिगणना यहाँ सम्यक्त्व आदिके साथ की है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देव तो संख्यात होते ही हैं । आनतादिमें ये ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें अद्वाइल प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय वननेसे उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८७. मनुष्य अपर्याप्तकोमें छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है । यह सम्भव है कि इस मार्गणानें नाना जीव जुल्लक भव तक ही रहे । इसलिए इस कालमेंसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल कम देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जुल्लक भवग्रहणप्रमाण वन जानेसे यहाँ छ्वीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जुल्लक भवग्रहणप्रमाण कहा है । तथा इस मार्गणाका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल उक्त काल प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्दे लना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय वन जानेसे उक्त काल प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८८. देवगतिमें देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सौधर्मकल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—सौधर्मादि देवोंमें भी प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान भङ्ग वन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । तथा भवत्रिकमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव मर कर

§ ८६. जहणए पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अट्ठावीसं पयडीणं जहं पदे० केव० ? जहं एगसं०, उक्क० संखेज्जा समया । अज० सव्वद्धा । एवं सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्स-सव्वदेवा त्ति । णवरि मणुस्स-अपज्जं अट्ठावीसं पयडीणं जहं पदे० एगसं०, उक्क० संखेज्जा समया । अज० जहं सुद्धाभवग्गहणं समयूणं, सत्तणोकसायाणमंतोमुहुत्तं, सम्म०-सम्मामि० एगसं०; सव्वेसिमुक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । एवं णेद्वं जाव अणाहारि त्ति ।

✽ अंतरं । णाणाजीवेहि सव्वकम्माणं जहं एगसमत्तो, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोगगलपरियट्ठा ।

§ ६०. एदेण सुत्तेण सूचिदजहणुक्कस्संतराणमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—

नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथिवीके नारकियोंके समान भङ्ग वन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

§ ८६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम छुट्टक भव ग्रहणप्रमाण है, सात नोकपायोंका अन्तर्भूतप्रमाण है तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणिके समय होती है । यह सम्भव है कि एक या अधिक जीव एक समय तक ही इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करें और यह भी सम्भव है कि क्रमसे नाना जीव संख्यात समय तक इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करते रहे, इसलिए ओघसे इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । अपने अपने स्वामित्वको देखते हुए सब नारकी आदि मार्गणाओमें यह काल घटित हो जाता है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्यअपर्याप्तकोमें विशेषता है । वात यह है कि यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए उसमें सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अलग अलग प्राप्त होता है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । विशेष विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

✽ अन्तर । नाना जीवोंकी अपेक्षा सब कर्मोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ ६०. इस सूत्रसे सूचित हुए जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको उच्चारणके अनुसार वतलाते

अंतरं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अट्टावीसं पयहीणमुक्कं पदे० जह० एगसगओ, उक्क० अणंतकाल-मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । अणुक्क० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्स-सव्वदेवा त्ति । णवरि मणुसअपज्ज० अट्टावीसं पयहीणमणुक्क० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । एवं णेद्वं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ६१. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण जहा उक्कस्संतरं परुविदं तथा जहण्णाजहण्णंतरपरूपणा परुवेदव्वा ।

§ ६२. सण्णियासो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णिहो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ

हैं । यथा—अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उल्लूट्ठ । उल्लूट्ठका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी उल्लूट्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्लूट्ठ अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुल्लूट्ठ प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यङ्ग, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अर्थात्क जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी अनुल्लूट्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्लूट्ठ अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इत प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ — उल्लूट्ठ प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मांशिक जीवोंके होती है । यह सम्भव है कि गुणितकर्मांशिकविधिले आकर एक ठा नाना जीव एक समयके अन्तरसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी अलग अलग उल्लूट्ठ प्रदेशविभक्ति करें और अनन्त कालके अन्तरसे करें, इसलिए यहाँ ओघसे और गति मार्गणाके सब भेदोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उल्लूट्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उल्लूट्ठ अन्तर अनन्त काल कहा है । यहाँ सबकी अनुल्लूट्ठ प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । मात्र मनुष्यअर्थात्त यह तान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें अपने अन्तरकालके अनुसार अट्टाईस प्रकृतियोंकी अनुल्लूट्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उल्लूट्ठ अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे जिस प्रकार उल्लूट्ठ पदके आश्रयसे अन्तरकाल कहा है उस प्रकार जघन्य और अजघन्य प्रदेश-विभक्तिके अन्तरकालकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

विशेषार्थ—जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षुपितकर्मांशिक जीवके होती है, इसलिए सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल उल्लूट्ठ और अनुल्लूट्ठ प्रदेश-विभक्तिके समान बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ६२. सन्निकर्षदो प्रकारका है—जघन्य और उल्लूट्ठ । उल्लूट्ठका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्वकी उल्लूट्ठ प्रदेशविभक्तिवाला जीव

वारसकसाय-छण्णोकसायाणं णियमा विहत्तिओ । तं तु उक्कस्सादो अणुक्कस्सं वेहाण-
पदिदं अणंतभागहीणं असंखेज्जभागहीणं वा । इत्थि-णवुंसयवेदाणं णियमा अणुक्कस्स-
विहत्तिओ असंखेज्जभागहीणो । इत्थिवेददव्वेण संखेज्जगुणहीणेण होदव्वं, णेरइय-
इत्थिवेदबंधगद्धादो कुरवित्थिवेदबंधगद्धाए लद्धणवुंसयवेदबंधगद्धा संखेज्जभागवहु-
भागा । एवं संखेज्जगुणत्तादो कुरवेसु इत्थिवेदपूरणकालो एगगुणहाणीए असंखेज्जदि-
भागो ति कट्ठु णासंखे०भागहीणत्तं जुत्तं, तत्थ असंखेज्जाणं गुणहाणीणमुवलंभादो ।
णोवलंभो असिद्धो, 'रदीए उक्कस्सदव्ववादो इत्थिवेदुक्कस्सदव्वं संखेज्जगुणं' इदि उवरि
भण्णमाणअप्पावहुअसुत्तेण तत्थ असंखेज्जाणं गुणहाणीणमुवलंभादो । णवुंसयवेद-
दव्वेण वि संखेज्जभागहीणेण होदव्वं, ईसाणदेवेसु णवुंसयवेदेण त्यावरबंधयद्धं सयलं
लद्धण तसबंधगद्धाए पुणो संखेज्जखंडीकदाए लद्धवहुभागत्तादो । कुरवीसाणदेवेसु
इत्थि-णवुंसयवेदाणि आवूरिय णेरइएसुप्पज्जिय उक्कस्सीकयमिच्छत्तस्स असंखे०भाग-
हाणी होदि ति वोत्तु जुत्तं, तेतीसं सागरोवमेसु गळिदासंखेज्जगुणहाणिदव्वस्स
णिरयगइसंचयं मोत्तुण कुरवीसाणदेवेसु संचिददव्वस्स भवद्वाणविरोहादो । तम्हा

वारह कपाय और छह नोकपायोंकी नियमसे विभक्तियाला होता है । किन्तु वह इसकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाला भी होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाला भी होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाला होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभागहीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती है । खीवेद और नपुंसकवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाला होता है जो नियमसे असंख्यातभागहीन प्रदेशविभक्तियाला होता है ।

शंका — स्त्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा हीन होना चाहिए, क्योंकि नारक्तियोमे जो खीवेदका बन्धक काल है उससे तथा देवकुरु और उत्तरकुरुमे जो खीवेदका बन्धककाल है उससे प्राप्त हुआ नपुंसकवेदका बन्धक काल संख्यात बहुभाग अधिक देखा जाता है । इसप्रकार संख्यातगुणा होनेसे देवकुरु उत्तरकुरुमे खीवेदका पूरणकाल एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ऐसा मानकर उसे असंख्यातवें भागहीन मानना उचित नहीं है, क्योंकि वहां असंख्यात गुणहानियों उपलब्ध होती हैं और उनका प्राप्त होना असम्भव भी नहीं है, क्योंकि रतिके उत्कृष्ट द्रव्यसे खीवेदका उत्कृष्ट द्रव्य संख्यातगुणा है इस प्रकार आगे कहे जानेवाले अल्पवहुत्वन सूत्रके अनुसार वहाँ असंख्यात गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं । तथा नपुंसकवेदके द्रव्यको भी संख्यातवें भाग हीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशान कल्पके देवोमे नपुंसकवेदके साथ समस्त स्थावर बन्धक कालको प्राप्त करनेके पुनः प्रसन्नबन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर बहुभाग प्राप्त होता है । यदि कहा जाय कि उत्तरकुरुदेवकुरु और ऐशान कल्पके देवोमे खीवेद और नपुंसकवेदको पूरकर तथा नारक्तियोमे उपलब्ध होकर मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात भागहानि होती है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तेतीस सागरप्रमाण कालके भीतर असंख्यात गुणहानिप्रमाण द्रव्यके गल जाने पर नरकगतिसम्बन्धी सज्जयको छोड़कर कुरु और ऐशान कल्पके देवोमे संचित हुए द्रव्यका अवस्थान माननेमें विरोध आता है, इसलिए असंख्यातभागहीनपना नहीं बनता है ?

असंखेज्जभागहीणत्तं ण घट्ठे त्ति ? ण, कुंरवीसाणदेवेसु उक्कस्सीकयइत्थि-णवुंसयवेद-
दव्वं णेरइएमुण्णज्जिय उक्कस्ससंकिसेणुक्कड्डिय उक्कस्सीकयमिच्छत्तस्स इत्थि-णवुंसयवेद-
दव्वानमसंखे०भागहाणिं पडि विरोहाभावादो । एगगुणहाणीए असंखे०भागमेत्तकालेण
तेत्तीससागरोवमेसु द्विददव्वमुक्कड्डिय सयलदव्वस्स असंखे०भागमेत्तं चेव तत्थ धरेदि
त्ति कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सण्णियासादो । किं च गुणिदकम्मंसिए 'उवरिल्लीणं
द्विदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदं हेट्ठिल्लीणं द्विदीणं णिसेयस्स जहण्णपदं' ति वेयणामुत्तादो
च णव्वदे जहा असंखे०भागो चेव गलदि त्ति । चट्ठसंजलण-पुरिसवेद० णियमा
अणुक्क० संखेज्जगुणहीणा । सम्मत्तसम्माभिच्छत्ताणं णियमा अविहत्तिओ, गुणिद-
कम्मंसियत्तादो । एवं वारसकसाय-द्धणोकसायाणं ।

समाधान—नहीं, क्योंकि कुरुवासी जीवोंमें और ऐशान कल्पके देवोंमें उत्कृष्ट किये गये स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके द्रव्यको नारकियोंमें उत्पन्न होकर उत्कृष्ट संकलेश द्वारा उत्कर्षित करके जिसने मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट किया है उसके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका द्रव्य असंख्यात भागहीन होता है इसमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—एक गुणहातिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा तेतीस सागर कालके भीतर स्थित द्रव्यका उत्कर्षण करके समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यको ही वहाँ धारण करता है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सन्निकर्षसे जाना जाता है । दूसरे गुणितकर्मांशिक जीवमें उपरितन स्थितियोंके निषेकका उत्कृष्ट पद होता है और अधस्तन स्थितियोंके निषेकका जघन्य पद होता है ऐसा जो वेदनासूत्रमें कहा है उससे जाना जाता है कि असंख्यातवों भाग ही गलता है ।

चार संव्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अविभक्तिवाला होता है, क्योंकि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव गुणितकर्मांशिक है । इसी प्रकार वारह कषाय और छह नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, वारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी एक समान है, इसलिए मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ जिस प्रकारका सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार वारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष वन जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि वारह कषायोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति संक्रमसे प्राप्त होती है जो चालीस कोड़ाकोड़ी सागरसे एक आवलि कम है, अतः मिथ्यात्वकी गुणितकर्मांशविधि करते हुए जिस जीवके तीस कोड़ाकोड़ी सागर व्यतीत हो गये हैं उसके आगे इन कर्मोंकी गुणितकर्मांशविधि करानी चाहिए । इस प्रकार करानेसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय इन कर्मोंकी भी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्राप्त हो जाती है । अन्यथा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय इन कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति रहती है । इसी प्रकार इन कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय मिथ्यात्वकी भी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति घटित कर लेनी चाहिए । यह इन

§ ६३. सम्मामि० उक्क० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-सम्मात्तार्णं णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । अट्ठक०-अट्ठणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । चदु-संज०-पुरिस० णियमा अणुक्क० संखेज्जगुणहीणा । सम्मत्तमेवं चैव । पवरि मिच्छत्तं णत्थि । सम्मामि० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा ।

§ ६४. इत्थिवेद० उक्क० विहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०--सत्तणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । चदुसंज०-पुरिस० णियमा अणुक्क० संखेज्ज०गुणहीणा ।

उन्नीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा परस्पर सन्निकर्षका विचार हुआ । अब रहे शेष कर्म सो इन कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय तीन वेद और चार संवत्तन कपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नहीं होती, अतः उस समय इन सात कर्मोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति करनी है । जो गुणितकर्मांशिक जीव मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कर रहा है उसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता यह स्पष्ट ही है । शेष कथन परामर्श करके समझ लेना चाहिए ।

§ ६३. सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । आठ कपाय और आठ नोकपायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । चार संवत्तन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो नियमसे संख्यात-गुणी हीन होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके इसी प्रकार सन्निकर्ष करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता । तथा इसके सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है ।

विशेषार्थ—जो गुणितकर्मांशिक जीव ज्ञायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रमण होने पर सम्यग्मिथ्यात्वका और सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका सम्यक्त्वमे संक्रमण होने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । इस प्रकार जिस समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है उस समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनोंका सत्त्व रहता है किन्तु वह अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन अनुकृष्टरूप ही रहता है, क्योंकि उन समय तक मिथ्यात्वके द्रव्यमेसे तो असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमे संक्रमण हो लेता है । तथा सम्यक्त्वमे अभी सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यका संक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन कहा है । इन्हीं प्रकार सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके समय सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन घटित कर लेना चाहिए । इसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं रहता यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुझा है ।

§ ६४. एविवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करनेवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कपाय और सात नोकपायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है ।

१. ता० प्रती 'असंखे-गुणहीणा' इति पाठः । २. ता० प्रती 'असंखेज्जगुणहीणा' इति पाठः ।

एवं णवुंसयवेदस्स ।

§ ६५. पुरिसवेद० उक्क० पदेसविहत्तिओ चटुसंज० णियमा अणुक्क० संखे०-
गुणहीणा । ङ्णोक्कसाय० णियमा अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा । कोधसंज० उक्क०
पदे०विहत्तिओ हेट्टिल्लाणं णियमा अविहत्तिओ । तिण्णं संज० णियमा अणुक्क० संखे०-
गुणहीणा । पुरिस० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । माणसंज० उक्क० पदेस-
विहत्तिओ हेट्टिल्लाणमविहत्तिओ । माया-लोभसंज० णियमा अणुक्क० संखे०गुणहीणा ।
कोधसंज० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । मायासंज० उक्क० पदेसविहत्तिओ
लोभसंज० णियमा अणुक्क० संखे०गुणहीणा । माणसंजलण० णियमा अणुक्क०
असंखेज्जगुणहीणा । लोभसंजलण० उक्क० पदे०विहत्तिओ मायासंजलण० णियमा
अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा ।

चार संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

विशेषार्थ—जो जीव बारह कवायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके यथाविधि भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके पत्यका असंख्यातवर्षों भागप्रमाण काल जाने पर स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्ति होती है। उस समय मिथ्यात्व आदि वीस प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातवर्षों भागप्रमाण हीन हो जाती है, क्योंकि उस समय तक इनका इतना द्रव्य अधःस्थितिगलना आदिके द्वारा गल जाता है और जिनका अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण सम्भव है उनके द्रव्यका संक्रमण भी हो जाता है। फिर भी यहाँ पर अधःस्थितिगलनाके द्वारा गलनेवाले द्रव्यकी मुख्यता है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति पेशान कल्पमें होती है। उसकी मुख्यतासे भी इसी प्रकार सन्निकर्ष प्राप्त होता है, इसलिए उसे स्त्रीवेदकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ६५. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके चार संज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। छह नोकवायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-वाले जीवके पुरुषवेद और संज्वलन प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका नियमसे असत्त्व होता है। तीन संज्वलनोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। मान संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके संज्वलन प्रकृतियोंके सिवा पूर्वकी शेष सब प्रकृतियोंका नियमसे असत्त्व होता है। मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। क्रोधसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभ-संज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। मान-संज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। लोभ-संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मायासंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति

१. आ०प्रतौ 'असंखेज्जमागहीणा' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'असंखेज्जगुणहीणा' इति पाठः ।

§ ६६. आदेसेण णेरइएसु मिच्छ० उक्क० पदेसविहत्तिओ सोलसक०-झण्णोक० णियमा विहत्तिओ । तं तु वेट्ठाणपदिदा अणंतभागहीणा असंखे०भागहीणा वा । तिण्हं वेदाणं णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा । सम्मत्त०-सम्मामिच्छत्ताण-मविहत्तिओ । एवं सोलसक०-झण्णोकसायाणं । सम्म० उक्क० पदेसविहत्तिओ वारसक०-णवणोक० णियमा अणुक० असंखेज्जभागहीणा । सम्मामि० उक्क० पदे०विहत्ति० सम्म० णियमा अणुक० असंखेज्जगुणहीणा । मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा । इत्थिवेद० उक्क० पदे०वि० मिच्छ०-सोलसक०-अट्ठणोक० णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा । एवं णवुंसयवेदस्स । पुरिसवेदस्स एवं चेव । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणहीणा, उक्कट्ठणाए विणा देवेसु

होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय छह नोकपाय और चार

रांज्वलनका, क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय पुरुषवेद और मान आदि तीन संज्वलन का, मान संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय शेष तीन संज्वलनोंका, मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट-प्रदेशविभक्तिके समय मान संज्वलन और लोभसंज्वलनका तथा लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके समय मायासंज्वलनका भी सत्त्व रहता है, इसलिए जहाँ जिन प्रकृतियोंका सन्निकर्ष सम्भव है वह कहा है । मात्र विवक्षितकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जिन प्रकृतियोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकी अन्तिम फालिका पतन होने पर होती है उन प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति असंख्यात-गुणी हीन पाई जाती है और जिन प्रकृतियोंके स्थितिकाण्डकोंका घात होना शेष रहता है उनकी प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन पाई जाती है ।

§ ६६. आदेशसे नारिक्योंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव सोलह कपाय और छह नोकपायोंकी नियमसे विभक्तियाला होता है । किन्तु वह इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाला भी होता है और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तियाला भी होता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेश-विभक्तियाला होता है तो उसके इनकी दो स्थान पतित अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है—या तो अनन्तभाग हीन अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है या असंख्यातभाग हीन अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । तीन वेदोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । यह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सत्त्व से रहित होता है । इसी प्रकार सोलह कपाय और छह नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जाना चाहिये । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवके बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवके सम्यक्त्वकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभागहीन होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सोलह कपाय और आठ नोकपायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए । इतना विशेषता है कि इसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणी हीन अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, क्योंकि उत्कर्षणके विना

गलिदासंखेज्जगुणहाणितादो । गुणिदकम्मंसियउक्कड्ढिदमिच्छत्तदन्वे जहासरुवेण सम्मत्त-
सम्माभिच्छत्तेसु संकंते असंखे०भागहीणं किण्ण जायदे ! ण, सम्मादिट्ठिओकड्ढणाए
थूलीकयहेट्ठिमगोबुच्छासु असंखे०गुणहाणिमेत्तासु गलिदासु असंखे०गुणहाणिदंसणादो ।
एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णवरि सम्म० उक्क० पदे०-
विहत्तिगो मिच्छ०-सोल्लसक०-णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा ।
सम्माभि० णियमा उक्क० । एवं सम्माभि० ।

§ ६७, तिरिक्ख०--पंचिदियतिरिक्ख--पंचि०तिरि०पज्जत्त० देवगदीए देव०
सौहम्मादि जाव उवरिमगेवज्जा ति णेरइयभंगो । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु विदिय-
पुहविभंगो । एवं भवण०--वाण०--जोदिसियाणं । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताणं
पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । णवरि सम्म० उक्क० पदेसविहत्ति० सम्माभि० तं तु
वेद्धानपदिदं अणंतभागहीणं असंखे०भागहीणं । सेसपदा णियमा अणुक्क० असंखे०-

देवोमे असंख्यात गुणहानियाँ गल जाती हैं ।

शंका—गुणितकर्मांशिक जीवके द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यका उत्कर्षण करके और उसे उसी
रूपमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रान्त कर देने पर इनका द्रव्य असंख्यातभाग हीन क्यों
नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके अपकर्षणके द्वारा अधस्तन गोपुच्छाओंके स्थूल
हो जानेसे असंख्यात गुणहानियोंके गल जाने पर असंख्यातगुणहानि देखी जाती है ।

इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिये । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके
नारकियोंमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अनुत्कृष्ट
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसके सम्यग्मिथ्यात्वकी नियम-
से उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें और पहली पृथिवीमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव
उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व
और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सत्त्व नहीं होनेसे उनका सन्निकर्ष नहीं कहा । परन्तु द्वितीयादि
पृथिवियोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए वहाँ सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-
विभक्तिके समय सवका सत्त्व स्वीकार किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६७. तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय-तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त, देवगतिमे सामान्य देव
और सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । पञ्चन्द्रिय-
तिर्यञ्च योनिनियोंमे दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और
ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च
पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले
जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी
होती है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभाग

भागहीणा । एवं सम्मामि० । एवं मणुस्सअपज्ज० ।

§ ६८, मणुसत्तियम्म ओघं । णवरि मणुस्सिण्णो पुरिसवेद० उक्क० पदेस-
विह० इत्थिवेद० णियमा अणुक्क० असंखे० गुणहीणा । अणुद्दिसादि जाव सव्वडसिद्धि
ति मिच्छ० उक्क० पदे० वि० सम्मामिच्छत्त-सोलसक०-अण्णोक्क० णियमा तं तु
विट्ठाणपदिदा अणंतभागहीणा असंखे० भागहीणा वा । सम्पत्त० णियमा अणुक्क०
असंखे० भागहीणं । तिण्हं वेदाणं णियमा अणुक्क० असंखे० भागहीणा । एवं
सोलसक०-अण्णोक्क०-सम्मामिच्छत्ताणं । सम्पत्त० उक्क० पदे० विहत्ति० वारसक०-
णवणोक्क० णियमा अणुक्क० असंखे० भागहीणा । इत्थिवेद० उक्क० पदे० वि० मिच्छ०-
सम्मामि०-सोलसक०-अण्णोक्क० णियमा अणुक्क० असंखे० भागहीणा । सम्म०

हीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती है । शेष प्रकृतियोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसी प्रकार सन्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोमै इसी प्रकार अर्थात् पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो विशेषता सामान्य नारकियोंमें बतला आये हैं वही यहाँ तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम प्रवेक तकके देवोंमें घटित हो जाती है, इस लिए इनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । दूसरी पृथिवीके समान पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी और भवनत्रिकमें कृतकृत्यवेदक सन्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग वन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक यह मार्गणा ऐसी है जिसमें मात्र मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं इसलिए इसमें अन्य प्ररूपणा तो पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान वन जाने से उनके जाननेकी सूचना की है । किन्तु इसके सिवा जो विशेषता हैं उसका अलगसे निर्देश किया है । मनुष्य अपर्याप्तकोमै पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है ।

§ ६८. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुष-
वेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभवाले जीवके स्त्रीवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सन्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छह नोकपायोंकी नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है तो यह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभाग हीन होती है या असंख्यातभागहीन होती है । सन्यक्त्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुण हीन होती है । तीन वेदोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभागहीन होती है । इसी प्रकार सोलह कपाय, छह नोकपाय और सन्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सन्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सन्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और आठ नोकपायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति

णियमा अणुक० असंखे०गुणहीणा । एवं णवुंस० । पुरिसवेदस्स देवोघं । एवं णेदच्चं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ६६. जहणणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स जहणणपदेसविहत्तिओ सम्म०-सम्मामि०-एकारसक०-तिण्णिवेद० णियमा अजहणण० असंखेज्जगुणग्गभहिया । लोभसंज०-ज्जणोक्क० णियमा अजह० असंखेज्जभाग-ग्गभहिया । सम्मत्तगुणेण पंचिदिएसु वेज्जावद्विसागरोवमाणि हिंदतेण संचिददिवडुगुण-हाणिमेत्तपंचिदियसमयपवद्धाणं सगसगजहणणदच्चादो असंखेज्जगुणत्तं मोत्तूण णासंखेज्जभागग्गभहियत्तं, एइंदियउक्कस्सजोगादो वि पंचिदियजहणणजोगस्स असंखे०-गुणत्तुलंभादो । एत्थ परिहारो बुच्चदे—जदि वि वेज्जावद्विसागरोवमेसु लोभसंजलणं गिरंतरं वंधतो वि सगजहणणदच्चादो विसेसाहियं चेव, अप्पदरकालम्मि भीणदच्चादो

होती है जो असंख्यातभागहीन होती है । सम्यक्त्वकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । इस प्रकार अनाहारक मार्गीणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे जो सन्निकर्ष कहा है वह मनुष्यत्रिकमें अचिकल घटित हो जाता है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्यनियामें पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्षमें कुछ विशेषता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है । अनुदिश आदिमें सब देव सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें अन्य देवोंसे विशेषता होनेके कारण उनमें सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षका अलगसे निर्देश किया है । विशेष स्पष्टीकरण स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए । आगे अनाहारक मार्गीणा तक इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषताको जानकर सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

§ ६६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और तीन वेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभ-संज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है ।

शंका—सम्यक्त्व गुणके साथ जो पञ्चेन्द्रियोंमें दो छ्वासठ सागर काल तक परिभ्रमण करता है उसके सञ्चित हुए डेढ़ गुणहानिप्रमाण पञ्चेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध अपने अपने जघन्य द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातगुणे होते हैं असंख्यातवें भाग अधिक नहीं, क्योंकि एकेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट योगसे भी पञ्चेन्द्रिय जीवका जघन्य योग असंख्यातगुणा पाया जाता है ?

समाधान—यहाँ उक्त शंकाका समाधान करते हैं—दो छ्वासठ सागर कालके भीतर लोभसंज्वलनका निरन्तर बन्ध करता हुआ भी अपने जघन्य द्रव्यसे वह विशेष अधिक ही होता

भुजगारकालम्मि संचिददव्वस्स असंखे० भागव्वभहियत्तादो । केसि पि सगजहण्ण-
दव्वादो संखे० भागव्वभहियं संखे० गुणमसंखेज्जगुणं वा क्किण्ण जायदे ? ण, असंखेज्ज-
भागव्वभहियं चेव, उक्कस्सजोगेण वेद्धावट्टिसागरोवमाणि परिभमिदसम्मादिट्टिमि वि
अप्परकालादो भुजगारकालस्स णियमेण विसेसाहियस्सेवुत्तलंभादो । एदं कुदो उव-
लव्वभदे । 'णियमा असंखे० भागव्वभहिया' त्ति उच्चारणाइरियवयणादो । कम्मपदेसाणं
भुजगारप्पदरभावो किण्णिवंधणो ? ण, सुक्कंधारपक्खचंदमंडलभुजगारप्पदराणं व
साहावियत्तादो । जदि अप्पदरकालम्मि भ्णीणमाणदक्कादो भुजगारकालम्मि संचिद-
दव्वं विसेसाहियं चेव होदि तो खविदकम्मंसियदव्वादो गुणिदकम्मंसियदव्वेण वि
विसेसाहिण्णेत्तं होदव्वं ? ण च एवं, वेदणाए चुण्णिमुत्तेण च सह विरोहादो
त्ति सच्चं विसेसाहियं चेव, किं तु ण विरोहो, सवयणविरोहं
मोत्तुण तंतंतरत्थेण विरोहाणव्वुवगमादो । वेयणा-चुण्णिमुत्ताणमुवएसो

है, क्योंकि अल्पतर कालके भीतर क्षयको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे भुजगार कालके भीतर सञ्चित
हुआ द्रव्य असंख्यातवें भाग अधिक होता है ।

शंका—किन्हीं जीवोंके अपने जघन्य द्रव्यसे संख्यातवें भाग अधिक, संख्यातगुणा अधिक
या असंख्यातगुणा अधिक क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं क्योंकि असंख्यातवें भाग अधिक ही होता है, क्योंकि उत्कृष्ट योगके साथ
दो ह्य्यास्त सागर काल तक परिभ्रमण करनेवाले सन्यगृष्टि जीवके भी अल्पतर कालसे भुजगार
काल नियमसे अधिक ही उपलब्ध होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—उच्चारणाचार्यके 'नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक है' इस वचनसे उप-
लब्ध होता है ।

शंका—कर्म प्रदेशोंका भुजगार और अल्पतर पद किस निमित्तसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल और कृष्णपक्षमें चन्द्रमण्डल स्वभावतः
वृद्धता और घटता है उसी प्रकार यहाँ पर कर्मप्रदेशोंका भुजगार और अल्पतर पद स्वभावसे
होता है ।

शंका—यदि अल्पतर कालके भीतर नष्ट होनेवाले द्रव्यसे भुजगार कालके भीतर सञ्चित
होनेवाला द्रव्य विशेष अधिक ही होता है तो क्षुण्णिकर्मांशिकके द्रव्यसे गुणितकर्मांशिक जीवका
द्रव्य भी विशेष अधिक होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर वेदना और
चूर्णिसूत्रके साथ विरोध आता है ?

समाधान—विरोध अधिक है यह सत्य है तो भी वेदना और चूर्णिसूत्रके साथ विरोध नहीं
आता, क्योंकि स्वयंचन विरोधको छोड़ कर दूसरे ग्रन्थमें प्रतिपादित अर्थके साथ आनेवाले
विरोधको नहीं स्वीकार किया गया है ।

वेदना और चूर्णिसूत्रोंका उद्देश है कि अल्पतर कालके भीतर क्षयको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे

अप्यदरकालमि भिज्जमाणदव्वादो भुजगारकालमि गुणितकम्मंसियविसयमि संचिज्जमाणदव्वं कथ वि असंखेज्जभागव्वहियं, कथ वि संखेज्जभागव्वहियं, कथ वि संखेज्जगुणव्वहियं, कथ वि असंखेज्जगुणमत्थि । तेण तत्थ गुणितकम्मंसियकालो कम्मट्ठिदिमेत्तो । खविदकम्मंसियमि पुण भुजगारकालमि संचिददव्वादो अप्यदर-कालमि भ्मीणदव्वमसंखे०भागव्वहियं, कथ वि संखेज्जभागव्वहियं संखेज्जगुण-व्वहियमसंखेज्जगुणव्वहियं च । एदं कुदो णव्वदे ? कम्मट्ठिदिमेत्तखविदकम्मंसियकाल-पदुप्पायणादो । उच्चारणाए पुण गुणितकम्मंसियमि अप्यदरकालमि भ्मीणदव्वादो भुजगारकालमि संचिददव्वं विसेसाहियं चेव । एदं कुदो णव्वदे ? लोभसंजलणस्स जहण्णदव्वादो वेळावट्ठिकालव्वमंतरे पंचिदियजोगेण संचिदं पि लोभसंजलणदव्वं विसेसाहियं चेवे त्ति वयणादो । जदि एवं तो उच्चारणाए कम्मट्ठिदिमेत्तो गुणितकम्मंसियकालो किमट्ठं परूविदो ? भुजगारकालमि सगअसंखेज्जदिभाग-मेत्तदव्वसंगहणट्ठं ।

§ १००. सम्माधिच्छत्तस्स जहण्णपदेसविहत्तिओ मिच्छ०-पण्णारसक०-तिग्णि-

गुणितकर्माशिकके विषयरूप भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य कहीं पर असंख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातगुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यातगुणा अधिक है । इस लिए वहाँ गुणितकर्माशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण है । परन्तु चापितकर्माशिकके भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुए द्रव्यसे अल्पतर कालके भीतर क्षयको प्राप्त होनेवाला द्रव्य कहीं पर असंख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातगुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यातगुणा अधिक है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—चापितकर्माशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है । उससे जाना जाता है ।

परन्तु उच्चारणाके अनुसार गुणितकर्माशिकसम्बन्धी अल्पतरकालके भीतर क्षयको प्राप्त हुए द्रव्यसे भुजगारकालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—लोभसंज्वलनके जघन्य द्रव्यसे दो छयासठ सागर कालके भीतर पञ्चेन्द्रिय जीवके योग द्वारा सञ्चित हुआ भी लोभसंज्वलनका द्रव्य विशेष अधिक ही है इस वचनसे जाना जाता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उच्चारणामे गुणितकर्माशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण किसलिए कहा है ?

समाधान—भुजगार कालके भीतर अपना असंख्यातवों भाग अधिक द्रव्यका संग्रह करनेके लिए कहा है ।

§ १००. सम्यग्बिध्यात्वकी जघन्य प्रवेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और

वेद० गियमा अज० असंखे०गुणव्भहिया । लोभसंज०-द्वण्णोक० गियमा अज० असंखे०भागव्भहिया । सम्मत्त० गियमा अविहत्तिओ । सम्मत्तस्स जहणपदेस-विहत्तिओ मिच्छ०-सम्मामि०-पण्णारसक०-तिण्णिवेदाणं गियमा अज० असंखे०-गुणव्भहिया । लोभसंज०-द्वण्णोक० गियमा अज० असंखे०भागव्भहि० । कारणं पुच्चं परुविदं ति णेह परुविज्जदे ।

∴ १०१. अणंताणु०कोध० जहणपदे० माण-माया-लोभाणं गियमा तं तु विट्ठाणपदिदा अणंतभागव्भहि० असंखे०भागव्भहिया वा । मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-एकारसक०-तिण्णिवेदाणं गियमा अज० असंखे०भागव्भहिया । लोभ-संज०-द्वण्णोक० गियमा अज० असंखे०भागव्भहिया । एवं माण-माया-लोभाणं । अपधक्खणकोध० जह० पदेसविहत्तिओ सत्तकसायाणं गियमा विहत्तिओ । तं तु वेट्ठाणपदिदा अणंतभागव्भहिया असंखे०भागव्भहिया । तिण्णिसंजत्त०-तिण्णिवेद० गियमा अज० असंखे०गुणव्भहि० । लोभसंज०-द्वण्णोक० गियमा अज० असंखे०-

तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंखलन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । तथा वह सम्यक्त्वका नियमसे अविभक्तिवाला होता है । सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, पन्त्रह कपाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंखलन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । कारण पहले कह आये हैं, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं करते ।

§ १०१. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मान, माया और लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । लोभसंखलन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सात कपायोकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति या अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । तीन संखलन और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंखलन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । वह जेप प्रकृतियोंका नियमसे

१. एता०प्रती 'असंखे०भागव्भहिया वा । एवं' इति पाठः । २. आ०प्रती 'द्वययोको अज०' इति पाठः ।

भागम् । सेसाणं पयडीणं गियमा अविहत्तिओ । एवं सत्तकसायाणं । कोधसंजं जहं पदेसविहत्तिओ माण-मायासंजं गियमा अजं असंखे०गुणम् । लोभसंजं गियमा अजं असंखे०भागम् । सेसाणं पयडीणं गियमा अविहत्तिओ । माणसंजं जहणपदेसविहत्तिओ मायासंजं गियमा अजं असंखे०गुणम् । लोभसंजलं गियमा अजं असंखे०भागम् । मायासंजं जहं पदेसविहत्तिओ लोभसंजं गियमा अजं असंखे०गुणम् । सेसाणमविहत्तिओ । लोभसंजं जहं पदे-विहं एक्कारस०-तिणिवेदं गियमा अजं असंखे०गुणम् । छण्णोकं गियमा अजं असंखे०भागम् ।

§ १०२. इत्थिवेदं जहं पदे०विहत्तिओ तिणिसंजं-पुरिसं गियमा अजं असंखे०गुणम् । लोभसंजं-छण्णोकं गियमा अजं असंखे०भागम् । एवं णडुंसयवेदस्स । पुरिसवेदं जहं पदेसं तिणिसंजं गियमा अजं असंखे०गुणम् । लोभसंजं गियमा अजं असंखे०भागम् । हस्सं जहं पदे-विहत्तिओ तिणिसंजं-पुरिसवेदं गियमा अजं असंखे०गुणम् । लोभसंजं

अविभक्तिवाला होता है। इसी प्रकार सात कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। क्रोधसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मानसंज्वलन और मायासंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। वह शेष प्रकृतियोंका नियमसे अविभक्तिवाला होता है। मानसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मायासंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। मायासंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। वह शेष प्रकृतियोंका अविभक्तिवाला होता है। लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कपाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। छह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है।

§ १०२. स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन और छह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलनोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है।

णियमा अजह० असंखे०भाग०भ० । पंचणोक० णियमा तं तु वेद्धानपदिदा अणंत-
भाग०भ० असंखे०भाग०भहि० । एवं पंचणोकसायाणं ।

§ १०३. आदेसेण णेरइएसु मिच्छ० जह० पदेसविहत्तिओ सम्म०सम्मामि०
णियमा अज० असंखे०गुण०भहिया । वारसक०णवणोक० णियमा अज० असंखे०-
भाग०भहिया । इत्थि-णत्तुंसयवेदानं होदु णाम असंखे०भाग०भहियत्तं, मिच्छत्तं गंतूण
पडिक्खवंधगद्धाए चरिमसमयम्मिं जहणसंतकम्मत्तुवलंभादो । ण सेसकम्माणं,
तेत्तीससागरोवसेसु पंचिदियजोगेण एइदियजोगं पेक्खिदूण असंखे०गुणेण संचिदत्तादो
त्ति ? ण एस दोसो, खविदकम्मसियजहणदव्वं पेक्खिदूण गुणिदकम्मसियशुजगार-
कालम्मिं संचिददव्वस्स असंखे०गुणहीणात्तादो । एदं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव
सणियामादो । एवं संते जहणदव्वादो उक्कस्सदव्वमसंखे०गुणं ति भणिदवेयणा
चुण्णिमुत्तेहि विरोहो होदि त्ति ण पच्चवट्ठेयं, भिण्णोवएसत्तादो । सम्म० जह०

लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक
होती है । पाँच नोकपायोकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है या अजघन्य प्रदेश-
विभक्ति होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या
तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार पाँच
नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १०३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी
अधिक होती है । वारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है
जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है ।

शंका—बीवेद और नपुंसकवेदकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग अधिक
होना, क्योंकि मिथ्यात्वमें जाकर प्रतिपन्न प्रकृतिके बन्धक कालके अन्तिम समयमें जघन्य
सत्कर्म उपलब्ध होता है । परन्तु शेष कर्मोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग
अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि तेतीस सागरकी आयुवाले जीवोंमें एकेन्द्रिय जीवके योगको
देखते हुए असंख्यातगुणे पञ्चेन्द्रिय जीवके योगद्वारा उनका द्रव्य सञ्चित होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षपितकर्मांशिक जीवके जघन्य द्रव्यको
देखते हुए गुणितवर्मांशिक जीवके भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा हीन
होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ।

समाधान—उसी सन्निकर्षसे जाना जाता है ।

शंका—ऐसा होने पर जघन्य द्रव्यसे उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन
परनेवाले वेदना सूत्रोंके साथ विरोध आता है ?

समाधान—ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भिन्न उपदेश है ।

१. ता० प्र० 'पटिक्खवंधगद्धाए चरिमसमयम्मिं' इति पाठः ।

पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त०-वारसक०-णवणोक० गियमा अज० असंखे०भागवभहि० ।
सम्मामि०--अणंताणु०चउक० गियमा अज० असंखे०गुणवभ० । सम्मामि० जह०
पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० गियमा अज० असंखे०भागवभ० ।
अणंताणु०चउक० गियमा० अज० असंखेज्जगुणवभहिया ।

§ १०४, अणंताणु०कोध० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक०
गियमा अज० असंखेज्जभागवभहिया । सम्म०-सम्मामि० गियमा अज० असंखे०-
गुणवभ० । माण-माया-लोभाणं गियमा तं तु विट्ठाणपदिदा अणंतभागवभहिया
असंखे०भागवभ० वा । एवं माण-माया--लोभाणं । अपच्चक्त्वाणकोध० जह०
पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-सत्तणोक० गियमा अज० असंखे०भागवभ० । सम्म०-
सम्मामि०-अणंताणु०चउक० गियमा अज० असंखे०गुणवभ० । एकारसक०-भय-
दुगुंढं गियमा तं तु विट्ठाणपदिदा -अणंतभागवभहिया असंखे०भागवभहिया वा ।
एवमेकारसक०-भय-दुगुंढाणं ।

सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, चारह कपाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, चारह कपाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है ।

§ १०४ अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, चारह कपाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दूां स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व और सात नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । ग्यारह कषाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १०५. इत्थिवेद० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०-अट्टणोक० गियमा अज० असंखे०भागवभहिया । सम्म०-सम्मापि०-अणंताणु०चउक्क० गियमा अज० असंखे०गुणवभहिया । एवं पुरिस-णवुंसयवेदाणं । णवुंसयवेदे जहण्णे संते मिच्छत्तस्स असंखे०भागवभहियत्तं होहु णाम, पुरिमवेदे पुण जहण्णे संते मिच्छत्तस्स असंखे०-गुणवभहियत्तं मोत्तूण पासंखेज्जभागवभहियत्तं, सम्मतं वेत्तूण तेत्तीससागरोवममेत्तकालं वधेण विणा अवट्ठिट्ठत्तादो ति ? ण, तेत्तीससागरोवमाणि सम्मतगुणेण अवट्ठिट्ठस्स मिच्छत्तद्वं पि पुरिसवेदज-णसंतकम्मियमिच्छत्तद्वंवादो असंखे०भागहीणं चेव । एदस्माइरियस्स उवदेसेण गुणिद-त्वयिदकम्मंसिएमु चरिमणिसेगप्पहुडि विसेसहीण-कमेण हेट्ठा जाव समयाहियआवाहा ति द्विट्ठिं पडि पदेसावट्ठाणादो । कुदो एदं णववेदे ? एदस्मादो चेव सणिणयासादो । अणुलोम-विजोममदेसरयणासु का एत्थ सच्चिल्लिया ण णववेदे आणाकणिट्ठदाए तेण दोण्हमुवएसाणमेत्थ संगहो कायव्वो ।

§ १०६. हस्सस्स जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त०-वारसक०-सत्तणांक० गियमा अज० असंखे०भागवभहिया । सम्म०-सम्मापि०-अणंताणु०चउक्क० गियमा

§ १०५. त्वीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कपाय और आठ नोत्राचार्योर् नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सन्यक्त्व, सत्यमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्पदी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुसंवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

शंका—नपुसंवेदके द्रव्यके जघन्य रहने पर मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातवें भाग अधिक होवे, परन्तु पुरुषवेदके द्रव्यके जघन्य रहने पर मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातगुण अधिकको दोड़ वर असंख्यतवें भाग अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि सन्यक्त्वको ग्रहण करके तेतीस सागर प्रमाण काल तक द्रव्यके बिना वह अवस्थित रहता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि तेतीस सागर काल तक सन्यक्त्वके साथ अवस्थित रहनेवाले जीवके जो मिथ्यात्वका द्रव्य होता है वर भी पुरुषवेदके जघन्य सत्कर्मवाले जीवके मिथ्यात्वके द्रव्यमे अनन्ययातवें भागप्रमाण कम ही होता है । इस आचार्यके उपदेशानुसार गुणितकर्मांशिक पुरोहितसमांशिक जीवके अन्तिम निपेकसे लेकर नीचे एक समय अधिक आत्रायाकालके प्राय होने तक प्रत्येक स्थितिके प्रति विशेष हीन क्रमसे प्रदेशोंका अवस्थान पाया जाता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान इसी सन्निकर्षसे जाना जाता है ?

नपुसोम और विजोम प्रदेशरचनाके मध्य कौनसी प्रदेशरचना समीचीन है यह उत्तरोत्तर दिनवारिके हीए हांते जानेसे ज्ञान नहीं होता, इसलिए दोनों उपदेशोंका यहाँ पर मंथन करना चाहिए ।

§ १०६. हास्सीरि जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कपाय और सात नोत्राचार्योर् नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है ।

अज० असंखे०गुणव्भ० । रदि० गियमा तं तु विद्वाणपदिदा अणंतभागव्भ० असंखे०भागव्भहिया वा । एवं रदीए ।

§ १०७. अरदि० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छ०-धारसक०-सत्तणोक० गियमा अज० असंखे०भागव्भहिया । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० गियमा अज० असंखे०गुणव्भ० । सोग० गियमा तं तु विद्वाणपदिदं अणंतभागव्भ० असंखे०-भागव्भ० वा । एवं सोगस्स । एवं सत्तमाए । पढमादि जाव छट्ठि त्ति एवं चेव । णवरि इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णपदेसवि० अणंताणु०चउक्क० अविहत्तिओ ।

§ १०८. तिरिक्खवगदीए तिरिक्खवाणं पढमपुढविभंगो । णवरि इत्थि-णवुंसय-वेद० जह० विहत्तिओ मिच्छ०-सम्म०--सम्मामि०--अणंताणु०चउक्काणं गियमा अविहत्तिओ । एवं पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पज्जत्ताणं । पंचि०तिरि०जोणिणीणं पढमपुढविभंगो ।

§ १०९. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त० जह० पदेसविहत्तिओ सम्म०-सम्मामि० गियमा अज० असंखे०गुणव्भ० । सोलसक०-भय-दुग्घं० गियमा तं तु

सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

§ १०७ अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कपाय और सात नोकषायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सातवीं पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिए । पहिलीसे लेकर छठी पृथिवी तक इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि खीवेद और नपुंसक-वेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाला जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाला होता है ।

§ १०८. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अविभक्तिवाला होता है । इसी प्रकार पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त जीवोंके जगना चाहिए । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें पहिली पृथिवीके समान भङ्ग है ।

§ १०९. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी

वेढाणपदिदा—अणंतभागवभ० असंखे०भागवभ० वा । सत्तणोक० गियमा अज० असंखे०भागवभ० । एवं सोलसक०-भय-दुगुंझाणं ।

§ ११०. सम्म० जह० पदेसविहत्तिओ सम्मामि० गियमा अज० असंखे०-गुणवभ० । मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० गियमा अज० असंखे०भागवभ० । एवं सम्मामि० । णवरि सम्मत्तस्स गियमा अविहत्तिओ ।

§ १११. इत्थिवेद० जह० पदे०वि० सम्म०-सम्मामि० गियमा अज० असंखे०गुणवभ० । मिच्छ०-सोलसक०-अट्टणोक० गियमा अज० असंखे०भागवभ० । एवं पुरिस-णवुंसयवेदाणं ।

§ ११२. हस्सस्स जह० पदेसविहत्तिओ रदि० गियमा तं तु विढाणपदिदा—अणंतभा० असंखेज्जभागवभहिया वा । सेसमित्थिवेदभंगो । एवं रदीए ।

§ ११३. अरदि० जह० पदे०विहत्तिओ सोग० गियमा तं तु विढाणपदिदं । सेसं हस्सभंगो । एवं सोगस्स । एवं मणुसअपज्जत्ताणं ।

अधिक होती है । सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सात नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी मुख्यता सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११०. सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । उसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यह सम्यक्त्वकी नियमसे अविभक्तिवाला होता है ।

§ १११. त्विवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । मिथ्यात्व, सोलह कपाय और आठ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११२. हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । दोष भद्र त्विवेदके समान हैं । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११३. अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । दोष भद्र हास्यके समान हैं । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात् पद्मेन्द्रिय तिर्यश्च अपर्यायकोंके समान मनुष्य अपर्यायकोंके जानना चाहिए ।

§ ११४. मणुसगदीए मणुस्साणमोघं । मणुसपज्जं एवं चेव । णवरि इत्थिवेदं जम्हि जम्हि भणदि तम्हि णियमा अजं असंखे०भागब्भिया । इत्थिवेदं जहं पदे०विहत्तिओ णवुंसं० सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि णियमा अजं असंखे०गुणब्भं ।

§ ११५. मणुसिणीसु ओघं । णवरि पुरिसवेद-णवुंसयवेदं जम्हि जम्हि भणदि तम्हि तम्हि णियमा अजं असंखे०भागब्भं । णवुंसं० जहं पदे०विहत्तिओ इत्थिवेदं किं जहण्णा किमजहण्णा ? णियमा अजं असंखे०गुणब्भं । पुरिसवेदं जहं पदे०विहत्तिओ एकारसक०-इत्थिवेदं० णियमा अजं असंखे०गुणब्भं । लोभसंज०-सत्तणोक्कं० णियमा अजं असंखे०भागब्भं । एत्थ लोभसंजलण-पुरिसवेदाणमधापवत्तकरणचरिम०मए जहण्णसामित्ते अवसिट्ठे संते तेसिमण्णोणं पेक्खियूण तं तु विट्ठाणपदिदा त्ति वत्तव्वे असंखे०भागब्भहियत्तणियमो किंणिबंधणो त्ति चित्तिय वत्तव्वं ।

§ ११६. देवगदीए देवाणं तिरिक्खोघं । भवण०-वाण०-जोदिसिं० पडम-पुढविभंगो । सोद्धमीसाणप्पहुडिं जाजुवरिमगेवज्जो त्ति देवोघो । अणुदिसादिं जाव सव्वदिसिद्धिं त्ति मिच्छं० जहं पदे०विहत्तिओ सम्मं०-सम्मामिं० णियमा तं तु

§ ११४. मनुष्यगतिमें मनुष्योका भद्र ओघके समान है । मनुष्य पर्याप्तकोमे इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद जहाँ जहाँ कहा जाय वहाँ वहाँ वह नियमसे अजघन्य असंख्यातवर्ग भाग अधिक होता है । स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिकेवाले जीवके नपुंसकवेद प्रदेशविभक्ति स्यात् है और स्यात् नहीं है । यदि है तो नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है ।

§ ११५. मनुष्यनियमसे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रदेशविभक्ति जहाँ जहाँ कही जाय वहाँ वहाँ नियमसे अजघन्य असंख्यातवर्ग भाग अधिक होती है । नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिकेवाले जीवके स्त्रीवेद प्रदेशविभक्ति क्या जघन्य होती है या अजघन्य होती है ? नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है । पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिकेवाले जीवके ग्यारह कषाय और स्त्रीवेदकी नियमसे असंख्यातगुणी अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । लोभसंज्वलन और सात नोकषायोंकी नियमसे असंख्यातवर्ग भाग अधिक अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यहाँ पर लोभसंज्वलन और पुरुषवेदका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे जघन्य स्वाभित्व अवशिष्ट रहने पर परस्पर देखते हुए उनकी परस्पर जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । उसमें भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित होती है इस प्रकार कथन करने पर असंख्यातवर्ग भाग अधिकका नियम किंनिमित्तक होता है इस बातका विचार कर कथन करना चाहिए ।

§ ११६. देवगतिमें देवोमे सामान्य तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है । सौधर्म और ऐशान करुपसे लेकर उपरिम प्रवेयक तक दोनोंमे सामान्य देवोके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें

विद्याणपदिदा-अणंतभागवभ० असंखे०भागवभ० वा । वारसक०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागवभ० । एवं सम्पत्त-सम्पामिच्छताणं ।

§ ११७, अणंताणु०कोध० जह० पदे०विहृत्तिओ मिच्छ०-सम्म०-सम्पामि०-वारसक०-णवणोक० णियमा [अज०] असंखे०भागवभ० । माण-माया-लोहाणं णियमा तं तु विद्याणपदिदा—अणंतभागवभ० असंखे०भागवभहिया वा । एवं माण-माया-लोहाणं ।

§ ११८, अपच्चक्खाणकोध० जह० पदे० एक्कारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० णियमा तं तु विद्याणपदिदा—अणंतभाग० असंखे०भागवभहिया वा । छण्णोक० णियमा अज० असंखे०भागवभ० । एवमेक्कारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं ।

§ ११९, इत्थिवेद० जह० पदे०विहृत्तिओ वारसक०-अट्टणोक० णियमा अज० असंखे०भागवभ० । एवं णवुंसयवेदस्स । हस्स० जह० पदेस०विहृत्तिओ वारसक०-सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागवभ० । रदि० णियमा तं तु

मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । वारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११७, अनन्तालुवन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । अनन्तालुवन्धी मान, माया और लोभकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार अनन्तालुवन्धी मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११८, अपत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । छह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११९, इत्थिवकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कपाय और आठ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार नौ नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । हान्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें

विद्वाणपदिदा—अणंतभागवभ० असंखे०भागवभहिया वा । एवं रदीए ।

§ १२०. अरदि० जह० पदे०विहत्तिओ वारसक०-सत्तणोक० गियमा अज० असंखे०भागवभ० । भोगस्स गियमा० तं तु विद्वाणपदिदा—अणंतभागवभ० असंखे०भागवभ० वा । एवं सोगस्स । एवं जाणिदूण गेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

§ १२१. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो । एवं गेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

❀ अत्पावहुअं ।

१२२. सुगममेदं ।

❀ सव्वत्थोवमपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससं तकम्मं ।

§ १२३. सत्तमाए पुहवीए गुण्णिकम्मंसियणेरइयम्मि तेत्तीसाअचरिमसमए वट्टमाणम्मि जदि वि उक्कस्सं जादं तो वि थोवं, साहावियादो ।

भाग अधिक होती है । रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश-विभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तर्वे भाग अधिक होती है या असंख्यातर्वे भाग अधिक होती है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १२०. अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके वारह कषाय और सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातर्वे भाग अधिक होती है । शोककी नियम-से जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तर्वे भाग अधिक होती है या असंख्यातर्वे भाग अधिक होती है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानकर ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले जघन्य स्वामित्वका निर्देश कर आये हैं । उसे देखकर ओष और आदेशसे जघन्य सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए । जहां कुछ विशेषता हैं या तन्त्रान्तरसे भिन्न मतका निर्देश किया है वहां वीरसेनस्वामीने उसका अलगसे विचार किया ही है ।

इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

§ १२१. भाव सर्वत्र औदयिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

❀ अल्पवहुत्व ।

§ १२२. यह सूत्र सुगम है ।

❀ अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोफ है ।

§ १२३. सातवीं पृथिवीमें गुणितकर्मांशिक नारकीके तेतीस सागर आयुके अन्तिम समयमें विद्यमान रहते हुए यद्यपि अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य उत्कृष्ट हुआ है तो भी वह स्तोफ है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

❀ कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२४. पुब्बिल्लुत्तादो अपच्चवत्ताणं ति अणुवद्दे तेण अपच्चक्खाण-कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ति सर्वथा कायव्वो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवलि० असंखे० भागेण माणदव्वे खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तो । एदं कुदो णव्वदे ? सुत्ताविरोहिआइरियवयणादो ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२५. जदि वि एकम्मि चैव द्वाणे पदेससंतकम्ममुक्कस्सं जादं तो वि कांध-पदेसग्गादो मायापदेसग्गावलिआए असंखे० भागपडिभागेण विसेसाहियं । कुदो ? साहावियादो ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२६. केत्तियमेत्तेण ? आवलि० असंखे० भागपडिभागेण ।

❀ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२७. के० मेत्तेण ? आवलि० असंखे० भागेण लोभदव्वे खंडिदं तत्थ एयखंडमेत्तेण । कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२४. पूर्वोक्त सूत्रसे अप्रत्याख्यान इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ऐसा सम्वन्ध करना चाहिए। विशेषका प्रमाण कितना है ? अप्रत्याख्यान मानके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—सूत्राविरुद्ध आचार्यवचनसे जाना जाता है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२५. यद्यपि एक ही स्थानमें प्रदेशसत्कर्म उत्कृष्ट हुआ है तो भी क्रोधके प्रदेशाग्रसे मायाका प्रदेशाग्र आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२६. कितना अधिक है ? आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

❀ उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२७. कितना अधिक है ? लोभके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर वही जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि यह भिन्न प्रकृति है ।

❁ कोथे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२८. सुगमं ।

❁ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२९. सुगमं ।

❁ लोभस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १३०. सुगमं ।

❁ अणंताणुबंघिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १३१. सुगमं ।

❁ कोथे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १३२. सुगमं ।

❁ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १३३. सुगमं ।

❁ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १३४. सुगमं ।

❁ सम्मामिच्छुत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२८. यह सूत्र सुगम है ।

❁ उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२९. यह सूत्र सुगम है ।

❁ उससे प्रत्याख्यान लोभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३०. यह सूत्र सुगम है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३१. यह सूत्र सुगम है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३२. यह सूत्र सुगम है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३३. यह सूत्र सुगम है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३४. यह सूत्र सुगम है ।

❁ उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१३५. सत्तमाए पुढवीए अणंताणुवंधिलोभउक्कस्सदव्वादो आवलि० असंखे०भागपडिभागेण अब्भहियमिच्छत्तुक्कस्सदव्वपमाणत्तादो । सत्तमपुढवीदो उव्वट्ठिय तसकाइएसु उप्पज्जिय तत्थ तसट्ठिदिं समाणिय पुणो एइदिएसु दो-तिण्णि-भवग्गहणाणि गमिय मणुस्सेसुवज्जिय तत्थ अंतासुहुत्तवभहियअद्ववस्साणि गमिय सम्मत्तं पडिवज्जिय मिच्छत्तदव्वे सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खित्ते सम्मामिच्छत्तपदेसग-सुक्कस्सं होदि । ण च एदं दव्वमणंताणुवंधिलोभदव्वादो विसेसाहियं, सम्मत्तसरुवेण असंखेज्जपल्लिदोवमण्डमत्रग्गमूलमेत्तसमयपवद्धानं गयत्तादो' गुणसेट्ठिणिज्जराए पडि-समयमसंखे०गुणं समयपवद्धानं गल्लिदत्तादो च ? ण, दांहि वि पयारेहि णद्वदव्वस्स अणंताणुवंधिलोभदव्वे आवल्लियाए असंखे०भागेण खंडे तत्थ एयखंडमेत्तमिच्छत्त-पयडिविसेसस्स असंखे०भागमेत्तदंसणादो । तं पि कुदो ? सम्मत्तदव्वस्स गुण-संकमभागहारेण खंडिमिच्छत्तदव्वस्स एयखंडपमाणत्तादो । गुणसेटीए णद्वदव्व-भागहारस्स गुणसंकमभागहारं पेक्खिदूण असंखेज्जगुणत्तादो च । तम्हा अणंताणु-वंधिलोभदव्वादो सम्मामिच्छत्तदव्वं विसेसाहियं ति सिद्धं ।

१३५. क्योकि सातवीं पृथिवीमे अनन्तानुबन्धी लोभके उक्कष्ट द्रव्यमें आवल्लिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना मिथ्यात्वका उक्कष्ट द्रव्य सम्यग्मिथ्यात्वमें अधिक पाया जाता है ।

शंका—सातवीं पृथिवीसे निकल कर और त्रसकायिकोमे उत्पन्न होकर वहां त्रसस्थिति-को समाप्त करके पुनः एकेन्द्रियोमें दो तीन भव विताकर मनुष्योमे उत्पन्न होकर वहां अन्त-मुहूर्त अधिक आठ वर्ष जाने पर सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त करने पर सम्यग्मिथ्यात्वका उक्कष्ट प्रदेशाय होता है । परन्तु यह द्रव्य अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यसे विशेष अधिक नहीं हो सकता, क्योकि उस समय तक मिथ्यात्वके द्रव्यमेसे पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण समयप्रवद्ध सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे परिणत हो जाते हैं और गुणश्रेणिनिर्वाणके द्वारा प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणै समयप्रवद्धोका गलन हो जाता है ।

समाधान—नहीं, क्योकि इन दोनों प्रकारों से जो मिथ्यात्वका द्रव्य नष्ट होता है वह अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यमे आवल्लिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण मिथ्यात्व प्रकृति विशेषके असंख्यातवें भागमात्र देखा जाता है ।

शंका—वह भी क्यो है ?

समाधान—क्योकि गुणसंकमभागहारके द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यके भाजित करने पर जं एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण सम्यक्त्वका द्रव्य है और गुणश्रेणिके द्वारा नष्ट होनेवाले द्रव्यका भागहार गुणसंकमभागहारको देखते हुए असंख्यातगुणा है, इसलिए अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य विशेष अधिक है यह सिद्ध हुआ ।

१. सा० प्रती 'समयप्रवद्धायं गलियत्तादो' इति पाठः ।

❀ सम्मत्त उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१३६. सम्मामिच्छत्तादो सम्मत्तस्स विसेसाहियत्तं ण घट्ठे, गुणिदकम्मंसिय-
ल्लन्नवणेणागंतूण मणुस्सेसुववज्जिय अट्ठ वस्साणि गमिय पुणो दंसणमोहं खवेत्तेण
मिच्छत्तद्वे सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खित्ते सम्मामिच्छत्तमुक्कस्सं होदि । पुणो तत्तो
उत्तरि अंतोमुहुत्तं गुणसेठिणिज्जराए सम्मामिच्छत्तद्वेस्स णिज्जरणं करिय पुणो
सम्मामिच्छत्ते सगुक्कस्सदव्वादो असंखे०भागहीणे सम्मत्तस्सुवरि पक्खित्ते सम्मत्त-
द्वेस्सुक्कस्सत्तुवत्तंभादो त्ति ? ण एस दोसो, सम्मामिच्छत्ते उक्कस्से जदि संते पच्छा
गुणसेठिणिज्जराए णिज्जरिदसम्मामिच्छत्तदव्वादो पुवं सम्मत्तसरुवेण द्विदद्वेस्स
असंखे०गुणत्तुवत्तंभादो । ण च असंखेज्जगुणत्तमसिद्धं, ओकहु कहुणभागहारारो गुण-
संकमभागहारस्स असंखे०गुणहीणत्तणेण तस्सिद्धिदंसणादो ।

❀ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१३७. भवद्विदीए चरिमसमयद्विदसत्तमपुहविणेइयमिच्छत्तुक्कस्सदवं
पेक्खिदूण सम्मत्तुक्कस्सदव्वम्मि गुणसेठिणिज्जराए णिज्जिण्णपल्लिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागमेत्तसमयपवद्धाणमूणत्तुवत्तंभादो ।

❀ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममाणंतगुणं ।

❀ उससे सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१३६. शंका—सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यसे सम्यक्त्वका द्रव्य विशेष अधिक घटित नहीं
होता, क्योंकि गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर और आठ वर्ष वितारकर
पुनः दर्शनमोहका क्षण करनेवाले उसके द्वारा मिध्यात्वके द्रव्यके सम्यग्मिध्यात्वमें प्रक्षिप्त करने
पर सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य उत्कृष्ट होता है । पुनः उसके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक गुणश्रेष्ठी-
निर्जराके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यकी निर्जरा करके पुनः अपने उत्कृष्ट द्रव्यके असंख्यातवै भागहीन
सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यके सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट होनेके बाद
गुणश्रेष्ठीनिर्जराके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य निर्जीर्ण होता है तो भी उस द्रव्यके निर्जीर्ण होनेके
पूर्व ही उससे सम्यक्त्वरूपसे स्थित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है । और उसका
असंख्यातगुणा होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे गुणसंकमभागहार
असंख्यातगुणा हीन होता है, इससे उसके निर्जीर्ण होनेवाले द्रव्यसे असंख्यातगुणे होनेकी सिद्धि
हो जाती है ।

❀ उससे मिध्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१३७. क्योंकि भवस्थितिके अन्तिम समयमें स्थित हुए सातवीं पृथिवीके नारकीके
मिध्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यको देखते हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य गुणश्रेष्ठीनिर्जराके द्वारा निर्जीर्ण
होनेसे पल्यके असंख्यातवै भागमें जितने समय हों उतने समयप्रबद्धप्रमाण कम पाया जाता है ।

❀ उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ १३८. कुदो ? देसघादिचादो । पुव्वुत्तासेसपयदीओ जेण सव्वघाइल्लक्खणाओ तेण तासिं पदेसग्गं हस्सपदेसग्गस्स अणंतिमभागे ति भणिदं होदि । जदि सव्वघाइफहयाणं पदेसग्गमणंतिमभागे होदि तो हस्सस्स देसघादिफहयपदेसग्गस्स अणंतिमभागेण तस्सव्वघादिफहयाणं पदेसग्गेण होदव्वं ? होदु णाम, देसघादिफहएसु अणंताणमणुभागपदेसग्गुणाणीणं संभुवुल्लंभादो ।

❀ रदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १३९. केत्तियपेत्तेण ? हस्ससव्वदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडपेत्तेण । टोणहं पयदीणं वंधगद्धामु सरिसामु संतीसु कुदो रदिपदेसग्गस्स विसेसाहियत्तं ? ण, हुक्कमाणकाले एव तेण सरुव्वेण हुक्कणुवल्लंभादो ।

❀ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १४०. इत्थिवेदवंधगद्धादो जेण हस्स-रदिवंधगद्धा संखे०गुणा तेण रदिदव्वस्स संखे०भागेण इत्थिवेददव्वेण होदव्वमिदि ? सच्चं, एवं चेव जदि कुरवे भोत्तृण अण्णत्थ इत्थिवेददव्वस्स संचओ कदो । किंतु कुरवेसु हस्स-रदिवंधगद्धादो इत्थिवेद-

§ १३८. क्योंकि यह देशघाति प्रकृति है । यतः पूर्वोक्त अशेष प्रकृतियों सर्वघाति है, अतः उनके प्रदेश हास्यके प्रदेशोके अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यदि सर्वघाति स्पर्धकोके प्रदेश अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं तो हास्यके प्रदेशाप्रके अनन्तवें भागप्रमाण उसके सर्वघातिस्पर्धकोके प्रदेश होने चाहिए ?

समाधान—होवें, क्योंकि देशघाति स्पर्धकोमे अनन्त अनुभाग प्रदेश गुणहानियों उपलब्ध होती हैं ।

❀ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३९. कितना अधिक है ? हास्यके सब द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

शंका—दोनों प्रकृतियोंके बन्धक कालोके समान होने पर रतिका प्रदेशाग्र विशेष अधिक कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बन्ध होनेके समयमें ही उस रूपसे उसका बन्ध उपलब्ध होता है ।

❀ उससे खीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १४०. शंका—खीवेदके बन्धक कालसे यतः हास्य और रतिका बन्धक काल संख्यात-गुणा हैं, अतः रतिके द्रव्यके संख्यातवें भागप्रमाण खीवेदका द्रव्य होना चाहिए ?

समाधान—सत्य है, यदि कुस्को छोड़कर अन्यत्र खीवेदके द्रव्यका सञ्चय किया है तो स्त्री प्रकार ही सञ्चय होता है । किन्तु देवकुरु और उत्तरकुरुमें हास्य और रतिके बन्धक कालसे

1. आ०प्रवो 'तस्स सव्वघादिफहयाणं' इति पाठः ।

बंधगद्धा संखे०गुणा, लद्धणवुंसयवेदबंधगद्धावहुभागत्तादो । इत्थिवेदस्स च कुरवेसु संचओ कदो । तेण रदिदव्वादो इत्थिवेददव्वं संखेज्जगुणं ति सिद्धं ।

❀ सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४१. कुदो ? कुरवित्थिवेदबंधगद्धादो तत्थतणसोगबंधगद्धाए विसेसाहियत्तादो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? इत्थिवेदबंधगद्धाए संखे०भागमेत्तो ।

❀ अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४२. केत्तियमेत्तेण ? सोगदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तथ एयखंडमेत्तेण ।

❀ णवुंसयवेदउक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४३. कुदो ? ईसाणदेवअरदि-सोगबंधगद्धादो तत्थतणणवुंसयवेदबंधगद्धाए विसेसाहियत्तुवलंभादो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? हस्स-रदिवंधगद्धं संखेज्जखंडं करिय तत्थ बहुखंडमेत्तो ।

❀ दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४४. ईसाणदेवेसु णवुंसयवेदबंधगद्धादो दुगुंछाबंधगद्धाए ईसाणं गदिथि-

स्त्रीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा है, क्योंकि वहां पर नपुंसकवेदके बन्धक कालकी अपेक्षा स्त्रीवेदका बन्धक काल बहुभागप्रमाण उपलब्ध होता है और देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें स्त्रीवेदका सम्बन्ध प्राप्त किया गया है, इसलिए रतिके द्रव्यसे स्त्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा है यह सिद्ध होता है ।

❀ उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४१. क्योंकि देवकुरु और उत्तरकुरुमें प्राप्त होनेवाले स्त्रीवेदके बन्धक कालसे वहां पर शोकका बन्धक काल विशेष अधिक है । विशेषका प्रमाण कितना है ? स्त्रीवेदके बन्धक कालके संख्यातर्वे भागप्रमाण है ।

❀ उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४२. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

❀ उससे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४३. क्योंकि ईशान कल्पके देवोमें प्राप्त होनेवाले अरति और शोकके बन्धक कालसे वहां पर नपुंसकवेदका बन्धक काल विशेष अधिक उपलब्ध होता है । विशेषका प्रमाण कितना है ? हास्य और रतिके बन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण है ।

❀ उससे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४४. क्योंकि ईशान कल्पके देवोमें नपुंसकवेदके बन्धक कालसे जुगुप्साका बन्धक

पुरिसवेदबंधगद्धामेत्तेण विसेसाहियत्तुवलंभादो ।

❁ भये उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४५. केत्तियमेत्तेण ? दुगुंझादव्वे आवलियाए असंखे० भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण ।

❁ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४६. केत्तियमेत्तेण ? भयदव्वे आवलियाए असंखे० भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण ।

❁ कोधसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं खंखेज्जगुणं ।

§ १४७. को गुणगारो ? सादिरेयळ्खवाणि । तं जहा—मोहणीयदव्वस्स अद्धं णोकसायभागो $\frac{१}{२}$ । कसायभागो वि एत्तिओ चेव । तत्थ हस्स-सोगाणमेगो, रदि-अरदीणमेगो, भयस्स अण्णेगो, दुगुंझाए अवरोगो, वेदस्स अण्णेगो ति । एवं णोकसायदव्वे पंचहि विहत्ते पुरिसवेददव्वं मोहणीयदव्वस्स दसमभागमेत्तं $\frac{१}{१०}$ । कोहसंजलणदव्वं^१

काल ईशान कल्पवे गये हुए जीवोके खीबेद और पुरुषवेदके बन्धक कालप्रमाण होनेसे विशेष अधिक उपलब्ध होता है ।

* उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४५. कितना अधिक है ? जुगुप्साके द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

* उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४६. कितना अधिक है ? भयके द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

* उससे क्रोध संज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १४७. गुणकार क्या है ? साधिक छह अंक गुणकार है । यथा—मोहनीयके द्रव्यका अर्ध भागप्रमाण नोकपायका द्रव्य है $\frac{१}{२}$ । कपायका हिस्सा भी इतना ही है । नोकपायके द्रव्यमेसे हास्य और शोकका एक भाग है, रति और अरतिका एक भाग है, भयका अन्य एक भाग है, जुगुप्साका अन्य एक भाग है और वेदका अन्य एक भाग है । इस प्रकार नोकपायके द्रव्यमे पांचका भाग देने पर पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके द्रव्यके दसवें भागप्रमाण प्राप्त होता है $\frac{१}{१०}$ । क्रोधसंज्वलनका द्रव्य भी मोहनीयके द्रव्यके पांच बटे आठ भागप्रमाण प्राप्त होता है,

१. ता० प्रती 'हस्ससोगाणमेगो भयस्स अण्णेगो' इति पाठः ।

२. ता० प्रती $\frac{२}{३०}$ । 'कोहसंजलणदव्वं' इति पाठः ।

पि मोहणीयद्ववस्स पंचद्वभागमेत्तं,संगहिदसयलणोकसायद्ववत्तादो $\frac{५}{८}$ । पुव्विन्ल-

पुरिसवेदद्ववेण एदम्मि कोधद्ववे भागे हिदे सादिरेयद्वरूवाणि गुणगारो होदि ।

❖ माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४८. के०मेत्तेण ? सगपंचमभागमेत्तेणं ।

❖ मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४९. के०मेत्तेण ? सगद्वभागमेत्तेण ।

❖ लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५०. के०मेत्तेण ? सगसत्तमभागमेत्तेण ।

❖ पिरयगदीए सब्वत्थोवं सम्माभिच्छुत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

§ १५१. कुदो ? गुणिदकम्मंसियत्तक्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढवीए उप्पज्जिय अंतोमुहुत्तेण भिच्छत्तमुक्कस्सं काहिदि त्ति विवरीयं गंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय

क्योंकि इससे नोकषायका समस्त द्रव्य सम्मिलित है $\frac{५}{८}$ । इसलिए पूर्वोक्त पुरुषवेदके द्रव्यका

इस क्रोधके द्रव्यमे भाग देने पर साधिक छह अंक्रममाण गुणकार होता है ।

उदाहरण— $\frac{५}{८} \div \frac{१}{१०} = \frac{५}{८} \times \frac{१०}{१} = \frac{५०}{८} = ६ \frac{१}{४}$ । इससे स्पष्ट है कि पुरुषवेदके द्रव्यसे

क्रोध संव्वलनका द्रव्य साधिक छह गुणा है ।

❖ उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४८. कितना अधिक है ? अपने पाँचवें भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण—क्रोधसं $\frac{५}{८} + \frac{१}{८} = \frac{६}{८}$ मानसंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❖ उससे मायासंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४९. कितना अधिक है अपने छठे भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण— $\frac{६}{८} \times \frac{१}{६} = \frac{१}{८} ; \frac{६}{८} + \frac{१}{८} = \frac{७}{८}$ मायासंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❖ उससे लोभसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५०. कितना अधिक है ? अपने सातवें भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण— $\frac{७}{८} \times \frac{१}{७} = \frac{१}{८} ; \frac{७}{८} + \frac{१}{८} = \frac{८}{८}$ लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❖ नरकगतिमें सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक है ।

§ १५१. क्योंकि गुणितकर्मांशिकविधिसे आकर और सातवीं पृथिवीमे उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें मिध्यात्वको उत्कृष्ट करेगा पर विपरीत जाकर और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर

सामित्तचरिमसमए द्विदजीवमि मिच्छत्तपदेसग्गं पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तगुण-
संकमभागहारेण खंडिय तत्थ ह्यखंडस्स सम्माधिच्छत्तरुवेण परिणदस्सुवत्तांभादो ।

❀ अपञ्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुण्ये ।

§ १५२. सत्तमतुढविणेरइयचरिमसमए सयलदिवडुगुणहाणिमेत्तसमयपवद्धाण-
मुवत्तांभादो । को गुणगारो, सव्वजहण्णगुणसंकमभागहारो ।

❀ कोथे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५३. सुगमं ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५४. सुगमं ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५५. सुगममेदं, पयडिविसेसमेत्तकारणात्तादो ।

❀ पञ्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५६. केत्तियमेत्तेण ? अपञ्चक्खाणलोभउक्कस्सपदेससंतकम्मे आवलियाए
असंखेज्जदिभागेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तेण । कुदो ? सहावदो ।

जो जीव स्वामित्वके अन्तिम समयमें स्थित है उसके मिथ्यात्वके प्रदेशोंमें पत्यके असंख्यातवें
भागप्रमाण गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे वह सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे
परिणत हो जाता है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

१५२. क्योंकि सातवीं पृथिवीके नारकीके अन्तिम समयमें समस्त द्रव्य डेढ गुणहानि-
गुणित समयप्रवद्धप्रमाण उपलब्ध होता है । गुणकार क्या है ? सबसे जघन्य गुणसंक्रमभागहार
गुणकार है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५५. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका कारण प्रकृति विशेष है ।

❀ उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५६. कितना अधिक है ? अप्रत्याख्यान लोभके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्ममें आवलिके
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि ऐसा
स्वभाव है ।

१. ता०प्रतौ '—संतकम्मं संखेज्जगुण्यं' इति पाठः ।

❀ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५७. सुगमं, अणंतरपरुविदकारणत्तादो ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५८. कुदो ? सहावदो चय, तथा भावेणावद्वाणदंसणादो ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५९. पहिल्लसुत्तट्टिदपच्चक्खाण० लोभे उक्क० पदेससंतकम्मं विसे० एसु सुत्तेसु तिसु वि संबंधणिज्जं । सेसं सुगमं ।

❀ अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६०. सुगममेदं सुत्तचउट्टयं ।

❀ सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६१. कुदो ? गुणिककम्मंसियल्लक्खणेणागंतूण सत्तमसुहवीदो उच्चट्टिय दो-त्तिणिभवग्गहणाणि तसकाइएसुप्पज्जिय पुणो समाणित्तसट्टिट्तितादो एइदिएसुव-

❀ उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५७. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर पूर्व कारणका कथन कर आये हैं ।

❀ उससे प्रत्याख्यानमायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५८. क्योंकि स्वभावसे ही उस रूपसे अवस्थान देखा जाता है ।

❀ उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५९. पहले सूत्रमें स्थित प्रत्याख्यान पदका 'लोभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है' यहाँ तकके इन तीनों ही सूत्रोंमें सम्बन्ध कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६०. ये चारों सूत्र सुगम हैं ।

* उससे सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६१. क्योंकि जो जीव गुणितकर्मांशिकविधिसे आकर और सातवीं पृथिवीसे निकलकर त्रसकायिकोंमें दो तीन भव धारण कर अनन्तर त्रसस्थितिको समाप्त कर एकेन्द्रियोंमें

वज्जिय बद्धमणुसाब्बो मणुसेसुप्पज्जिय पज्जत्तीओ समाणिय गिरयाउअबंधपुरस्सरं पढमसम्मत्तमुपाइय दंसणमोहणीयक्खवणं पारभिय क्कदकरणिज्जो होदूण अंतोसुहुत्तमेत्तसम्मत्तगुणसेदिगोबुच्छासु अणंताणुबंधिलोभमावखियाए असंखे०भागेण खंडिय तत्थेगखंडमेत्तेण तत्तो अब्भहियदिवहुगुणहाणिपघाणं मिच्छत्तसयलदव्वं पयडिविसेसदव्वादो असंखेज्जगुणहीणगुणसेदिणिज्जराणिज्जिण्णदव्वमेत्तेणूणं धरिउण द्विदजीवमिणेइएसुप्पणपढमसमए वट्टमाणमि सम्मत्तुक्कस्सपदेससामियमि तथाभाबुवलंभादो ।

❀ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६२. केत्तियमेत्तेण ? गिरयादो उव्वट्ठिय सम्मत्तमुक्कस्सं करेमाणस्स अंतराले जहाणिसेयसरूवेण गुणसेदिणिज्जराए च णद्वदव्वमेत्तेण । तं च केत्तियं ? सगदव्वे पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तं । ण च एदं मिच्छत्तुक्कस्सपदेससामियमि असिद्धं, चरिमसमयणेइयमि गुणिदकम्मंसियलक्खणेण समाणिदकम्मट्ठिदिचरिमसमए वट्टमाणमि अविणट्टसरूवेण तस्सुचलंभादो ।

❀ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ १६३. कुदो ? देसघादित्तणेण सुलहपरिणामिकारणत्तादो । ण च अणंतिम-

उत्पन्न हो और मनुष्यायुका बन्ध कर मनुष्यामे उत्पन्न हो तथा पर्याप्तियोंको पूर्ण कर नरकायुके बन्धपूर्वक प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तथा दर्शनमोहनीयके क्षयका प्रारम्भ कर कृतकृत्य होकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण सम्यक्त्वकी गुणश्रेणि गोपुच्छाओमे, अनन्तानुबन्धी लोभको आवलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे उससे अधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यको प्रकृतिविशेषके द्रव्यसे असंख्यातगुणे हीन गुणश्रेणि निर्जराके द्वारा निर्जीर्ण हुए द्रव्यसे हीन द्रव्यको, धारण कर स्थित है उसके नारकियोंमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशोके स्वामीरूपसे विद्यमान रहते हुए उस प्रकारसे प्रदेशासत्कर्म देखा जाता है ।

❀ उससे मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशासत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६२. कितना अधिक है ? नरकसे निकलकर सम्यक्त्वको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके अन्तराल कालमे यथानिषेक क्रमसे और गुणश्रेणिनिर्जरारूपसे जितना द्रव्य नष्ट होता है उतना अधिक है ।

शंका—वह कितना है ?

समाधान—अपने द्रव्यमे पत्यके असंख्यातर्वे भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना है । और यह मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोके स्वामित्व कालमे असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि जो गुणितकर्माशिकविधिसे आकर कर्मस्थितिको समाप्त करनेके अन्तिम समयमे नरकपर्यायके अन्तिम समयवाला होता है उसके मिथ्यात्वका समस्त द्रव्य उक्त प्रकारसे नष्ट हुए बिना पाया जाता है ।

❀ उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशासत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ १६३. क्योंकि देशघाति होनेसे इसके सञ्चयका कारण सुलभ परिणाम है । अनन्तवें

भागत्तणेण त्थोवयराणं चैव सव्वघादिसरूवेण परिणमणमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए तहा परूवियत्तादो । तदो देसघादिपाहम्मेण पुब्बिज्जादो एदस्साणंतगुणत्तमिदि सिद्धं । को गुण० ? अपवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतभागमेत्तो ।

❀ रदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६४. सुबोहमेदं सुत्तं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो ।

❀ इत्थिवेदे उक्कसपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १६५. कुदो ? गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागतूण असंखेज्जवस्साउएसु इत्थिवेदपदेससंतकम्मं गुणेदूण अगदिकागदिण्णाएण दसवस्ससहस्साउअदेवेसुप्पज्जिय तसद्धिदीए समत्ताए एइदिएसु सव्वजहण्णमतोमुहुत्तमच्छिय णांतरीयण्णाएण पंचिदिएसु-ववज्जिय णिरयाउअं वंधिदूण णेरइएसुप्पणपढमसमए वट्टमाणम्मि इत्थिवेदुक्कसपदेस-सामियणेइयम्मि ओघपरूविदबंधगद्धामाहप्पमस्सियूण कुरवेसु लद्धओपुक्कसपदेस-संतकम्मादो किंचूणस्स पयडित्थिवेदुक्कसदव्वस्स रदीए संखेज्जगुणहीणबंधगद्धा-संचिदुक्कससंतकम्मादो संखेज्जगुणत्तं पडि विरोहाभावादो । ण च अवंतराले गहदव्वं पैक्खिदूण तस्स तहाभावविरोहो आसंकणिज्जो, असंखे०भागत्तणेण तस्स पाहणिया-

भागरूपसे स्तोको परमाणुओंका ही सर्वघातिरूपसे परिणमन होता है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि भागभागपरूपणामें उस प्रकार कथन कर आये हैं । इसलिए देशघातिकी प्रधानता होनेसे पूर्वोक्त प्रकृतिसे यह अनन्तगुणी है यह बात सिद्ध है । गुणकार क्या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोके अनन्तवें भागप्रमाण गुणकार है ।

❀ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६४. यह सूत्र सुबोध है, क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

❀ उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १६५. क्योंकि जो गुणितकर्मांशविधिसे आकर असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर और स्त्रीवेदके प्रदेशसत्कर्मको गुणित करके अगतिका गति न्यायके अनुसार दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोमे उत्पन्न होकर तथा त्रसस्थितिके समाप्त होने पर एकेन्द्रियोंमें सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल तक रहकर नान्तरीय न्यायके अनुसार पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और नरकायुका बन्ध करके नारकियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म करके स्थित है उसके यद्यपि ओषमे कहे गये बन्धक कालके माहात्म्यके अनुसार देवकुरु और उत्तरकुरुमें प्राप्त हुए ओष उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे कुछ कम द्रव्य पाया जाता है फिर भी प्रकृति स्त्रीवेदका उत्कृष्ट द्रव्यके रतिके संख्यातगुणे हीन बन्धक कालके भीतर सञ्चित हुए उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्मसे-संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता । यदि कोई ऐसी आशंका करे कि जिस स्थलमें ओष उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होता है उस स्थलसे लेकर यहाँ तकके अन्तरालमें नष्ट हुए द्रव्यको देखते हुए उसका तत्प्रमाण होनेमें विरोध आता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरालमें जो द्रव्य नष्ट होता है वह कुल द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए

भावादो इत्थिवेदपयडिविसेसादो वि तस्स असंखे०गुणहीणत्तादो च ।

❀ सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६६. सुगममेदं सुत्तं, ओघम्मि परुविदकारणत्तादो ।

❀ अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६७. के०मेत्तेण ? सोगद्ववमावलियाए असंखे०भागेण खंडिदेयखंडमेत्तेण ।

कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ एणुं सयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६८. ण एत्थ किंचि वत्तव्वमत्थि, ओघम्मि परुविदबंधगद्धाविसेसमासेज्ज विसेसाहियत्तिसिद्धीदो । ण च बंधगद्धाविसेससंचओ गेरइयम्मि असिद्धो, ईसाण-देवेचरगेरइयम्मि परमणिरुद्धकालेण पत्तत्तपज्जायम्मि किंचूणसगोघुक्कस्ससंचयसिद्धीए वाहाणुवत्तंभादो ।

❀ दुगुं छाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६९. धुवबंधित्तेण इत्थि-पुरिसवेदबंधगद्धासु वि संचयुवत्तंभादो ।

❀ भए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

उसकी कोई प्रधानता नहीं है । तथा स्त्रीवेदरूप प्रकृतिविशेष होनेके कारण भी वह असंख्यातगुणा हीन है ।

* उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणका निर्देश ओघ प्ररूपणाके समय क्रम आये है ।

* उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६७. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यसे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आये उतना अधिक है, क्योंकि इसका कारण प्रकृति विशेष है ।

* उससे नपुंसकवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६८. यहां पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि ओघमें कहे गये बन्धक कालका आश्रय लेकर इसके विशेष अधिकपनेकी सिद्धि होती है । यदि कहा जाय कि बन्धक काल विशेषमें होनेवाला सञ्चय नारकियोंमें नहीं बनता सो भी बात नहीं है, क्योंकि जो ईशान करुणका देव क्रमसे नारकियोंमें उत्पन्न होता है उसके यथासम्भव कमसे कम कालके द्वारा उस पर्यायिके प्राप्त होने पर कुछ कम अपने ओघ उत्कृष्ट द्रव्यके सञ्चयकी सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं आती ।

* उससे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६९. क्योंकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है, इसलिए इसका स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धक कालोंमें भी सञ्चय होता रहता है ।

* उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

६. आ०प्रतौ 'ईसाणदेवे च गेरइयम्मि' इति पाठः ।

§ १७०. पयडिविसेसस्स तारिसत्तादो ।

❀ पुरिसवेदे उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७१. अपडिवक्खत्तेण धुवबंधिणो भयस्स णिरंतरसंचिदुक्कस्सदव्वादो सप्यडिवक्खपुरिसवेदपदेसग्गस्स कथं विसेसाहियत्तं ? ण, एदस्स वि सोहम्मे पल्लिदो-वमाउट्ठिदिअब्भंतरे सम्मतगुणपाहम्मेण असवत्तस्स धुवबंधिणेण पूरपुवत्तंभादो । ण च णिरयगईए इदमसिद्धं, सव्वलहुएण कालेण अविणट्ठेणेयत्तेण संचिददव्वेण णेरइए-सुप्पणणपहमसमए तस्सिद्धीदो । एवमविं दोण्हं धुवबंधीणं पदेसग्गेण सरिसेण होदव्वमिदि ण वोत्तुं जुत्तं, पयडिविसेसेण आवलियाए असखेज्जदिभागेण खंडिदेय-खंडमेत्तेण उवसमसेठीए गुणसंक्रमभागहारेण पडिच्छिदणोकसायदव्वमेत्तेण च पुरिस-वेदस्स विसेसाहियत्तवत्तंभादो ।

❀ माणंसजलणे उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७२. कुदो ? पुरिसवेदभागादो माणंसजलणस्स भागस्स चउवभाग-

§ १७०. क्योंकि प्रकृति विशेष होनेसे यह इसी प्रकारकी है ।

❀ उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७१. शंका—भय अप्रतिपन्न और ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है, अतः निरन्तर सञ्चित हुए उसके उत्कृष्ट द्रव्यसे सप्रतिपन्नरूप पुरुषवेदका प्रदेशसमूह विशेष अधिक कैसे अधिक हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सौधर्म कल्पमे आयुकी एक पत्यप्रमाण स्थितिके भीतर सम्यक्त्व गुणकी प्रधानतासे प्रतिपन्न रहित इस प्रकृतिमें भी ध्रुवबन्धीरूपसे प्रदेशोकी पूर्ति उपलब्ध होती है । यदि कहा जाय कि नरकगतिमें यह अस्सिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्योंकि अतिशीघ्र कालके द्वारा इस प्रकार सञ्चित हुए द्रव्यको नष्ट किये बिना जो नारकियोंमें उत्पन्न होता है उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उसकी सिद्धि होती है ।

शंका—इस प्रकार होने पर भी दोनों ही ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंका प्रदेशसमूह समान होना चाहिए ?

समाधान—यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक तो प्रकृतिविशेष होनेके कारण आवलिके असंख्यातवें भागसे भयका द्रव्य भाजित होकर जो एक भाग लब्ध आवे उतना पुरुष-वेदमें विशेष अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है । दूसरे उपशमश्रेणिमे गुणसंक्रमभागहारके द्वारा नोकपायोंका द्रव्य इसमें संक्रान्त हो जानेसे भी इसका द्रव्य विशेष अधिक उपलब्ध होता है । इसलिए ध्रुवबन्धिनी होते हुए भी इन दोनों प्रकृतियोंका द्रव्य एक समान नहीं है ।

❀ उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७२. क्योंकि पुरुषवेदके भागसे मानसंज्वलनका भाग एक चौथाई अधिक उपलब्ध

अहियत्तुवलंभादो । तं जहा—पुरिसवेददव्वं मोहणीयसव्वदव्वं पेक्खियूण दसमभागो होदि, मोहसव्वदव्वस्स कसाय-णोकसायाणं समपविभत्तस्स पंचमभागत्तादो कसाय-णोकसायदव्वेसु पुरिसवेदभागपमाणेण कीरमाणेसु पुथ पुथ पंचसल्लागाणसुवलंभादो च । माणसंजलणदव्वं पुण मोहणीयसव्वदव्वं पेक्खियूण अट्ठमभागो, कसायभागस्स संजलणेसु चउद्धा विहज्जिय द्विदत्तादो । तदो मोहसयलदव्वदसमभागभूदपुरिसवेद-सव्वसंचयादो तदट्ठमभागमेत्तमाणसंजलणपदेससंचओ चउढभागअहियो ति सिद्धं, तम्मि तप्पमाणेण कीरमाणे चउढभागअहियसयलेगसल्लागुवलंभादो ।

॥ १७३. एत्थ अब्बुप्पणवुप्पायणट्ठं संदिट्ठिविहिं वचइस्सामो । तं जहा—
मोहणीयसयलदव्वपमाणं चालीस ४० । तदद्धमेत्तो कसायभागो एसो २० ।
णोकसायभागो वि तत्तिओ चव २० । पुणो णोकसायभागे पंचहि भागे हिदे भाग-
लद्धमेत्तमेत्तियं पुरिसवेददव्वपमाणमेदं होदि ४ । कसायभागे वि चट्ठहि भागे हिदे
लद्धमेत्तं पमाणं संजलणदव्वमेत्तियं होदि ५ । एदं च पुरिसवेदभागे चउहि भागे हिदे
जं भागलद्धं तम्मि तत्थेव पक्खित्ते उप्पज्जदि ति तस्स तदो चउढभागअहियत्त-

होता है । यथा—पुरुषवेदका सब द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यको देखते हुए दसवें भागप्रमाण है, क्योंकि एक तो मोहनीयके सब द्रव्यको कषाय और नोकषायमें समानरूपसे विभक्त कर देने पर पुरुषवेदका द्रव्य प्रत्येकके पाँचवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । दूसरे कषाय और नोकषायके द्रव्यके पुरुषवेदका जो भाग हो तत्प्रमाणरूपसे विभक्त करने पर अलग अलग पाँच शलाकाएँ उपलब्ध होती हैं । परन्तु मानसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यको देखते हुए उसके आठवें भाग-प्रमाण है, क्योंकि कषायका द्रव्य संज्वलनोमें चार भागरूप विभक्त होकर स्थित है । इसलिए मोहनीयके सब द्रव्यके दसवें भागरूप पुरुषवेदके समस्त सञ्चयसे मोहनीयके समस्त द्रव्यके आठवें भागरूप मानसंज्वलनका प्रदेशसञ्चय एक चतुर्थांशप्रमाण अधिक है यह सिद्ध हुआ, क्योंकि इस द्रव्यको पुरुषवेदके द्रव्यके प्रमाणरूपसे करने पर चतुर्थ भाग अधिक एक शलाका उपलब्ध होती है ।

विशेषार्थ—तात्पर्य यह है कि पहिले मोहनीयके सब द्रव्यको आधा कषायमें और आधा नोकषायमें विभक्त कर दो । उसके बाद कषायके द्रव्यका एक चौथाई मानसंज्वलनको दो और नोकषाय द्रव्यका एक पञ्चमंश पुरुषवेदको दो । इस प्रकारसे विभाग करने पर मानसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके समस्त द्रव्यके आठवें भागप्रमाण प्राप्त होता है और पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके समस्त द्रव्यके दसवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदके द्रव्यसे मानसंज्वलनका द्रव्य एक चौथाई अधिक कहा है ।

॥ १७३. अब यहाँ पर अब्बुत्पन्न जीवोंकी व्युत्पत्ति बढ़ानेके लिए संदट्ठिविधि बतलाते हैं ।
यथा—मोहनीयके समस्त द्रव्यका प्रमाण ४० है । उसके अर्धभागप्रमाण कषायका द्रव्य यह है २० । नोकषायका भाग भी उतना ही है २० । पुनः नोकषायके भागमें पाँचका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना पुरुषवेदका द्रव्य होता है । उसका प्रमाण यह है ४ । कषायके भागमें भी चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आता है वह मानसंज्वलनका द्रव्य होता है । उसका प्रमाण यह है ५ । पुनः पुरुषवेदके भागमें चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उसे उसीमें मिला देने पर यह मानसंज्वलनका द्रव्य उत्पन्न होता है, इसलिए यह मानसंज्वलनका

मसंदिद्धं सिद्धं ।

❊ कोधसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७४. सुगममेत्थ कारणं, पयडिविसेसस्स बहुसो परूविदत्तादो ।

❊ मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७५. पयडिविसेसस्स तहाविहत्तादो ।

❊ लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७६. एत्थ जइ वि संदिट्ठीए चउण्हं संजलणाणं भागा सरिसा तहा वि अत्थदो पयडिविसेसेण आवलियाए असंखे भागपडिभागिण विसेसाहियत्तमत्थि चेवे त्ति घेतव्वं । सेसं सुगमं ।

एवं गिरयगइओघुक्कस्सदंडओ समत्तो ।

❊ एवं सेसाणं गदीणं णादूण षोदव्वं ।

§ १७७. एदस्स अप्पणामुत्तस्स संखेवरुइसिस्साणुग्गहट्ठं दब्बट्ठियणयावलंबणेण पयट्ठस्स पज्जवट्ठियपरूवणा पज्जवट्ठियजणाणुग्गहट्ठं कीरदे । तं जहा—एत्थ ताव गिरयगईए चेव पुट्ठविभेदमासेज्ज विसेसपरूवणा कीरदे । कथं पुण एदस्स गिरयगईदो अन्वदिरित्तस्स सेसत्तं जदो इमा परूवणा मुत्तसंबद्धा हवेज्ज त्ति ? ण एस

द्रव्य पुरुषवेदके द्रव्यसे एक चौथाई अधिक है यह असंदिग्ध रूपसे सिद्ध हुआ ।

❊ उससे क्रोधसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७४. यहाँ पर कारणाका निर्देश सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेषरूप कारणाका अनेक बार कथन कर आये हैं ।

❊ उससे मायासंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७५. क्योंकि प्रकृतिविशेष इसी प्रकारकी होती है ।

❊ उससे लोभसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७६. यहाँ पर यद्यपि संदृष्टिमें चारों संज्वलनोंके भाग समान दिखलाये हैं तथापि वास्तवमें प्रकृतिविशेष होनेके कारण आवलिके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागके अनुसार माया-संज्वलनके द्रव्यसे लोभसंज्वलनका द्रव्य विशेष अधिक ही है, ऐसा यहाँपर ग्रहण करना चाहिए ।

इस प्रकार नरकगतिसम्बन्धी ओष उत्कृष्ट दण्डक समाप्त हुआ ।

❊ इसी प्रकार शेष गतियोंमें जानकर अल्पबहुत्व ले जाना चाहिए ।

§ १७७. संक्षेप रुचिवाले शिष्योंके अनुग्रहके लिए द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त हुए इस मुख्य सूत्रका पर्यायार्थिक शिष्योंका अनुग्रह करनेके लिए विशेष कथन करते हैं । यथा—सर्व प्रथम यहाँपर नरकगतिके ही पृथिवीभेदोंके आश्रयसे विशेष कथन करते हैं ।

शंका—यदि यह सूत्र नरकगतिके अप्रत्यक्ष अर्थका कथन करता है तो फिर सूत्रमें 'शेष' पदका प्रयोग कैसे किया जिससे यह कथन सूत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला होवे ?

दोसो, सामण्णादो विसेसाणं कथंचि भेददंसणेण सेसत्तसिद्धीदो । 'उपयुक्तादन्यः शेष' इति न्यायात् ।

§ १७८. तत्थ पढमपुढवीए णिरओघभंगो । विदियादि जाव सत्तमि चि एवं चेव । णवरि सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं सव्वत्थोवं कादव्वं, कदकरणिज्जस्स तत्थुप्पत्तीए अभावादो । तत्तो सम्मामिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखे०गुणं । कारणं सुगमं । एत्तिओ चेव विसेसो णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि ।

§ १७९. तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पज्जत्ताणं देवगईए देवाणं च सोहम्मादि जाव सव्वट्टसिद्धि चि पढमपुढविभंगो । णवरि सामिच्चविसेसो जाणेयव्वो । पंचि०तिरि०जोणिणी०पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज०-भवण०-वाण०-जोदिसियाणं विदियादिपुढविभंगो । मणुसतियस्स ओघभंगो । संपहि सेसमग्गणाणं देसामासिय-भावेण इंदियमग्गणेयदेसभूदएइंदिएसु त्थोववहुत्तपरुवणट्टमुत्तरसुत्तकलावं भण्णदि ।

❀ एइंदिएसु सव्वत्थोवं सम्मत्तं उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

§ १८०. एत्थ एइंदिएसु चि सुत्तणिहे सो' सेसिंदियपडिसेहफलो । सव्वेहितो उवरि बुच्चमाणसव्वपदेसेहितो थोवं अप्परं सव्वत्थोवं । किं तं ? सम्मत्ते उक्कस-

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्यसे अपने अत्रान्तर भेदोमे कथञ्चित् भेद देखा जाता है, इत्तलिए 'शेष' पद द्वारा उनके ग्रहणकी सिद्धि होती है। विवक्षित विषयसे अन्य 'शेष' कहलाता है ऐसा न्यायवचन है।

§ १७८. यहाँ प्रथम पृथिवीमे सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक इसीप्रकार भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इन पृथिवियोंमे सम्यक्त्वमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक करना चाहिए, क्योंकि वहाँपर कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता। उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है। कारण सुगम है। इन पृथिवियोंमें इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र कहीं भी अन्य विशेषता नहीं है।

§ १७९. तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त, देवगतिमे सामान्य देव आर सोधर्मसे लेकर सर्वाथिसिद्धि तकके देव इनमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग हैं। इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्वामित्व जान लेना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी इनमे दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है। मनुष्यत्रिकमे ओषधके समान भङ्ग है। अब शेष मार्गाणाओके देशामर्षकरूपसे इन्द्रियमार्गाणाके एकदेशभूत एकेन्द्रियोंमे अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रकलाप कहते हैं—

❀ एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक है।

§ १८०. यहाँ 'एकेन्द्रियोंमें' इस प्रकार सूत्रमें निर्देशका फल शेष इन्द्रियोंका निषेध करना है। सबसे ऊपर कहे जानेवाले सब प्रदेशोंसे स्तोक अर्थात् अल्पतरको सर्वस्तोक कहते हैं।

१. आमतौर 'सुत्तविहृती' इति पाठः ।

पदेससंतकम्मं । सेसपयडिपडिसेइफलो सम्पत्तिणहे सो । अणुक्कस्सादिवियप्पणिवारण-
फलो उक्कस्सपदेससंतकम्मणिहे सो । उवरि बुच्चमाणासेसपयडिपदेसुक्कस्ससंचयादो
सम्पत्तुक्कस्सपदेससंतकम्मं थोवयरं ति वुत्तं होइ ।

❀ सम्मामिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ १८१. को गुणगारो ? सम्पत्तगुणसंकमभागहारस्स असंखेज्जदिभागो ।
तस्स को पडिभागो ? सम्मामिच्छत्तगुणसंकमभागहारपडिभागो । कुदो ? गुणिद-
कम्मसियलक्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढवीए उप्पज्जिय सगाउट्टिदीए अंतोमुहुत्ताव-
सेसियाए विवरीयभावं गंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणि
सव्वजहण्णगुणसंकमभागहारेणावूरिय सव्वलहुं मिच्छत्तं गंतूणुव्वट्टिसमाणे पच्छायद-
पंचिदियतिरिक्खभवग्गहणे एइदिएसुप्पण्णपढमसमयवट्टमाणजीवे सम्पत्तादेसुक्कस्स-
दव्वादो सम्मामिच्छत्तुक्कस्सपदेससंतकम्मस्स गुणसंकमभागहारविसेसादो तहाभावुव-
लंभादो । भागहारविसेसो च कत्तो णव्वदे ? गुणसंकमपढमसमए मिच्छत्तादो जं
सम्मत्ते संकमदि पदेसगं तं थोवं । तम्मि चैव समए सम्मामिच्छत्ते संकमदि पदेसग-
मसंखेज्जगुणं । पढमसमए, सम्मामिच्छत्तसरूवेण संकंतपदेसपिंडादो विदियसमए
सम्पत्तसरूवेण संकमंतपदेसगमसंखेज्जगुणं । तम्मि चैव समए सम्मामिच्छत्ते संकंत-

सर्वस्तोक क्या है ? सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म । सूत्रमें 'सम्यक्त्व' पदके निर्देशका फल
शेष प्रकृतियोंका प्रतिषेध करना है । 'उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म' पदके निर्देशका फल अनुत्कृष्ट आदि
विकल्पोका निवारण करना है । आगे कहे जानेवाले समस्त प्रकृतियोंके प्रदेशोके उत्कृष्ट सञ्चयसे
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म स्तोकरतर है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀ उससे सम्यग्मिध्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ १८१. गुणकार क्या है ? सम्यक्त्वके गुणसंक्रमभागहारके असंख्यातर्वे भागप्रमाण
गुणकार है । उसका प्रतिभाग क्या है ? सम्यग्मिध्यात्वका गुणसंक्रमभागहार प्रतिभाग है, क्योंकि
जो जीव गुणितकर्मांशिक विधिसे आकर और सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होकर अपनी आयु-
स्थितिमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर मिध्यात्वसे विपरीत भावको जाकर और उपशमसम्यक्त्वको
प्राप्त कर सबसे जघन्य गुणसंक्रम भागहारके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वको पूरकर और अतिशीघ्र
मिध्यात्वको प्राप्त कर मर कर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें उत्पन्न हो अनन्तर मर कर एकेन्द्रियोंमें
उत्पन्न होकर उसके प्रथम समयमें विद्यमान है उसके सम्यक्त्वके आदेश उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा
सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म गुणसंक्रमभागहार विशेषके कारण उस प्रकारका अर्थात्
सम्यक्त्वके उत्कृष्ट द्रव्यसे असंख्यातगुणा अधिक पाया जाता है ।

शंका—भागहारविशेष किस कारणसे जाना जाता है ?

समाधान—गुणसंक्रमके प्रथम समयमें मिध्यात्वमेंसे जो प्रदेशसमूह सम्यक्त्वमें संक्रमण
को प्राप्त होता है वह स्तोक है । उसी समयमें जो प्रदेशसमूह सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त
होता है वह उससे असंख्यातगुणा है । प्रथम समयमें सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त हुए
प्रदेशपिण्डसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड असंख्यातगुणा है ।

पदेसगमसंखेज्जगुणं ति एदस्स' अत्यविसेसस्स उवरि सुत्तणिवद्धस्स दंसणादो । अंतोमुहुत्तगुणसंकमकालवभंतरावुरिद' सम्मत्तसव्वदव्वसंदोहादो गुणसंकमकालचरिमेग-समयपडिच्छिदसम्माभिच्छत्तपदेसपुंजस्स असंखेज्जगुणत्तवलद्धीदो च ततो तस्स तहा-भावो ण विरुज्जभादे ।

❀ अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

१८२. एत्य कारणं बुच्चदे । तं जहा-सम्माभिच्छत्तं मिच्छत्तसयल-दव्वस्स असंखे० भागो, गुणसंकमभागहारेण खंडिदेयखंडमेतस्सेव मिच्छत्तदव्वादो' सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तसरुवेण परिणमणुवलंभादो । अपच्चक्खाणमाणो पुण मिच्छत्त-सरिसो चेव, पयडिविसेसस्स अप्पाहणियादो । तदो मिच्छत्तस्स असंखे० भागमेत्त-सम्माभिच्छत्तदव्वादो थोरुच्चएण मिच्छत्तसरिसअपच्चक्खाणमाणपदेससंतकम्ममसंखेज्ज-गुणं ति ण एत्य संदोहो । को गुणगारो ? सव्वजहणणगुणसंकमभागहारो ।

❀ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १८३. पयडिविसेसेण पुच्चिल्लदव्वे आवाल्याए असंखे० भागेण खंडिदे तत्थेयखंडपमाणेण ।

तथा उसी समयमें सन्यग्मिध्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड उससे असंख्यातगुणा है इस प्रकार यह अर्थविशेष आगे सूत्रमें निबद्ध हुआ देखा जाता है । तथा गुणसंकमके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कालके भीतर जो द्रव्यसमूह सम्यक्त्वको मिलता है उससे गुणसंकम कालके अन्तिम एक समयमें सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रान्त हुआ प्रदेशपुञ्ज असंख्यातगुणा है, इसलिए संक्रम भागहारके उस प्रकारके होनेमें विरोध नहीं आता ।

* उससे अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ १८२. यहाँ पर कारणका कथन करते हैं । यथा—सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य मिध्यात्वके समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि गुणसंकम भागहारका भाग देने पर लब्ध एक भागप्रमाण द्रव्य ही मिध्यात्वके द्रव्यमें से सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वरूपसे परिणामन करता हुआ उपलब्ध होता है । परन्तु अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य मिध्यात्वके ही समान है, क्योंकि प्रकृतिविशेषकी प्रधानता नहीं है । इसलिए मिध्यात्वके असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यसे मौटे रूपसे मिध्यात्वके समान अप्रत्याख्यान मानका प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है इसमें सन्देह नहीं है । गुणकार क्या है ? सबसे जघन्य गुणसंकम भागहार गुणकार है ।

* उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । यहाँ पूर्वके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

१. ता० प्रती '—संखेज्जगुणं एदस्स' इति पाठः । २. ता० प्रती '—गुणसंकमविदालवभंतरा-वुरिद' इति पाठः । ३. ता० प्रती 'मिच्छत्तादो दव्वादो' इति पाठः ।

❀ **मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८४. कुदो ? पयडिविसेसादो । केत्तियमेत्तेण ? कोधदच्चमावळियाए असंखे-
भागेण खंडेयुण तत्थेयखंडमेत्तेण । एदं कुदो णव्वदे ? परमशुरुणमुत्तदेसादो । ण
चप्पल्लओ', णाणविण्णाणसंपण्णाणं तेसिं भयवंताणं सुसावादे पयोजणाभावादो ।

❀ **लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८५. कुदो, पयडिविसेसेण, पुव्वुत्तपमाणेण पयडिविसेसादो चेय एदस्स
अहियत्तुवलंभादो ।

❀ **पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८६. जइ वि सञ्चेसिं कसायाणमोपुक्कस्सपदेससंतकम्मसामियणेरइयचर-
णीवे पच्चयायदंपंचिदियतिरिक्खभवग्गहणम्मि एइदिएसुप्पण्णपढमसमए वट्टमाणम्मि
अक्कमेण सामित्तं जादं तो वि विस्ससादो चेय पुविन्वलादो एदस्स विसेसाहियत्तं
पडिवज्जेयव्वं, जिणाणमण्णणहावाइत्तादो । ण हि रागादिअविज्जासंचुम्भुका जिणिंदा
वितथनुवइसंति', तेसु तकारणाणमणुवल्लदीए ।

❀ **कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

* उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८४. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । कितना अधिक है ? क्रोधके द्रव्यमें आवलिके
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है । परन्तु वे चपल नहीं हो सकते, क्योंकि
ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न भगवत्स्वरूप उनके मृषा भाषण करनेका कोई प्रयोजन नहीं है ।

* उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८५. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है, अतः प्रकृतिविशेष होनेके कारण ही इसका प्रमाण
पूर्वोक्त प्रकृतिके प्रमाणसे अधिक पाया जाता है ।

* उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८६. यद्यपि सभी कषायोंका ओषसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म नारकियोंके अन्तिम समयमें
प्राप्त होता है, इसलिए वहाँसे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें भव धारण करनेके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न
होने पर उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुए सबका एक साथ उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ
है तो भी स्वभावसे ही पहलेकी प्रकृतिसे इसका द्रव्य विशेष अधिक जानना चाहिए, क्योंकि
जिनदेव अन्यथावादी नहीं होते । तात्पर्य यह है कि रागादि अविद्या संघसे रहित जिनेन्द्रदेव
असत्य उपदेश नहीं करते, क्योंकि उनमें असत्य उपदेश करनेका कारण नहीं पाया जाता ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१. आ०प्रतौ 'चपललो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'वितथ (य) सुवइसंति' आ० प्रतौ
'वितथसुवइसंति' इति पाठः ।

§ १८७. कुदो ? सहावविसेसादो । न हि भावस्वभावाः पर्य्युज्याः,
अन्यत्रापि तथात्तिप्रसङ्गात् । विशेषप्रमाणं सुगमं, असकृद्दिमृष्टत्वात् ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १८८. सुगममेदं, पयडिविसेसवसेण तथाभावुलंभादो ।

❀ कोमे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १८९. एदं पि सुगमं, विस्ससापरिणामस्स तारिसत्तादो ।

❀ अण्ताणुखंधिमाणो उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९०. पयडिविसेसेण आवलियाए^१ असंखे०भागपडिभागिएण । कुदो ?

पयडिविसेसादो ।

❀ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९१. सुगममेदं, पयडिविसेसेण तथावद्विदत्तादो ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९२. विस्ससादो आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदणुविल्लदव्वमेत्तेण

§ १८७. क्योंकि ऐसा स्वभावविशेष है । और पदार्थों के स्वभाव शंका करने योग्य नहीं होते, क्योंकि अन्यत्र वैसा मानने पर अतिप्रसङ्ग दोष छाता है । विशेषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि उसका अनेक बार परामर्श कर आये हैं ।

* उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेके कारण उसरूपसे उसकी उपलब्धि होती है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८९. यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि स्वभावसे इसका इसप्रकारका परिणामन होता है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९०. कारण कि प्रकृतिविशेष आवलिके असंख्यातवें भागके प्रतिभागरूपसे है, क्योंकि प्रकृतिविशेष है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेके कारण यह उस प्रकारसे अवस्थित है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९२. क्योंकि पूर्वोक्त प्रकृतिके द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना इसमे स्वभावसे अधिक उपलब्ध होता है ।

१. आ० प्रती 'विलेसाहियं । आवलियाए' इति पाठः ।

अहियत्तुवलंभादो । एदं कुदो णव्वदे ? परमाइरियाणमुवएसोदो ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६३. सुगममेत्थ कारणं, अणंतरणिद्धिच्चादो ।

❀ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६४. जदि वि दोण्हमेदासिं पयडीणमेयत्थ चेव' गुणित्कम्मंसियणेरइयचर-
पच्छायदपंचिदियतिरिखववग्गहणमिच्छाइद्विजीवे एइंदिएसुप्पणपदमसमयसंदिदे
सामित्तं जादं तो वि पयडि विसेसेण विसेसाहियत्तं मिच्छत्तस्स ण विरुद्धदे, बज्ज-
क्रारणादो अब्भंतरकारणस्स वल्लिच्चादो ।

❀ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ १६५. कुदो ? सव्वघाइत्तेण पुव्वुत्तासेसपयडीणं पदेसपिहस्स देसघादि-
हस्सपदेसपुंजं पेक्खियुणाणंतिमभागत्तादो । णेदमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए तथा
साहियत्तादो ।

❀ रदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६६. जइ वि दोण्हमेदासिं पयडीणं वंधगद्धाओ सरिसाओ तो वि पयडि-

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम आचार्यों के उपदेशसे जाना जाता है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६३. यहाँ कारणका निर्देश सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर निर्देश कर आये हैं ।

❀ उससे मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६४. यद्यपि अनन्तानुबन्धी लोभ और मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंका गुणित
कर्मांशिक नारक्तियोंसे आकर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मिथ्यादृष्टि होनेके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न
होनेके प्रथम समयमें स्थित रहते हुए एक ही स्थानमें उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ है तो भी
प्रकृतिविशेष होनेके कारण मिथ्यात्वके द्रव्यका विशेष अधिक होना विरोधको नहीं प्राप्त होता,
क्योंकि बाह्य कारणकी अपेक्षा आन्तरिक कारण बलिष्ठ होता है ।

* उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ १६५. क्योंकि पूर्वोक्त अशेष प्रकृतियाँ सर्वथाति हैं । उनका प्रदेशमिण्ड देशाति
हास्य प्रकृतिके प्रदेशपुञ्जकी अपेक्षा अनन्तर्वे भागप्रमाण है । और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि
भागाभागपरूपणामे उस प्रकारसे सिद्ध कर आये हैं ।

❀ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६६. यद्यपि इन दोनों प्रकृतियोंका बन्धक काल समान है तो भी प्रकृतिविशेष होनेके

विसेसमासेज्ज विसेसाहियत्तं ण विरुद्धं, हुक्कमाणकाले चैय तहाभाहेण परिणाम-
दंसणादो ।

❀ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १६७. कुरवेसु हस्स-रदिवंधगद्धादो संखेज्जगुणसगबंधगद्धाए इत्थिवेदं पूरेऊण
दसवस्ससहस्साअदेवेसु थोवयरदन्वमधद्विदीए गालेगुण एईदिएसुप्पण्णपढमसमय-
महियद्वियजीवम्मि तस्स तदो संखेज्जगुणत्तुवत्तंभादो ।

❀ सोगे उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६८. सुगममेदं, ओघपरुविदबंधगद्धाविसेसवसेण संखे०भागवमहियत्तुव-
त्तंभादो ।

❀ अरदीए उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६९. सुगमं, पयडिविसेसस्स असइं परुविदत्तादो ।

❀ णवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २००. कुदो ईसाणदेवाणमरदि-सोगबंधगद्धादो विसेसाहियत्तत्थतणतस-
यावरबंधगद्धासंबंधिणवुंसयवेदबंधकाले संबिदत्तादो ।

कारण इसका विशेष अधिक होना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस प्रकृतिरूप बन्ध होते
समय या संक्रमण होते समय ही इस प्रकारका परिणमन देखा जाता है ।

❀ उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १६७. क्योंकि जो जीव देवकुरु और उत्तरकुरुमें हास्य और रतिके बन्धक कालसे
संख्यातगुणे अपने बन्धक कालके भीतर स्त्रीवेदको पूरकर अनन्तर दस हजार वर्षकी आयुवाले
देवोमें अधःस्थितिगलनाके द्वारा अत्यन्त स्तोक द्रव्यको गला कर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होता
है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्थित रहते हुए स्त्रीवेदमें रतिके द्रव्यसे संख्यातगुणा
द्रव्य पाया जाता है ।

❀ उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओघमें कहे गये बन्धक काल विशेषके वरसे
शोकमें संख्यातवर्षों भाग अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है ।

❀ उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६९. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेषरूप कारणका अनेक बार कथन कर
आये हैं ।

* उससे नपुंसकवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २००. क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें अरति और शोकके बन्धक कालसे वहाँ के अस
और स्थावरके बन्धककालसम्बन्धी विशेष अधिक कालमें नपुंसकवेदका सञ्चय होता है ।

❀ दुगुं छाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०१. धुवबंधित्तेण इत्थि-पुरिसवेदवंधगद्दासु वि संचवत्तंभादो ।

❀ भए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०२. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०३. केत्तियमेत्तेण ? भयदन्वमावल्याए असंखेज्जदिभाएण खंडेयूण तत्थेयखंडमेत्तेण । कुदो ? सोहम्मो सम्मत्तपहावेण धुवबंधित्ते संते पुरिसवेदस्स पयडि-विसेसादो अहियत्तुवत्तंभादो ।

❀ माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०४. के०मेत्तेण ? पुरिसवेददन्वचउत्तभागमेत्तेण । सेसं सुगमं ।

❀ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०५. एत्थ पुण्विन्त्तासुत्तादो संजलणगहणमणुवट्टदे । पयडिविसेसादो च विसेसाहियत्तं । सेसं सुगमं ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

* उससे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०१. क्योंकि ध्रुवबन्धी होनेसे इसका स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धक कालोंमें भी सञ्चय उपलब्ध होता है ।

* उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०२. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०३. कितना अधिक है ? भयके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि सौधर्म कल्पमें सम्यक्त्वके प्रभाववशा पुरुषवेद ध्रुवबन्धी हो जाता है, इसलिए प्रकृतिविशेष होनेके कारण उसमें अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है ।

* उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०४. कितना अधिक है ? पुरुषवेदके द्रव्यका एक चौथाई अधिक है । शेष कथन सुगम है ।

❀ उससे क्रोधसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०५. यहाँ पर पूर्वके सूत्रमेंसे संज्वलन पदकी अनुवृत्ति होती है और प्रकृतिविशेष होनेके कारण इसका द्रव्य विशेष अधिक सिद्ध होता है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे संज्वलन मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ लोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०६. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो' । एवं जाव अणाहारए ति सुत्ताविरोहेण आगमणिउणेहि उक्कस्सप्पावहुअं चितिय णेद्वं । किमद्वमेदस्स एइदियउक्कस्सपदेसप्पावहुअदंडयस्स देसामासियभावेण संगहियासेस-मग्गणाविसेसस्स विसेसपरुवणा तुम्हेहि ण कीरदे? ण, सुगमत्थपरुवणाए फलाभावेण तदकरणादो । ण सेसमग्गणप्पावहुअपरुवणाए सुगमत्तमसिद्धं, ओघगइमग्गणेइदिय-दंडएहि चेव सेसासेसमग्गणां पाएण गयत्यत्तदंसणादो । संपहि उक्कस्सप्पावहुअ-परिसमत्तिसमणंतरं जहावसरपत्तजहण्णपदेसप्पावहुअपरुवणाद्वं जइवसहभयवंतो पइज्जासुत्तमाह ।

❀ जहण्णदंडओ ओघेण सकारणो भण्हिदि ।

§ २०७. एदस्स वत्तव्वपइज्जासुत्तस्स अत्यविवरणं कस्सामो । तं जहा—अप्पावहुअं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सयं चेदि । तदुभयविसेसयत्तेण दंडयाणं पि तव्ववएसो । तत्य सउक्कस्सदंडयपडिसेद्वफलो जहण्णदंडयणिद्वे सो । जइ एवं ण वत्तव्वमेदं, उक्कस्स-

❀ उसरो संज्वलन लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशासत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०६ ये दोनो ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि विशेष अधिकका कारण प्रकृति विशेषमात्र है । इस प्रकार आगममे निपुण जीवोंको सूत्रके अविरोधरूपसे अनाहारक मार्गणा तक उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका विचार कर ले जाना चाहिए ।

शंका—देशामर्षकरूपसे जिसमे समस्त मार्गणासम्बन्धी विशेषता का संग्रह हो गया है ऐसे इस एकेन्द्रियसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व दण्डककी विशेष प्ररूपणा आप क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इसकी अर्थप्ररूपणा सुगम है, उसका कोई फल नहीं है, इस लिए अलगसे प्ररूपणा नहीं की है । यदि कहा जाय कि शेष मार्गणाओमे अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी सुगमता अस्तिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्योंकि ओषदण्डक, गतिमार्गणादण्डक और एकेन्द्रिय-दण्डकके कथनसे प्रायः कर समस्त मार्गणाओका ज्ञान देखा जाता है ।

अब उत्कृष्ट अल्पबहुत्वकी समाप्तिके अनन्तर यथावसर प्राप्त जघन्य प्रदेशअल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए यतिवृषभ भगवान् प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं—

❀ जघन्य दण्डक कारण सहित ओषसे कहेंगे ।

§ २०७. इस वक्तव्यरूप प्रतिज्ञासूत्रके अर्थका विवरण करते हैं । यथा—अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । इन दोनोंसे विशेषित होकर दण्डकोंकी भी वही संज्ञा है । उनमेंसे जघन्य दण्डकके निर्देश करनेका फल अपने उत्कृष्ट दण्डकका निषेध करना है ।

शंका—यदि ऐसा है तो 'जघन्य दण्डक' पदका निर्देश नहीं करना चाहिए, क्योंकि

१. ता०प्रतौ '-विसेसकारणत्तादो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'स (य) उक्कस्स-' इति पाठः ।

दंडयस्स पुव्वमेव परुविदत्तादो पारिसैसियण्णाएण एदस्स अणुत्तसिद्धीदो त्ति ? ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहद्द' तथा परुवणादो । अदो चैव एदस्स वि पइज्जा-सुत्तस्स सदाणुसारितिसिस्सस्स पोच्छाहणफलस्स उवण्णासो सहलो, अण्णाहा पेक्खा-पुव्वंयारीगमणादरणीयत्तादो । एदेण सब्बसत्ताणुग्गहकारितं भयवंताण सूचिदं । अइवा जहण्णसामित्तम्मि परुविदअजहण्णह्वाणविद्यप्पाणमणंतभेयभिण्णार्णं गिरायरणह्द' जहण्णदंडयणिदे सो त्ति वत्तव्वं ।

§ २०८. तस्स दुविहो णिदोसो—ओषेण आदेसेण य । तत्थ आदेसेवुदासद्द-मोषेणे त्ति वयणं । चक्खाणकारयाणमाइरियाणं पोच्छाहणफलो सकारणो भणिहिदि त्ति मुत्तावयवणिदेसो, अण्णाहा अवलंबणाधावेण छदुमत्थाणं थोवबहुत्तकारणावगमण-परुवणाणं तंतलुत्तिसियाणमणुववचीदो । दिसादरिसणमेतं चेदं, सम्मत्तजहण्ण-पदेससंतकम्मदाो सम्मामिच्छत्तजहण्णपदेससंतकम्मबहुत्तमेते चैव उवरिमपदाणं धीज-पदभावेण मुत्ते कारणपरुवणादो । एत्थ सह कारणेण वट्टमाणो जहण्णदंडओ ओषेण भणिहिदि त्ति पदसंबंधो कायव्वो । सेसं सुगमं ।

❀ सब्बत्थोवं सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं ।

उत्कृष्ट दण्डकका पहले ही कथन कर आये हैं, इसलिए पारिशेष न्यायके अनुसार विना कहे ही इसकी सिद्धि हो जाती है ?

समाधान —यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन्दबुद्धि शिष्यका अनुग्रह करनेके लिए उस प्रकारसे कथन किया है और इसीसे ही शब्दानुसारी शिष्यकी पृच्छाके फलस्वरूप इस प्रतिज्ञासूत्रका भी उपन्यास सफल है, अन्यथा प्रेक्षापूर्वक व्यवहार करनेवालोंके लिए यह आदरणीय नहीं हो सकता । इससे भगवान् सब जीवोंका अनुग्रह करनेवाले होते हैं यह सूचित होता है । अथवा जघन्य स्वाभित्वके समय कहे गये अनन्त भेदोंके लिए हुए अजघन्य स्थानोंके विकल्पोंका निराकरण करनेके लिए सूत्र में 'जघन्य दण्डक' पदका निर्देश करना चाहिए ।

§ २०८. उसका निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । उनमेंसे आदेश निर्देशकों निराकरण करनेके लिए सूत्रमें 'ओषसे' पदका निर्देश किया है । व्याख्यानकारक आचार्योंकी पृच्छाके फलस्वरूप 'सकारण कहेंगे' इस सूत्रावयवका निर्देश किया है, अन्यथा अल्पबहुत्वके कारणका जो भी ज्ञान है उसका कथन छद्मसत्त्वोंके विना अवलम्बनके आगमयुक्ति पुरस्सर है यह नहीं बन सकता । यह सूत्र दिशाका आभासमात्र करता है, क्योंकि सम्यक्त्वके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे सम्यग्मिध्यात्यका जघन्य प्रदेशसत्कर्म बहुत है इतने मात्रसे उपरिम पद वीजपदरूपसे सूत्रमें कारणका निरूपण करते हैं । यहाँ पर कारण सहित विद्यमान जघन्य दण्डक आंघसे कहेंगे इस प्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

❀ सम्यक्त्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक है ।

§ २०६. एदस्स जहणणप्पावहुअर्दंढयमूलसुत्तस्स अवयवत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा—सन्वेहितो उवरि बुच्चमाणासेसपयडिजहणणपदेसपडिवद्धपदेहितो योवमप्पयरं सन्वथोवं । किं तं ? सम्मत्ते' जहणणपदेससंतकम्मं । एत्थ सेसपयडिपडिसेहफलो सम्मत्तणिहेसो । जहणणणिहेसो अजहणणादिवियप्पणिवारणफलो । द्विदि-अणुभागादिवुदासद्धो पदेसणिहेसो । वंधादिविसेसपडिसेहद्धं संतकम्मं ति वयणं । त्वन्निदकम्मंसियलक्खणेणागतूण णिरदिचारेहि असिधाराचरियाए कम्मद्विदि-मेतकालं संचरिय थोवाउएसु असण्णिणंपंचिदिपसुववज्जिय देवाउअबंधवसेण देवेसुप्पज्जिय छप्पज्जित्तिसमाणणवावारेण अंतोसुहुत्ते गदे उक्कस्सअपुव्वकरणादिपरिणामेहि गुणसेट्ठि-णिज्जरगुक्कस्सं काऊण उवसमसम्मत्तलब्धपढमसमयप्पहुट्ठि सन्वजहणणगुणसंकमकालेण संध्वक्कस्सगुणसंकमभागहारेण च थोचयरं मिच्छत्तदव्वं सम्मत्तस्सरूवेण परिणमाविय वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय वेद्धावट्ठिसागरोवमाणि परिभमिय मिच्छत्तं गंतूण दीहुव्वेत्थण-कालेणुव्वेत्थिय सम्मत्तचरिमफालिं मिच्छत्तस्सरूवेण परिणमाविय एगणिसेगं दुसमय-कालं धरेयुग द्विदजीवस्स य सम्मत्तजहणणपदेससंतकम्मं सेसपयडिजहणणपदेसेहितो'

§ २०६. जघन्य अल्पवहुत्व दण्डके मूलरूप इस सूत्रके अवयवोंके अर्थका कथन करते हैं । यथा—सर्वसे अर्थात् आगे कही जानेवाली सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रदेशोंसे स्तोक अर्थात् अल्पतर सर्वस्तोक कहलाता है । वह सर्वस्तोक क्या है ? सम्यक्त्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म । यहाँ सम्यक्त्व पदके निर्देशका फल शेष प्रकृतियोंका प्रतिषेध करना है । जघन्य' पदके निर्देश करनेका फल अजघन्य आदि विकल्पोंका निवारण करना है । स्थिति और अनुभाग आदिका निवारण करनेके लिए 'प्रदेश' पदका निर्देश किया है । वन्ध आदि विरोधोंका निषेध करनेके लिए 'सत्कर्म' यह वचन दिया है । जो क्षपितकर्मांशिक विधिसे आकर निरतिचाररूपसे असिधारा चयके द्वारा कर्मस्थितिप्रमाण काल तक परिभ्रमण करके पुनः स्तोक आयुवाले असंखी पञ्चन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और देवायुका वन्ध होनेसे देवोंमें उत्पन्न होकर छह पर्याप्तियोंको पूर्ण करने रूप व्यापारके द्वारा अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर अपूर्वकरण आदि परिणामोंके द्वारा उत्कृष्ट गुणश्रेणिनिर्जरा करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर सबसे जघन्य गुणसंकम काल और सबसे उत्कृष्ट गुणसंकमभागहारके द्वारा मिथ्यात्वके स्तोकतर द्रव्यको सम्यक्त्वरूपसे परिणामा कर अनन्तर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर सबसे दीर्घ उद्वेलना कालके द्वारा अन्तमे सम्यक्त्वकी अन्तिम फालिको मिथ्यात्वरूपसे परिणामा कर दो समय कालकी स्थितिवाले एक निषेधको धारण कर स्थित है उसके सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंको देखते हुए स्तोकतर होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—इसका स्तोकपना कैसे है ?

१. ता०प्रतौ किंनु (तं) सम्मत्ते' आ०प्रतौ किंनु सम्मत्ते' इति पाठः । २. ता०प्रतौ '—जहणण-पदेहितो' इति पाठः ।

थोवरं ति वुत्तं होदि । कुदो एदस्स थोवत्तं ? ओकडु कडुणभागहारगुणिदगुणसंक-
 मुकस्सभागहारपटुप्पणाए वेखावडिसागरोवमणाणागुणहाणिसत्तागाणमणोण्णभत्थ-
 रासीए दीहुवेल्लणकालभं तरणाणागुणहाणिसत्तागाणमणोण्णभत्थरासिणा चरिम-
 फालिआयामेण च गुणिदाए ओवट्टिददिवडुगुणहाणिमेतेईदियंसमयपवद्धपमाणत्तादो ।
 एदं च दव्वं उवरिमपयडिपदेसेहिंतो थोवरत्तस्स पायसिद्धत्तादो । होंतं वि सब्बथोव-
 मसंखेज्जसययपवद्धपमाणं ति घेत्तव्वं, हेट्ठिमासेसभागहारकळावादो समयपवद्धगुणगार-
 भूददिवडुगुणहाणीए असंखेज्जगुणत्तादो । समयपवद्धगुणगारकारणो जहण्णदंडओ
 भणिहिदि ति पडुज्जं काळण एदस्स मूलपदस्स थोवत्ते कारणमभणंतस्स सुत्तयारस्स
 पुन्वावरविरोहदोसो ति णासंकणिज्जं, थोवादो एदम्हादो अण्णेसिं बहुत्तकारण-
 परूवणाए सुत्तयारेण पडुण्णाए कदत्तादो । सुगमं वा एत्थ कारणमिदि तदपरूवण-
 माहरियभडारयस्स ।

❖ सम्मामिच्छत्ते जहण्णपदेसतंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१०. कुदो ? सम्मत्तस्स प्पमाणेगेट्ठिदीहिंतो सम्मामिच्छत्तपमाणेगे-
 ट्ठिदीणमसंखेज्जगुणत्तवत्तंभादो । कुदो उभयत्थ भज्ज-भागहारारणं सरिसत्ते संते सम्मत-

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारका गुणसंक्रम भागहारके साथ गुणा कर जो
 लब्ध आवे उससे उत्पन्न हुई जो दो छयासठ सागरोकी नानागुणहानि शलाकाओंकी अन्योन्या-
 भ्यस्तपशि जसे दीर्घ उद्वेलन कालके भीतर नानागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तपराशिसे
 और अन्तिम फालिके आयामसे गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिमात्र
 एकेन्द्रियोंके समयप्रबद्धोमें भाग देने पर इसका प्रमाण आता है और यह द्रव्य उपरिम
 प्रकृतियोंके प्रदेशोसे स्तोकर है यह न्यायसिद्ध है । यह सबसे स्तोक होता हुआ भी असंख्यात
 समयप्रबद्धप्रमाण है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नीचेके समस्त भागहारकलापसे
 समयप्रबद्धकी गुणकारभूत डेढ़ गुणहानि असंख्यातगुणी है ।

शंका—समयप्रबद्धके गुणकारके कारणके साथ जघन्य दण्डक कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा
 करके इस मूलपदके स्तोकपनेके कारणको नहीं कहनेवाले सूत्रकार पूर्वापर विरोधरूप दोषके भागी
 ठहरते हैं ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्रकारने स्तोकरूप सम्यक्त्वके
 द्रव्यसे अन्य प्रकृतियोंके द्रव्यके बहुत होनेका कारण कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की है । अथवा यहाँ पर
 कारण सुगम है, इसलिए आचार्य भट्टारकने उसका कथन नहीं किया ।

❖ उससे सम्यग्भिध्यात्वमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१०. क्योंकि सम्यक्त्वप्रमाण एक एक स्थितिसे सम्यग्भिध्यात्वप्रमाण एक एक स्थिति
 असंख्यातगुणी उपलब्ध होती है ।

शंका—उभयत्र भज्यमान और भागहारारशिके समान होते हुए सम्यक्त्व और

सम्मामिच्छत्तसमाणद्विदिद्विदगोबुच्छाणमेवं विसरिसत्तं ? ण, मिच्छत्तादो सम्मत-
सरुवेण परिणमंतद्वस्स गुणसंकमभागहारादो तत्तो चेव सम्मामिच्छत्तसरुवेण
संकमंतपदेसग्गुणसंकमभागहारस्स असंखेज्जगुणहीणत्तुवलंभादो । ण चेदमसिद्धं,
गुणसंकमपढमसमए मिच्छत्तादो जं सम्मत्ते संकमदि पदेसग्गं [तं] थोवं । तम्मि चेव
समए सम्मामिच्छत्ते संकमदि पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ति सुत्तादो तस्स सिद्धीए ।
ण च भागहारविसेसमंतरेण द्वस्स तथाभावो जुज्जदे, विरोहादो । एत्थ सम्मामि०
गुणसंकमभागहारोवद्विदसम्मत्तगुणसंकमभागहारो गुणगारो । कथं पुण विसेस-
घादवसेणं पुव्वमेव सम्मतस्स जहण्णत्ते संते उवरि पत्तिदोवमस्स असंखे० भाग-
मेत्तद्धानं गंतूण पत्तजहण्णभावं सम्मामिच्छत्तपदेसग्गं तत्तो असंखेज्जगुणं, उवरुवरि
एगेगोबुच्छविसेसाणं हाणिदंसणादो । तदो ण एदस्स असंखेज्जगुणत्तं सम्ममवगमदि
त्ति संदेहेण घुलमाणहिययस्स सिस्सस्स अहिप्पायमासंकिंय सुत्तयारो पुच्छा-
सुत्तं भणदि—

❀ केण काणेण ?

२११. एदस्स भावत्थो जइ उवरिमसम्मामिच्छत्तुव्वेज्जणकालभंतरे असंखेज्ज-

सन्त्यग्मिध्यात्वकी समान स्थितियोमे स्थित गोपुच्छाएँ इस प्रकार विसदृश कैसे होती हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिध्यात्वमेसे सन्त्यक्त्वरूप परिणामन करनेवाले द्रव्यके
गुणसंकम भागहारसे उसीमेसे सन्त्यग्मिध्यात्वरूप संक्रम करनेवाले प्रदेशसमूहका गुणसंकम
भागहार असंख्यातगुणा हीन उपलब्ध होता है । और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि गुणसंकमके
प्रथम समयमें मिध्यात्वमेसे जो प्रदेशसमूह सन्त्यक्त्वमें संक्रमणको प्राप्त होता है वह स्तोक है
और उसी समयमें सन्त्यग्मिध्यात्वमे संक्रमणको प्राप्त होनेवाला प्रदेशसमूह असंख्यातगुणा है इस
सूत्रसे उसकी सिद्धि होती है और भागहारविशेषके बिना द्रव्यका उस प्रकारका होना वन नहीं
सकता, क्योंकि विरोध आता है ।

यहाँ पर सन्त्यक्त्वके द्रव्यसे सन्त्यग्मिध्यात्वका असंख्यातगुणा द्रव्य लानेके लिए
सन्त्यग्मिध्यात्वके गुणसंकमभागहारसे भाजित सन्त्यक्त्वका गुणसंकमभागहार गुणकार है ।
विशेष घातके वशसे सन्त्यक्त्वके द्रव्यके पहले ही जघन्य हो जाने पर उससे आगे पत्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर जघन्यपनेको प्राप्त हुआ सन्त्यग्मिध्यात्वका प्रदेशसमूह
उससे असंख्यातगुणा कैसे हो सकता है, क्योंकि आगे आगे उसमें एक एक गोपुच्छ विशेषोंकी
हानि देखी जाती है, इसलिए इसका असंख्यातगुणा होना समीचीन नहीं प्रतीत होता इस प्रकारके
सन्देहसे जिसका हृदय शुल रहा है उस शिष्यके अभिप्रायकी आशंका कर सूत्रकार पृच्छासूत्र
कहते हैं—

❀ इसका कारण क्या है ?

§ २११. इस सूत्रका भावार्थ यह है कि यदि सन्त्यग्मिध्यात्वके उपरिम उद्वेलन कालके

१. ता०प्रती 'विसेस (वाद) घादवसेण' इति पाठः ।

गुणहार्णाओ संभवति तो तासिमण्णोण्णम्भत्यरासी गुणसंक्रमभागहारेण किं सरिती संखेज्जगुणा असंखेज्जगुणा संखेज्जगुणहीणा असंखेज्जगुणहीणा वा ति ण भिच्छओ काचं सक्किज्जिदि । तद्वा च कयमेदस्स असंखेज्जगुणत्तं परिद्विज्जिदे ? ण च तत्थ असंखेज्जाओ गुणहार्णाओ णत्थि चेवे ति वोत्तुं जुत्तं, तदभावग्गाह्यपमाणाशुवत्तंभादो ति । एवं विरुद्धबुद्धीए सिस्सेण कारणविसयाए पुच्छाए कदाए कारणपरुवणाहुवारेण तस्मंदेह्मिणिरायरणदृक्चरमुचमाइरिओ भणदि—

ॐ सम्मतो उब्बेल्लिदे सम्मामिच्छत्तं जेण कालेण उब्बेल्लेदि एदम्मि काले एक्कं वि पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरं एत्थि एदेण कारणेण ।

§ २६२. एदस्स जुत्तस्स अवयवत्यो सुगमो । एत्थं पुण पदसंबंधो एवं कायव्वो । सम्मतो उब्बेल्लिदे संते जेण कालेण सम्मामिच्छत्तमुब्बेल्लेदि एदम्मि काले एक्कं वि पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरं जेण णत्थि एदेण कारणेण सम्मत्तादो सम्मामिच्छत्तस्स असंखेज्जगुणत्तं ण विरुद्धभदे इदि । जइ वि पुव्वमेव सम्मतसंतक्रमे जइपणे जादे पत्तिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तमद्धानुभारि गंतूण सम्मामिच्छत्तपदेससंतक्रमं जइपणं जादं तो वि तदो तस्स असंखेज्जगुणत्तं जुज्जदे, तस्स कालस्स एगुणहाणीए असंखे०भागत्तेण तत्तियमेत्तमद्धानं गइस्स वि थोवयरगोबुच्छाविसेसाणं

नीतर असंख्यात गुणहानियां सम्भव होवे तो उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशि गुणसंक्रमभागहारके क्या समान होती है या संख्यातगुणी होती है या असंख्यातगुणी होती है या संख्यातगुण हीन होती है या असंख्यातगुण हीन होती है यह निश्चय करना शक्य नहीं है और ऐसी अवस्थामें इसका असंख्यातगुण होना कैसे जाना जाता है ? वहाँ असंख्यात गुणहानियां नहीं ही हैं ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि उनके अभावका ग्राहक प्रमाण नहीं उपलब्ध होता । इस प्रकार विरुद्ध बुद्धिमत शिष्यके द्वारा कारणविषयक प्रच्छा करने पर कारणाकी प्ररूपणा द्वारा उसके सन्देहका निराकरण करनेके लिए आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

ॐ इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वकी उद्वेलना होने पर जितने कालमें सम्यग्निध्यात्वकी उद्वेलना होती है उस कालके भीतर एक भी प्रदेशगुहानिस्थानान्तर नहीं है ।

§ २१०. इस सूत्रका अवयवरूप अथ सुगम है । यहाँ पर पदसम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिये—सम्यक्त्वकी उद्वेलना हो जाने पर जितने काल द्वारा सम्यग्निध्यात्वकी उद्वेलना करता है इस कालमें अतः एक ही प्रदेशगुहानिस्थानान्तर नहीं है इस कारणसे सम्यक्त्वके द्रव्यसे सम्यग्निध्यात्वके द्रव्यका असंख्यातगुणा होना विरोधको प्राप्त नहीं होता । यद्यपि सम्यक्त्वका सत्कर्म पहले ही जयन्त हो गया है और उससे पत्यके असंख्यातवत् भागप्रमाण स्थान आगे जा कर सम्यग्निध्यात्वका प्रदेशसत्कर्म जयन्त हुआ है तो भी सम्यक्त्वके द्रव्यसे सम्यग्निध्यात्वका द्रव्य असंख्यातगुण है यह बात बन जाती है, क्योंकि वह काल एक गुणहानिके असंख्यातव भागप्रमाण है, इसलिए उन्ने स्थान जाकर भी बहुत थोड़े गोपुच्छाविशेषोंकी ही हानि देखी जाती है यह उक्त अवयवका तात्पर्य है ।

चेव परिहाणित्सणादो ति वुत्तं होदि । एदम्मि अद्धाणे पदेसगुणहाणिट्ठाणत्तरं णत्थि ति एदं कुदो परिच्छिज्जदे ? एदम्हादो चेव जिणवयणादो । ण च पमाणं पमाणंतरमवेक्खदे, अणवत्थापसंगादो । ण च एदस्स पमाणत्तं सञ्जसमं, जिणवयणत्तण्णहाणुववत्तीदो एदस्स पमाणभावसिद्धीदो । कथं सञ्जसाहाणाणमेयत्तमिदि ण पच्चवट्ठेयं, स-परप्पयासयपदीव-पमाणादीहि परिहरिदत्तादो । तदो सुत्तं पमाणत्तादो पमाणंतरणिरवेक्खमिदि सिद्धं ।

❖ अणत्ताणुबंधिमाणे जहयणपदेससं तकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१३. एत्थ समणतरादीददेसामासियसुत्तेण आदिदीवयभावेण सूचिदं कारणपरुवणं भणिससामो । तं जहा—दिवहुगुणाहाणिगुणिदेगेइंदियसमयपवद्धे अंतोमुहुत्तोवट्ठिदोकोकहुक्कड्डण-अधापवत्तभागहारेहि देखावट्ठिअभंतरणाणागुणहाणिसल्लागाणमणोण्णवभत्थरासिणा च चरिमफालिगुणिदेणोवट्ठिदे असंखेज्जसमयपवद्ध-पमाणमणत्ताणुबंधिमाणजहण्णदव्वभागच्छदि । एदं पुषा पुच्चिज्जजहण्णदव्ववादो^१ असंखेज्जगुणं, तत्थ इह वुत्तासेसभागहारेसु संतेसु दीहुव्वेल्लणकाळभंतरणाणागुणहाणि-

शंका—इस अध्वानमें प्रदेशगुणाहानिस्थानान्तर नहीं है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ।

समाधान—इसी जिनवचनसे जाना जाता है । और एक प्रमाण दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि ऐसा होने पर अनवस्था दोष आता है । इसकी प्रमाणात्ता साध्यसम है यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि अन्यथा वह जिनवचन नहीं बन सकता, इसलिए उसकी प्रमाणात्ता सिद्ध है ।

शंका—साध्य और साधन एक ही कैसे हो सकता है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दीपक और प्रमाण आदिक स्व-पर प्रकाशक होते हैं, इनसे उस शंकाका परिहार हो जाता है । इसलिए सूत्र प्रमाण होनेसे प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं करता यह सिद्ध हुआ ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१३. यहाँ पर इससे अनन्तर पूर्व कहा गया देशामर्षक सूत्र आदिदीपक भावरूप हैं, इसलिए उस द्वारा सूचित होनेवाले कारणका कथन करते हैं । यथा—डेह गुणहानिगुणित एकेन्द्रिय सन्वन्धी समयप्रवद्धमें अन्तमुहूर्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार, अधःप्रवृत्त-भागहार और अन्तिम फालिसे गुणित दो छयासठ सागरके भीतरकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तरासि इन सबका भाग देने पर अनन्तानुबन्धी मानका असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण जघन्य द्रव्य आता है । परन्तु यह सम्यग्निर्ध्यात्वके जघन्य द्रव्यसे असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वहाँपर यहाँ कहे गये समस्त भागहार तो हैं ही । साथ ही दीर्घ उल्लेखना

१. आ०प्रतौ 'पच्चवट्ठेयं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'एदेषु पुच्चिज्जजहयणदव्ववादो' इति पाठः । १४

सत्तागाणमण्णोण्णभत्थरासिभागहारस्स अहियत्तुवल्लंभादो । ण च अधापवत्तभागहारो तत्थ णत्थि त्ति तस्स तहाभावविरोहो असंकणिज्जो, तद्दुज्जेस गुणसंकमभागहारस्स सच्चुक्कट्टस्सुवल्लंभादो । ण च अधापवत्तभागहारादो गुणसंकमभागहारस्स असंखेज्ज-गुणहीणत्तं, तहाभावपडिवंधयमथापवत्तभागहारस्स असंखे०भागादो गुणसंकमभागहार-पडिभागियादो दीहुव्वेल्लणकाल्ळभंतरणाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्णभत्थरासिस्स असंखेज्जगुणत्तादो अणंताणुबंधिविसंजोयणचरिमफालीदो उव्वेल्लणचरिमफालीए असंखेज्जगुणत्तुवल्लंभादो च । एदं पि कुदो णव्वदे ? जहण्णट्टिदिसंकमप्पावहुए णिरयगइमग्गणापडिवद्धे अणंताणुबंधीणं विसंजोयणचरिमफालीए जहण्णभावमुवगय-जहण्णट्टिदिसंकमादो उव्वेल्लणाचरिमफालीए जहण्णभावंसम्माभिच्छत्तजहण्णट्टिदिसंकमस्स असंखेज्जगुणत्तपरुवयसुत्तादो । करणपरिणामेहि पत्तघादाणंताणुबंधिचरिमफालीदो मिच्छादिट्टिपरिणामेहि घादिदावसेसिदसम्माभिच्छत्तचरिमफालीए असंखेज्जगुणत्तस्स णायसिद्धत्तादो च । तदो चेव सच्चुक्कट्टस्सुव्वेल्लणकाल्ळणोण्णभत्थरासीदो असंखे०गुणो गुणगारो एत्थ वक्खाणाइरिएहि परुविदो ण विरुद्धदे । गुणसंकमभागहारोवट्टिदअथापवत्तभागहारादो चरिमफालिगुणगारस्स गुरुवपसवत्तेण असंखे०-

कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिरूप भागहार अधिक उपलब्ध होता है । यदि कोई ऐसी आशंका करे कि वहाँ पर अधःप्रवृत्तभागहार नहीं है, इसलिए उसके उस प्रकारके माननेमें विरोध आता है सो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्तिस्वरूप वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट गुणसंकमभागहार उपलब्ध होता है । यदि कहा जाय कि अधःप्रवृत्तभागहारसे गुणसंकमभागहार असंख्यातगुणा हीन होता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रकारको प्रतिबन्ध करनेवाला अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातवै भागप्रमाण है, गुणसंकमभागहारका प्रतिभागी होनेसे दीर्घ उद्वेलना कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है और अनन्तानुबन्धी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिसे उद्वेलनाकी अन्तिम फालि असंख्यातगुणी उपलब्ध होती है ।

शंका—यह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—नरकगतिमार्गशा से सम्बन्ध रखनेवाले जघन्य स्थितिसंकम अल्पबहुत्वके प्रकरणमें अन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिमेंसे जघन्यपनेको प्राप्त हुआ सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य स्थितिसंकम असंख्यातगुणा है ऐसा कथन करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है ।

तथा करण परिणामोंके द्वारा घातको प्राप्त हुई अनन्तानुबन्धीकी अन्तिम फालिसे मिथ्या-दृष्टिसम्बन्धी परिणामोंके द्वारा घात होकर जेष वची सम्यग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालि असंख्यातगुणी होती है यह न्यायसिद्ध बात है और इसलिए ही यहाँ पर व्याख्यानाचार्योंके द्वारा सर्वोत्कृष्ट उद्वेलनाकालकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा कहा गया गुणकार विरोधको प्राप्त नहीं होता । गुणसंकमभागहारसे भाजित अधःप्रवृत्तभागहारसे अन्तिम फालिका गुणकार गुरुके-

गुणचञ्चुवगमादो । एसो च गुणगारो विगिदिगोबुच्छमवलंबिय परुविदो । परमत्थदो पुण ततो वि असंखे०गुणो पत्तिदो० असंखे०भागमेतो । एत्थ गुणगारो विगिदिगोबुच्छादो असंखेज्जगुणो, गुणसेदिगोबुच्छं मोत्तूण तिससे एत्थ पाहणिया-भावादो ।

❀ कोहे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१४. एत्थ पुञ्चिल्लसुत्तादो अणंताणुवंधिगहणमणुवट्टावेदच्चं । जइ वि अणंताणुवंधिचउक्कस्स समाणसाभियत्तं तो वि पयडिविसेसवसेण विसेसाहियत्तं ण विरुज्झदे । सेसं सुगमं ।

❀ मायाए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१५. कारणमेत्थ सुगमं, अणतरपरुविदत्तादो ।

❀ लोभे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१६. सुगममेदं सुत्तं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो ।

❀ मिच्छुत्ते जहएणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१७. कुदो अणताणुवंधिलोभ-मिच्छत्ताणं अणंताणुवंधीणं मिच्छत्तभंगो त्ति सामित्तमुत्तुवलंबेण समाणसाभियाणमण्णोणं पेक्खियूण असंखेज्जगुणहीणाहिय-

उपदेशबलसे असंख्यातगुणा स्वीकार किया गया है। यह गुणकार विहृतिगोपुच्छाका अवलम्बन लेकर कहा गया है। परमार्थसे तं उससे भी असंख्यातगुणा हैं जो पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। यहाँ पर गुणकार विहृतिगोपुच्छासे असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि गुणश्रेणिगोपुच्छाको छोड़कर उसकी यहाँ पर प्रधानता नहीं है।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१४. यहाँ पर पहलेके सूत्रसे अनन्तानुबन्धी पदको ग्रहण कर उसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए। यद्यपि अनन्तानुबन्धी चतुष्कका स्वामी समान है तो भी प्रकृतिविशेष होनेसे विशेष अधिकपना विरोधको नहीं प्राप्त होता। शेष कथन सुगम है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१५. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका पहले कथन कर आये हैं ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ ११६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि विशेष अधिकका कारण प्रकृतिविशेष है ।

* उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१७. शंका—अनन्तानुबन्धियोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है इस प्रकारके स्वामित्व सूत्रके उपलब्ध होनेसे समान स्वामीवाले अनन्तानुबन्धी लोभ और मिथ्यात्वका द्रव्य एक दूसरेको देखते हुए असंख्यातगुणा हीन और असंख्यातगुणा अधिक कैसे बन सकता है ?

एदस्स पुविह्वजहणणदब्बादो गाल्लिदवेह्वावट्टिसागरोवममेत्तणिसेगादो असंखेज्जगुणत्तस्स णायसिद्धत्तादो । गुणगारो पुण ओकड्डु कड्डुणभागहारगुणिदवेह्वावट्टिसागरोवम-
णाणागुणहाणिसलागाणं अण्णोणणभत्थरासीदो दंसण-चरित्तमोहक्खवयचरिप्रफालि-
विसेसमासेज्ज असंखेज्जगुणो त्ति घेत्तव्वो, विगिदिगोबुच्छाणं तहाभावदंसणादो ।
गुणसेट्ठिपाहम्मणेण पुण तप्पाओग्गंपल्लिदावमासंखेज्जभागमेत्तो पहाणगुणगारो साहेयव्वो,
तत्थ परिणामाणुसारिगुणगारं मोत्तूण दब्बाणुसारिगुणगाराणुवल्लंभादो ।

❀ कोहे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१६. कथमेदंसि समाणसाधियारणं हीणाहियभावो ? ण, दुक्कमाणकाले चैव
पयट्ठिविसेसेण तहासख्वेण दुक्कमाणुवल्लंभादो । विसेसपमाणमेत्थ सुगमं ।

❀ मायाए जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२०, एत्थ कारणमणंतरपरुविदत्तादो सुगमं ।

❀ लोभे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२१ कारणपरुवणं सुगमं ।

❀ पच्चक्खाणमाथे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

काल तक परिभ्रमण नहीं करता, इसलिए उसके दो समय कालवाली एक स्थितिके शेष रहने पर जो जघन्य द्रव्य होता है वह दो छयासठ सागर कालप्रमाण निषेकोको गलाकर प्राप्त हुए भिध्यात्वके जघन्य द्रव्यसे असंख्यातगुणा होता है यह न्यायसिद्ध बात है। परन्तु गुणकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणित दो छयासठ सागरप्रमाण नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्यान्याभ्यस्त राशिसे दर्शनमोहनीय और चरित्रमोहनीयके क्षपककी अन्तिम फालि विशेषको देखते हुए असंख्यातगुणा है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विकृतिगोपुच्छाएँ उस प्रकारकी देखी जाती हैं। परन्तु गुणश्रेणिकी मुख्यतासे तत्प्रायोग्य पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण प्रधान गुणकार साथ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँपर परिणामानुसारी गुणकारको छोड़कर द्रव्यानुसारी गुणकार उपलब्ध होता है।

❀ उससे अपत्याख्यान क्रोधमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१६ शंका—समान स्वामीबाले इन कर्मोंमें हीनाधिक भाव कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सञ्चय होते समय ही प्रकृतिविशेष होनेके कारण उस रूपसे इनका सञ्चय होता है। विशेष प्रमाण यहाँ पर सुमम है।

❀ उससे अपत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२०. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व ही कथन कर आये हैं।

❀ उससे अपत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२१. कारणका कथन सुगम है ।

❀ उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१. आ०प्रती '—पाहम्मणेण तप्पाओग्गं—' इति पाठः । २. आ०प्रती 'दुक्कणुवल्लंभादो' इति पाठः ।

च गुणमारो एत्थ पहाणो विसोहिपरिणामाइसयवसेण । गुणसेदिमाहपं कुदो परिच्छिज्जदे ?

सम्मचुप्पत्ती वि य सावयधिए अणंतकम्मसे ।
 वंसणमोहकखए कसायउवत्तामए य उवसते ॥१॥
 खए य खीणमोहे जिणे य थियमा भवे असंखेज्जा ।
 तच्चिबरीदो कालो संखेज्जगुणा य सेदीए ॥२॥

इदि एदम्हादो गाहासुत्तादो ।

❀ अपच्चक्खाणमाणे जहएणपदेसंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

१ २१८. कुदो ? खविदकम्मंसियलक्खणेण अथवसिद्धियपाआंगजहण-
 संतकम्मं काऊण पुणो तसेसु पलिदो० असंखे० भागमेत्तकालं संजमासंजम-संजम-सम्मत्त-
 परिणमणवारेहि बहुकम्मपुगलगालणं काऊण चचारि वारे कसाए उवसामेयूण पुणो
 वि एइदिएसुववज्जिय पलिदो० असंखे० भागमेत्तकालेण कम्मं हदसमुप्पत्तियं काऊण
 समयाविरोहेण मणुसेसुववज्जिय देसूणपुव्वकोडिमत्तकालं संजमगुणसेदिणिज्जरं काऊण
 कदासेसकरणिज्जो होदूण अंतोसुहुत्तावसेसे सिञ्जिभदव्वए चारित्तमोहक्खवणाए
 अब्भुद्धिय अणियहिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु अहकसायचरिमफालिं परसरुव्वेण
 संछुहिय उदयावलयपविट्ठांगुच्छाओ गालिय डिदनीवम्मि पुव्वमपरिभमिद-
 वेखावट्टिसागरोवमम्मि एगणिसेगे दुसमयकालदिदिगे सेसे पत्तजहणभावस्स

है । और विशुद्धिरूप परिणामोंके अतिशयवरा यह गुणकार यहाँपर प्रधान है ।

शंका—गुणश्रेणिका माहात्म्य किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—सन्त्यक्तोत्पत्ति, श्रावक, विरत, अनन्तानुवन्धी कषायकी विसंयोजना करनेवाला, दर्शनमोहका क्षपक, चारित्रमोहका उपशामक, उपशान्तकषाय, क्षपक, क्षीणमोह और जिन इन स्थानोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । परन्तु उस निजरामे लगनेवाला काल उससे विपरीत अर्थान् अन्तके स्थानसे प्रथम स्थानतक प्रत्येक स्थानमें संख्यातगुणा संख्यातगुणा हैं ॥१-२॥ इसप्रकार इन गाथासूत्रोंसे गुणश्रेणिका माहात्म्य जाना जाता है ॥१-२॥

* उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

१ २१८. क्योंकि क्षपितकर्मांशविधिसे अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करके पुनः त्रसोमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक संयमासंयम, संयम और सन्त्यक्त्वरूप परिणमण वारोंके द्वारा कर्मके बहुत पुद्गलकों गलाकर तथा चार वार कषायोंका उपशमन करके अनन्तर पुनः एकेन्द्रियमें उत्पन्न होकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा कर्मको हृतसमुत्पत्तिक करके यथाशास्त्र मनुष्योंमें उत्पन्न होकर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण काल तक संयम गुणश्रेणि-निर्जरा करके पूरी तरह कृतकृत्य होकर सिद्ध होनेके लिए अन्तर्मुहूर्त काल श्रेण रहने पर चारित्र-मोहनियकी क्षपणाके लिए उद्यत होकर अनिष्टुत्तिकरणके कालमें संख्यात बहुभाग जानिएपर आठ कषायोंकी अन्तिम फालिको पररूपसे संक्रमण करके तथा उद्दयावलिमें प्रविष्ट हुई गोपुच्छाओको गलाकर जो जीव स्थित है वह सिन्ध्यात्य का जघन्य द्रव्य करनेवालेके समान दो ब्रह्मसद सागर

लोभजहणद्ववाद्दो अणंतगुणमेव । किं पुण तदो असंखे०गुणपंचिदियघोलमाणजहण-
जोगबद्धसमयपबद्धस्स असंखेज्जभागमेत्तचग्मिफालिदव्वमिदि वुत्तं होदि ।

❀ माणसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२७. एत्थ कारणं वुच्चदे—कोहसंजलणजहणदव्वमेगसमयपबद्धमेत्तं
होदूण मोहसव्वदव्वस्स चउव्वभागपमाणं, चउव्विहवंधगेण वद्धत्तादो । एदं पुण एगसमय-
पबद्धमोहणीयदव्वस्स तिभागमेत्तं माण-माया-लोभेसु तिहा विहंजिय द्विदत्तादो ।
तदो विसेसाहियत्तं जुज्जदे तिभागव्वहियमिदि उत्तं होदि । एत्थ संदिट्ठीए चउवीस
२४ पमाणमोहणीयदव्वपडिवद्धाए अब्बुप्पणसिस्साणं पवोहो कायव्वो ।

❀ पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२८. कुदो ? मोहणीयदव्वस्स दुभागपमाणत्तादो । तं पि कुदो ? पंचविध-
बंधयस्स मोहणीयसमयपबद्धमेत्तणोकसायभागभागत्तादो मोहणीयतिभागमेत्तमाण-
संजलणदव्ववाद्दो तदद्वमेत्तपुरिसवेददव्वं दुभागेणव्वहियं होदि त्ति भावत्थो ।

लोभके जघन्य द्रव्यसे अनन्तगुणा ही है । तिसपर चरमफालिका द्रव्य सूक्ष्म निगोदिकाके
जघन्य उपपादयोगसे असंख्यातगुणे पंचेन्द्रियके घोलमाण जघन्य योगद्वारा बांधे गये समय-
प्रबद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण है इसलिए उसका कहना ही क्या है यह इसका तात्पर्य है ।

❀ उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२७. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं—क्रोधसंज्वलनका जघन्य द्रव्य एक समय-
प्रबद्धप्रमाण होता हुआ भी मोहके सब द्रव्यके चौथे भागप्रमाण है, क्योंकि उसका संज्वलनका
बन्ध होते समय बन्ध हुआ है, किन्तु वह एक समयप्रबद्धप्रमाण होता हुआ भी मोहनीयके सब
द्रव्यका तीसरा भाग है, क्योंकि वह मान, माया और लोभ इन तीनों भागोंमें विभक्त होकर
स्थित है । इसलिए जो क्रोध संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे मान संज्वलनका जघन्य द्रव्य विशेष
अधिक कहा है वह युक्त है । क्रोधसंज्वलनके जघन्य द्रव्यसे मानसंज्वलनका जघन्य द्रव्य तीसरा
भाग अधिक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब यहाँ संदृष्टिसे मोहनीयके सब द्रव्यको
२४ मानकर अव्युत्पन्न शिष्योंको ज्ञान कराना चाहिये ।

उदाहरण—मोहनीयका सब द्रव्य २४; संज्वलन क्रोध ६, संज्वलन मान ६, संज्वलन
माया ६, संज्वलन लोभ ६ । संज्वलन क्रोधकी बन्ध व्युच्छ्रिति हो जाने पर संज्वलन मानका
जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है उस समय, संज्वलनमान ८, माया ८, लोभ ८ इसप्रकार वैटवारा
होता है । $८ - ६ = २ = \frac{६}{३}$

❀ उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२८. क्योंकि यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है ।

शंका—यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण कैसे है ?

समाधान—जो जीव पुरुषवेद और चार संज्वलन इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा
है उसके मोहनीयका जो समयप्रबद्ध नोकषायको प्राप्त होता है वह सब पुरुषवेदको मिल जाता है,
इसलिये यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है । इसका यह आशय है कि मोहनीयके

§ २२२. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

✽ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२३. कुदो ? विस्ससादो ।

✽ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२४. कुदो ? सहावदो । सेसं सुगमं ।

✽ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२५. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । केत्तियमेत्तेण ? आवत्तियाए असंखे-
भागपडिभागियपयडिविसेसमेत्तेण ।

✽ कोहसंजलणे जहणपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ २२६. कुदो ? देसघादित्तेण सुत्तहपरिणामिकारणत्तादो । अदो चेष कथ-
मसंखेज्जसमयपवद्धमेत्तपच्चक्खाणलोभगुणसैदिसरूवजहणणदव्वादो समयपवद्धस्स
असंखे०भागप्रमाणकोहसंजलणजहणणदव्वमणंतगुणं ति णासंकणिज्जं, समयपवद्धगुण-
गारादो देसघादिपदेसगुणगारस्स अणंतगुणत्तादो । जदि वि सुहुमणिगोदजहणणउववाद्-
जोगेण वद्धसमयपवद्धमेत्तं कोधसंजलणजहणणदव्वं होज्ज तो वि सव्वघाइयपच्चक्खाण-

§ २२२. क्योंकि यह प्रकृति विशेष है ।

✽ उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२३. क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

✽ उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२४. क्योंकि ऐसा स्वभाव है । शेष कथन सुगम है ।

✽ उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२५. ये सूत्र सुगम हैं । कितना अधिक है ? आवलिके असंख्यातवें भागका भाग
देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना प्रत्याख्यान लोभमें विशेषका प्रमाण है ।

✽ उससे क्रोध संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २२६. क्योंकि यह देशघाति है, इसलिये इस रूप परिणामानेका कारण सुलभ है ।

शंका—क्रोधमें संज्वलन देशघाति है केवल इसलिये असंख्यात समयप्रवृद्ध प्रमाण
प्रत्याख्यान लोभके गुणश्रेणिरूप जघन्य द्रव्यसे समयप्रवृद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण क्रोध-
संज्वलनका जघन्य द्रव्य अनन्तगुणा कैसे है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि समयप्रवृद्धके गुणकारसे देशघाति
प्रदेशोका गुणकार अनन्तगुणा है । यद्यपि क्रोधसंज्वलनका जघन्य द्रव्य सूक्ष्म तिगोदियाके
जघन्य उपपाद योग द्वारा बांधे गये समयप्रवृद्धप्रमाण होवे तो भी वह सर्वघाति प्रत्याख्यान

१. शा०प्रलौ 'विसे० । विस्ससादो' इति पाठः । २. शा०प्रलौ 'विसे० । सहावदो ।'
इति पाठः ।

कुदो ? बंधाभावे णवुंसयवेदस्सेव तिसु पलिदोवमेसु इत्थिवेदगोवुच्छाणं गलणाभावादो । तदो चेव सामित्तसुत्ते 'तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णो' इदि वुत्तं, वेच्चावट्टिसागरोवमेसु व तत्थुववादे' पओजणाभावादो । एत्थ गुणगारो तिपलिदोवमम्भंतरणाणागुण-
हाणिसल्लागाणमण्णोणमभत्थरासी । दोण्हं पि गुणसेढीओ सरिसीओ त्ति पुध द्वविय पुणो णवुंसयवेदगोवुच्छं तत्तो असंखे०गुणइत्थिवेदगोवुच्छादो अवणिय द्वविदे जं सेसं सगअसंखेज्जभागमेत्तमहियदव्वं तेण विसेसाहियं ति वुत्तं होदि । एदं विसेसाहियवयणं णावथं, जहा सच्चत्थ गुणसेढिविण्णासो परिणामाणुसारिओ चेव ण दव्वाणुसारि त्ति । अण्णहा पयददव्वस्स पुत्थिवल्लदव्वादो असंखे०गुणत्तं मोत्तूण विसेसाहिय-
भावाणुववत्तीदो ।

❀ हस्से जह्णणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २३२. कुदो ? अभावसिद्धियपाओगजहणसंतकम्मेण तसेसु आगंतूण बहुएहि संजमासंजम-संजमपरियट्ठणवारेहि चउहि कसायउवसमणवारेहि य बहुकम्मपदेसणिज्जरं

शंका—ऐसा क्यों होता है ?

समाधान—बन्धके अभावमें नपुंसकवेदके समान तीन पत्य कालके भीतर स्त्रीवेदकी गोपुच्छाएँ नहीं गलती हैं । अर्थात् जिसके नपुंसकवेदका जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह पहले जिस प्रकार उत्तम भोगमूमिमें तीन पत्य काल तक नपुंसकवेदकी गोपुच्छाएँ गला आता है उस प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य द्रव्यवालेको पहले यह क्रिया नहीं करनी पड़ती है, इसलिये इसके तीन पत्य कालके भीतर गलनेवाली गोपुच्छाएँ वच जाती हैं और इसीलिये स्वामित्व सूत्रमें स्त्री-वेदके जघन्य द्रव्यको प्राप्त करनेवाला 'तीन पत्यकी आयुवालोमे नहीं उत्पन्न होता' यह कहा है क्योंकि इसे दो छयासठ सागर काल तक सन्ध्याष्टियोमें परिभ्रमण करना है । अब इस कालके भीतर तीन पत्यकी आयुवालोंने भी उत्पन्न कराया जाता है तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता ।

तीन पत्यके भीतर नानागुणहानि शलाकाओंकी जो अन्योन्याभ्यस्त राशि प्राप्त हो वह यहाँ गुणकारका प्रमाण है । दोनोंकी गुणश्रेणियों समान हैं, अतः उन्हें अलग स्थापित करो । अनन्तर नपुंसकवेदकी गोपुच्छाओंसे असंख्यातगुणी स्त्रीवेदकी गोपुच्छाओंमेंसे नपुंसकवेदकी गोपुच्छाओंको घटा कर स्थापित करने पर जो अपनेसे असंख्यातत्वां भाग अधिक द्रव्य शेष रहता है उतना स्त्रीवेदका जघन्य द्रव्य विशेष अधिक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । सूत्रमे जो यह 'विशेषाधिक' वचन है सो वह ज्ञापक है जिससे यह ज्ञापित होता है कि गुणश्रेणिका विन्यास सब जगह परिणामोंके अनुसार होता है द्रव्यके अनुसार नहीं होता । यदि ऐसा न माना जाय तो प्रकृत द्रव्य पिछले द्रव्यसे असंख्यातगुणा प्राप्त होता है उसे छोड़कर विशेषाधिकता नहीं बन सकती है ।

❀ उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २३२. क्योंकि अमव्योके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया और वहाँ अनेक-
बार संयमासंयम और संयमकी पलटन करते हुए तथा चार बार कषायोंकी उपशमना कर बहुत

❖ मायासंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ २२६. दोहं पि मोहणीयस्स अद्धपमाणत्ते संते कुदो पुच्चिक्कादो एदस्स विसैसाहियत्तं ? ण, पयडिविसैसेण पुच्चिक्कदव्वमावलि० असंखे०भागेण खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेण एदस्स अहियत्तुवल्लंभादो ।

❖ णवुंसयवेदे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २३०. एत्थ कारणं बुच्चदे । तं जहा—मायासंजलणस्स चरिससमयणवक्कबंधो दुसमयुणदोआवलियमेत्तद्धाणमुवरि गंतूण एगसमयपवद्धस्स असंखेज्जा भागा होदूण जहणपदेससंतकम्मं जादं । णवुंसयवेदस्स पुण असंखेज्जपंचिदियसमयपवद्धसंजुत्त-गुणसेट्ठिद्वं जहणं जादं । तदो किंचूणसमयपवद्धमेत्तजहणणदव्वादो असंखेज्जसमय-पवद्धपमाणणवुंसयवेदजहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं होदि त्ति ण एत्थ संदेहो ।

❖ इत्थिवेदस्स जहणपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ २३१. कुदो सरिसपरिणामेहि कयगुणसेठीणं दोहं पि सरिसत्ते संते णवुंसयवेद-पयडिविगिदिगोबुच्छाहिंत्तो इत्थिवेदपयडिविगिदिगोबुच्छाणमसंखेज्जगुणत्तादो । तं पि

तीसरे भागप्रमाण मान संज्वलनके द्रव्यसे मोहनीयका आधा पुरुषवेदका द्रव्य दूसरा भाग अधिक होता है ।

* उससे माया संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२६. शंका—पुरुषवेद और मायासंज्वलन इन दोनोंको ही मोहनीयका आधा आधा प्रमाण प्राप्त है फिर पहलेसे यह विशेष अधिक क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रकृतिविशेषके कारण इसमें विशेष अधिक द्रव्य पाया जाता है । पुरुषवेदके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना इसमें विशेष अधिक है ।

* उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २३०. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं । जो इस प्रकार है—माया संज्वलनका जो अन्तिम समयका नवक वन्ध है वह दो समय कम दो अवलिप्रमाण स्थान आगे जाकर एक समयप्रवद्धका असंख्यात बहुभाग प्रमाण रह जाता है और वही जघन्य प्रदेशसत्कर्मरूप होता है । किन्तु नपुंसकवेदका पञ्चन्द्रियके असंख्यात समयप्रवद्धसे संयुक्त गुणश्रेणीका द्रव्य जघन्य प्रदेशसत्कर्मरूप होता है, इसलिए कुछ कम समयप्रवद्धप्रमाण माया संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है इसमें कोई सन्देह नहीं ।

* उससे स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३१. क्योंकि यद्यपि दोनोकी गुणश्रेणियाँ सदृश परिणामसे की जाती हैं, इसलिये वे समान हैं तो भी नपुंसकवेदकी प्रकृति गोपुच्छाओसे स्त्रीवेदकी प्रकृति और विवृति गोपुच्छाएँ असंख्यातगुणी होती हैं ।

॥ २३६. ध्रुवबंधितादो इस्त-रद्विबंधगद्वाए वि एदिस्ते बंधुवसंभादो । केत्तिय-
नेचो विसैसो ? इस्त-रद्विबंधगद्वाजणिदसंचयमेचो । सैसं सुगमं ।

❖ भए जहएणपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

॥ २३७. कुदो ? पयडिविसैसादो विशेषमात्रपकारणमुद्दयोपयामः ।

❖ लोभसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

॥ २३८. एतय कारणं कुचदे । तं उहा—भयदब्धं मोहणीयसत्त्वदब्धसस्त इसन-
भागो । लोभसंजलणदब्धं पुण मोहदब्धसस्त अद्दमभागो, कलायभागस्त चउमु वि
संजलणेमु विद्वंजिय ट्टिन्नादो । अर्णं च लोभसंजलणदब्धमयापवचकरणचरिम-
समयन्नि जइणं जादं । भयदंमगं पुण ततो उदरि अंतोमुहुचमेत्तुणसंदि-
गाउच्छाए गलिदासु एणसंक्रमदब्धे च परिहीणे अपियट्टिअद्वाए संदेजे भागे गंतुण
एत्तजइणभावमेदेण कारणेण एदासिं पयडीणं पदेसस्त ईणाहियभावो ण वित्त्वम्हदे ।

पुदभावजहणगदंडओ मकारणो समत्तो ।

❖ पिरयगईए सव्वत्थोवं सम्मत्ते जहएणपदेससंतकम्मं ।

॥ २३९. एदस्त अदिस्तजहएणपावहुअमूलपदपरवयमुत्तस्त अत्यपरवणा

॥ २३९. क्योंकि लुप्ला अइति शुद्धम्विनो है । हात्य और रतिके बन्धकालमें नो
इसका इन्ध पाया जाता है । किन्ना अविद्ध है ? हात्य और रतिके बन्धकालमें जितना
सक्य होता है उतना अविद्ध है । शेष क्रम सुगम है ।

❖ उससे भयमें जयन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

॥ २४०. क्योंकि अइति विदेद ही इत्त विदेदका कारण है उहाँ हन यह कइते हैं ।

❖ उससे लोभ संजलनमें जयन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

॥ २४०. अब उहाँ इसका कारण कइते हैं वो इत्त अकर है—नयका उच्च तो नाहनायके
सब उच्चका उच्चताभाग है । परन्तु लोभसंजलनका उच्च नाहनायके सब उच्चके आठवां
भाग है, क्योंकि क्रयकोइ हिस्ता चारे संमत्तनमें विनक होकर स्थित है । दूसरा कारण
यह है कि लोभ संजलनका उच्च अथअइत्तअकरके अनितन समयमें जयन्य हो जाता
है परन्तु नयका उच्च इसके कारणे अन्तर्लक्षितअनाए सुखकेलि गोपुच्छाओके गता देने पर और
गुणसंक्रमके उच्चके बढ जानेपर अविद्युतिकरणके कालके संख्यात बहुभाग व्यतात हो जानेपर
जयन्य होता है इसलिये इन दोनो अइतियाका हीमाधिकभाव विरोधको नहीं प्राप्त होता ।

इस अकर कारणसाहित आंघते जयन्य दुग्डका कयत कनाए हुवा ।

❖ नरकाविमें सम्यक्त्वका जयन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे थोड़ा है ।

॥ २४१. आदेयसे जयन्य अत्यदुत्त्वके नूतपदका कयत करनेवाले इस मुक्का

१. काअत्ते 'हुचदे नरदब्धं' इति पाठः ।

काऊण फलाभावेण वेच्छावट्टीओ अपरिब्भमिय तदो कमेण पुच्चकोडाउअमणुस्सभवे दीहद्धं संजमणुणसेदिणिज्जरं काऊण खवणाए अब्भुट्ठिदजीवेण चरिमट्ठिदिखंडए चरिमसमयअणिज्जेविदे छण्णोकसायाणं जहण्णसामित्तविहाणादो । एत्थ गुणगारो उक्कड्डणभागहारगुणिट्ठिचरिमफालिपट्टुप्पण्णवेच्छावट्ठि^१ सागरोवमाणणागुणहाणिसल्लमाण-मण्णोण्णवभत्थरासी पुच्चिल्लगुणसेट्ठिगोवुच्छागमणट्ठत्त्पाओग्गपल्लिदो० असंखे०-भागमेत्तरुवोवट्ठिदो । कुदो ? वेच्छावट्ठिसागरोवमाणमपरिब्भमणादो । सयलसमत्थाए चरिमफालीए पत्तसामित्तभावादो च हेट्ठिल्लरासिस्स तच्चिवरीयसरुवत्तादो च ।

❁ रदीए जहण्णपदेससंतकम्भं विसेसाहियं ।

§ २३३. एदेसिं सरिससामियत्ते वि पयडिविसेसेण विसेसाहियत्तमेत्थ दट्ठवं । सुगमं ।

❁ सोगे जहण्णपदेससंतकम्भं संखेज्जगुणं ।

§ २३४. कुदो ? पुच्चिल्लवंधगद्धादो संपहियवंधगद्धाए संखेज्जगुणत्तादो ।

❁ अरदीए जहण्णपदेससंतकम्भं विसेसाहियं ।

§ २३५. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❁ दुगुं छाए जहण्णपदेससंतकम्भं विसेसाहियं ।

कर्मप्रदेशोंकी निर्जरा की । यथा विशेष लाभ न होनेसे दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण नहीं किया । तदनन्तर क्रमसे एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्य भवसे दीर्घ काल तक संयमको पालकर और गुणश्रेणि निर्जरा करके जब यह जीव क्षणिके लिये उद्यत होता है तब अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतन होनेके अन्तिम समयमें छह नोकषायोका जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण उत्कर्षणभागहार गुणित अन्तिम फालि प्रत्युत्पन्न दो छयासठ सागरकी नानागुणहानियोकी अन्योन्याभ्यस्तरागिमे पहलेकी गुणश्रेणियोंपुच्छाओंको लानेके लिए स्थापित किये गये तत्प्रयोग्य पत्यके असंख्यातवं भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना है, क्योंकि दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण नहीं कराया है और पूरी तरहसे समर्थ अन्तिम फालिमे स्वामित्वकी प्राप्ति हुई है । तथा पिछली राशि इससे विपरीत स्वरूपवाली है ।

* उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३३. इन दोनोंका स्वामी समान है तो भी प्रकृतिविशेषके कारण पूर्व प्रकृतिसे इस प्रकृतिसे विशेष अधिक द्रव्य जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

* उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २३४. क्योंकि पूर्व प्रकृतिके बन्धकालसे इस प्रकृतिका बन्धकाल संख्यातगुणा है ।

* उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३५. इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

* उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१. आ०प्रबो 'पहुप्पयणा वेच्छावट्ठि-' इति पाठः ।

§ २४५. को गुणकारो ? अधापवत्तभागहारो चरिमफाली च अण्णोण्ण-
गुणाओ । कुदो ? हेट्टिमरासिणा तेतीससागरोवमणाणागुणहाणिसत्तागाण-
मण्णोण्णअत्थरासीए ओकड्डु कड्डुणभागहारपदुप्पणअधापवत्तभागहारेण चरिमफालीए
च गुणिदाए ओवट्टिदिवड्डुणहाणिगुणिदेगेईदियसमयपवद्धपमाणेण उवरिमरासिम्मि
अधापवत्तचरिमफालिगुणगारविरहिदपुव्वुत्तभागहारोवट्टिदिवड्डुगुणहाणिगुणिदेगेईदिय-
समयपवद्धपमाणम्मि भागे हिदे एत्तियमेत्तगुणगारुवत्तंभादो । पुच्चिक्खविगिदि-
गोबुच्चमस्सियुण एसा गुणगारपरुवणा कया । तत्थतणगुणसेट्ठिगोबुच्चमस्सियुण
भण्णमाणे पुच्चिक्खगुणगारो तप्पाओग्गपल्लिदोवमासंखेज्जभागेण ओवट्टेयव्वो ।
कारणं सुगमं ।

❀ अपच्चक्खाणमाणे जहएणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

§ २४६. कुदो ? असण्णपच्छायदपढमपुढविउप्पणपढमसमयवट्टमाणखविद-
कम्मस्सियम्मि पत्तजहण्णसामित्तणेण एकस्से वि गुणहाणीए गलणाभावादो ।
मिच्छत्तस्स पुण अंतोमुहुत्तुणतेतीससागरोवममेत्तकालं गालिय जहण्णसामित्तविहाणेण
तेत्तियमेत्तगोबुच्चणं गलणुवत्तंभादो । अदो चेय तेतीससागरोवमभंतरणाणागुण-
हाणिसत्तागाअण्णोण्णअत्थरासी उक्कड्डुणभागहारपदुप्पाइदो एत्थ गुणगारो ।

§ २४५. गुणकार क्या है ? अधःप्रवृत्तभागहार और अन्तिम फालि इनको परस्पर गुणा
करनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकार है, क्योंकि तेतीस सागरकी नानागुणहानिशालाकाओकी
अन्योन्याभ्यस्त राशिसे, अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार गुणित अधःप्रवृत्तभागहारसे और अन्तिम
फालिसे गुणित करके जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समय-
प्रबद्धमे भाग देनेपर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण अधस्तन राशिको अधःप्रवृत्तकी अन्तिम फालिरूप
गुणकारसे रहित पूर्वोक्त भागहारसे भाजित जो डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध
तत्प्रमाण उपरिम राशिमे भाग देनेपर उक्त प्रमाण गुणकार उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त विद्युति
गोपुच्छाका आश्रय लेकर यह गुणकारकी प्ररूपणा की है। वहाँकी गुणश्रेणिगोपुच्छाका आश्रय
लेकर कथन करने पर पूर्वोक्त गुणकारको तत्प्रायोग्य पत्यके असंख्यातर्वे भागसे भाजित करना
चाहिए । कारण सुगम है ।

* उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४६. क्योंकि असंज्ञियोमेंसे आकर जो क्षपित कर्मांशिक जीव प्रथम पृथिवीमें उत्पन्न
होता है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे अप्रत्याख्यान मानका जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे
एक भी गुणहानिका गलन नहीं हुआ है। परन्तु मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागर काल
व्यतीत कर जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे वहाँ उसकी उतनी गोपुच्छाएँ गल गई हैं। और
इसीलिए ही उत्कर्षणभागहारसे उत्पन्नकी गई तेतीस सागरके भीतरकी नानागुणहानिशालाकाओ-
की अन्योन्याभ्यस्त राशि यहाँ पर गुणकार है ।

१. आ०प्रतौ 'गुणिवेगोसमयपवद्ध' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'सत्तागा [यं] अथयोयथभ्य-
रासी' इति पाठः ।

सुगमा ।

❀ सम्मामिच्छत्ते जहणणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुण ।

§ २४०. सुगममेदं सुत्तं, ओघादो अविसिद्धकारणत्तादो ।

❀ अणंताणुवांधिमाणे जहणणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

§ २४१. एत्थ गुणगारो तप्पाआंग्गपल्लिदोवमासंखेज्जभागयंतो । कुदो ? गुण-
सेढीदरगोबुच्छाकयविसेसादो चरिमफालिविसेसावत्तं वणादो च सेसोवट्टणादिविण्णासो
अवहारिय पुक्खावराणं सिस्साणं सुगमो ।

❀ कोहे जहणणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४२. पयडिविसंसादो ।

❀ मायाए जहणणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४३. विस्ससादो ।

❀ लोभे जहणणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४४. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । वज्झकारणणिरवेक्खो वत्थुपरिणामो ।

❀ मिच्छत्ते जहणणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

अर्थ सरल है ।

* उससे सम्यग्मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४०. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओघप्ररूपणाके समय जो इसका कारण कहा है उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । दोनो जगह कारण एक समान हैं ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४१. यहाँ गुणकारका प्रमाण तद्योग्य पत्यक्का असंख्यातवो भाग है, क्योंकि यहाँ गुणत्रेणि और उनसे भिन्न गोच्छाओके कारण तथा अन्तिम फालिविशेषके कारण विशेषता आजाती है । आगे पीछेका विचार करके शेष अपवर्तन आदिका विन्यास सब शिष्योको सुगम है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४२. इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४३. क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४४. ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि यहाँ विशेषाधिकका बाह्य कारण नहीं है, वत्सुका परिणामन ही ऐसा है ।

* उससे मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

❀ लोभे जहणपदे ससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ २५३. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एदम्हादो चैव रागाइअविज्जा-संघुत्तिण्णजिनवरवयणादो । ण च तारिसेसु आरिसकारएसु चप्पलस्स संभवो, विरोहादो ।

❀ इत्थिवेदे जहणपदे ससंतकम्मं भणंतगुणं ।

§ २५४. कथं सम्मतपाहम्मेषेण बंधविरहिदसरूवत्तादो आएण विणा तेत्तीस-सागरोवमेसु गलिदावसिदस्सेदस्स पुव्विन्लादो तव्विवरीदसरूवादो अणंतगुणत्तमिदि णासंकणिज्जं, देसघाइत्तेण सुलहपरिणांमिकारणस्सेदस्स तदो तप्पडिणीयसहावादो अणंतगुणत्तस्स णाइयत्तादो ।

❀ एत्तुं सयवेदे जहणपदे ससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५५. दोण्णहेदासिं पयदीणं पुव्वुत्तकालब्भंतरे सरिसीसु विं गुणहाणीसु गलिदासु बंधगद्धावसेण पुव्विल्लजहणदव्वादो एदस्स संखेज्जगुणत्तं ण विरुज्जभदे । सेसं सुगमं ।

❀ पुरिसवेदे जहणपदे ससंतकम्मं मसंखेज्जगुणं ।

❀ उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५३. य सूत्र सुगम हैं, क्योंकि रागादि अविद्यासंघसे उत्तीर्ण हुए जिनवरके ये वचन हैं । आर्षकर्ता जिनवरके उस प्रकार होनेपर उनमें चपलता सम्भव नहीं है, क्योंकि उनके ऐसा होनेमें विरोध आता है ।

❀ उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २५४. शंका—एक तो सम्यक्त्वकी प्रमुखतासे बंधनेवाली प्रकृतियोंसे यह विरुद्ध-स्वभाववाली है । दूसरे आयके बिना तेतीस सागर कालके भीतर गलकर यह अवशिष्ट रहती है, इसलिए भी यह पूर्वोक्त प्रकृतिकी अपेक्षा उससे विपरीत स्वभाववाली है, अतएव यह प्रत्याख्यान लोभसे अनन्तगुणी कैसे हो सकती है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देशघाति होनेसे तथा सुलभ परिणाम कारणक यह प्रकृति होनेसे यह प्रत्याख्यान लोभसे प्रत्यन्तकी स्वभाववाली है, अतः इसके द्रव्यका अनन्तगुणा होना न्यायप्राप्त है ।

❀ उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २५५. इन दोनों ही प्रकृतियोंकी पूर्वोक्त कालके भीतर समान गुणहानियोंका गलन होता है तो भी बन्धक कालवशा पूर्वोक्त प्रकृतिके जघन्य द्रव्यसे इसका द्रव्य संख्यातगुणा होता है इसमें कोई विरोध नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

❀ उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

- ⊗ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § २४७. ण एत्थ किं चि वत्तच्चमत्थि, पयडिविसेसमेत्तस्स कारणत्तादो ।
- ⊗ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § २४८. सुगममेदं, अणंतरपरुविदकारणत्तादो ।
- ⊗ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § २४९. एत्थ पञ्चओ सुगमो ।
- ⊗ पञ्चखाणभाणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § २५०. सुगममत्र कारणं, स्वभावमात्रानुबन्धित्वात् ।
- ⊗ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § २५१. ण एत्थ वत्तच्चमत्थि । कुदो ? विस्ससादो । केत्थियमेत्तो विसेसो ?
 आवलि० असंखे० भागपडिभागियपयडिविसेसमेत्तो ।
- ⊗ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § २५२. एत्थ कारणमणंतरपरुविदत्तादो सुगमं ।

- * उससे अप्रत्याख्यात क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § २४७. यहाँपर कुछ भी वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रकृतिविशेष मात्र ही विशेष अधिक होनेका कारण है ।
- * उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § २४८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं ।
- * उससे अप्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § २४९. यहाँ पर कारणका कथन सुगम है ।
- * उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § २५०. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि वह स्वभावमात्रका अनुबन्धी है ।
- * उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § २५१. यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यान क्रोधमे प्रदेशसत्कर्म स्वभावसे अधिक है । विशेषका प्रमाण कितना है ? प्रत्याख्यानमानके जघन्य द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना इस प्रकृतियों विशेषका प्रमाण है ।
- * उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § २५२. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं ।

१. आ०प्रवौ 'विसेसाहियं । कुदो' इति पाठः ।

§ २६१. ध्रुवबंधितेण हरस-रइबंधगद्धाए वि एदिस्से बंधुलंभादो ।

❀ भए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६२. दोण्हं पि मोहणीयस्स दसमभागत्ते कुदो हीणाहियभावो ? ण पयडिविसेसमस्सियूण तहाभावुवलंभादो ।

❀ माणसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६३. मोहणीयसव्वदव्वस्स अट्टमभागत्तादो ।

❀ कोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ मायासंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ लोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६४. एदाणि तियिणा वि सुत्ताणि अब्भंतरीकयपयडिविसेसकारणाणि सुगमाणि । संपहि एदेण गिरयगइसामण्णपडिवद्धजहएणप्पावहुअदंडएण सगंतो-णिक्खित्तासेसगिरयगइमग्गाणयणेण पुध पुध सत्तण्हं पि पुदवीणमप्पावहुअं परूविदं चेव । णवरि सामित्तविसेसो तदणुसारेण च गुणयारविसेसो णायव्वो । णत्थि अण्णो विसेसो ।

एवं गिरयगइजहएणदंडओ समत्तो ।

§ २६१. क्योंकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति होनेसे हास्य और रतिके बन्धकालमें भी इसका बन्ध पाया जाता है ।

* उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६२. शंका—ये दोनों प्रकृतियाँ मोहनीयके दसवें भागप्रमाण हैं, इसलिए इनके प्रदेशोंमें हीनाधिकपना कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रकृतिविशेषके आश्रयसे उस प्रकार हीनाधिकरूपसे प्रदेश पाये जाते हैं ।

* उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६३. क्योंकि मोहनीयके सब द्रव्यके आठवें भागप्रमाण इसका द्रव्य है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे मायासंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे लोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६४. ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इन सूत्रोंमें जितना अल्पबहुत्व कहा है वे अलग अलग प्रकृतियाँ हैं । अब समस्त नरकगतिके अन्तर्भेद नरकगतिमें अन्तर्लान हैं, इसलिए नरकगति सामान्यसे सम्बन्ध रखनेवाले इस अल्पबहुत्व दण्डके द्वारा अलग अलग सातों ही पृथिवियोंका अल्पबहुत्व कह ही दिया है । इतनी विशेषता है कि स्वामित्वविशेष जान लेना चाहिए । यहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है ।

§ २५६. एत्थ गुणगारो तेत्तीससागरोवमणाणागुणहाणिसलागासांमणोण्ण-
न्मत्थरासी संखेज्जखोवडिदोक्क कड्डुण भागहारगुणियो, असणिएपच्छायदपदमपुडवि-
खोररइयम्मि बोलाविदपडिवक्खवंधगद्धम्मि पत्तजहएणभावत्ते अगल्लिदअंतोमुहुत्तूण-
तेत्तीससागरोवममेत्तणित्तेगस्स पुच्चिज्जलादो तप्पडिवक्खसहावादो तावदि गुणत्ते विरोहा-
णुवलंभादो ।

❁ हस्से जहएणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५७. एत्थ कारसां वंधगद्धाए संखेज्जगुणत्तं । ण च वंधगद्धाणुखो ण
होइ, विरोहादो ।

❁ रदीए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५८. पयडिविसेसो एत्थ पच्चओ सुगमो ।

❁ सोगे जहएणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५९. वंधगद्धावसेण ।

❁ अरदीए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६०. पयडिविसेसवसेण ।

❁ दुगुंछाए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५६. यहाँ पर गुणाकारका प्रमाण अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे संख्यातका भाग
देकर जो लब्ध आवे उससे तेत्तीस सागरकी नामागुणहानिशलाकाओकी अन्योन्याभ्यस्तारशिके
गुणित करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना है, क्योंकि असंज्ञियोसे आकर पहली पृथिवीके
नारकीमे प्रतिपन्न प्रकृतिके बन्धककालके व्यतीत होने पर जघन्यपनेके प्राप्त होनेसे अन्तर्मुहूर्त
कम तेत्तीस सागरप्रमाण इस निषेकका पहलके उसके प्रतिपन्न स्वभाव निषेकसे उतना गुणा
होनेमे कोई विरोध नहीं आता है ।

* उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २५७. इसका कारण बन्धक कालका संख्यात होना है । और बन्धककालके अनुरूप
सञ्चय नहीं होता है यह बात नहीं है, क्योंकि बन्धककालके अनुरूप सञ्चय नहीं होने पर विरोध
प्राता है ।

* उससे रतित्तमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५८. प्रकृतिविशेष ही यहाँ पर कारण है, इसलिए वह सुगम है ।

* उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५९. क्योंकि उसका कारण बन्धककाल है ।

* उससे अरतित्तमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है

§ २६०. क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

* उससे लुगुप्सांमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

मगलणादो अधापवत्तचरिमसमए देसूणपुव्वकोडिणिज्जरादव्वपरिहीणसगसयल-
दव्वेण सह जहण्णसामित्तविधाणादो । हस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं, दोण्हं
पि देसूणपुव्वकोडिणिज्जराए सरिसीए संतीए बंधगद्धावसेण संखेज्जगुणत्तुवलंभादो
त्ति । एसो च विसेसो दव्वट्टियणयमरिसिगूण सुत्तयारेण ण विचक्खिओ । पज्जवट्टिय-
णयावलंबणे पुण वक्खाणाइरिएहिं वक्खाणयच्चो, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति
न्यायात् । सुगममन्यत् । संपहि सेसमग्गणाणं देसामासियभावेण इंदियग्गणावयव-
भूदएइंदिएसु जहण्णप्पावहुअपरूवणहसुत्तरसुत्तपवंधमाह—

❖ एइंदिएसु सव्वत्थोवं सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं ।

§ २६७. कुदो ? खविदकम्मंसियस्स भमिदवेच्चावट्टिसागरोवमस्स दीहुव्वेज्जण-
कालहुचरिमसमए वट्टमाणस्स दुसमयकालट्टिदिएयणिसेयट्टिदसुट्टुत्थोवयरजहण्ण-
दव्वग्गहणादो

❖ सम्मामिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २६८. एत्थ कारणमोघसिद्धं । गुणगारो च सुगमो ।

❖ अणंताणुवंधिमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

हैं। उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अन्तिम फालिके कारण असंख्यातगुणा है। उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है, क्योंकि दो छयासठ सागर प्रमाण निषेकोंके नहीं गलनेसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण निर्जराको प्राप्त हुए द्रव्यसे हीन अपने रुमस्त द्रव्यके साथ-जघन्य स्वामित्वका विधान किया गया है। उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है, क्योंकि दोनो ही कर्मोंकी कुछ कम एक पूर्वकोटि-काल तक होनेवाली निर्जराके समान होते हुए भी बन्धक कालके वशसे पुरुषवेदके जघन्य प्रदेश-सत्कर्मसे हास्यका जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा उपलब्ध होता है। इस प्रकारके इस विशेषकी द्रव्यार्थिकनयका आश्रय लेकर सूत्रकारने विवक्षा नहीं की है। परन्तु पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन लेकर व्याख्यानाचार्यको व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि व्याख्यानसे विशेष प्रतिपत्ति होती है ऐसा न्यायवचन है। शेष कथन सुगम है। अब शेष मार्गाणाओके देशासर्वकरूपसे इन्द्रियमार्गाणाके अवान्तर भेद एकेन्द्रियोमें जघन्य अल्पबहुत्वके कथन करनेके लिए आगेके सूत्रकलापको कहते हैं—

❖ एकन्द्रियोंमें सम्यक्त्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक है ।

§ २६७. क्योंकि जो क्षुपितकर्मांशिक जीव दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण कर चुका है उसके दीर्घ उद्वेलनकालके द्विचरम समयमें विद्यमान रहते हुए दो समय कालकी स्थिति-वाले एक निषेकमें स्थित अत्यन्त स्तोकर जघन्य द्रव्यका ग्रहण किया है ।

❖ उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २६८. यहाँ पर कारण ओघके समान सिद्ध है और गुणकार भी सुगम है ।

❖ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

❊ जहा गिरयगईए तहा सव्वासु गईसु ।

२६५. एदस्स अप्पणासुत्तस्स आलावसामण्णमवेक्खिय पयट्टस्स सामित्त-
तदणुसारिगुणगारविसोसणिरवेक्खस्स अत्थपरूवणा अवहारिय सामित्तविसोसाणं
सुगमा । एदण गइसामण्णप्पणासुत्तेण मणुसगईए वि गिरओघभंगे अइयप्पसत्ते
तव्वुदासदुवारेण तत्थ अत्रवादपरूवणद्वमुत्ता सुत्तं भणदि—

❊ एवरि मणुसगदीए ओघं ।

२६६. एत्थ णवरि सहो पुव्विन्ल्लप्पणादो एदस्स विसोससूचओ । को सो
विसोसां ? मणुसगईए ओघमिदि मणुसगइओयालावमणुणाहियं तहदि ति सुत्तं होइ ।
तदो ओयालावो ऀणुणाहिओ एत्थ कायव्वो, मणुसगइसामण्णप्पणाए तदविरोहादो ।
विसोसप्पणाए पुण अत्थि भेदो, मणुसपज्जत्तएसु सुवदो वहिबभूदइत्थिवेदोदएसु
णवुंसयवेदस्सुवरि ओघमि विसोसाहियभावेण पदिदइत्थिवेदस्स चरिमफालिमाहपेण
अमंखेज्जगुणत्त वल्लंभादो । मणुसिणीसु वि माणसंजलस्सुवरि मायासंजलणे जहणण-
पदेससंतकम्मं विसोसाहियं । इत्थिवेदे जहणणपदेससंतकम्मं असंखेज्जगुणं;
गुणसेदीए पाहणियादो । णवुंसयवेदे जहणणपदेससंतकम्मसंखेज्जगुणं, चेक्खावट्ठीण-

❊ जिस प्रकार नरकगतिमें अल्पवहुत्व है उसी प्रकार सब मार्गणाओंमें
जानना चाहिए ।

§ ६५. स्वामित्व और उसके अनुसार गुणकारविशेषकी अपेक्षा किये बिना आलाप-
सामान्यकी अपेक्षा प्रवृत्त हुए इस अर्पणा सूत्रकी अर्थपरूपणा सुगम है । इस गतिमार्गशा-
रत्वकी अर्पणासूत्रके आश्रयसे मनुष्यगतिमें भी सामान्य नारकियोक समान भङ्गका अतिप्रसङ्ग
प्राप्त होने पर उसके निराकरण द्वारा यहाँ पर अपवादका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र
कहते हैं—

❊ इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिमें ओघके समान भङ्ग है ।

§ ६६. यहाँ पर 'एवरि' शब्द पहलेके सूत्रसे इसमें विशेषका सूचक है ।

शंका—बह विशेष क्या है ?

समाधान—'मनुष्यगतिमें ओघके समान है' ऐसा कहनेसे मनुष्यगतिमें ओघ आलाप
न्यूनधिक्यतासे रहित होकर प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, इसलिए न्यूनता और
अधिक्यतासे रहित ओघ आलाप यहाँ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यगति सामान्यकी विवेक्षा होने
पर उसने ओघ आलापके घटित होनेमें विरोध नहीं आता । विशेषकी विवेक्षा होनेपर तो भेद
है कि, क्योंकि स्त्रीवेदके उदयसे रहित मनुष्यपर्याप्तकोमं नपुंसकवेदके ऊपर ओघमें विशेष
अधिक्यतासे प्राप्त हुआ स्त्रीवेद अन्तिम फालिके माहात्म्यसे असंख्यातगुणा उपलब्ध होता है ।
मनुष्यनियोगमें भी मान संवलनके ऊपर माया संवलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक
है । उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है, क्योंकि यहाँ पर गुणश्रेणिकी प्रधानता

❁ कोहे जहणपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ भायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७०. एदाणि सुताणि सगंतोक्खित्तपयडिविसेसपच्चयाणिं सुगमाणि च्चि ण वक्खाणायरो कीरदि ।

❁ मिच्छत्ते जहणपदे ससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २७१. एत्थ चोदओ भणइ—जहा तुम्हेहि पुण्विल्लमणंताणुवंचीणं जहण-
सामित्तं पखुविदं तथा मिच्छत्तादो तेसिं जहणपदेससंतकम्ममेणासंखेज्जगुणेण होद्वं,
मिच्छत्तस वेद्धावट्ठीओ भमादियसम्मत्तादो परिवडिय एइदिएसुप्पणपढमसमए जहण-
सामित्तदंसणादो तेसिमण्णहा सामित्तविहाणादो च । ण च मिच्छत्तजहणसामिणा
वि वेद्धावट्ठिसागरोवमाणि ण हिंदिदाणि च्चि वोत्तुं जुत्तं, अण्णहा तस्स जहण-
भाव्वाणुवत्तीदो तदपरिबभमणे कारणाणुवल्लंभादो च । एदम्हादो उअरिमअपच्चक्खंणा-
माणजहणपदेससंतकम्मससंखेज्जगुणत्तण्णहाणुवत्तीए च तस्सिद्धीदो । ण च
अधापवत्तभागहारादो वेद्धावट्ठिसागरोवमभंतरणाणागुणहाणिसत्तागाणमणोण्णवत्थ-

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी नायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७०. उत्तरोत्तर विशेष अधिक होनेका कारण प्रकृतिविशेष होना यह बात इन सूत्रोंमें ही गमित होनेसे ये सुगम हैं, इसलिए इनका व्याख्यान नहीं करते हैं ।

* उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २७१. शंका—यहाँ पर प्रश्न करनेवाला कहता है कि जिस प्रकार तुमने पहले अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य स्वामित्व कहा है उसी प्रकार मिथ्यात्वसे उनका जघन्य प्रदेश-
सत्कर्म असंख्यातगुणा होना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके और मिथ्यात्वमें गिर कर एकैन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्वका जघन्य स्वामित्व देखा जाता है और अनन्तानुबन्धियोंका इससे अन्यथा प्रकारसे जघन्य स्वामित्वका विधान किया है । यदि कहा जाय मिथ्यात्वका जघन्य स्वामी भी दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण नहीं करता है सो उसका ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर मिथ्यात्वका जघन्यपना नहीं बन सकता है, दूसरे दो छयासठ सागरके भीतर परि-
भ्रमण नहीं करनेका कारण उपलब्ध नहीं होता । इससे तथा आगे जो अप्रत्याख्यान मानका जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा कहा है वह अन्यथा बन नहीं सकता इससे भी उक्त कथनकी सिद्धि होती है । कोई कहे कि उत्कर्षणभागहारके द्वारा उत्पन्न की गई दो छयासठ सागर कालके भीतर जो नाना गुणानिशलकाओकी अन्योन्याभ्यस्त राशि है वह अधःप्रवृत्तभागहारसे

§ २६६. को गुणगारो ! वेद्यावद्विसागरोवमदीहुव्वेञ्जलणकालाणागुणहाणि-
सलागाणामएणोएणवभत्यरासी गुणसंकमोङ्कुक्कङ्कणभागहारचरिमफालीहि गुणिय
अधापवत्तभागहारेणोवद्विदो । कुदो ? खचिदकम्मसियस्स अभवसिद्धियपाओग्गजहण-
संतकम्मियस्स तसेमुप्पज्जिय विसंजोइदअणंताणुवंधिचउक्कस्स पुणो अंतोमुहुत्तसंजुत्तस्स
फलाभावेण अभमादिदवेद्यावद्विसागरोवमस्स एइंदिएमुप्पण्णपढमसमए जहण-
सामित्तपररूयणादो । कुदो वेद्यावद्विसागरोवमपरिभमणे फलाभावो ? ण, एइंदिएमु-
प्पत्तिअण्णहाणुववत्तीए । पुणो वि मिच्छत्तं गच्छमाणेण अधापवत्तेण पडिच्चिज्जमाण-
वेद्यावद्विसागरोवमभंतंरसं चिददिवडुगुणहाणिगुणिदपंचिंदियसमयपवद्धमेत्तसेसकसाय-
दव्वस्स पुत्रपररूविदसामियजहणदव्वादो जोअगुणगारमाहपेण असंखेज्जगुणत्तेण
फलाणुवलंभादो । णिरयइए वि अणंताणुवंधिचउक्कसामियस्स अपरिभमिद-
वेद्यावद्विसागरोवमस्स एइंदियजहणसंतकम्मणेव पवेसणे एदं चेव कारणं वत्तव्वं,
तत्थेअ इत्थिवेदजहणसंतकम्मादो वंधगद्धावसेण णत्तुंसयवेदजहणसंतकम्मस्स संखेज्ज-
गुणत्ते एवं तिपल्लिदोवमवेद्यावद्विसागरोवमाणमपरिभमणं कारणत्तेणं परूवेयव्वं ।

§ २६६. गुणकार क्या हैं ? दो छयासठ सागरोपम दीर्घ उद्देलन कालके भीतर प्राप्त नाना
गुणहानि शलाकाओंकी अन्वोन्याभ्यस्त राशिको गुणसंक्रमभागहार, अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार
और अन्तिम फालिसे गुणित करके अधःप्रवृत्तभागहारका भाग देने पर जो लब्ध आये उतना
गुणकार है, क्योंकि जो क्षपितकर्मांशिक जीव अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करके त्रसोमें
उत्पन्न हुआ । पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके और अन्तर्मुहूर्तमें
उससे संयुक्त होकर कोई लाभ न होनेसे दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण किये बिना
एकेन्द्रियोमें उत्पन्ना हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका
कथन किया है ।

शंका—दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण करना निष्फल क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा उसकी एकेन्द्रियोमें उत्पत्ति वन नहीं सकती है ।
फिर भी निश्चालत्वे जाकर अधःप्रवृत्तभागहारके द्वारा संक्रमणको प्राप्त हुए और दो छयासठ
सागर कालके भीतर सञ्चित हुए डेढ़ गुणहानिगुणित पञ्चोन्द्रियोके समयप्रवृत्तमात्र शेष कपायोके
द्रव्यके पहले कहे गये स्वामित्वविषयक जघन्य द्रव्यसे योग गुणकारके माहात्म्य वश असंख्यात-
गुणे होनेके कारण कोई फल नहीं उपलब्ध होता ।

नररूगतिमें भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कका स्वामित्व कहते समय उसे दो छयासठ
सागर काल तक परिभ्रमण न करा कर एकेन्द्रियोमें जघन्य सत्कर्मरूपसे प्रवेश कराने में यही
कारण कहना चाहिए । तथा वहीं खीवेदके जघन्य सत्कर्मसे बन्धक काल वश नपुसंकवेदके
जघन्य सत्कर्मके संख्यातगुणे होने पर इसी प्रकार तीन पत्य और दो छयासठ सागर कालके
भीतर परिभ्रमण नहीं करना कारणरूपसे कहना चाहिए ।

१. ता०श्रुती '—नपरिभमणकारत्तेण' इति पाठः ।

सागरोवमखविदकम्मंसियम्मि तहविहणियमावलंवणादो च । जइ एवं, णिरयगईए मिच्छत्ताणंताणुबंधीणं वेळावट्ठीओ भमादिय परिणामपच्चएण मिच्छत्तं णेदूण णेरईएसु-
प्पाइय तेत्तीससागरोवमाणि थोवूणाणि सम्मत्तमणुपालाविय जहण्णसामित्तं दायव्व-
मिदि ? ण एदं पि दोसाय, विरोहाभावेण तहाब्भुवगमादो । ण च वेळावट्ठि-
सागरोवमाणि परिभमिदस्स तेत्तीससागरोवमपरिभमणासंभवेण पच्चवट्ठेयं, वेळावट्ठि-
वहिब्भूदसागरोवमपुधत्तमेत्तसम्मत्त कालपरूवयसंकमसामित्तमुत्तवत्तेण तदविरोहसिद्धीए
ण सो पसंगो । इत्थिणवुंसयवेदानमादेसजहण्णसामियस्स वि तत्थुवएसंतरमस्सियूण
पयारंतरेण सामित्तविहाणादो । तं जहा—एत्थ वे उवएसा एको ताव सव्वासिं
बंधपयडीणमाण वयाणुसारिणा होदव्वमिदि । अण्णेगो णायाणुसारी वओ, वयाणु-
सारी वा आओ । किंतु सव्वपयडीणमव्वपणो मूलदव्वाणुसारेण समयोविरोहेण
संकमो होइ त्ति । तत्थ पढमोवएसमस्सिदूण पयट्ठपेदं मिच्छत्ताणंताणुबंधीणमादेस-
जहण्णसामित्तप्पावहुगं च इत्थिणवुंसयवेदानमोघजहण्णसामित्तं पि तदणुसारी चैव ।

अवस्थाके सिवा अन्यत्र इस प्रकारका नियम स्वीकार किया गया है । दूसरे जो क्षपितकर्मांशिक जीव दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर चुका है उसके उस प्रकारके नियमका अव-
लम्बन लिया गया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करा कर और परिणामोंके निमित्तसे मिथ्यात्वमें ले जाकर तथा नारकियोमें उत्पन्न कराकर कुछ कम तेतीस सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन कराकर नरकगतिमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य स्वामित्व देना चाहिए ?

समाधान—यही भी दोषाघायक नहीं है, क्योंकि विरोधका अभाव होनेसे उस प्रकारसे उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व स्वीकार किया है । यदि कोई कहे कि जो दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करता रहा है उसका तेतीस सागर काल तक परिभ्रमण करना असम्भव है सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो छयासठ सागरप्रमाण कालके बाहर सागर पृथक्त्वप्रमाण सम्यक्त्वके कालका कथन करनेवाले संक्रमस्वामित्वसूत्रके बलसे उक्त कथन अविरोधी सिद्ध होनेसे उक्त दोषका प्रसङ्ग नहीं आता है । तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके आदेश जघन्य स्वामीका भी वहाँ पर उपदेशान्तरका आश्रय लेकर प्रकारान्तरसे स्वामित्वका विधान किया है । यथा—इस विषयमें दो उपदेश हैं—प्रथम उपदेश तो यह है कि सब बन्ध प्रकृतियोंके व्ययके अनुसार आय होना चाहिए । दूसरा उपदेश यह है कि आयके अनुसार व्यय नहीं होता तथा व्ययके अनुसार आय भी नहीं होता किन्तु सब प्रकृतियोंका अपने अपने मूल द्रव्यके अनुसार आगममें प्रतिपादित विधिके अनुसार संक्रम होता है । उनमेंसे प्रथम उपदेशके अनुसार मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धियोंका आदेश जघन्य स्वामित्वविषयक अल्पबहुत्व प्रवृत्त हुआ

१. ता०प्रलौ 'वयाणुसारी आओ' इति पाठः । २. ता०प्रलौ '—जहय्यं वि सामित्तं तदणुसारी' इति पाठः ।

रासीए उक्कडुणभागहारपदुप्पणाए असंखेज्जगुणहीणत्तावलंवेणे पयददोसपरिहारो समंजसो, ततो तिससे असंखेज्जगुणत्तपदुप्पाययउवरिमैप्पावहुअदंडएण सह विरोह-
 प्पसंगादो । वेद्धावट्टिसागरोवमणाणागुणहाणिसलागाणं पि तत्थ ततो असंखेज्ज-
 गुणत्तुवलंभादो उव्वेत्थेणकालणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णभत्थरासीदो वि तस्सा-
 संखेज्जगुणहीणत्तस्साणंतरमेव परुविदत्तादो च । तम्हा सामित्ताहिप्पाएणेवंविहेण
 हेट्टुवरि णिवदेयव्वमेदेणप्पावहुएण ? ण तहाव्वुवगमो जुज्जंतओ, सुत्तेणेदेण सह
 विरोहादो । ण चेदमण्णहा काउं सक्किज्जइ, जिणाणमण्णहावाइत्तादो । तदो ण
 पुब्बुत्तमणंताणुवंधिजहण्णसामित्तगुणगारो वा घटंतओ त्ति ? एत्थ परिहारो वुच्चदे—
 सच्चमेवेदं जइ सामित्तं तहाविहमेत्थ जहणत्तेणावलंविद्यं, तत्थ समणंतरपरुविददोसस्स
 परिहरेउमसकियत्तादो ! किं तु अणंताणुवंधीणं पि मिच्छत्तस्सेव वेद्धावट्टीओ भमाडिय
 जहण्णसामित्तविहाणेण पयददोसपरिहारो दट्टव्वो, तस्स णिरवज्जत्तादो । ण एत्थ
 विं पुब्बपरुविददोसो आसंकणज्जो, वयाणुसारिआयावलंवेणे तस्स परिहारोदो ।
 ण संयुत्तावत्थाए वि एस पसंगो, तदण्णत्थ एवंविहणियमव्वुवगमादो भमिदवेद्धावट्टि-

असंख्यातगुणी हीन होती है, अतः इस बातका अवलम्बन लेनेसे प्रकृत दोषका परिहार वन
 जायगा सो उसका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो इस कथनका उससे अर्थात्
 अधःप्रवृत्तभागहारसे उसे अर्थात् दो छयासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुई अन्योन्याभ्यस्त
 राशिको असंख्यातगुणा उत्पन्न करनेवाले उपरिम अल्पबहुत्वदण्डके साथ विरोधका प्रसङ्ग
 आता है, दूसरे वहाँ पर दो छयासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाएँ
 भी उससे असंख्यातगुणी उपलब्ध होती हैं, तीसरे उल्लेखन कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि-
 शलाकाओकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भी वह अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातगुणा हीन होता
 है यह अनन्तर पूर्व ही कह आये हैं, इसलिए स्वामित्यके अभिप्रायके अनुसार इस अल्प-
 बहुत्वको इस प्रकार अर्थानु हमार द्वारा बतलाई गई विधिके अनुसार आगे पीछे रखना चाहिए ।
 परन्तु वैसा मानना युक्त नहीं है, क्योंकि इतने सूत्रके साथ विरोध आता है और इस सूत्रको
 अन्यथा बर नहीं सवते, क्योंकि जिनेन्द्रदेव अन्यथावादी नहीं होते । इसलिए अनन्तानुबन्धीके
 जघन्य स्वामित्यका पूर्वोक्त गुणकार घटित नहीं हाता ?

समाधान—अब यहाँ पर इस शंकाका परिहार करते हैं—यह सत्य ही है यदि उस
 प्रकारके जघन्य स्वामित्यका यहाँ पर अवलम्बन किया जावे, क्योंकि उस प्रकारसे जघन्य
 स्वामित्यके अवलम्बन करने पर अनन्तर पूर्व कहे गये दोषका परिहार करना अशक्य है ।
 किन्तु मिश्रत्वके समान ही दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण कराकर अनन्तानु-
 बन्धियोंके जघन्य स्वामित्यका विधान करनेसे प्रकृत दोषका परिहार जान लेना चाहिए,
 क्योंकि यह रथन निर्देय है । यदि कोई यहाँ पर भी पहले कहे गये दोषका आशंका करे तो उसका
 देना करना ठीक नहीं है, क्योंकि व्ययके अनुसार आयका अवलम्बन करनेसे उसका परिहार
 हो जाता है । संयुक्तावस्थामे भी यही प्रसङ्ग आता है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो उस

1. 'हा०प्रती पदुप्पाइय उवरिन' इति पाठः । २. ता०प्रती 'य तव्य वि' इति पाठः ।

❁ पञ्चवखाणमाणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ लोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७४. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❁ पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ २७५. कुदो ? देसयाइत्तादो बहूणं परिणामिकारणाणमुवलंभादो ।

❁ इत्थिवेदे जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २७६. कुदो ? पुरिसवेदबंधगद्धादो इत्थिवेदबंधगद्धाए संखे०गुणत्तादो । एत्थ चोदओ भणइ, कथं वेज्जावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय एइदिएसुप्पण्णपढमसमए जहणभावमुवगयस्तेदस्स तन्विबरीदसरूवादो पुरिसवेददच्चादो असंखेज्जगुणहीणत्तं मुच्चा संखेज्जगुणत्तं जुज्जदे । ण च एदमविवक्खिय एइदियजहणसंतकम्मस्सेव संगहो ति वोत्तुं जुत्तं, एदम्हादो तस्स असंखे०गुणत्तेण जहणभावानुववचीदो तदविवक्खाए फलाणुवलंभादो च । तदो ण एदं सुत्तं समंजसमिदि । एत्थ परिहारो बुच्चदे—ण एसो

* उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७४. वे सूत्र सुगम हैं ।

* उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २७५. क्योंकि देशघाति होनेसे इसके परिणामन करानेके बहुतसे कारण पाये जाते हैं ।

* उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २७६. क्योंकि पुरुषवेदके बन्धक कालसे स्त्रीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा है ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य भावको प्राप्त हुआ वेद उसके विपरीत स्वभाववाला होनेसे पुरुषवेदके ड्रव्यसे असंख्यातगुणे हीनको छोड़कर संख्यातगुणा कैसे बन सकता है । यदि कहा जाय कि इसकी अविबक्षा करके एकेन्द्रियके जघन्य सत्कर्मका ही संग्रह किया है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे एकेन्द्रियका जघन्य सत्कर्म असंख्यातगुणा होनेसे जघन्यभावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उसकी अविबक्षा करनेमें कोई फल नहीं उपलब्ध होता, इसलिए यह सूत्र ठीक नहीं है ?

समाधान—यहाँ इस शंकाका परिहार करते हैं—इस स्त्रीवेदके जघन्य स्वामीको दो

तत्थ सोदएण साभित्तविहाणहुं वेद्धावट्टीओ भमाडिय मिच्छत्तडोवणादो तेसिमेव जहण्ण-
साभित्तमादेसपडिवद्धं विदियउवएसवत्तं वणेण पयट्ठं, तत्थ तदणुसारणेवप्पावहुअ-
परूवणुवत्तं भादो । तम्हा अट्टिप्पायभेदमिममासेज्ज सव्वत्थ सुत्ताणमविरोहो घडावेयव्वो
त्ति ण किञ्चि दुग्घढं पेच्छामो । तदो सिद्धमायाणुसारिवयावत्तं विसामित्तावत्तं वणे-
णाणं ताणुवंधिलो भादो मिच्छत्तमसंखेज्ज गुणमिदि । एत्थ गुणगारो अधापवत्तं भागहारो
पुच्चसुत्ते वि उव्वेत्थणं ० णाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्णभत्थरासीदो असंखेज्जगुणो
त्ति घेत्तव्वो, हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिम्मि भागे हिदे तहोवत्तं भादो ।

❖ अपचक्खामाणे जहणपदेससंतकम्मसंखेज्जगुणं ।

§ २७२. एत्थ गुणगारो वेद्धावट्टिसागरोवमणाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्ण-
भत्थरासीदो असंखे०गुणो ।

❖ कोधे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❖ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❖ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७३. एदाणि सुत्ताणि सुट्ठु सुगमाणि ।

है। तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अधो जघन्य स्वामित्व भी उसीके अनुसार प्रवृत्त हुआ है। उनमेंसे स्त्रीवेदसे स्वामित्वका कथन करनेके लिए दो ज्ञ्यासठ सागर काल तक भ्रमण कराकर मिथ्यात्वका संक्रमण हो जानेसे उन्हींका आदेशप्रतिबद्ध जघन्य स्वामित्व द्वितीय उपदेशका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त हुआ है, क्योंकि वहां पर उसीके अनुसार ही अल्प-बहुत्वका कथन उपलब्ध होता है, इसलिए इस भिन्न अभिप्रायका आश्रय लेकर सर्वत्र सूत्रोंमें अतिरोध स्थापित कर लेना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी दुर्घट नहीं देखते हैं।

इसलिए सिद्ध हुआ कि आच्यके अनुसार व्ययका अवलम्बन लेनेवाले स्वामित्वका अव-लम्बन लेनेसे अनन्तानुधन्धी लोभसे मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यतरगुणा है। यहां पर गुणकार अधः-प्रवृत्तभागहार है जो पहलेके सूत्रमें भी उद्वेलन भागहारकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी प्रन्योन्याभ्यस्त राशित्से असंख्यातरगुणा है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधःस्तन राशिका उपरिम राशिमें भाग देने पर उसकी उपलब्धि होती है।

❖ उससे अपत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातरगुणा है ।

§ २७२. यहाँ पर गुणकार दो ज्ञ्यासठ सागरकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी प्रन्योन्याभ्यस्त राशित्से असंख्यातरगुणा है ।

❖ उससे अपत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❖ उससे अपत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❖ उससे अपत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७३. ये सूत्र अत्यन्त सुगम हैं ।

§ २७६. वंधगद्धाए तहवद्दाणादो ।

❀ अरवीए जहएणपदेससंतकमं विसेसाहियं ।

§ २८०. पयडिविसेसादो ।

❀ एणुंसयवेदे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२८१. कुदो ? एईदियअरदि-सोगबंधगद्धादो तत्थतणणुंसयवेदबंधगद्धाए विसेसाहियत्तादो । केत्तियमेत्तो बंधगद्धाविसेसो ? हस्स-रदिवंधगद्धाए संखेज्जभाग-मेत्तो । तदणुसारेण च दव्वविसेसो परूवेयव्वो ।

❀ दुगुंछाए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८२. धुवबंधित्तादो ।

❀ भए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८३. पयडिविसेसेण तहावद्दाणादो ।

❀ माणसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८४. मोहणीयदसमभागं पेक्खियूण तदइमभागस्स विसेसाहियत्ते संदेहा-भावादो ।

❀ कोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ मायासंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७६. क्योकि बन्धक काल उस प्रकारसे अवस्थित है ।

❀ उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८०. क्योकि यह प्रकृतिविशेष है ।

❀ उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८१. क्योकि एकेन्द्रियोंमें अरति और शोकके बन्धक कालसे वहाँ पर नपुंसकवेदका बन्धक काल विशेष अधिक है । बन्धककाल विशेषका प्रमाण कितना है ? हास्य और रतिके बन्धककालके संख्यातर्वे भागप्रमाण है । और उसीके अनुसार द्रव्यविशेषका कथन करना चाहिए ।

❀ उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८२. क्योकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है ।

❀ उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८३. क्योकि प्रकृतिविशेष होनेसे उसका उस रूपसे अवस्थान है ।

❀ उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८४. क्योकि मोहनीयके दसम भागको देखते हुए उसका आठवाँ भाग विशेष अधिक होता है इससे सन्देह नहीं है ।

❀ उससे क्रोध संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ उससे माया संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

इत्थिवेदजहणसामिओ' वेळावडिसागरोवमाणि भमादेयव्वो, तवभमणे फलाणुवत्तंभादो । सो च कुदो ? वेळावडिसागरोवमाणि परिभमिय सम्मत्तादो परिवडिय इत्थिवेदं वंधमाणस्स पुरिसवेदादो अधापवत्तभागहारेण इत्थिवेदस्मि संकममाणदव्वस्स असंखेज्ज-पंचिदियसमयपवद्धमेत्तस्स एइंदियपाओग्गजहणपदेससंतकम्मं पेक्खियूण असंखेज्ज-गुणत्तादो । तं पि कुदो णव्वदे ? अधापवत्तभागहारादो जोगगुणगारस्स असंखेज्ज-गुणत्तपरुवयसुत्तादो । तदो एइंदियसंचयस्स पाहण्णियादो वंधगद्धावसेण संखेज्ज-गुणत्तमविरुद्धं सिद्धं ।

❀ हस्से जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २७७. कुदो ? इत्थिवेदबंधगद्धादो एइंदिएसु हस्स-२इबंधगद्धाए संखेज्ज-गुणत्तादो ।

❀ रदीए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७८. पयडिविसेसेण ।

❀ सोगे जहणपदेससंतकम्मं संधेज्जगुणं ।

छयासठ सागर काल तक नहीं धुमाना चाहिए, क्योंकि उस कालके भीतर धुमानेमे कोई फल नहीं पाया जाता ।

शंका—यह किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण करके और सम्यक्त्वसे च्युत होकर स्त्रीवेदका बन्ध करनेवाले जीवके पुरुषवेदमेसे अधःप्रवृत्तभागहारके द्वारा स्त्रीवेदमे संकमणको प्राप्त होनेवाला पञ्चेन्द्रियके असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण द्रव्य एकेन्द्रियके योग्य जघन्य प्रदेशसत्कर्मको देखते हुए असंख्यातगुणा होता है ।

शंका—वह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—अधःप्रवृत्त भागहारसे योगगुणकार असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है ।

इसलिए एकेन्द्रियके सञ्चयकी प्रधानता हानेसे बन्धक कालके वशासे पुरुषवेदके द्रव्यसे न्नीवेदका द्रव्य अविरोधरूपसे संख्यातगुणा सिद्ध होता है ।

❀ उससे हास्यमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २७९. क्योंकि स्त्रीवेदके बन्धक कालसे एकेन्द्रियोमे हास्य और रतिका बन्धक काल संख्यातगुणा है ।

❀ उससे रतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८०. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

❀ उससे शोकमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

1. ता०प्रतो 'ए एस दोसो इत्थिवेदजहणसामिओ' इति पाठः । २. ता०प्रतो 'फलाणुवत्तंभादो च । सो' इति पाठः ।

सव्वमणुस्स-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि मणुसतियवदिरित्तेसु इत्थि-णवुंसं-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमवट्ठिदं णत्थि । अप्पं च पंचिंतिरिक्ख-अपज्जं-मणुसअपज्जं मिच्छत्त-सोलसकं-भय-दुगुंळं अत्थि भुजं अप्पं अवट्ठिं । सत्तणोकसायाणमत्थि भुजं अप्पं । सम्मत्तं-सम्मामिं अत्थि अप्पदरविहत्ती । अणुहिसादि जाव सव्वट्ठसिद्धि ति मिच्छं-सम्मं-सम्मामिं-अणंताणुं-चउक्कं-इत्थि-णवुंसं अत्थि अप्पदरविहत्ती । णवरि सम्मं-सम्मामिं भुजगारो वि दीसइ उवसमसेढीए कालं कादूण तत्थुप्पणउवसमसम्माइट्ठिमि ति तमेत्थ ण विवक्खियं, तदविवक्खाए कारणं जाणिय वत्तव्वं । चारसकं-पुरिसं-भय-दुगुंळं अत्थि भुजं अप्पं अवट्ठिं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि भुजं अप्पं-विहत्तिओ, उवसमसेढीदो अण्णत्थ एदेसिमवट्ठिदपदाभावादो । एवं जाव अणाहारि ति ।

समुक्कित्तण, गदा ।

§ २८७. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छं भुजं-विहत्ती कस्स ? अण्णदं मिच्छाइट्ठिस्स । अवट्ठिं कस्स ? अण्णदं मिच्छाइट्ठिस्स वा सासणसम्माइट्ठिस्स वा । अप्पं कस्स ? अण्णदं सम्माइट्ठिस्स वा मिच्छाइट्ठिस्स वा । सम्मं-सम्मामिं भुजं-अवत्तं कस्स ?

प्रवैयक तकके देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकको छोड़कर शेषमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी अवस्थितविभक्ति नहीं है । और भी—पञ्चेन्द्रिय त्रिषुश्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें मिध्यात्व, सोलह कृपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । सात नोकषायकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्ति है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्ति भी दिखलाई देती है जो उपशमश्रेणियों मरकर वहाँ उत्पन्न हुए उपशमसम्यग्दृष्टिके होती है परन्तु उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है । उसकी विवक्षा न होनेका कारण जानकर कहना चाहिए । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है, क्योंकि उपशमश्रेणिके सिवा अन्यत्र इसका अवस्थितपद नहीं पाया जाता । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ २८७. स्वामित्वाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनसे ओघकी अपेक्षा मिध्यात्वकी भुजगारविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टिके होती है । अल्पतरविभक्ति किससे होती है । अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टिके होती है । सम्यक्त्व

❀ लोभसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२५, सुगमं ।

एदंण देसामासियदंडएण मूचिदसेसासेसमग्गणाओ अणुमग्गिदव्वाओ जाव अणगाहारि ति ।

एवमप्पावहुअं समत्तं ।

❀ एत्तो भुजगारं पदणिकखेव-वड्डीओ च कादव्वाओ ।

§ २२६, एत्तो उवरि भुजगारं परुविय तदो पदणिकखेव-वड्डीओ कायव्वाओ

ति उवरिमाणंतरमुत्तावेकयो मुत्तत्थसंबंधो कायव्वाओ । संपहि एदस्स अत्थसमप्पणा-
मुत्तस्स मूचिदासेसपरुवणस्स दव्वद्वियणयावलंविस्सिस्साणुग्गहकारिणो भगवदीए
उच्चारणाए पसाएण पज्जवद्वियपरुवणं भणिस्सामो । तं जहा—भुजगारविहतीए तत्थ
इमाणि तेरसाणियोगद्वाराणि - समुक्तिता जाव अप्पावहुए ति । तत्थ समुक्तिताणु-
ग्गमेण दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त-वारसक०-
पुरिस०-भय-दुग्गंआणमत्थि भुज० अप्प० अवद्विदविहत्तिओ । सम्म०-सम्मापि०
अत्थि० भुज० अप्प० अत्रत्तव्वमवद्विदं च । अणंताणुवंधिचउक्कस्स अत्थि भुज०
अप्प० अवद्विद० अवत्तव्वं । इत्थिवेद०-णवुंसय०-इस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि भुज०
अप्प० विहत्तिओ । अवद्विदं च उवसमसेदीए । एवं सव्वणेरइय--सव्वतिरिक्ख-

❀ उससे लोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२५. ये सूत्र सुगम हैं । इस देशमर्पकदण्डकका अवलम्बन लेकर अनाहारक मार्गणा तक समस्त मार्गणाओका अनुमार्गण करना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

❀ इससे आगे भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए ।

§ २२६. इससे आगे भुजगारका कथन करके अनन्तर पदनिक्षेप और वृद्धिका कथन करना चाहिए इस प्रकार उपरिम अनन्तर सूत्रकी अपेक्षा करके इस सूत्रके अर्थका सम्यन्ध करना चाहिए । अथ समस्त प्ररूपणाओको सूचन करनेवाले और द्वयार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले शिग्यांका अनुग्रह करनेवाले और मुख्यरूपसे अधिकारका सूचन करनेवाले इस सूत्रकी भगवती उच्चारणाके भलाइसे विशेष प्ररूपणा करते हैं । यथा—भुजगार विभक्तिमे ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक । उनमेसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश एं प्रसारका है—ओघ और आदेश । उनमेसे ओघसे मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साओ भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । सम्यक्त्व और सन्धिगमिथ्यात्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति है । स्त्रीवेद, ननुंसकवेद, हास्य, रति, धरति और गोपनी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है । तथा उपशमश्रेण्यिमे अवस्थितविभक्ति है । इसी प्रकार सप्त नारकी, सव तिर्यञ्ज, सव मनुष्य, देव और भवतवासियोसे लेकर उपरिम

सम्म०-सम्मामि०-अर्णताणु०-चउक०-इत्थि०-णवुंस० अप्प० कस्स ? अरणद० ।
 वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० तिण्णि वि पदाणि कस्स ? अण्णद० । चउणो०
 भुज०-अप्प० कस्स ? अण्णद० । एवं जाव अणाहारए चि ।

सामित्तं गदं ।

§ २८८. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-
 अर्णताणु०चउक्काणं भुज०विहत्ती केवचिरं ? जहएणेण एगसमओ, उक० पलिदो०
 असंखे०भागो । अप्प०विह० जह० एगस०, उक० वेच्चावट्ठि० सागरोवमाणि
 सादिरेयाणि । अवट्ठि० जह० एगस०, उक० संखेज्जा समया । एववि मिच्छ०
 उक० ज्जावलियाओ । अर्णताणु०चउक० अवत्त० जहण्णुक० एगस० । सम्म०-
 सम्मामि० भुज० जहण्णुक० अंतोमु० । अप्प० जह० अंतोमु०, उक० वेच्चावट्ठि-
 सागरो० सादिरेयाणि पलिदो० असंखे०भागेण । अवत्त० जहण्णुक० एगस० ।
 अवट्ठि० जह० एगस०, उक० ज्जावलियाओ । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० भुज०-
 अप्प० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक०
 संखेज्जा समया अंतोमुहुत्तं वा उवसमसेट्ठिं पडुच्च । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह०

अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । अनुदिशसे लेकर सर्वाथिसिद्धितकके देवोंमें
 मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी
 अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा
 के तीनों पद किसके होते हैं ? अन्यतरके होते हैं । चार नोकपायोंकी भुजगार और
 अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इस प्रकार अनाहारक भागीणा तक
 जानना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

§ २८८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
 मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक
 समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल
 एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो ज्जासठ सागरप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका
 जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी
 अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छह आचलि है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवकन्त्यविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और
 उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवें भाग अधिक दो ज्जासठ सागर है । अवकन्त्यविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और
 उत्कृष्ट काल छह आचलि है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतर
 विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।
 अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय अथवा

अण्णद० सम्माइट्टिस्स । अवट्ठि० कस्स ? अण्ण० सासणसम्माइट्टिस्स । अप्प० कस्स ? अण्ण० सम्माइट्ठि० मिच्छाइट्टिस्स वा । अण्णताणु० चच्चकस्स मिच्छत्त-भंगो । एवरि अवट्ठि० कस्स ? अण्ण० मिच्छाइट्टिस्स । अवत्त० कस्स ? अण्णद० विसंजोइय पुणो संजुत्तपहमसमए वट्टमाणयस्स । वारसक०-भय-दुगुंछं भुज०-अप्प०-अवट्ठि० कस्स ? अण्ण० सम्माइट्ठि० मिच्छाइट्ठि० । इत्थि०-णवुंसं भुज०-विहत्ति० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स । अप्प० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्ठि० मिच्छाइट्ठि० वा । इस्स-रदि-अरदि-सोगाणं भुज०-अप्पद० कस्स ? अण्ण० सम्मा० मिच्छाइट्टिस्स वा । एदेसिं छण्णं पि एोकसायाणं अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० चारित्त-मोहजवसामयस्स सन्नुवसामणाए वट्टमाणयस्स । पुरिस० भुज०-अप्प० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्ठि० मिच्छाइट्टिस्स वा । अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स । एवं सन्वणोरइय--तिरिक्ख--पंचिंदियतिरिक्खतिय--मणुसतिय--देवगइदेवा भवखादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । एवरि छण्णोक्सायाणमवट्ठिदविहत्ती मणुसतियवदिरित्तमगणासु णत्थि । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछं भुज०-अप्प०-अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० सम्म० सम्मामि० । अप्प० कस्स ? अण्णद० । सत्तणोक० भुज०-अप्प० कस्स ? अण्ण० । अणुदिसादि जाव सन्वट्ठा ति मिच्छ०-

और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती हैं । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सासादनसम्यग्दृष्टिके होती हैं । अल्पतर-विभक्ति किमके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती हैं । अनन्तानुवन्धी-चतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विगोपता है कि अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर विसंयोजना करनेके बाद पुनः संयुक्त होनेके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके होती है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती हैं । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती हैं । अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती हैं । इन छहों नोकपयोकी अवस्थितविभक्ति किसके होती हैं ? सर्वोपशामनाके साथ विद्यमान चारित्रमोहनीयकी उपशामना करनेवाले अन्यतर जीवके होती हैं । पुरुषदेवकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती हैं । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती हैं । इसी प्रकार सूच नारकी, नामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनयामियोंमें लेकर उपरिम प्रवेचक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह नोकपयोगी अवस्थितविभक्ति मनुष्यत्रिकके सिवा अन्य मार्गणाओंमें नहीं हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च उपर्याम और मनुष्य उपर्याम जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति किमके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होती हैं । अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती हैं । सात नोकपयोगी भुजगार और

§ २८६. आदेशेण णेरइएसु मिच्छ० भुज० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीससागरोवमाणि देसूणाणि । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया छावलिया वा । एवमणंताणु० चउक्कस्स । णवरि अवत्त० जहण्णुक्क० एगस० । अवट्ठिदस्स वि संखेज्जा चेव समया उक्कस्स-कालो वत्तवो । सम्म०-सम्मामि० भुज० जह० उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि । अवत्त० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्ठि० ओवभंगो । वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुं० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० सत्तह समया । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस सागरो० देसूणाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोग० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं सत्तमाए पुढवीए ।

सम्यग्दृष्टिके भी बदलता रहता है, इसलिए इनके अल्पतर और भुजगारपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है । इन छह नोकपायोंका अवस्थितपद उपशमश्रेणियों में भी सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ २८६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है अथवा छह आवलि है । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी-चतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितविभक्तिका भी उत्कृष्ट काल संख्यात समय ही कहना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका काल ओषको देखकर घटित कर लेना चाहिए । मात्र अल्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट कालमें जहाँ विशेषता है उसे और उपशमश्रेणिके कारण अवस्थित पदके कालमें जो विशेषता आती है वह यहाँ सम्भव न होनेसे उसे अलगसे घटित कर जान लेना चाहिए ।

एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० वेद्धानट्टिसागरो० सादिरैयाणि । हस्त-रइ-अरइ-सोमाणं भुज०-अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एदेसिं ढण्णोक्क० अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।

अन्तर्मुहूर्त हैं उपशमश्रेणिकी अपेक्षा । स्वीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त हैं । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त हैं । इन छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त हैं ।

विज्ञोपार्थ—ओषसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री भुजगारविभक्ति मिथ्या-दृष्टि जीवके होती हैं । मिथ्यात्वमें भुजगारका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । इनकी अल्पतरविभक्ति मिथ्यादृष्टि और सन्यग्दृष्टि दोनोंके होती हैं, इसलिए इनके इस पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छथासठ सागर कहा है । यहाँ प्रारम्भमें उपशमसम्यक्त्वके साथ रखकर और मध्यमें सन्यग्मिथ्यात्वमें ले जाकर वेदकसम्यक्त्वके साथ उत्कृष्ट काल तक रखकर मिथ्यात्वमें भी यथासम्भव काल तक अल्पतर-विभक्ति करानेसे यह काल प्राप्त होता है । इनकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है । मात्र सासादानुगुणस्थानमें मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति उसके पूरे उत्कृष्ट काल तक बनी रहे यह सम्भव है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छह आवृत्तिप्रमाण कहा है । अवकव्यविभक्ति वन्ध या सत्त्वके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री अवकव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । सम्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति उपशमसम्यक्त्वके समय होती है और इसका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इन दो प्रकृतियों की भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । इनकी अवकव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय अनन्तानुबन्धीके समान तथा अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल मात्र मात्र मिथ्यात्वके समान घटित कर लेना चाहिए । चारह कपाय आदिकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति मिथ्यादृष्टि और सन्यग्दृष्टि दोनोंके होती है पर इनका उत्कृष्ट काल मिथ्यादृष्टिके ही सम्भव है, क्योंकि यहाँ पर इनके ये दोनों पद पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक ही सम्भवे हैं, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है । तथा उपशमश्रेणिके अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका अवस्थितपद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । स्वीवेद और नपुंसकवेदका भुजगारपद तो अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होता है पर इनका अल्पतरपद साधिक दो छथासठ सागर काल तक भी सम्भव है, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय तक भुजगारका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त और अल्पतरपद उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण कहा है । हास्यादिका वन्ध

पुरिस०-भय-दुगुंछ० ओघो । णवरि अवट्टि० अंतोमुहुत्तं णत्थि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिग्णि पल्लिदोवमाणि । जोणिणीसु देसुणाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्टिदं णत्थि ।

§ २६२. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०--सोलसक०--भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक्क० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं मणुसअपज्जत्तएसु ।

§ २६३. मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि इत्थि०-णवुंस० अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिग्णि पल्लिदोवमाणि पुव्वकोट्टिभागेण सादिरेयाणि । मणुसणीसु देसुणाणि । वारसक०-णवणोक्क० अवट्टि० ओघभंगो ।

तीन पल्य है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओषधके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल नहीं है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य है। मात्र यौनिनी जीवोंमें यह काल कुछ कम तीन पल्य है। हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थित पद नहीं है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी कायस्थिति पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। इसलिए इनमें जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल उत्कप्रमाण कहा है वह अपनी अपनी कायस्थितिको ध्यानमें रखकर घटित कर लेना चाहिए। मात्र तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति अनन्त काल है पर उनमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर-विभक्ति पल्यके अस्ख्यातर्वे भाग अधिक तीन पल्य काल तक ही बन सकती है, इसलिए यह काल उत्क प्रमाण कहा है। इसी प्रकार शेष कालको भी विचार कर घटित कर लेना चाहिए।

§ २६०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यातःसमय है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए।

§ २६३. मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है। मात्र मनुष्यिनियोंमें कुछ कम तीन पल्य है। बारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवस्थित पदका भङ्ग ओषधके समान है।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त एक पूर्वकोटिके त्रिभाग अधिक तीन पल्य काल तक सम्यक्त्वी हो सकते हैं और इनके इतने काल तक स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका

§ २६०. पहमाए जाव छट्टि ति मिच्छ० भुज० ओघं । अप्प० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी भाणिदन्वा । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तइसमया द्वावलिया वां । सम्म०-सम्माभि० भुज० जह० उक्क० अंतोसु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदीओ । अवत्त०-अवट्टि० ओघभंगो । अणंताणु०-चउक्कस मिच्छत्तभंगो । णवरि अवत्त० जहण्णुक० एगस० । अवट्टिद० उक्क० संखेज्जा चेव समया । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० ओघो । इत्थि-णत्तुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोसु० । अप्पद० जह० एगससओ, उक्क० सगट्टिदी देसणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं णिरओघभंगो ।

§ २६१. तिरिक्खगईए तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-अणंताणु०-चउक्कगमोयो । णवरि अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिणिण पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०भागेण सादिरेयाणि । पंचिदियतिरिक्खतियम्मि तिणिण पलिदो० पुब्ब-कोट्टिपुधत्तेणअभहियाणि । सम्म०-सम्माभि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० ओघं । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिणिण पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०भागेण सादिरेयाणि । पंचिदियतिरिक्खतियम्मि तिणिण पलिदो० पुब्बकोट्टिपुधत्तेणअभहियाणि । वारसक०-

§ २६०. पहली पृथिवी से लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोमे मिथ्यात्वकी भुजगार विभक्तिका काल ओघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल ज्ञात आठ समय अथवा छह आवलि है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अवक्तव्य और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल एक समय है । अवस्थित-विभक्तिका उच्छ्रष्ट काल संख्यात ही समय है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान है । श्रिवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । दास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल अपनी स्थितिप्रमाण कहा है वहाँ अपने अपने नरककी उच्छ्रष्ट स्थिति लेनी चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

§ २६१. तिर्यञ्जगतिमे तिर्यञ्ज और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्जत्रिकमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल तिर्यञ्जोमे पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य है तथा पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्जत्रिकमे पूर्व कोटिपुत्रकत्व अधिक तीन पत्य है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल तिर्यञ्जोमे पत्यका संख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य है और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्जत्रिकमे पूर्व कोटिपुत्रकत्व अधिक

कदकरणिज्जं पडुच्च, उक्क० सगट्टिदी । अणंताणु० चउक्क० अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी । बारसक०-सत्तणोक० देवोधं । एवं जाव अणाहारि ति ।

कालाणुगमो समत्तो ।

§ २६६. अंतराणुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० भुज० विहत्तीए अंतरं जह० एगस०, उक्क० वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । भुजगार-अप्पदरकालाणमण्णोणमणुसंधिय ट्टिदाणमवट्टिदविहत्तीए अंतरत्तेण गहणादो । कथं पादेवकं पल्लिदो० असंखे० भागपमाणाणमण्णोणसंबंधेण एम्महत्तं ? ण, बहुत्थेयरपक्खाणं व असंखेज्जपरियट्टणवारोहि तेसिं तथाभावे विरोहा-भावादो । सम्म०-सम्माभि० भुज०-अप्प० जह० अंतोमु०, अवत्त०-अवट्टि० जह० पल्लिदो० असंखे० भागो, उक्क० सव्वेसिं पि उवट्टुपोग्गलपरियट्टं । अणंताणु० चउक्क०

उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वकी अल्पतरविभक्तिका कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । बारह कषाय और सात नोकषायोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गीणातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अनुदिशसे लेकर सब देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, इसलिए इनमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका एक अल्पतर पद होता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिको ध्यानमें रख कर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

§ २६६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । यहाँ पर भुजगार और अल्पतरविभक्तिके कालोंको परस्पर रोककर स्थित हुए जीवोंकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल ग्रहण किया है ।

शंका—भुजगार और अल्पतरविभक्तिसे प्रत्येकका काल पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है, इसलिए इन दोनोंके सम्बन्धसे इतना बड़ा काल कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षके समान असंख्यात बार परिवर्तनोंका अवलम्बन लेकर भुजगार और अल्पतरविभक्तिके उसप्रकारके होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, अवक्तव्य और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी

‡ २६४. देवगर्दए देवेसु मिच्छत्त-अणंताणु० चउक्क० भुज०-अवट्ठि० अणंताणु० चउक्क० अवत्त० ओघो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । सम्म०-सम्मापि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० ओघो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघां । णवरि वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० अवट्ठि० उक्क० संखेज्जां सम्मया । चट्ठुणांकसाय० अवट्ठिदं णत्थि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । एवरि जत्थ तेत्तीसं सागरोवमाणि तत्थ सगट्ठिदी भाणिट्ठवा । भवण०-वाण०-जोदिसि० इत्थि०-णवुंस० सगट्ठिदी दंसूणा ।

‡ २६५. अणुहिसादि जाव सच्चट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्मापि०-इत्थि०-णवुंस० अप्पद० जहणुक्कस्से० जहणुक्कस्सट्ठिदीओ । सम्म० अप्प० जह० एगस०

अल्पतर पद बन जाता है । मात्र मनुष्यनीमे यह काल कुछ कम तीन पत्य ही प्राप्त होता है । इसलिए इन तीन प्रकारके मनुष्योंमे उक्त दो वेदोके अल्पतर पदका उक्त काल बड़ा है । शेष कथन सुगम है ।

‡ २६४. देवगतिमे देवोमे मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री भुजगार और अवस्थितविभक्तिका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री अवक्तव्यविभक्तिका भद्र औघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सन्यक्त्व और सन्यग्भिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तिका भद्र औघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । वारह कथाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, धरति और शोकका भद्र औघके समान है । इतनी विशेषता है कि वारह कथाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यगत समय है । तथा चार नोकपायोकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्तमुहूर्त है । अल्पतर-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसीप्रकार भवन-वाग्बियोसे लेकर उपरिस ब्रह्मैयत्तकके देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर तेतीस सागर बड़े हैं वहाँ पर अपनी स्थिति कटनी चाहिए । तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कटनी चाहिए ।

विशेषार्थ—सौवर्मादिकमें सन्यग्दृष्टि जीव अपने पूरे काल तक पाये जाते हैं और भवनत्रिकमे नहीं, इसलिए यहाँ भवनत्रिकमे ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल एक कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है और सौवर्मादिकमें पूरी अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

‡ २६५. अणुविरासे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोमे मिध्यात्व, सन्यग्भिध्यात्व, ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और

§ २६७. आदेशेण णेरइएमु मिच्छं भुज०-अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसुणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । सम्म०-सम्माभि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे० भागो, अप्प०

विभक्ति सासादन गुणस्थानमें होती है, इसलिए इनकी अवस्थितविभक्तिका भी जघन्य अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यह सम्भव है कि अर्ध पुद्गल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त चार पद हो और मध्यमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना हो जानेसे न हों, अतः यहाँ इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीव यदि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न करे तो दो छयासठ सागर काल तक अल्पतरविभक्ति होती है, इसलिए तो इनकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिके समान उक्त कालप्रमाण कहा है और यदि विसंयोजना कर दे तथा मिथ्यात्वमें जाकर संयुक्त होकर अल्पतरविभक्ति करे तो इनकी अल्पतरविभक्तिका भी उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होनेसे वह भी उक्त कालप्रमाण कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक जैसा मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका घटित करके मूलमें बतलाया है उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इनकी दो बार विसंयोजना होकर पुनः संयुक्त होनेमें जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त लगता है और विसंयोजना होकर संयुक्त होनेकी क्रिया अर्ध पुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें एक बार हो तथा दूसरी बार अन्तमें हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवत्तक्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। बारह कपाय, भय और जुगप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल पत्यके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण है, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे उतना कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिके समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेदके सब पदोंका भद्र इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसकी अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इसके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। खीवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है और भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इसकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। नपुंसकवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर प्राप्त होनेसे उक्त काल प्रमाण कहा है। हास्यादि चार सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ खीवेद आदि उक्त छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणिमें प्राप्त होती है और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ सब प्रकृतियोंके सब पदोंका जघन्य अन्तर सुगम होनेसे घटित करके नहीं बतलाया है सो जान लेना।

§ २६७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेत्तीस सागर है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और

जह० अंतोमु०, उक्क० सञ्चेसिं पि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० चत्तारिं वि पदाणि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुंछ० भुज०-अप्प० ओधं । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणयोधो । णवरि अवट्टि० णत्थि । एवं पढमादि जाव सत्तमा ति । णवरि सगट्टिदी देसूणा भाणियन्दा ।

१२६८. तिरिक्खवेइए तिरिक्खेसु मिच्छ० भुज० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पत्तिदोवमाणि पत्तिदो० असंखे०भाएण सादिरेयाणि । अप्प०-अवट्टि० ओधो । सम्म०-सम्माधि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० पत्तिदो० असंखे०भागो, अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० उवट्टुपोगलपरियट्ट' । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पत्तिदो० सादिरेयाणि । अप्प० देसूणाणि । अवट्टि०-

सन्धग्निध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके प्रसंग्यातर्वे भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उच्छ्र कर्म तेत्तीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्पकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अल्पक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर उच्छ्र कर्म तेत्तीस सागर है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्ताकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग शोधके समान है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उच्छ्र कर्म तेत्तीस सागर है । खीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगार-विभक्तिगत जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उच्छ्र कर्म तेत्तीस सागर है । अल्पतर-विभक्तिगत जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोकना भङ्ग शोधके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है । परती पृथिवीने लेखर गतवीं पृथिवी तक इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्छ्र कर्म आपनी सिद्धि करनी चाहिए ।

विशेषार्थ—शोधके इस सब प्रकृतियोंके अलग-अलग पदोंका अन्तर काल घटित करने का काम है । यहाँ नरकमे आपनी-प्रपनी विशेषताको ध्यानसे लेकर और यहाँके उत्कृष्ट पदोंको जगत्तर का घटित कर लेना चाहिए । मात्र नरकमे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे कौन नरकमें जादि नरक नोकसयोके अवस्थितपदका निषेध किया है । प्रत्येक नरकमें भी अपनी विशेषता जोका ध्यानसे लेखर-वह अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए ।

१२६९. तिरिक्खवेइए तिरिक्खेसु मिच्छात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके प्रसंग्यातर्वे भाग अधिक तीन पत्य है । अल्पतर और अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० चत्तारिं वि पदाणि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुंछ० भुज०-अप्प० ओधं । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणयोधो । णवरि अवट्टि० णत्थि । एवं पढमादि जाव सत्तमा ति । णवरि सगट्टिदी देसूणा भाणियन्दा ।

अवत्त० ओघो । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंवा० ओघो । -णवरि-पुरिस०-अवट्टि०
जह० एगस०, -उक० तिण्णि पल्लिदो०-देसूणाणि । इत्थि०-भुज० जह० एगस०,
उक०-तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०; उक० अंतोसु० । णुंस०
अप्प०-ओघो । भुज० जह० एगस०, -उक० पुच्चकोडी देसूणा । हस्स-रइ-अरइ-
सोगाणमोघो । णवरि अवट्टि० णत्थि ।

§ २६६. पंचिदियतिरिक्खितिए मिच्छ० भुज०-अवट्टि० जह० एगसमओ,
उक० सगट्टिदी देसूणा । अप्प० जह० एगस०, उक०-पल्लिदो० असखे०भागो ।
अणंताणु०चउक० भुज०-अवट्टि० मिच्छच्चभंगो । अप्प० जह० एगस०, उक० तिण्णि

उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । मात्र अल्पतरविभक्तिका कुछ कम तीन पत्य है । अवस्थित
और अवक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका
भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट-अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके
समान है । भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक
पूर्वकोटि है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि
इनका अवस्थितपद नहीं है ।

विशार्थ—कोई तिर्यञ्च पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक मिध्यात्वकी
अल्पतरविभक्ति करता रहा । उसके बाद तीन पत्यकी आयुके साथ भोगभूमिमे उत्पन्न हो वहाँ भी
आयुके अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने तक मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा, इस प्रकार भुजगार-
विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धी-
चतुष्ककी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तीन पत्य इसी प्रकार घटित कर
लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतरविभक्ति उत्तम भोगभूमिमे कुछ कम तीन
पत्य ही बन सकती है, क्योंकि तिर्यञ्चोमे वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल इतना ही प्राप्त होता
है, इसलिए इनकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । पुरुषवेदकी
अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और तिर्यञ्चोमे वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम
तीन पत्य है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण
कहा है । सम्यग्दृष्टिके स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्ति नहीं होती और तिर्यञ्चोमे वेदकसम्यक्त्वका
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए इनमें स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम तीन पत्य कहा है । परन्तु नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिज
तिर्यञ्चके ही प्राप्त होता है और इनमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है,
इसलिए तिर्यञ्चोमें नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण
कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २६६. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चिकमें मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानु

पल्लिदो० देसूणाणि । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । सम्म०-
सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, अप्प० जह०
अंतोमु०, उक्क० सव्वपदाणं सगट्टिदी देसूणा । चारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा०
भुज०-अप्पदर० ओघो । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । पुरिस०
तिणिण पल्लिदो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंसय०-इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं तिरिक्खोघो ।

‡ ३००. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० भुज०-
अप्प०-अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक्क० भुज०-अप्प० जह० एग-
समओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । सम्म०-सम्मामि० अप्प० णत्थि अंतरं ।

‡ ३०१. मणुस्सगईए मणुस्सतियस्स पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि छण्णोक्क०
अवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । सम्म०-सम्मामि० भुज० जह०

वर्धीचतुष्कर्की भुजगार और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अल्पतरविभक्ति-
का जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्यप्रमाण है । अवक्तव्य-
विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उल्कष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है ।
सम्यक्त्वन और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर
पत्यकं असंख्यातवै भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सब
पदोका उल्कष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । चारह कपाय, पुरुषवेद, भय और
जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितविभक्तिका
जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । मात्र
पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उल्कष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य,
रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी उल्कष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक
तोन पत्य है । इने ध्यान में रखकर यहाँ अन्तर काल घटित करके बतलाया गया है । शेष
विशेषता स्वामित्यको ध्यानमें रखकर जान लेनी चाहिए ।

‡ ३००. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । सात नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है
और उल्कष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका
अन्तरफल नहीं है ।

विशेषार्थ—इन तिर्यञ्चोंकी उल्कष्ट कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें सम्यक्त्व
और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोका उल्कष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा
है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक अल्पतरपद होता है, इसलिए उसके अन्तर
फलच निषेध किया है ।

‡ ३०१. मनुष्यगतिने मनुष्यत्रिणमें पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता
है कि एत नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उल्कष्ट अन्तर

§ २६७. आदेशेण षेरइएसु मिच्छ० भुज०-अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे० भागो, अप्प०

विभक्ति सासादन गुणस्थानमें होती है, इसलिए इनकी अवस्थितविभक्तिका भी जघन्य अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यह सम्भव है कि अर्ध पुद्गल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त चार पद हों और मध्यमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना हो जानेसे न हों, अतः यहाँ इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीव यदि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न करे तो दो छयासठ सागर काल तक अल्पतरविभक्ति होती है, इसलिए तो इनकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिके समान उक्त कालप्रमाण कहा है और यदि विसंयोजना कर दे तथा मिथ्यात्वमें जाकर संयुक्त होकर अल्पतरविभक्ति करे तो इनकी अल्पतरविभक्तिका भी उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होनेसे वह भी उक्त कालप्रमाण कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक जैसा मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका घटित करके सूत्रमें बतलाया है उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इनकी दो बार विसंयोजना होकर पुनः संयुक्त होनेमें जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त लगता है और विसंयोजना होकर संयुक्त होनेकी क्रिया अर्ध पुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें एक बार हो तथा दूसरी बार अन्तमें हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल पर्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे उतना कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिके समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेदके सब पदोंका भङ्ग इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसकी अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इसके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है और भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इसकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। नपुंसकवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर तीन पर्य अधिक दो छयासठ सागर प्राप्त होनेसे उक्त काल प्रमाण कहा है। हास्यादि चार सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ स्त्रीवेद आदि उक्त छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणिमें प्राप्त होती है और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ सब प्रकृतियोंके सब पदोंका जघन्य अन्तर सुगम होनेसे घटित करके नहीं बतलाया है सो जान लेना।

§ २६७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पर्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और

जह० अंतोष्टु०, उक्क० सन्वेसिं वि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोष्टु०, उक्क० चत्तारि वि पदाणि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुंछ० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोष्टु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणयोधो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं पढमादि जाव सच्चमा चि । णवरि सगट्ठिदी देसूणा भाणियव्वा ।

§ २६८. तिरिक्खेईए तिरिक्खेसु मिच्छ० भुज० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पल्लिदोवमाण पल्लिदो० असंखे०भाएण सादिरेयाणि । अप्प०-अवट्ठि० ओघो । सम्म०-सम्माधि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, अप्प० जह० अंतोष्टु०, उक्क० उवड्डुपोगलपरियट्ठं । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० सादिरेयाणि । अप्प० देसूणाणि । अवट्ठि०-

सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवकल्पविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सवका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवकल्पविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगार-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अल्पतर-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है । पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी स्थिति पहनी चाहिए ।

विशेषार्थ—ओषके हम सब प्रकृतियोंके अलग-अलग पदोंका अन्तर काल घटित करके बतला आये हैं । यहाँ नरकमे अपनी-अपनी विशेषताको ध्यानसे लेकर और यहाँके उत्कृष्ट कालको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । मात्र नरकमे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे यहाँ खोवेद आदि छह नोकपायोंके अवस्थितपदका निषेध किया है । प्रत्येक नरकमें भी इन्हीं विशेषताओंको ध्यानसे लेकर यह अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए ।

§ २६८. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोमे मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पत्य है । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवकल्पविभक्तिका जघन्य अन्तर, पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अल्पतर-विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सवका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और

अवत्त० ओघो । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० ओघो । णवरि पुरिस० अवहि० जह० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । इत्थि० भुज० जह० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक० अंतोमु०-। णवुंस० अप्प० ओघो । भुज० जह० एगस०, उक० पुच्चकोडी देसूणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवहि० णत्थि ।

§ २६६. पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ० भुज०-अवहि० जह० एगसमओ, उक० सगद्धिदी देसूणा । अप्प० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । अणंताणु० चउक० भुज०-अवहि० मिच्छत्तभंगो । अप्प० जह० एगस०, उक० तिण्णि

उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । मात्र अल्पतरविभक्तिका कुछ कम तीन पत्य है । अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है ।

विशेषार्थ—कोई तिर्यञ्च पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा । उसके बाद तीन पत्यकी आयुके साथ भोगभूमिमे उत्पन्न हो वहाँ भी आयुके अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने तक मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा, इस प्रकार भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तीन पत्य इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अल्पतरविभक्ति उत्तम भोगभूमिमें कुछ कम तीन पत्य ही बन सकती है, क्योंकि तिर्यञ्चोमे वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल इतना ही प्राप्त होता है, इसलिए इनकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और तिर्यञ्चोमे वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । सम्यग्दृष्टिके स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्ति नहीं होती और तिर्यञ्चोमे वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए इनमें स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । परन्तु नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिज तिर्यञ्चके ही प्राप्त होता है और इनमे वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए तिर्यञ्चोमें नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २६६. पञ्चन्द्रियतिर्यञ्चनिकमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानु

पल्लिदो० देसूणाणि । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । सम्म०-
सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, अप्प० जह०
अंतोमु०, उक्क० सन्वपदाणं सगट्टिदी देसूणा । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा०
भुज०-अप्पदर० ओघो । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । पुरिस०
तिठिण पल्लिदो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंसय०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं तिरिक्खोघो ।

§ ३००. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० भुज०-
अप्प०-अवट्टि० जह एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक्क० भुज०-अप्प० जह० एग-
समओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । सम्प०-सम्मामि० अप्प० णत्थि अंतरं ।

§ ३०१. मणुस्सगईए मणुस्सतियस्स पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि छणोक्क०
अवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । सम्म०-सम्मामि० भुज० जह०

वन्धीचतुष्ककी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अल्पतरविभक्ति-
का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्यप्रमाण है । अवक्तन्य-
विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है ।
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तन्यविभक्तिका जघन्य अन्तर
पत्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सब
पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और
जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितविभक्तिका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । मात्र
पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य,
रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक
तीन पत्य है । इसे ध्यान मे रखकर यहाँ अन्तर काल घटित करके वतलाया गया है । शेष
विशेषता स्वामित्वको ध्यानमे रखकर जान लेनी चाहिए ।

§ ३००. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका
अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—इन तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमे सम्यक्त्व
और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा
है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक अल्पतरपद होता है, इसलिए उसके अन्तर
कालका निषेध किया है ।

§ ३०१. मनुष्यगतिमे मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता
है कि छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर

अंतोमु०, उक्कः सगद्विदी देसूणा । मणुसअपज्ज० पंचि०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ३०२. देवगईए देवेसु मिच्छ० भुज०-अवट्ठि० जह० एगसमआ०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अप्पद० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० तं चेव । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० चहुहं पि एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-थय-दुयुं० णेरइयभंगो । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । इत्स-रइ-अरइ-सोगाणमोयो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति एवं चेव । णवरि सगद्विदी भाणियन्वा ।

पूर्वके दिप्रयत्नप्रमाण है । सन्यक्त्व और सन्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उच्छ्रष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । मनुष्य अपर्याप्तकर्म पञ्चैन्द्रिय तिर्थश्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमे अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे और पूर्वकोटिप्रयत्नके अन्तरसे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यहाँ छद्म नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उच्छ्रष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रयत्नप्रमाण कहा है । तथा मनुष्यत्रिकमे उपशमसत्यक्त्वकी प्राप्तिके समय सन्यक्त्व और सन्यग्मिध्यात्वका भुजगार होकर कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके भीतर चायिकसत्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद सम्भव है या अधिकसे अधिक पूर्वकोटि प्रयत्न कालके अन्तमे चायिक सन्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद सम्भव है, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंका भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उच्छ्रष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रयत्नप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३०२. देवगतिमें देवोंने मिध्यात्वकी भुजगार और अत्रस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सन्यक्त्व और सन्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवकन्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उच्छ्रष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उच्छ्रष्ट अन्तर वही है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवकन्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारों ही का उच्छ्रष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सका भङ्ग नारकियोंके समान है । खीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषधके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपद नहीं है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेद्यक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहलानी चाहिए ।

१ ३०३. अणुदिसादि जाव सच्चव्हा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणताणु०-
चउक०-इत्थि-णहुंस० अप्प० णत्थि अंतरं । बारसक०-पुरिस०-भय०-दुशुंझा० भुज०-
अप्प० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०,
उक० सगट्ठिदी देसूणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोयो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं
जाव अणाहारि ति ।

अंतरं गदं ।

१ ३०४. णाणाजीवेहि भगविचयाणुगमेण दुविहो णिदोसो—ओपेण आदेसेण
य । ओपेण छव्वीसं पयडीणं सच्चपदाणि णियमा अत्थि । णवरि अणताणु०चउक०
अवत्त० पुरिस०-इत्थि०-णहुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोग० अवट्ठि० भयणिज्जं । सम्म०-
सम्मामि० अप्प० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं तिरिक्खेसु ।
णवरि छण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि ।

१ ३०५. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय०दुशुंझा० भुज०-

विशेषार्थ—देवोमे नौवे भवैयक तक ही मिथ्यादृष्टि होते हैं, इसलिए इस वातको
ध्यानमे रखकर अपने स्वामित्वके अनुसार यहाँ पर अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए ।

१ ३०३. अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
अनन्तानुवन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है ।
वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति,
अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं
है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अनुदिशसे लेकर आगेके देवोमे सब सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमे
मिथ्यात्व आदि नौ प्रकृतियोंकी एक अल्पतरविभक्ति होनेसे उसके अन्तर कालका निषेध किया
है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

१ ३०४. नाना जीवोका अवलम्बन लेकर भङ्ग विचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका
है—ओष और आदेश । ओषसे छव्वीस प्रकृतियोंके सब पद नियमसे हैं । इतनी विशेषता
है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्ति, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति,
अरति और शोककी अवस्थितविभक्ति भजनीय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी
अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए ।
इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोकी अवस्थितविभक्ति नहीं है ।

१ ३०५. आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साको

१. ता०प्रतौ 'णहुंस० भुज० अप्प०' इति पाठः ।

अप्प० गियमा अत्थि । अवट्टि० भयणिज्जा । एत्थ भंगाणि तिणिण । सम्म०-
सम्मामि०-उण्णोक्क० ओघो । णवरि उण्णोक्क० अवट्टि० णत्थि । अणताणु०चलक्क०
भुज०-अप्प० गियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं सव्वणेरइय-पंचिंदिय-
तिरिक्खविय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि
मणुसतिए उरणोक्क० अवट्टि० ओघं ।

§ ३०६, पंचिंदियतिरिक्खवियअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंळ० भुज०-
अप्प० गियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्टिद्विविहत्तियो च । सिया एदे च
अवट्टिद्विविहत्तिया च । सम्म०-सम्मामि० अप्प० गियमा अत्थि । सत्तणांक्क० भुज०-
अप्प० गियमा अत्थि । मणुस्तअपज्ज० सव्वपयडीसु सव्वपदाणि भयणिज्जाणि ।
अणुहिसादि जाव सवहा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणताणु०चलक्क०-इत्थि०-
णवुंस० अप्प० गियमा अत्थि । वारसक०-पुरिस०-भय०-दुगुंळ० णेरइयभंगो ।
चदुणोक्कसायाणमोघो । णवरि अवट्टि० णत्थि । एवं जाव अणाहारि ति ।

णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो समत्तो ।

§ ३०७, भागाभागाणुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं । अवस्थितविभक्ति भजनीय है । यहाँ पर भङ्ग तीन
है । सन्ध्वत्त्व, सन्ध्वग्मिध्यात्व और छह नोकपायोका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है
कि छह नोकपायोकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री भुजगार और
अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चन्द्रिय
तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोसे लेकर उपरिस ग्रैवैयक तकके
देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकसे छह नोकपायोकी अवस्थितविभक्तिका
भङ्ग ओषके समान है ।

§ ३०६, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी
भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे है । कदाचित् इन विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं और
अवस्थितविभक्तियाला एक जीव है । कदाचित् इन विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं और अवस्थित-
विभक्तियाले नाना जीव हैं । सन्ध्वत्त्व और सन्ध्वग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्ति नियमसे है । सात
नोकपायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे है । मनुष्यअपर्याप्तकोमें सब प्रकृतियोंके
सब पद भजनीय हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सन्ध्वत्व,
सन्ध्वग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, ह्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति नियमसे है ।
चारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है । चार नोकपायोका भङ्ग
ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । इसी प्रकार अनाहारक
मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयाणुगम समाप्त हुआ ।

§ ३०७, भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे

मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुग्धं० भुज०विहत्तिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागे ? संखेज्जा भागा । अप्प०-सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । अवट्ठि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । णवरि अणंताणु०चउक० अवत्त० सव्वजी० केव० ? अणंतिमभागो । सम्म०-सम्मामि०-भुज०-अवत्त०-अवट्ठि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । अप्प० असंखेज्जा भागा । इत्थि-हस्स-रइ० भुज० सव्व० केव० ? संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । पुरिस० एवं चेव । णवरि अवट्ठि० अणंतिमभागो । णवुंस०-अरदि-सोग०-भुज०-सव्वजी०-केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखे०-भागो । छण्णोक० अवट्ठि० सव्वजी० के० ? अणंतिमभागो । एवं तिरिक्खा० । णवरि छण्णोक० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ३०८. आदेसेण पेरइय० मिच्छ०-सम्म०--सम्मामि०-वारसक०--अट्ठणो-कसायाणमोघो । णवरि छण्णोक० अवट्ठि० णत्थि । अणंताणु०चउक० भुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा-भागा । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । सेसपंदट्ठिद० असंखे०भागो । पुरिस० ओघो । णवरि अवट्ठि० सव्वजी० के० ? असंखे०भागो ।

मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । सन्यक्त्व और सन्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवक्तव्य और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्त्रीवेद, हास्य और रतिकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । पुरुषवेदका भङ्ग इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । छह नोकषायोंके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितविभक्ति नहीं है ।

§ ३०८. आदेशसे नारकियोमें मिध्यात्व, सन्यक्त्व, सन्यग्मिध्यात्व, वारह कषाय और आठ नोकषायोंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी अवस्थित-विभक्ति नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष पदविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । पुरुषवेदका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब

एवं सचसु पुढवीसु पंचितिरिक्खतिय० मणुस्सोघो देवगइ भवणादि जाव सहस्सारे ति देवेसु पेद्व्वं । णवरि मणुस्सेसु छण्णोक्क० अचट्ठि० असंखे०भागो ।

§ ३०६. पंचितिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज० सच्चजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प० सच्चजी० केव० ? संखे०भागो । अचट्ठि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० णत्थि भागाभागो । कुदो ? एयपदत्तादो । इत्थि०-पुरिस०-इस्स-रइ० भुज० सच्चजी० केव० ? संखे०भागो । अप्प० सच्चजी० केव० ? संखेज्जा भागा । णवुंस०-अरदि-सोग० भुज० संखेज्जा भागा । अप्प० संखे०भागो । एवं मणुसअपज्जत्ताणं ।

§ ३१०. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुंछ० भुज० संखेज्जा भागा । अप्प०-अचट्ठि० संखे०भागो । एवमणंताणु०चलक्कस्स । णवरि अवत्त० संखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अचट्ठि०-अचत्त० सच्चजी० के० ? संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । इत्थि-इस्स-रइ० भुज० संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । एवं पुरिस० । णवरि अचट्ठि० संखे०भागो । णवुंस०-अरदि०-सोग० भुज० संखेज्जा

जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चक्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिने देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रारकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विरोधता है कि मनुष्योंमें ब्रह्म नोकयायोंकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

§ ३०६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चक रूपर्याप्रकोने निष्कल्प, सोलह कणव, भय और जुगुत्ताकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं । संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । स्म्यक्त्व और स्म्यग्निश्चयात्त्वका भागभाग नहीं है, क्योंकि उनका एक पद है । ऋग्वेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिकी भुजगार-विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर-विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोसे जानना चाहिए ।

§ ३१०. मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्द्योमें मिथ्यात्व, चारह कणव, भय और जुगुत्ताकी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । स्म्यक्त्व और स्म्यग्निश्चयात्त्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । ऋग्वेद, हास्य और रतिकी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्ति-वाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और

भागा । अप्प० संखे० भागो । छण्णांक० अवट्ठि० संखे० भागो ।

§ ३११. आणदादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति मिच्छ०-अणंताणु० चरक्क० भुज० संखे० भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । अवट्ठि० अणंताणु० चरक्क० अवत्त० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मामि०-वारसक्क०-भय-दुगुंछ० देवोघो । पुरिस० कसाय-भंगो । इत्थि०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । णत्तुंस० इत्थिवेद-भंगो । अणुदिसादि जाव अदराइदो त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणुचरक्क०-इत्थि०-णत्तुंसयवेदाणमेयपदत्तादो णत्थि भागाभागो । वारसक्क०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० आणदभंगो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । सव्वट्ठे एवं चेव । णवरि वारसक्क०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० भुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प०-अवट्ठि० संखे० भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

भागाभागो समत्तो ।

§ ३१२. परिमाणानुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । छह लोकपायोकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

§ ३११. आनतकल्पसे लेकर उपरिम प्रवेयकतकके देवोमे मिध्यात्व और अनन्तानु-बन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवकल्प-विभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, वारह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । पुरुषवेदका भङ्ग कपायोंके समान है । स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानतकके देवोमे मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका एक पद होनेसे भागाभाग नहीं है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग आनतकल्पके समान है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । सर्वार्थसिद्धिमे इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके संख्यातवें भागप्रमाण हैं । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । इसीप्रकार अनाहारकर्मार्थणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ३१२. परिणामानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।

मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्टि० केत्तिया ? अणंता ।
अणंताणु०चउक० अवत्तव्व० पुरिस० अवट्टि० केत्तिया ? असंखेज्जा । सम्म०-
सम्मामि० पदचउकट्टिदजीवा केत्तिया ? असंखेज्जा । इण्णोक्क० भुज०-अप्प०
केत्तिया ? अणंता । अवट्टि० के० ? संखेज्जा । एवं तिरिक्खा० । णवरि इण्णोक्क०
अवट्टि० णत्थि ।

§ ३१३. आदेशेण णेरइय० अट्ठावीसं पयहीणं सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा ।
एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुस्सअपज्ज०-देवगइदेवा भवणादि जाव
अवराइदंत्ति ।

§ ३१४. मणुस्सेसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० तिण्णि पदा सम्म०-
सम्मामि० अप्प० सत्तणोक्क० भुज०-अप्प० केत्ति० ? असंखेज्जा । सम्म०-सम्मामि०
भुज०-अवट्टि०-अवत्त० अणंताणु०चउक० अवत्त० पुरिस०-इण्णोक्क० अवट्टि०
केत्तिया ? संखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वट्टिसिद्धीसु सव्वपयहीणं सव्वपदा
केत्तिया ? संखेज्जा । एवं जाव अणाहारिंत्ति ।

परिमाणानुगमो समत्तो ।

ओषसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और
अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य
और पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व और
सम्यग्मिथ्यात्वके चार पदोंमें स्थित जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । छह नोकषायोंकी भुजगार
और अल्पतरविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?
संख्यात हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह
नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है ।

§ ३१३. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिमें देव
और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३१४. मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीव,
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदवाले जीव तथा सात नोकषायोंके भुजगार और
अल्पतर पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार,
अवस्थित और अवक्तव्य पदवाले जीव, अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीव तथा
पुरुषवेद और छह नोकषायोंके अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त,
मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।
इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३१५. खेत्ताणुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० तिण्णपदा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । अणंताणु०चउक० अवत्त० के० खेत्ते ? लोग० असंखे०भागे । सम्म०-सम्मापि० भुज०-अप्प०-अवत्त०-अवट्ठि० के० खेत्ते ? लोग० असंखे०भागे । छण्णोक० भुज०-अप्प० के० खेत्ते ? सव्वलोगे । अवट्ठि० लोग० असंखे०भागे । एवं पुरिस० । एवं तिरिक्खोघो । णवरि छण्णोक० अवट्ठियं णत्थि ।

§ ३१६. आदेसेण णिरय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अणंताणु०चउक० अवत्त० केव० खे० ? लोगस्स असंखे०भागे । सम्म०-सम्मापि० सव्वपदा छण्णोक० भुज०-अप्प० के० खेत्ते ? लोगस्स असंखे०-भागे । एवं सव्वणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा चि ! णवरि मणुसतिए छण्णोक० अवट्ठि० ओघं । पंचिंतिरिक्ख-अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछा० तिण्ण पदाणि सम्म०-सम्मापि० अप्प० सत्तणोक० भुज०-अप्प० केव० ? लोग० असंखे०भागे । एवं मणुसअपज्ज० ।

§ ३१५. ज्ञानानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है । लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर, अवक्तव्य और अवस्थित पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । छह नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । अवस्थित विभक्तिवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें छह नोकषायोंका अवस्थित पद नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके जो पद एकेन्द्रिय जीवोंके होते हैं उनका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है और शेषका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण । इसीप्रकार आगे भी अपने अपने क्षेत्रको जानकर घटित कर लेना चाहिए ।

§ ३१६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदवाले जीवोंका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीवोंका तथा छह नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम-भ्रंवेयकतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें छह नोकषायोंके अवस्थित पदका क्षेत्र ओघके समान है । पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदवाले जीवोंका तथा सात नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ?

अणुदिसप्पहुटि जाव सच्चट्टा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क०
इत्थि०-णवुंस० अप्प० वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुञ्ज० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुज०-अप्प० केव० ? लोग० असंखे०भागो । एवं जाव
अणाहारि त्ति ।

खेतं गदं ।

§ ३१७. पोसणाणुगमेण दुविहो णिदंसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्गुञ्ज० भुज०-अप्प०-अवट्ठिदविहत्तिएहि केव० पोसिदं ?
सच्चलोगो । अणंताणु०चउक्क० अवत्त० लोगस्स असंखे०भागो अट्ठचोइस० ।
सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्तच्चविहत्तिएहि लोगस्स असंखे०भागो अट्ठचोइस० ।
अप्प० के० ? लोग० असंखे०भागो अट्ठचोइस० सच्चलोगो वा । अवट्ठि० केव०
पो० ? लोग० असंखे०भागो अट्ठ-वारहचोइस० । छण्णोक० भुज०-अप्प० केव०
पोसिदं ? सच्चलोगो । तेसिं चेष अवट्ठि० लोगस्स असंखे०भागो । एवं पुरिस० ।
णवरि अवट्ठि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो अट्ठचोइस० देसूणा ।

लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकॉसे जानना चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, श्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर पदवाले जीवोका, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदवाले जीवोका तथा हास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है? लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण क्षेत्र है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

इसप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

§ ३१७. स्पर्शानानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश। ओषसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उन्हींकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार पुरुष-वेदकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अवस्थितविभक्तिवाले

§ ३१८. आदेशेण पेरइ० मिच्छ०—सोलसक०—भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-
अवट्टि० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो छचाइस० । अणंताणु०चउक०
अवत्त० लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० खेतभंगो । अप्पदर०
सत्तणोक० भुज०-अप्प० केव० फोसिदं ? लोगसस असंखे०भागो छचाइस० ।
पुरिस० अवट्टि० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० अवट्टि०

जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनालीके कुछ कम
आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व आदि उनीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद
एकेन्द्रियोंके भी होते हैं, इसलिये इनके उक्त पदवाले जीवोका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है ।
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद ऐसे जीवोंके होता है जो इनकी विसंयोजना करके पुनः
इनसे संयुक्त होते हैं । ऐसे जीवोका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत
स्पर्शन देवोके विहार आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त
होनेसे तत्प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले
जीवोका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह
भागप्रमाण स्पर्शन इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । इनकी अल्पतर विभक्तिवालोका उक्त
स्पर्शन तो बन ही जाता है । तथा यह विभक्ति एकेन्द्रियादिके भी सम्भव है, इसलिये सर्व लोक
प्रमाण स्पर्शन भी बन जाता है । इन दोनों प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्ति सासादनसम्यग्दृष्टियोंके
होती है, इसलिये इस अपेक्षासे इनके अवस्थित पदका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग,
त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । छह नोकषायोंकी
भुजगार और अल्पतरविभक्ति एकेन्द्रियादि जीवोके भी होती है, इसलिये इनके उक्त पदवाले
जीवोका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणिये होती है,
इसलिये इनके इस पदवाले जीवोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । पुरुषवेदके
भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोका स्पर्शन तो छह नोकषायोके ही समान है, इसलिये इसका
भङ्ग छह नोकषायोंके समान जानने की सूचना की है । मात्र इसके अवस्थित पदके स्पर्शनमें
अन्तर है । बात यह है कि पुरुषवेदका अवस्थित पद सम्यग्दृष्टि जीवोके होता है, इसलिये इसके
उक्त पदवाले जीवोका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन
त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

§ ३१८. आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार,
अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें
भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इनकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने और सात नोकषायोकी भुजगार
और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण
और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने

केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो पंचचोदस० । पदमपुढवीए खेतभंगो । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव । णवरि अप्पणो रज्जूओ फोसणं कायव्वं । सत्तमाए सम्म०-सम्पामि० अवट्ठि० खेतभंगो ।

§ ३१६. तिरिक्खगईए तिरिक्खेहि मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केव० फोसिदं ? सव्वलोगो । अणंताणु०चचक्क० अवत्त० सम्म०-सम्पामि० भुज०-अवत्त० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्पामि० अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अवट्ठि० लोग० असंखे०भागो सत्त-चोदस० । सत्तणोक्क० भुज०-अप्प० केव० फोसिदं ? सव्वलोगो । णवरि पुरिस० अवट्ठि० लोगस्स असंखे०भागो ।

क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । दूसरीसे लेकर सातवीं तकके नारकियोंमें इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजुओंमें स्पर्शन करना चाहिए । तथा सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति-वाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य नारकियोंमें जिन प्रकृतियोंके जिन पदोका स्पर्शन उपपादपद या मारणान्तिक पदके समय सम्भव है उनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा शेष पदोंका स्पर्शन मात्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र सासादनसम्यग्दृष्टि नारकी जीव छठवें नरकतकके ही मरकर अन्य गतिमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थित पदवाले जीवोका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा सातवीं पृथिवीका सासादनसम्यग्दृष्टि मरकर अन्य गतिमें नहीं जाता, इसलिए इसमें उक्त दोनों प्रकृतियोंके अवस्थित पदवाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३१६. तिर्यञ्चगतिमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुपवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सासादन तिर्यञ्चोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति सम्भव होनेसे इनके उक्त पदवाले जीवोंका

§ ३२०. पंचिदियतिरिक्वतिए मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुमुंछ० भुज०-अप्प०-
 अवट्टि० केव० ? लो० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अणंताणु०चउक्क० अवत्त०
 सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । दोण्हमपपद०
 लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अवट्टि० लोग० असंखे०भागो सत्तचोइस० ।
 इत्थि० भुज० केव० ? लो० असंखे०भागो । अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो
 वा । कुदो ? एणुंसयवेदवंधेण एइंदिएसुववज्जभाए पंचिदियतिरिक्वतियस्स
 अप्पदरीकयइत्थिवेदस्स सव्वलौयवाचित्तदंसणादो । पुरिस० भुज० केव० फोसिदं ?
 लोग० असंखे०भागो छचोइस० । अवट्टि० लोग० असंखे०भागो । कुदो छचोइसभागा
 ण फुसिज्जंति ? ण, असंखेज्जवासाअपंचिदियतिरिक्वतियसम्माइंदि मोत्तए अणणत्थ
 अवट्टिदपदस्सासंभवादो । तं पि कुदो ? पत्तिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण विणा
 अवट्टिदपाओग्गत्ताणुवलंभादो । अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो

स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है, क्योंकि नपुंसकवेदके बन्धके साथ एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न होनेवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकका स्त्रीवेदके अल्पतर पदके साथ समस्त लोकमे स्पर्शन देखा जाता है । पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

शंका—पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, असंख्यात वर्षकी आयुवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिक सम्यग्दृष्ट जीवको छोड़कर अन्यत्र अवस्थित पदकी प्राप्ति असम्भव है ।

शंका—बह भी कैसे है ?

समाधान—क्योंकि पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके विना अवस्थितपदकी योग्यता नहीं उपलब्ध होती है ।

पुरुषवेदकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके

सव्वलोगो वा । पंचणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ३२१. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्गं० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्मामि० अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । इत्थि-पुरिस० भुज० लोग० असंखे०भागो । अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । णवुंस०-चट्टणोक० भुज०-अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०-भागो सव्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्जत्तएणु ।

§ ३२२. मणुसतिए मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्गं० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० लोग० असं०भागो, सव्वलोगो वा । अणंताणु०चउक्क० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० लोग० असंखे०भागो । दोण्हमप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अवस्थित पदवालोंका लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें घटित करके बतला आए हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । स्त्रीवेदकी अल्पतरविभक्तिवाले उक्त जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले उक्त जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्यों किया है इसका स्पष्टीकरण मूलमें ही किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतर विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो पञ्चेन्द्रिय लक्ष्यपर्याप्त तिर्यञ्च एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुदधात करते हैं उनके स्त्रीवेद और पुरुषवेदका बन्ध न होनेसे भुजगारपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२२. मनुष्यत्रिकोमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और

अवट्टि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो सत्तचोदस० । इत्थि०-पुरिस० भुज० पुरिस० अवट्टि० लोग० असंखे० भागो । दोण्हमप्प० णवुंस०-चट्टुणोको भुज०-अप्प० लोग० असंखे० भागो सन्वळोगो वा । छण्णोक्कं अवट्टि० खेतभंगो ।

§ ३२३. देवगईए देवेसु पिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं छ० भुज०-अप्प०-अवट्टि० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोदस० । अणंताणु०चउक्कं अवत्त० सम्म०-सम्मापि० भुज०-अवत्त० लोग० असंखे० भागो अट्टचोदस० । सम्म०-सम्मापि० अप्पद०-अवट्टि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोदस० । इत्थि० भुज० पुरिस० भुज०-अवट्टि० लोग० असंखे० भागो अट्टचोद० । दोण्हमप्प० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोदस० । पंचणोको भुज०-अप्प० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोद० । एवं सोहम्मीसाणेसु ।

सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेद की अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

§ ३२३. देवगतिमे देवोंमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य-विभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है। लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दोनोंकी अल्पतरविभक्ति-वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पाँच नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति-वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमे जानना चाहिए।

विशेष पाथ—देवोंमे स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्ति तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थित-विभक्ति ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमे मारणांतिक समुद्घात करते समय सम्भव नहीं है, इसलिये

§ ३२४. भवण०-वाण०-जोइसिएसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० लोगस्स असंखे०भागो अद्धु हा वा अट्ट-णवचोइस० । अणंताणु०-चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मापि० भुज०-अवत्त० इत्थिवेद० भुज० पुरिस० भुज०-अवट्ठि० लोग० असंखे०भागो अद्धु हा वा अट्टचोइस० । सम्म०-सम्मापि० अप्प०-अवट्ठि० इत्थि०-पुरिस० अप्प० णवुंस०-चट्टुणोक० भुज०-अप्प० लो० असंखे०-भागो अद्धु हा वा अट्ट-णवचोइ० ।

§ ३२५. सणकुमारादि जाव सहस्सारा त्ति मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा-पुरिस० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अणंताणु०चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मापि० भुज०-अप्प०-अवत्त०-अवट्ठि० इत्थि०-णवुंस०-चट्टुणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे०-भागो अट्टचोइस० । आणदादि जाव अचुत्तुदा त्ति सव्वपयडीणं सव्वपदेहिं केव०

इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त पदवाले देवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और विहार आदिकी अपेक्षा स्पर्शन त्रस नालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२४. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले, स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अल्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यपद, स्त्रीवेदका भुजगारपद और पुरुषवेदका भुजगार और अवस्थितपद एकेन्द्रियोगे मारणान्तिक समुद्रघात करते समय नहीं होते, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन कइते समय त्रसनालीका कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२५. सनकुमार से लेकर सहस्सार कल्पतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा और पुरुषवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अल्पतर, अवक्तव्य और अवस्थितविभक्तिवाले तथा स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतर विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनत कल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें सब

फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो द्वचोदस० । उवरि खेतभंगो । एवं जाव अणाहारि सि ।

फोसणं समत्तं ।

§ ३२६. पाणाजीवेहि कालाणुगमेण दुविहो णिहे सो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छ०-सोत्तसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप०-अवट्ठि० केवचिरं ? सव्वद्धा । अणंताणु०चउक्क०-सम्म०-सम्मामि० अवत्त० पुरिस० अवट्ठि० केव० ? जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । पुरिस० अवट्ठि० अंतोमुहुत्तं वा । सम्म०-सम्मामि० भुज० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप० सत्तणोक्क० भुज०-अप० सव्वद्धा । छणोक्क० अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं तिरिक्खोघो । णवरि छणोक्क० अवट्ठि० णत्थि । पुरिस० अवट्ठि० अंतोमुहुत्तं पि णत्थि ।

प्रकृतियोंके सत्र पदवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऊपर के देवोमें स्पर्शन का भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक सागैणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

§ ३२६. नाना जीवोकी अपेक्षा कालानुगमके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका कितना काल है ? सर्वदा काल है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अथवा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके त्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्ति तथा सात नोकषायो की भुजगार और अल्पतर विभक्तिका काल सर्वदा है । छह नोकषायोकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे छह नोकषायोकी अवस्थितविभक्ति नहीं है तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त भी नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व आदि उनीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोके होते हैं, इसलिए नाना जीवोकी अपेक्षा इनका सर्वदा काल वन जानेसे यह सर्वदा कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद ऐसे जीवोके होता है जो विसंयोजनाके वाद पुनः उससे संयुक्त होते हैं, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद जो इनकी सत्ता से रहित जीव उपशमसम्यक्त्व प्राप्त करते हैं उसके प्रथम समयमें होता है और पुरुषवेदका अवस्थित पद सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । यह सम्भव है कि एक या नाना जीव उक्त प्रकृतियोंके ये पद एक समय तक ही करे और यह भी सम्भव है कि आवलिके असंख्यातवें

§ ३२७. आदेसेण गेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि० अणंताणु०चउक्क० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० अवत्त० जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्ठि० जह० अंतोमु० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० छण्णोको भुज०-अप्प० सव्वद्धा । एवं सत्तसु पुढवीसु पंचिदियतिरिक्खतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति ।

§ ३२८. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि०

भागप्रमाण काल तक करते रहें। यही कारण है कि इनके उक्त पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा उपशमश्रेणिमें पुरुषवेदके अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त वन जानेसे विकल्परूपसे उक्तप्रमाण कहा है। उपशम-सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक होती है, इसलिए तो इस विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है और क्रमसे यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंकी इस विभक्तिको करते रहे तो पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल प्राप्त होता है, इसलिए इनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। नाना जीवोंकी अपेक्षा सासादनका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्ति तथा सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति सर्वदा होती है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि उक्त प्रकृतियोंकी ये विभक्तियाँ एकेन्द्रियादि जीवोंके भी पाई जाती हैं। शेष कथन सुगम है।

§ ३२७. आदेशसे नारकियोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका, अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और एक समय है तथा दोनों विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इनकी अल्पतरविभक्तिका तथा छह नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमे देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—ओषसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका काल घटित करके बतला आये हैं। यहाँ भी स्वामित्वको ध्यानमें रखकर वह घटित कर लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे उसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए।

§ ३२८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सत्यक्त्व और

अप्य० सत्तणोक० भुज०-अप्य० सन्वद्धा ।

§ ३२६. मणुसगईए मणुसाणं णेरइयभंगो । णवरि तिण्हमवत्त० पुरिस० अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्ठि० जह० अंतोमु० एग०, उक्क० अंतोमुं० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीए । णवरि सन्वेत्तिं अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । उवसमसेदीए मणुसत्तियम्मि वारसक०-णवणोक० अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ३३०. मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० भुज०-अप्य० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० आर्वलि० असंखे०-भागो । सम्म०-सम्मामि० अप्पद० सत्तणोक० भुज०-अप्यद० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-भागो ।

सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका तथा सात नोकषायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है ।

§ ३२६. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन तीनोंकी अवक्तन्यविभक्तिका तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका क्रमसे जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और एक समय है तथा दोनो विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिधोमें ज्ञानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सबकी अवस्थित-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । उपशमश्रेण्डिमें मनुष्यत्रिकमें वारह कषाय और नौ नोकषायोकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—उपशमश्रेण्डिमें वारह कषाय और नौ नोकषायोकी अवस्थितविभक्ति ऐसे जीवोंके भी होती है जो इनका एक समय तक अवस्थित पद करके और दूसरे समयमें मरकर देव हो जाते हैं । तथा जो उपशमश्रेण्डिमें इनका अवस्थितपद करके आरोहण और अवरोहण करते हैं उनके अन्तर्मुहूर्त काल तक इनकी अवस्थितविभक्ति होती है । कुछ जीव यहाँ अवस्थित-पद करनेके बाद उसके समाप्त होनेके अनन्तर समयमें भी यदि नाना जीव अवस्थितपद करें और इसप्रकार निरन्तर क्रम चले तो भी अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, इसलिए मनुष्यत्रिकमें उक्त प्रकृतियोंके इस पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ३३०. मनुष्य अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका तथा सात नोकषायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

१. ता० प्रत्तौ 'अवट्ठि० उक्क० अंतोमु०' इति पाठः ।

§ ३३१. अणुहिसादि जाव अचराइदा ति मिच्छं०-सम्मं०-सम्मामि०-अणताणु०-चउक्कं०-इत्थिवेदं०-णबुंसं० अप्पं० सब्बदा । वारसकं०-पुरिसं०-भय-दुगुंछां०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं देवोषो । एवं सब्बहे । णवरि जग्धि आबलिं० असंखे०-भागो तग्धि संखेज्जा समया । एवं जाव अणाहारि ति ।

णाणाजीवेहि कालो समत्तो ।

§ ३३२. णाणाजीवेहि अंतरं दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छं०-सोलसकं०-भय-दुगुंछां० तिग्धिगपदा णत्थि अंतरं णिरतरं । अणताणु०-चउक्कं० अवत्तं० जहं० एगसं०, उक्कं० चउवीसमहोरत्ताणि सादिरेयाणि । एवं सम्मं०-सम्मामि० अवत्तं० । सम्मं०-सम्मामि० अप्पं० णत्थि अंतरं णिरतरं । भुजं० जहं० एगसं०, उक्कं० सत्त रादिदियाणि । अवट्ठिं० जहं० एगसं०, उक्कं० पत्तिदो० असंखे०-भागो । छण्णोक्कं० भुजं०-अप्पं० णत्थि अंतरं । अवट्ठिं० जहं० एगसं०, उक्कं० वासपुवत्तं । एवं पुरिसं० । णवरि अवट्ठिं० जहं० एगसं०, उक्कं० असंखेज्जा लोगा । उवसमसेद्विवक्खाए पुण वासपुवत्तं ।

विशेषार्थ—यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें उक्त काल बन जाता है ।

§ ३३१. अनुदिशासे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सन्यक्त्व, सन्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद और नपुंसकत्रेदकी अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति और शोक्रका भङ्ग सामान्य देवोंके समान हैं । इसीप्रकार सर्वार्थस्तिष्ठिमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातत्वे भागप्रमाण काल कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

§ ३३२. नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर कालका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके तीन पदोंका अन्तर काल नहीं है वे निरन्तर हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । इसीप्रकार सन्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका अन्तर काल जानना चाहिए । सन्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर विभक्तिका अन्तर काल नहीं है वह निरन्तर है । भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातत्वे भागप्रमाण है । छह नोकबायोंकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । परन्तु उपशमश्रेणिकी विवक्षासे वर्ष पृथक्त्वप्रमाण है ।

§ ३३३. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोत्तसक०-पुरिस०-भय-दुग्घं० भुज०-
अप० णत्थि अंतरं णिर० । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।
सम्म०-सम्मामि०-छण्णोक्क० ओघो । णवरि छण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि ।
अणंताणु०चउक्क० अवत्त० ओघो । एवं सत्तसु पुढवीसु । पंचि०तिरिक्खत्थिय-मणुस-
त्थिय-देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति एवं चेव । णवरि मणुसत्थियम्मि
सत्तणोक्क० अवट्ठि० ओघं । वारसक०-भय-दुग्घंछाणं पि अवट्ठि० उवसमसेडिचिक्खत्वाए

विशेषार्थ—ओघसे मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके तीन पदोंका काल सर्वदा घटित करके बतला आये हैं, इसलिए यहां उक्त प्रकृतियोंके इन पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है। यह सम्भव है कि जिन्होंने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की है वे जीव कमसे कम एक समयके अन्तरसे उनसे संयुक्त हों, इसलिए तो इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जिन्होंने इनकी विसंयोजना की है ऐसा एक भी जीव अधिकसे अधिक साधिक चौबीस दिन रात तक इनसे संयुक्त न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर पाये जाते हैं और वे उनकी अल्पतरविभक्ति ही करते हैं, इसलिए इनके अल्पतर पदके अन्तरकालका निषेध किया है। इनकी भुजगार विभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और उपशमसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिन-रात है, इसलिए इनके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिन-रात कहा है। तथा इनका अवस्थितपद सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है, इसलिए सासादनके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-कालके समान इनके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियादि जीवोंके भी छह नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति होती रहती है, इसलिए इनके उक्त दोनों पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणियोंमें होती है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्वप्रमाण कहा है। पुरुषवेदका अन्य सब भङ्ग छह नोकपायोंके समान ही है। मात्र उसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो प्रकारसे बतलाया है सो विचार कर घटित कर लेना चाहिए।

§ ३३३. आदेससे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है निरन्तर है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और छह नोकपायोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ छह नोकपायोंका अवस्थित पद नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। इसीप्रकार सातो पृथिवियोंमें जानना चाहिए। पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्चनिक, मनुष्यनिक, देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनिकमें सात नोकपायोंके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। तथा वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल उपशमश्रेणियोंकी विवक्षासे

१. सांप्रतौ 'णिर० । थियसा अवट्ठि०' इति पाठः ।

वासपुधत्तं ।

§ ३३४. तिरिक्खगईए तिरिक्खाणमोघो । णवरि छण्णोक० अवट्ठि० णत्थि । पुरिस० अवट्ठि० वासपुधत्तं णत्थि । पंचि०तिरि०अपज्ज० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० अप्प० पुरिस० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । सेसपदाणि अणंताणु० अवत्तव्वं च णत्थि । मणुसअपज्ज० छव्वीसं पयडीणं भुज०-अप्प० सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । जेसिमवट्ठिद-पदमत्थि तेसिं जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अणुद्दिसादि जाव सव्वहा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० अप्प० चउणोक० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० णेरइयभंगो । एवं जाव अणाहारि ति ।

णाणा० अंतरं समत्तं ।

§ ३३५. भावाणुगमेण दु० णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्व-पयडीणं सव्वपदा त्ति को भावो ? ओदइओ भावो । एवं जाव अणाहारि ति ।

भावाणुगमो समत्तो ।

वर्षप्रत्यक्षप्रमाणं हं ।

विशेषार्थ—अपने अपने स्वामित्वको देखकर यहाँ सब प्रकृतियोंके अपने अपने पदोंका अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे हमने अलग अलग तुलासा नहीं किया है । तथा इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए ।

§ ३३४. तिर्यञ्चगतिमे सामान्य तिर्यञ्चमि ओषके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता है कि छह नोकपायोंका अवस्थितपद नहीं है । तथा पुरुषवेदके अवस्थित पदका वर्षप्रत्यक्षप्रमाण अन्तर काल नहीं है । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमे पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्ति तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । इनके शेष पद तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद नहीं हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमे छव्वीस प्रकृतियोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्पके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । जिनका अवस्थितपद है उनके इस पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीविद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति तथा चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारक्तियोंके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गीणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर काल समाप्त हुआ ।

§ ३३५. भावानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका कौन भाव है ? औदयिकभाव है । इसप्रकार अनाहारक मार्गीणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३३६. अप्पावहुआणुगमेण दुविहो णिहँ सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुद्धाणं सव्वत्थोवा अवट्ठिद्विहत्तिया । अप्पद० असंखे०-गुणा । भुज० संखे०गुणा । सम्म०-सम्भामि० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० असंखे०गुणा । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । अणंताणु०चउक्कस्स सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० अणंतगुणा । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि०-हस्स-रईणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० अणंतगुणा । अप्प० संखे०गुणा । णवुंसय०-अरदि-सोगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० अणंतगुणा । भुज० संखे०गुणा । पुरिसवेदस्स सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० अणंतगुणा । अप्प० संखे०गुणा । एवं तिरिक्खोघो । णवरि छण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ३३७. आदेसेण णेरइय० अणंताणु०चउक्कस्स सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । पुरिस० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । सेसाणमोघो । णवरि छण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि । एवं सव्वणेरइय-पंचिदियतिरिक्खतिय-मणुस्सेसोवं देवगदीए देवा भवणादि जाव सहस्सार ति । णवरि मणुस्सेसु सम्म०-सम्भामि० सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।

§ ३३६. अल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । शेष भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । स्त्रीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि इनमें छह नोकपायोंका अवस्थितपद नहीं है ।

§ ३३७. आदेशसे नारिक्योंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेपता है कि छह नोकपायोंका अवस्थितपद नहीं है । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्सार कल्प तकके

अवत्त० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । इत्थि०-हस्स-रईणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । णुंस०-अरइ-सोगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० असंखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा ।

§ ३३८. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझाणमोघो । णवरि अणंताणु०चउक्क०अवत्त० णत्थि । सम्म०-सम्मापि० णत्थि अप्पावहुअं, एयपदादा० । इत्थिवेद०-पुरिसं-हस्स-रदीणं सव्वत्थोवा भुज० । अप्प० संखेज्जगुणा । णुंस०-अरदि-सोगाणं सव्वत्थोवा अप्प० । भुज० संखे०गुणा । एवं मणुसअपज्ज० ।

§ ३३९. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुंझा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अणंताणु०चउक्क० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० संखे०गुणा । सेसं मिच्छत्तभंगो । सम्म०-सम्मापि० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । पुरिस० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० संखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । सेसमोघो । णवरि

देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें सम्यक्त्व और सन्यग्मिध्यात्वके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण्ये हैं । खीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण्ये हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोक्के अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण्ये हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं ।

§ ३३८. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद नहीं है । सम्यक्त्व और सन्यग्मिध्यात्वका अल्पवहुत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ इनका एक पद है । खीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिके भुजगारविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोक्के अल्पतरविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

§ ३३९. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिध्यात्व, चारह कपाय, भय और जुगुप्साके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । शेष भङ्ग मिध्यात्वके समान है । सम्यक्त्व और सन्यग्मिध्यात्वके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । पुरुषवेदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । शेष भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है

छण्णोक्क० अवट्ठि० सच्चत्थोव्वं । उवरि संखेज्जगुणं कायव्वं ।

§ ३४०. आणदादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति चारसक०-इत्थि०-हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछा--सम्मत्त--सम्मामिच्छत्ताणं देवोघो । अणंताणु० चउक्कस्स सच्चत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखे०गुणा । भुज्ज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०-गुणा । एवं मिच्छ० । णवरि अवत्त० णत्थि । पुरिस० कसायभंगो । णवुंस० इत्थिवेदभंगो । अणुदिसादि जाव अवराइद त्ति दंसणतिय-अणंताणु० चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० वेदाणं णत्थि अप्पावहुअं । सेसाणमुवरिमगेवज्जभंगो । सच्चद्वे एवं चेव । णवरि चारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० संखे०गुणं कायव्वं । एवं जाव अणाहारए त्ति ।

एवं भुजगारविहत्ती समत्ता ।

❀ पदणिकखेव-वड्डीओ च कायव्वाओ ।

§ ३४१. एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे—पदाणमुक्कस्स-जहण्ण-वट्ठि-हाणि-अवहाणावत्तव्वसण्णिदाणं णिकखेवो समुक्कित्ताणा-सामित्तादिविसेसेहि णिच्छयजणणं पदणिकखेवो णाम । भुजगारविसेसो पदणिकखेवो त्ति बुच्चं होइ । 'पदणिकखेवविसेसो वड्डी णाम । एदाओ दो वि विहत्तीओ भुजगाराणुसारणेत्थं कायव्वाओ त्ति अत्थ-

कि छह नोकपायोकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । आगे संख्यातगुणा करना चाहिए ।

§ ३४०. ज्ञानत कल्पसे लेकर उपरिम ग्रंथेयक तकके देवोंमे वारह कपाय, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मिध्यात्वके सम्भव पदोंका अल्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्यविभक्ति नहीं है । पुरुषवेदका भङ्ग कपायोंके समान है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमे तीन दर्शनमोहनिय, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पवहुत्व नहीं है । ओष प्रकृतियोंका भङ्ग उपरिम ग्रंथेयकके समान है । सर्वार्थसिद्धिमें इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका अल्पवहुत्व कहते समय संख्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भुजगारविभक्ति समाप्त हुई ।

* पदनिक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए ।

३४१. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—उत्कृष्ट और जघन्य वृद्धि, हानि, अवस्थान और प्रयत्न्य संज्ञावाले पदोंका निक्षेप अर्थात् समुत्कीर्तना और स्वाभित्व आदि विशेषोंके द्वारा निश्चय उत्पन्न करना पदनिक्षेप कहलाता है । भुजगारविशेषको पदनिक्षेप कहते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । तथा पदनिक्षेपविशेषको वृद्धि कहते हैं । ये दोनों ही विभक्तियाँ भुजगारके

समप्पणा एदेण कदा होइ । संपहि एदेण सुत्तेण समप्पिदत्थविवरणमुच्चारणवलेण कस्सामो । तं जहा—उत्तरपयडिपदणिकखेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णिण अणियोगद्वाराणि-समुक्कित्तणा सामित्तमप्पाबहुए त्ति ।

§ ३४२. तत्थ समुक्कित्तणा दुविहा—जहण्णा उक्कस्सा । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस-भय-दु० अत्थि उक्कस्सिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च । सम्मत-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि उक्क० वड्डी हाणी च । णवरि एत्थावट्ठिदस्स वि संभो अत्थि, सासणसम्माइडिम्मि सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणं तदुवल्लंभादो । सेसाणं पि उवसमसेहीए सन्वोवसामणम्मि तदुवल्लंभसंभवादो । तमेत्थ ए विवक्खियमिदि रोदव्वं । अदो चेव उवरिमो अप्पणागंथो सुसंवद्धो । एवं सन्वोरोइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खइ-मणुसइ-देवा जाव उपरिमगेवज्जा त्ति ।

§ ३४३. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंढा० अत्थि उक्क० वड्डी हाणी अवट्ठाणं च । सम्म०-सम्मामि० अत्थि उक्क० हाणी । सत्तणोके० अत्थि उक्क० वड्डी हाणी च । एवं मणुसअपज्ज० । अणुदिसादि जाव सन्वट्ठा त्ति

अनुसार यहाँ करनी चाहिए इसप्रकार इस सूत्र द्वारा अर्थका समर्पण किया गया है । अब इस सूत्र द्वारा समर्पित किए गये अर्थका विवरण उच्चारणके बलसे करते हैं । यथा—उत्तरप्रकृतिपदनिक्षेपका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ।

§ ३४२. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर अवस्थितपद भी सम्भव है, क्योंकि सासादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अवस्थितपद उपलब्ध होता है । तथा शेष प्रकृतियोंका भी अवस्थितपद उपशमश्रेणिये सर्वोपशामना होने पर उपलब्ध होता है । परन्तु वह यहाँ पर विवक्षित नहीं है ऐसा जानना चाहिए और इसीलिए उपरिम अर्पणा ग्रन्थ सुसम्बद्ध है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और उपरिम प्रवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए ।

§ ३४३. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि है । सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानि है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमे जानना चाहिए ।

१. वा०प्रती 'उक्क० हाथी । [सत्तणोके० अत्थि उक्क० हाथी] सत्तणोके०' इति पाठः ।

मिच्छ०-सम्म०-सम्मापि०-अणंताणु०-इत्थि०-णत्तुंस० अत्थि उक्क० हाणी । णवरि सम्म०-सम्मापि० वड्डीए त्ति संभवो दीसइ, उवसमसेहीए कालं कादूण तत्थुप्पएण-उवसमसम्मादिट्ठिमि दोण्हमेदेसिं कम्माणं वड्ढिदंसणादो । एदमेत्थ ए विवक्खिय-मिदि णेदच्चं । हस्म-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि उक्क० वड्डी हाणी च । वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुंछा० ओघं । एवं जाव अणाहारि त्ति । एवं जहण्णयं पि णेदच्चं, विसेसाभावादो ।

§ ३४४. सामित्तं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो हदसमुप्पत्तियकम्मसिओ कम्मं क्ववेहदि त्ति विवरीदं गंतूण सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु उववण्णो सच्चलहुं सच्चाहि पज्जतीहि पज्जत्तयदो उक्कस्ससंकिलेसमुक्कस्सगं च जोगं गदो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । एवरि तप्पाओग्ग-जहण्णसंतकम्मिओ खविदकम्मसिओ आणेदच्चो, वंधाणुसारेणेदमुक्कस्सवड्ढिसामित्तं पयट्ठं, अण्णहा पुण गुणिदकम्मसियलक्खणेणागंतूण विवरीयभावेण सम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणि पूरेदूण तदो मिच्छत्तं गयस्स पढमसमए पयदसामित्तेण होदच्चं, तत्था-संखेज्जाणं गुणिदसमयपवट्ठाणमप्रापवत्तेण मिच्छत्तस्सुवरि परिवड्ढिदंसणादो । उक्क०

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी वृद्धि भी सम्भव दिखलाई देती है, क्योंकि उपशमश्रेणियोंमें मरण करके वहाँ उत्पन्न हुए उपशमसम्यग्दृष्टि जीवमें इन दो कर्मोंकी वृद्धि देखी जाती है । किन्तु यह यहाँ पर विवक्षित नहीं है ऐसा जानना चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और घनि हैं । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार प्रनादारक मार्गों तक जानना चाहिए । तथा उत्कृष्टके समान जघन्य भी जानना चाहिए, क्योंकि उन्ट्रसे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ ३४४. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकारण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो 'गन्तार हतसमुत्पत्तिक कर्मांशिक जीव कर्मका क्षण करेगा किन्तु विपरीत जाकर सातवीं प्रथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हो और अति शीघ्र सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट संक्लेश और उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य जघन्य सत्कर्मवाले क्षणिककर्मांशिक जीवको लाना चाहिए । घन्धके अनुसार यह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व प्रवृत्त हुआ है, अन्यथा गुणितकर्मांशिक लक्षणसे व्यापक विपरीत भावसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको पूरक अनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होने पर उनके प्रथम समयमें प्रकृत स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अस्तव्यात गुणित सनायप्रवृत्तोंकी अधःप्रवृत्तभागादारके द्वारा मिथ्यात्वके ऊपर वृद्धि देखी जाती है ।

हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मंसियो सत्तमादो पुढवीदो णिस्सरिदसमाणो दो-तिण्णि भवे पंचिदिएसु वादरेइंदिएसु च गमेदूण तदो मणुस्सेसु गवभोवककतिएसु जादो सव्वलहुं जोणिणिक्वखणजम्मणेण जादो अट्टवस्सिअओ सम्मत्तं पडिवज्जिय दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्टिदो तेण भिच्छत्तं खविज्जमाणं खविदं जाधे' अपंचिच्चम-ट्टिदिसंखंडगं चरिमसमयसंछुठभमाणं संछुद्धं ताधे तस्स भिच्छत्तस्स उक्क० हाणी । सम्मत्त०-सम्माभि० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मंसियो सत्तमीए पुढवीए णेरइओ अंतोमुहुत्तेण भिच्छत्तमुक्कस्सं काहिदि ति विवरीयं गंतूण सम्मत्तं पडिवण्णो । तत्थ सम्मत्त-सन्मामिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण पूरिदाणि अंतोमुहुत्तमसंखेज्ज-गुणाए सेदीए सो से काले विज्जभादं पडिहिदि ति तस्स उक्क० वड्डी । अथवा दंसणमोहक्खवणेण गुणिदकम्मंसिएण जाधे भिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं ताधे सम्मामिच्छत्तस्स उक्क० वड्डी । तेणेव जाधे सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते पक्खित्तं ताधे [सम्मत्तस्स उक्क० वड्डी] । सम्म० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स चरिमसमए वट्टमाणस्स । सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? गुणिदकम्मंसिएण सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते जाधे संपक्खित्तं ताधे तस्स उक्क० हाणी । अण्णताणु०४ उक्क० वड्डी अवट्टाणं च भिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्ण०

मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीसे निकल कर तथा दो तीन भव पञ्चन्द्रियों और चादर एकैन्द्रियोंमें विता कर अनन्तर गर्भज मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनिसे निकलने रूप जन्मसे आठ वर्षका होकर तथा सन्यक्त्वको प्राप्त हो दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने क्षयको प्राप्त होनेवाले मिथ्यात्वका क्षय करते हुए जब अन्तिम स्थितिकण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण किया तब उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सन्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीमें नारकी होकर अन्तर्मुहूर्तमें मिथ्यात्वको उत्कृष्ट करेगा किन्तु विपरीत जाकर और सन्यक्त्वको प्राप्त होकर वहाँ सन्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा अन्तर्मुहूर्त काल तक असंख्यातगुणी गुणश्रेणिरूपसे पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा ऐसे उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अथवा दर्शनमोहनीयका क्षपक जो गुणितकर्मांशिक जीव जब मिथ्यात्वको सन्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त करता है तब उसके सन्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा वही जब सन्यग्मिथ्यात्वको सन्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है तब सन्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सन्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाला गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम समयमें विद्यमान है उसके सन्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सन्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव जब सन्यग्मिथ्यात्वको सन्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है तब उसके सन्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर

गुणिककर्मसिञ्चो जो सत्तमाए पुहवीए खेरइयो कम्ममंतोमुहुत्तेण गुणेहिदि ति सम्मत्तं पहिवएणो अंतोमुहुत्तेण अणंताणुवंधी विसंजो जयंतेण तेण अपच्छिमे द्विदिखंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी । अट्टएहं कसायाणमुक्कस्सवट्ठी अवट्टाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? गुणिककर्मसियस्स अणियट्टिखवगस्स अट्टएहं कसायाणमपच्छिमे द्विदिखंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी । तिण्हं संजलणाणमट्ट-कसायभंगो । लोहसंजलणस्स एवं चेव । णवरि सुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए उक्क० हाणी । इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमुक्क० वट्ठी मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अएणदं० गुणिककर्मसियस्स खवगस्स चरिमे द्विदिखंडए चरिमसमय-संकाभिदे इत्थि-णवुंस० उक्क० हाणी । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमुक्क० हाणी गुणिक-कर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिखंडयदुचरिमसमयसंकाभयस्स । पुरिसवेद० उक्क० वट्ठी मिच्छत्तभंगो । अवट्टाणं कस्स ? अएणद० असंजदसम्माइडिस्स अवट्टिदपाओग-संतकम्मिएण उक्कस्सवट्ठं कादूणाचडिदस्स तस्स उक्क० अवट्टाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अणणद० गुणिककर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिखंडयं विणासेमाणगस्स उक्क० हाणी । भय-दुगुंझाणं वट्ठि-अवट्टाणमुक्कस्सं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अणणद० गुणिककर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिखंडयदुचरिमसमए वट्टमाणगस्स ।

गुणितकर्माशिक सातवीं पृथिवीका नारकी जीव कर्मको अन्तर्मुहूर्तके द्वारा गुणित करेगा, इसलिये सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्तके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हुए जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है तब उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्पकी उत्कृष्ट हानि होती है। आठ कपायोकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्माशिक अनिष्टचित्तपक जीव आठ कपायोके अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। तीन संजलनोंका भङ्ग आठ कपायोके समान है। लोभसंज्वलनका भङ्ग इसीप्रकार है। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्ममांपरायके अन्तिम समयमें इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। लीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, प्रति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक चपक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके लीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा जो गुणितकर्माशिक चपक जीव हास्य, रति, प्रति और शोकके अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। रूपा उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा जो गुणितकर्माशिक चपक जीव चरम स्थितिकाण्डकका विनाश कर रहा है उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक चपक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें विद्यमान है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है।

§ ३४५. आदेशेण गेरइय० मिच्छत्त० उक्कस्सवट्ठि-अवहाणामोघभंगो । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं गुणेहिदि त्ति तदो सम्मतं पडिवण्णो सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण पूरेदूण से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० हाणी । सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सिया वट्ठी कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मंसियस्स जो सत्तमाए पुदवीए गेरइओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं गुणेहिदि त्ति सम्मतं पडिवण्णो तदो सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण पूरेयूण से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० वट्ठी । सम्म० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मंसिओ चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीओ तस्स उक्कस्सिया हाणी । सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणसंक्रमेण सम्मामिच्छत्तादो सम्मतं पूरेयूण विज्झादं पदिदपदयसमए तस्स उक्क० हाणी । अणताणु०४ उक्कस्सवट्ठी अवहाणं मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स सम्मतं पडिवज्जियूण अणताणु०४ विसंजोए तस्स तस्स अपच्छिये द्विदिसंइए चरिमसमयसंजोहयस्स तस्स उक्क० हाणी । वारसक०-भय-दुगुंझा० उक्कस्सवट्ठी अवहाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मंसियस्स कदकरणिज्जभावेण गेरइएसु उववण्णस्स जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे तस्स उक्कसिया हाणी । एवं पुरिसवेदस्स । णवरि अवहाणं सम्माइडिस्स ।

§ ३४५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओषके समान है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मको गुणित करेगा किन्तु सम्यक्त्वको प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक सातवीं पृथिवीका नारकी जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मको गुणित करेगा किन्तु सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अनन्तर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम समयमें दर्शनमोहनीयकी चपणा कर रहा है उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको पूरकर विध्यातको प्राप्त होता है उसके प्रथम समयमें उसकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करते समय अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव कृतकृत्यभावसे नारकियों में उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होता है तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार पुरुषवेदके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान

इट्टिस्स । इत्थि-णवुंस०-चटुणोकसाय० [उक्क०] वड्डी मिच्छत्तभंगो । अवट्ठाणं णत्थि । हाणी भय-दुगुद्धभंगो । जेसिमुदयो णत्थि तेसिं पि थियुक्कसंकमेणं पयदसिद्धी वत्तन्दा । पढमाए एवं चेव । णवरि अप्पणो पुढवीए उववज्जावेयव्वो । विदियादिं जाव सत्तमा ति एवं चेव । णवरि अप्पणो पुढवीए णामं वेत्तूण उववज्जावेयव्वो । णवरि सम्मत्तस्स उक्क० हाणी कस्स ? अप्पणद० गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तं पड्विज्जियूण अणंताणुवंधिं विसंजोइय ट्टिदस्स जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्क० हाणी । चारसक०-णवणोक० उक्क० हाणी एवं चेव ।

१ ३४६. तिरिक्खेगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? अप्पणद० खविदकम्मंसियो विवरीदं गंतूण तिरिक्खेगईए उववणो सन्वाहि पज्जतीहि पज्जत्तयो उक्कस्सजोगमुक्कस्ससंक्खिलेसं च गदो तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अप्पणद० गुणिदकम्मंसियस्स संजमासंजम-संजम-सम्मत्तगुण-सेदीओ कादूण मिच्छत्तं गदो तदो अविणट्ठासु गुणसेदीसु तिरिक्खेसु उववणस्स तस्स जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्क० हाणी । अथवा णेरइयभंगो । सम्मत्त०-सम्मामि० उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? अप्पणद० गुणिदकम्मंसिय-

सम्यक्दृष्टिके होता हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग सिध्यात्वके समान हैं । इनका अथस्थान नहीं है । इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग भय और जुगुप्साके समान है । तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है उनकी भी स्तियुक्तसंक्रमणसे प्रकृत विषयकी सिद्धि करनी चाहिए । पहली पृथिवीमे इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी पृथिवीमे उत्पन्न कराना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी पृथिवीका नाम लेकर उत्पन्न कराना चाहिए । इतनी और विशेषता है कि सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किमके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर और अनन्तानुग्रहार्थीचतुष्पत्ती विसंयोजना करके स्थित हैं उसके जब गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त होते हैं तब उनके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । चारह कपाय और नौ नोकपायोंका भङ्ग इसीप्रकार है ।

१ ३४६. तिर्यङ्गगतिमे तिर्यङ्गोमे सिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर अपित्तकर्मांशिक जीव विपरित जाकर तिर्यङ्गगतिमे उत्पन्न हो और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संवत्शक्तो प्राप्त हुआ उसके सिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उत्तोकें अनन्तर समयमे उत्कृष्ट प्रवन्धान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वकी गुणश्रेणियोंके करके सिध्यात्वको प्राप्त हो अनन्तर गुणश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना तिर्यङ्गोमे उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त हुए तब उनके सिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अथवा इसका भङ्ग नारकियोंके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्गिन्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक

१. ता०प्रती 'तिट्ठवंगो' एति पाठ । २. ता०प्रती 'एवं चेव । णामं वेत्तूण । विदियादि' एति पाठ ।

तिरिक्खो सम्मत्तं पडिवण्णो जाधे गुणसंक्रमेण सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणि पूरेयूण से काले वि-भादं पडिहिदि त्ति ताधे तस्स उक्कस्सिया वड्डी । हाणी वि सम्माभिच्छत्तस्स विज्झादे पदिदस्स पढमसमए कायव्वा । सम्मत्तस्स उक्कस्सिया हाणी ओषं । अणंताणु०४ वड्डी अवट्ठाणं च मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिद-कम्मंसियस्स अणंताणुबंधी विसंजोर्जेतस्स अपच्छिमे द्विद्विखंडए संकापिदे तस्स उक्क० हाणी । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० वड्डी अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । णवरि पुरिस० अवट्ठाणं सम्माइद्विस्स कायव्वं । उक्कस्सिया हाणी णेरइयभंगो । इत्थि-णवुंस०-चदुणोको उक्क० वड्डी मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी पुरिसवेदभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खतिए । णवरि ज्ञोणिणीसु सम्म०-बारसक०-णवणोको उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स संजम-संजमासंजम-सम्मत्तगुणसेहीओ कादूण तदो अविणहासु गुणसेहीसु मिच्छत्तं गंतूण ज्ञोणिणीसु उववण्णो जाधे गुणसेहिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे तस्स उक्क० हाणी ।

§ ३४७, पंचि०तिरिक्ख०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछा० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसियस्स जो विवरीदं गंतूण पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्तएसु उववण्णो अंतोमुहुत्तेण उक्कस्सजोगं गदो उक्कस्सयं च संकिलेसं पडिवण्णो तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद०

तिर्यञ्च जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हो जब गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेगा तब उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। हानि भी सम्यग्मिध्यात्वकी विध्यातको प्राप्त हुए तिर्यञ्चके प्रथम समयमें करनी चाहिए। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग ओषके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थान पद सम्यग्दृष्टिके करना चाहिए। इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग नारकियोंके समान है। खीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है। तथा इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग पुरुषवेदके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि योनिनीतिर्यञ्चोमें सम्यक्त्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वकी गुणश्रेणियों करके अनन्तर गुणिश्रेणियोंके नष्ट हुए चिन्ता मिध्यात्वमें जाकर योनिनी तिर्यञ्चोमें उत्पन्न हुआ। वहाँ उसके जब गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त हुए तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है।

§ ३४७, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें उत्पन्न हो अन्तर्मुहूर्तमें उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट सकलेशको प्राप्त हुआ उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इनकी

गुणिक्रममसिओ जो सम्मत्त-संजमासंजम-संजमगुणसेहीओ कांदूण मिच्छत्तं गदो अविणहाद्यु गुणसेहीमु अपज्जताएमु उव्वण्णो तस्स गुणसेहिसीसएमु उदयमागदेसु उक्कं हाणी । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमुक्कस्सिया हाणी तस्सेव । सत्तणोकं उक्कं चट्टि-हाणीणं मिच्छत्तभंगो ।

६३४८. मणुसगदीए मणुसेसु मिच्छत्तस्स उक्कं वड्डी कस्स ? अण्णदरो खविटकम्मसिओ अंतोमुहुत्तेया कम्मं खवेहिदि ति विवरीयं गंतूया मिच्छत्तं गदो उक्कस्सजोगमुक्कस्ससंक्रितोसं च पडिवएणो तस्स उक्कं वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णदरो गुणिक्रममसिओ दंसण-मोहकववएणए अब्बुट्टिदो जाधे तेए अपिच्छमं द्विदिव्वंडयं गुणसेहिसीसगस्स संखेज्जदिभागेण सह इदं ताधे तस्स उक्कं हाणी । सम्मत्त-सम्माभि० उक्कं वड्डी कस्स ? अएएद० गुणिक्रममसियस्स सच्चवल्लुं मणुसेसु आगदो जोशिशिक्रममए-जम्मएणए जादो अट्टवस्सिगो सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण असंखे० गुणए सेहीए अंतोमुहुत्तं पूरेयूण से काले विज्जमादं पडिहिदि ति तस्स उक्कस्सिया वड्डी । अथवा दंसणमोहकत्वगस्स कायव्वं । सम्मत्तस्स उक्कं हाणी कस्स ? अएएद० गुणिक्रममसियस्स चरिमसमयअकखीणदंसणमोहणीयस्स । सम्माभिच्छत्तस्स एदेगेव दंसणमोहं खवेतेण जाधे गुणसेहिसीसगेण सह सम्माभि० अपिच्छमद्विदिव्वंडयं

उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और नयम गुणश्रेणियोंको प्राप्त होकर तथा मिथ्यात्वमे जाकर गुणश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना अपर्याप्तको मे उत्पन्न हुआ उसके गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त होने पर उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि उसीके होती है । सात नोकणयोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानिका भेद मिथ्यात्वके समान है ।

६३४८. मनुष्यगतिमे मनुष्योंमे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर आपितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तमे कर्मों का कृत्य करेगा किन्तु विपरीत जाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलनाका अधिकारी हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उन्हीके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव दर्शनमोहनीयकी क्षण क्षण करनेके लिए उद्यत हुआ । उसने जब अन्तिम स्थितियाण्णकत्ता गुणश्रेणियोंके संख्यातवें भागके साथ हनन किया तब उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र मनुष्योंमे धाकर और योनिनिष्क्रमण जन्मसे आठ वर्षता होकर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे अन्तर्मुहूर्तमे पुरातर अनन्तर समयमे विध्यातको प्राप्त होगा उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अथवा इनकी उत्कृष्ट वृद्धि दर्शनसंदर्शनयकी क्षण क्षण करनेवाले जीवके करनी चाहिए । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव दर्शनमोहनीयकी क्षणक्षणे अन्तिम समयमे प्रवस्थित है उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । तथा यही दर्शनमोहनीयकी क्षण क्षण करनेवाला जीव जब गुणश्रेणियोंके साथ सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम

चरिमसमयं पक्खित्तं ताधे उक्क० हाणी । अणंताणु० उक्क० वड्डी अवट्ठाणं च मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? गुणित्कम्मंसियस्स सञ्चलहुं जोणिणित्त्वमण-जम्मणेण जादो अट्ठवरिसओ सम्मतं पडिवण्णो भूयो अंतोमुहुत्तेण अणंताणुवंधी विसंजोएदि जाधे तेण गुणसेदिसीसगस्स संखेज्जदिथागेण सह अपच्छिप्रट्ठिदिखंडयं णिग्गालिदं ताधे अणंताणु० उक्क० हाणी । अट्ठण्हं कसायाणमुक्कस्सवट्ठि-अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणित्कम्मंसियस्स सञ्चलहुं जोणि-णित्त्वमणजम्मणेण जादो अट्ठवरिसओ खवणाए अट्ठुट्ठिदो जाधे अपच्छिप्रट्ठिदिखंडयं गुणसेदिसीसगेहि सह संजलणाए संपक्खित्तं ताधे उक्क० हाणी । कोहसंजलणस्स उक्क० वड्डी कस्स ? अएणद० गुणित्कम्मंसियस्स खवणस्स जाधे पुरिसवेदो छएणो-कसाएहि सह कोधे संपक्खित्तो ताधे कोधसंज० उक्क० वड्डी । ओयसाभित्तं पि एदं चेव कायव्वं । अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? जाधे कोधो माणे संपक्खित्तो ताधे कोधस्स उक्क० हाणी । माणस्स उक्क० वड्डी कस्स ? तेणेव जाधे कोधो माणे संपक्खित्तो ताधे माणस्स उक्क० वड्डी । अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । हाणी कस्स ? तस्स चेव जाधे माणो मायाए संपक्खित्तो ताधे उक्क० हाणी । मायाए उक्क० वड्डी कस्स ? तेणेव माणउक्कस्सविभक्तिणेण जाधे माणो मायाए संपक्खित्तो ताधे तस्स उक्क० वड्डी । [अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो] हाणी कस्स ? जो मायाए उक्कस्ससंतकम्मंसिओ

स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण करता है तब उसके सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र योनिसे निकलने रूप जन्मके द्वारा आठ वर्षका होकर सम्यक्त्वको प्राप्त हो पुनः अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके जब गुणश्रेण्यशीर्षके संख्यातवर्ष भागके साथ अन्तिम स्थितिकाण्डक गलित हुआ तब उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानि होती है । आठ कपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भंग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र योनिसे निकलनेरूप जन्मसे आठ वर्षका होकर क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने जब अन्तिम स्थितिकाण्डकको गुणश्रेण्यशीर्षोंके साथ संव्यलनमे प्रक्षिप्त किया तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । क्रोधसंव्यलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक क्षपक जीव जब छह नोकपायोंके साथ पुरुषवेदको क्रोधमें प्रक्षिप्त करता है तब उसके क्रोधसंव्यलनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । श्रोत्रस्वामित्व भी इसी प्रकार करना चाहिए । इसके अवस्थानका भंग मिध्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जब क्रोधको भानमे प्रक्षिप्त करता है तब क्रोधकी उत्कृष्ट हानि होती है । मानकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? उसीने जब क्रोधको मानमें प्रक्षिप्त किया तब मानकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इसके अवस्थानका भंग मिध्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? वही जब मानको मायामे प्रक्षिप्त करता है तब मानकी उत्कृष्ट हानि होती है । मायाकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? मानकी उत्कृष्ट विभक्तिवाले उसी जीवने जब मानको मायामें प्रक्षिप्त किया तब उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अवस्थानका भंग मिध्यात्वके समान है । मायाकी उत्कृष्ट हानि किसके

मायं लोभे संपक्खिवदि तस्स उक्क० हाणी । लोभसंज० उक्क० वड्डी कस्स ?
 नम्सेव कायव्वा, विसेसाभावादो । अबहाणं मिच्छत्तभंगो । हाणी उक्क० कस्स ?
 तरस्स चेव घृह्णममांपराइयस्स चरिमसमए वट्टमाणगस्स । इत्थिवेद० उक्क० वड्डी कस्स ?
 जो खविदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं खवेहिदि त्ति विवरीदं गंतू म मिच्छत्तं गदो
 इत्थिवेद० पवद्धो तदो उक्कस्सजोगमुक्कस्सगं च संकिलेसं गदो तस्स उक्क० वड्डी । हाणी
 कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मंसिओ खवणाए अब्भुद्धिदो तेण जाधे अपच्छिअट्टिदि-
 खंहयं उदयवज्जं संछुअभमाणं संछुअं ताधे उक्क० हाणी । एवं णवुंसय० । पुरिस०
 उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० गुणिद० णवुंसयवेदोदयक्खवगस्स जाधे इत्थि-णवुंसय-
 वेदा पुरिसवेदमिह संपक्खित्तो ताधे उक्क० वड्डी । एवमोवसामित्तं पि णायव्वं । उक्क०
 अबहाणं कस्स ? अण्णद० असंजदसम्मादिट्टिस्स अबहिदपाअोगसंतकम्मियस्स
 उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सियाए वड्डीए वड्डीयूणावहिदस्स । उक्क० हाणी कस्स ?
 अण्णद० गुणिदकम्मंसिओ पुरिसवेदचिराणसंतकम्मं जाधे कोयमि संपक्खित्तं ताधे
 तस्स उक्क० हाणी । अण्णोकसायाणमुक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स
 खवणाए अब्भुद्धिदस्स अपुव्वकरणचरिमसमए उक्कस्सगुणसंकमेण सह उक्कस्सजोगं

दाती है ? जो मायाका उत्कृष्ट सत्कर्मवाला जीव जब मायाको लोभमे निक्षिप्त करेगा तब उसके
 मायाकी उत्कृष्ट हानि होती है । लोभसंचलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? उसी जीवके
 करनेवाले, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । इसके अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।
 उसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? वही सूक्ष्मसाम्पराय जीव जब अन्तिम समयमे विद्यमान
 होता है तब उसके लोभकी उत्कृष्ट हानि होती है । खीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो
 क्षिप्तकर्मांशिक जीव प्रवृत्तमुहूर्तके द्वारा कर्मका न्यय करेगा किन्तु विपरीत जाकर मिथ्यात्वको
 प्राप्त हो खीवेदका बन्धन अन्तर जिसने उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त किया उसके
 खीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित-
 कर्मांशिक जीव क्षणिकके लिए उद्यत हुआ । उसने जब उदयको छोड़कर अन्तिम स्थितिकाण्डका
 संक्रमण करते हुए संक्रमण किया तब उसके खीवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार नपुंसक-
 वेदा म्यामी जानना चाहिए । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित-
 कर्मांशिक जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ जापक है वह जब खीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमे
 गिराए परता है तब उसके पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इसीप्रकार ओष स्वामित्व भी
 जानना चाहिए । उसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो अन्यतर असंयतसम्पत्ति जीव
 अवस्थितप्रामोदय सत्कर्मवाला है, उत्कृष्ट योगसे युक्त है और उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हो
 शक्य है । उसके उन्ना उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?
 जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीवने पुरुषवेदके पुराने सत्कर्मको जब क्रोधमे प्रक्षिप्त किया तब
 उसके उत्कृष्ट हानि होती है । यह नोकप्रयोकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो
 अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव क्षणिकके लिए उद्यत हो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे उत्कृष्ट

गदस्स तस्स उक्क० वड्डी । णवरि अरदि-सोगाणमधापवत्तचरिमसमए भय-दुगुंछोदएण विणा सोदए वट्टमाणस्स । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स गुणिदकम्मंसियस्स अपच्छिमे द्विदिखंडए दुचरिमसमए वट्टमाणगस्स तस्स उक्क० हाणी । एवं मणुसपज्ज० । णवरि इत्थिवेद० हाणी छण्णोकसायाणं व भाणियन्वा । एवं चेव मणुसिणीसु वि । णवरि पुरिस०-णवुंस० छण्णोकसायाणं व भाणियन्वा । मणुस-अपज्ज० पंचि०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ३४६. देवगदीए देवेसु मिच्छत्त०-चारसक०-भय-दुगुंछा० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसियस्स जो अंतोसुहुत्तेण कम्मं खवेहदि ति विवरीयभावेण मिच्छत्तं गंतूण देवेसुववण्णो सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो उक्कस्सजोगमागदो उक्कस्सयं च संकिलोसं गदो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवहाणं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सहाणी णारयभंगो । सेसाणं उक्क० हाणी कस्स ? जो गुणिद-कम्मंसिओ सम्मत्त-संजमासंजम-संजमगुणसेहोओ कादूण तदो मदो देवेसुववण्णो तस्स गुणसेहिसीसगेसु उदयमागदेसु उक्क० हाणी । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तं पडिवण्णल्लयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण पूरेयूण से काले विज्झादं पडिहिदि ति तस्स उक्क० वड्डी । सम्मत्त०

गुणसंक्रमके साथ उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इतनी विशेषता है कि अरति और शोककी अधःप्रवृत्तके अन्तिम समयमें भय और जुगुप्साके उदयके बिना स्वोदयसे विद्यमान रहते हुए उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपक गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें विद्यमान है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके क्षीवेदकी उत्कृष्ट हानि छह नोकपायोके समान कहनी चाहिए । इसीप्रकार मनुष्यनियोगों भी कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग छह नोकपायोके समान कहना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चोन्द्रियतिवैज्ञ अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

§ ३४६. देवगतिमे देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मका क्षय करेगा किन्तु विपरित भावसे मिथ्यात्वमे जाकर देवोंमें उत्पन्न हो और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट योगको और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके अनन्तर सरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके गुणश्रेणियोंके उदयमें आनेपर शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पुरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेगा उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो

उक्क० हाणी कस्स ? अण्णदरो गुणिदकम्मंसिओ दंसणमोहक्खवगो कदकरणिज्जो होदूण देवेसुदवण्णो तस्स दुच्चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स उक्क० हाणी । सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? विज्झादपदिदस्स । अणंताणुबंधीणसुक्कस्सवड्ढिअवहाणं मिच्छत्तभंगो । हाणी ओघभंगो । इत्थि०-णवुंस० उक्क० वड्ढी कस्स ? अण्णदरो खविदकम्मंसिओ मिच्छत्तं गदो तदो उक्कस्सजोगमागदो तप्पाओगसंकलिदो इत्थि णवुंसयवेदं पवद्धो तस्स उक्क० वड्ढी । हाणी भय-दुगुंळभंगो । एवं चट्ठणोक्कसायाणं । पुरिसवेद० एवं चेव । णवरि अवहाणं वेदगसम्माइद्विस्स । एवं सोहम्मादिवरिमोवज्जा च्चि । भवण०-वाणवें०-जोदिसि० एवं चेव । णवरि सम्मत० वड्ढि-हाणी सम्मामिच्छत्तभंगो ।

§ ३५०. अणुदिसादि जाव सव्वहा च्चि वारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंळ० उक्क० वड्ढी कस्स ? खविदकम्मंसिओ उक्कस्ससंकलिदो उक्कस्सजोगमागदो सम्मत-संजम-संजमासंजमगुणसेठीसु पुव्वभवसंबंधीणसु उदयमागदासु णिगगलिदासु तदो उक्कस्सजोगमागदस्स तस्स उक्क० वड्ढी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवहाणं । उक्क० हाणी कस्स ? तस्सेव संजमासंजम-संजमगुणसेठीसु उदयमागदासु उक्क० हाणी । मिच्छत्त-इत्थि-णवुंस० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० सम्मत-संजम-संजमासंजम-

अन्यतर गुणितकर्माशिक दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव कृतकृत्य होकर देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके द्विचरम समयमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते समय सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यग्मिश्र्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? विव्यातको प्राप्त हुए जीवके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्करकी उत्कृष्ट वृद्धि और अद्यस्थानका भङ्ग मिश्र्यात्वके समान है । तथा इनकी हानिका भङ्ग मोघके समान है । न्नीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीवने मिश्र्यात्वको प्राप्त हो अनन्तर उत्कृष्ट योग और तत्प्रायोग्य मंत्रदेशके साथ न्नीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध किया उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग भय और जुगुप्साके समान है । इसी प्रकार चार नोकपार्थिको भङ्ग जानना चाहिए । पुण्यवेदका भंग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इसका अद्यस्थान वेदकसम्यग्दृष्टिके होता है । इस प्रकार सौधर्गसे लेकर उपरिमव्ययक तक जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और जंगलिया देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी हानि और हानिका भंग सम्यग्मिश्र्यात्वके समान है ।

§ ३५१. अनुदिससे लेकर सर्वाथिसिद्धि तकके देवोंमें चारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो क्षपितकर्माशिक उत्कृष्ट संक्लेशवाला जीव उत्कृष्ट योगको प्राप्त हो पूरा भयान्तराधी सम्यक्त्व, संजम और संजमासंजम गुणश्रेणियोंके उदयमें प्राप्त रहित हो जानेपर अनन्तर उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उन्निहे अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अद्यस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? उन्निहे नंदमासंजम और संजम गुणश्रेणियोंके उदयमें आ लेनेपर उत्कृष्ट हानि होती है । मिश्र्यात्व, न्नीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवके

गुणसेढीसु त्थिउक्केण उदयमागदासु तस्स उक्क० हाणी । सम्मामिच्छ० एवं चेव । सम्मत्त-अखांताणु०४ हाणी ओघं । हस्स-रइ-अरइ-सोग० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० संजमगुणसेढिसीसयाणि जाधे उदएण णिग्गलिदाणि ताधे उक्कस्सजोग-मागदस्स संक्खिसेसं च तप्पाओग्गं पडिवण्णस्स तस्स उक्क० वड्डी । हाणी कस्स ? अण्णद० सम्मत्त-संजम-संजमासंजमगुणसेढीसु अविण्णदासु देवेसुववण्णलयस्स जाधे गुणसेढिसीसगाणि उदयमागदाणि ताधे उक्क० हाणी । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३५१. जहएणए पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुग्गुं० जह० वड्डी कस्स ? अण्णद० असंखेज्ज०-भागेण वड्डियूण वड्डी हाइदूण हाणी अण्णदरत्थ अवट्ठाणं । सम्मत्त-सम्मामि०-इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागेण वड्डियूण वड्डी हाइदूण हाणी । एवं सव्व-खेरइय०-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्सदेव जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि अपज्जत्तएसु सम्म०-सम्मामि० वड्डी णत्थि । पुरिसवे० सम्माइडिम्मि अवड्ढिदं णायव्वं । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति धारसक०-पुरिसवेद०-भय-दुग्गुं० जहणवड्ढि-हाणी कस्स ? अण्णद० असंखेज्ज०भागेण वड्ढिदूण वड्डी हाइदूण हाणी ।

सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियोंके स्तितुकसंक्रमणके द्वारा उदयमे आ गई हैं उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यग्मिध्यात्वका भंग इसी प्रकार है। सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानिका भंग ओघके समान है। हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव संयमगुणश्रेणियोंको जब उदयके द्वारा गला देता है तब उत्कृष्ट योग और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुए उस जीवके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियोंके नाश किये बिना देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके जब गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त हुए तब उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

§ ३५१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? अन्यतर जीवके असंख्यातवें भाग वृद्धि करनेसे वृद्धि होती है, इतनी ही हानि करनेसे हानि होती है और इनमेसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातवें भागप्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि और हानि होकर हानि होती है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम भ्रूवैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपर्याप्तिकोमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि नहीं है। पुरुषवेदका अवस्थितपद सम्यग्दृष्टि जीवमें जानना चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि और हानि किसके होती है ? अन्यतरके असंख्यातवें भागप्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि

अण्णदरन्थ अवट्ठाणं । मिच्छन्-सम्मत्त-सम्मामि०-असांताणु०-इत्थि-णखुंस० ज०
हाणी कन्थं ? अण्णद० । हस्स-रइ-अरइ-सोग० जहण्णवड्ढि-हाणी कस्स ? अण्णद० ।
पयं जाव अणाहारिं ति ।

१ ३५२, अप्पावहुअं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो
णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा उक्क० वड्ढी ।
अवट्ठाणं तत्तियं चेव । हाणी असंखे०गुणा । सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा उक्क० हाणी ।
वड्ढी असंखेज्जगुणा । सम्मामि० सव्वत्थोवा उक्क० वड्ढी । हाणी असंखेज्जगुणा ।
घारसक०-भय-दुगुंछा० सव्वत्थोवा उक्क० वड्ढी । अवट्ठाणं तत्तियं चेव । हाणी
असंखे०गुणा । तिण्णिसंजल० सव्वत्थोवा उक्कस्सयमवट्ठाणं । वड्ढी असंखे०गुणा
हाणी विसेसा० । एवं पुरिस० । लोभसंजल० सव्वत्थोव० उक्कस्सयमवट्ठाणं । हाणी
असंखे०गुणा । वड्ढी असंखे०गुणा । इत्थि-णखुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थो०
उक्क० वड्ढी । हाणी असंखे०गुणा ।

१ ३५३ आदेसेण मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ० सव्वत्थोवा उक्क०
वड्ढी अवट्ठाणं । हाणी असंखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थोव० उक्क० वड्ढी । हाणी
असंखे०गुणा । इत्थि०-णखुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० वड्ढी । हाणी

और हानि होकर हानि होती है । तथा इनमेसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है । मिथ्यात्व,
सम्यक्त्व, सगमिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य हानि किसके
होती है ? अन्यतरके होती है । हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य वृद्धि और हानि किसके
होती है ? अन्यतरके होती है । उसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तप जानना चाहिए ।

१ ३५२, अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश
यं प्रारम्भ है—ओघ और आदेण । ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोका है ।
आदेण तानना ही है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे
स्तोका है । उनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्त्यातगुणी है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोका है ।
उनसे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । वाद कपाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे
स्तोका है । अनन्त्यान उन्ना ही है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । तीन संवत्तनोका
उत्कृष्ट वृद्धि तान सबसे स्तोका है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । तीन संवत्तनोका
उत्कृष्ट हानि तान सबसे स्तोका है । उसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा अल्पवहुत्व है । लोभसंजलनका उत्कृष्ट
अवस्थान सबसे स्तोका है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि
असंख्यातगुणी है । खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे
स्तोका है । उनसे उत्कृष्ट हानि अनन्त्यातगुणी है ।

१ ३५३, आदेणसे मिथ्यात्व, सोलस कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और
अवस्थान सबसे स्तोका है । उनसे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । सम्यक्त्व और सम्मामिथ्यात्व
की उत्कृष्ट वृद्धि तान सबसे स्तोका है । उनसे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । खीवेद, नपुंसकवेद,
हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोका है । उससे उत्कृष्ट हानि

१. ११० त्रि 'इह' हाणो । वड्ढो असंखे०गुणा' इति पाठः ।

असंखे०गुणा । एवं सव्वणेरइय०-तिरिक्ख-पंचि०-तिरिक्खतिय-देवा जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । पंचि०-तिरिक्खअपज्ज० एवं चेव । णवरि पुरिस० इत्थिवेदभंगो । सम्मत-सम्मामि० णत्थि अप्पावहुअं ।

§ ३५४. मणुसगदी० मणुसाणमोघं । मणुसपज्ज० एवं चेव । एवं मणुसिणीसु । णवरि पुरिस० सव्वत्थोचं उक्क० अवट्ठाणं । हाणी असंखे०गुणा । वट्ठी असंखे०गुणा । मणुसअपज्ज० पंचिदियतिरि०अपज्जत्तभंगो । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुञ्जा० सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी अवट्ठाणं । हाणी असंखे०गुणा । मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामि०-अणंताणु ४-इत्थि-णत्तुंस० णत्थि अप्पावहुअं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० वट्ठी । हाणी असंखे०गुणा । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ३५५. जहणणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुग्गुञ्जा० जहणणवट्ठी हाणी अवट्ठाणं सरिसं । सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थो० जह० हाणी । वट्ठी असंखे०गुणा । इत्थिवेद-णत्तुंस०-चट्ठणोक० जहणणवट्ठी हाणी सरिसा । एवं सव्वणेर०-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस-देवा जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । णवरि पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० पुरिस० इत्थिवेदेण सह भाणिदन्वा । एवं मणुस०अपज्ज० । णवरि उहयत्थ वि सम्मत-सम्मामि० अप्पावहुअं

असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक और सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमै इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदका भङ्ग खीवेदके समान है । इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है ।

§ ३५४. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है । मनुष्य पर्याप्तिकोमै इसी प्रकार भङ्ग है । इसी प्रकार मनुष्यनियोंमें है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदका उल्कट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उल्कट हानि असंख्यातगुणी है । उससे उल्कट वृद्धि असंख्यातगुणी है । मनुष्य अपर्याप्तिकोमै पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोके समान भंग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें चारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उल्कट वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उल्कट हानि असंख्यातगुणी है । मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद, और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं है । हास्य, रति, अरति और शोककी उल्कट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उल्कट हानि असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३५५. जघन्यका प्रकारण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । उससे जघन्य वृद्धि असंख्यातगुणी है । खीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी जघन्य वृद्धि और हानि समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमै पुरुषवेदको खीवेदके साथ कहलाना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तिकोमै जानना चाहिए ।

णत्थि । अणुद्धिमादि जाव सव्वट्ठा ति वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० जहण्णवट्टि-
हाणी अवट्ठाणं सत्थिं । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-णवुंस० णत्थि
अण्णावहुत्थं । हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जहण्णवट्टी हाणी सरिसा । एवं जाव० ।

एवं पदणिक्खेवे ति समत्तं० ।

१ ३५६. वट्टिविहत्ति ति तत्थ इमाणि तेरस अणिओगद्वाराणि—समुक्तिष्णा
जाव अण्णावहुत्थं ति । समुक्तिष्णाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण
मिच्छ०-अट्ठक०-पुरिस० अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टिहाणि असंखे०गुण-
हाणी च । सम्म० सम्मामि० अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी असंखे०गुणवट्टी हाणी
अवत्त०विहत्ती । अणंताणु०४ अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी संखे०भागवट्टी संखे०-
गुणवट्टी असंखे०गुणवट्टी हाणी अवट्टि० अवत्त०विह० । चट्टसंज० अत्थि असंखे०-
भागवट्टी हाणी संखे०गुणवट्टी असंखे०गुणहाणी अवट्टि०विह० । णवरि लोभसंजल०
असंखेज्जगुणहाणी णत्थि । इत्थि-णवुंस० अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी असंखे०-
गुणहाणिविह० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी । भय-दुगुंछा०
अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी अवट्टि० । णवरि पुरिसवेद० संखे०गुणवट्टि-हाणी
संखे०भागवट्टि-हाणी सम्म०-सम्मामि०-तिणिसंजल० संखे०गुणहाणि-संखे०भाग-

इतनी विमोक्षा है कि उभयत्र 'प्रथीन्' योना 'प्रपर्याप्तकोमे' सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अल्प-
पर्यय नहीं है । 'प्रनुदिशसे' लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोमे चारह कपाय, पुरुषवेद, भय और
जुगुप्साकी जयन्व हाणि और 'प्रवस्थान' समान हैं । मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व,
'अनन्तानुबन्धीचतुष्प' 'सर्ववेद' और 'नपुंसकवेदका' अल्पवहुत्व नहीं है । हास्य, रति अरति और
शोक की जात्य वृद्धि और हाणि समान है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

उस प्रकार पदनिचेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१ ३५६. इतिविभक्तिष्णा प्रकरण है । उसमे ये तेह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तनासे
तेर 'अल्पपर्यय' तक । समुत्कीर्तनानुगमकी 'अपेक्षा' निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और
'अभि' । 'ओघमे' मिध्यात्व, 'पाठ' कपाय और 'पुरुषवेदकी' असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-
भागहाणि, 'अवट्टि' और 'अवत्त' 'संखे०' 'संख्यातगुणहाणि' हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात-
भाग ति, 'अवत्त' 'संख्यातभागहाणि, 'संखे०' 'संख्यातगुणवृद्धि, 'प्रमं' 'संख्यातगुणहाणि' और 'अवत्तव्यवृद्धि' है ।
'अनन्तानुबन्धीचतुष्प' 'संखे०' 'संख्यातभागवृद्धि, 'प्रमं' 'संख्यातभागहाणि, 'संख्यातभागवृद्धि, 'संख्यात-
गु' ति, 'अवत्त' 'संख्यातगुणहाणि, 'असंखे०' 'संख्यातगुणहाणि, 'प्रवस्थितविभक्ति' और 'अवत्तव्यविभक्ति' है ।
'पाठ' सं. 'संको' 'संखे०' 'संख्यातभागवृद्धि, 'अवत्त' 'संख्यातभागहाणि' संख्यातगुणवृद्धि, 'असंख्यातगुणहाणि'
'और 'अवत्तव्यविभक्ति' हैं । इतनी विमोक्षा है कि लोभसंजलकी असंख्यातगुणहाणि नहीं है ।
'संको' 'और 'नपुंसकवेदकी' 'अवत्त' 'संख्यातभागवृद्धि, 'अवत्त' 'संख्यातभागहाणि' और 'असंख्यातगुणहाणि-
विभक्ति' हैं । 'हास्य, रति, 'अरति' और 'शोककी' 'अवत्त' 'संख्यातभागवृद्धि' और 'असंख्यातभागहाणि' हैं ।
'भय' और 'जुगुप्साकी' 'अवत्त' 'संख्यातभागवृद्धि, 'अवत्त' 'संख्यातभागहाणि' और 'अवस्थितविभक्ति' हैं । इतनी
विमोक्षा है कि 'पुरुषवेदकी' संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहाणि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यात-

हाणीओ च संभवन्ति । एदाओ सञ्वाणिओगदारेसु जहासंभवमणुमग्गियञ्वाओ । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु । णवरि पज्जत्त० इत्थिवेद० हस्सभंगो । मणुसिणीसु पुरिस०-णवुंस० असंखेज्जगुणहाणी णत्थि ।

§ ३५७. आदेशेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० । अणंताणु०४ अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि-संखे०-भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० । इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणी० । एवं सञ्चणेरइय-सञ्चतिरिक्ख० । मणुसा० ओघं । देवा भवणादि जाय उवरिवगेवज्जा त्ति णारयभंगो ।

§ ३५८. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछ० अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि-असंखे०गुण-हाणि० । इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि० । एवं मणुसअपज्ज० । अणुदिसादि जाय सञ्चट्टा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-णवुंस० अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि० । णवरि अणंताणु०४

भागहानि तथा सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और तीन संज्ञलनोंकी संख्यातगुणहानि और संख्यात-भागहानि भी सम्भव हैं । इनका सब अनुयोगद्वारोमे यथासम्भव अनुमार्गण करना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकोमे स्त्रीवेदका भङ्ग हास्यके समान है । तथा मनुष्यनियोमे पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात-गुणहानि नहीं है ।

§ ३५७. आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्ति है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानि है । इसीप्रकार सब नारकी और सब तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । मनुष्योमे ओघके समान भङ्ग है । सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर उपरिभ त्रैवेयक तकके देवोमे नारकियोके समान भङ्ग है ।

§ ३५८. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानि है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमे जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानि है । इतनी

अत्थि असंखे०गुणहाणिपि० । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अत्थि असंखे०भागवट्टि-
हाणि०-अवट्टि० । हस्म-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि० । एवं
जाव अणाहारि चि ।

१ ३५६. सामिचाणु० दु० णि० —ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०
असंखे०भागवट्टि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ?
सम्माइट्टिस्स वा मिच्छाइट्टिस्स वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसण-
मोहवखवगस्स चरिमट्टिद्विखंडए अवगदे । अवट्टिदं कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स ।
सम्पत्त०-सम्मामि० असंखे०भागवट्टी असंखे०गुणवट्टी अवच० कस्स ? अण्णद०
सम्माइट्टिस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स वा मिच्छाइट्टिस्स
वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसणमोहवखवगस्स चरिमे द्विद्विखंडगे
सम्पत्ते पक्खित्ते सम्मामि० असंखे०गुणहाणी उव्वेज्जलाणए वा । सम्पत्तस्स असंखे०-
गुणहाणी कस्स ? अण्णद० उव्वेज्जलाणचरिमट्टिद्विखंडगे मिच्छत्ते संपक्खित्ते ताथे ।
अणंताणु० असंखे०भागवट्टी अवट्टिदं कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स । [असंखे०-
भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स मिच्छाइट्टिस्स वा ।] संखे०भागवट्टी संखे०-

विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कणी असंख्यातगुणहानि भी हैं । वारु क्रपाय, पुरुषवेद, भय
और दुःसुप्ताकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविशक्ति है । हास्य, रति,
अर्थवि और शाकती असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि हैं । उसीप्रकार अनाहारक
मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

१ ३५६. स्वागित्यानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और प्रादेश । ओघसे
भिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है ? अन्यतर भिध्यादृष्टिके होती हैं । असंख्यात-
भागहानि किसके होती हैं ? अन्यदृष्टि या भिध्यादृष्टिके होती हैं । असंख्यातगुणहानि किसके
होती हैं ? अन्यतर दर्शनमोहनीयके रूपकके अन्तित स्थितिकाण्डरुके अपगत होने पर होती हैं ।
अवस्थितविशक्ति किसके होती हैं ? अन्यतर भिध्यादृष्टिके होती हैं । अन्यदृष्टि और अन्य-
गिनित्यागकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अवचक्रव्यविभक्ति किसके होती हैं ?
अन्यतर अन्यदृष्टिके होती हैं । असंख्यातभागहानि किसके होती हैं ? अन्यतर अन्यदृष्टि या भिध्या-
दृष्टिके होती हैं । असंख्यातगुणहानि किसके होती हैं ? जिस दर्शनमोहनीयके रूपक अन्यतर जीवने
प्राप्त भिध्यादृष्टिके रूपकके मन्वक्त्वमे प्रसिप्त किया है उसके मन्वगिनित्यागकी असंख्यातगुणहानि
होती हैं । अवस्था उद्वेगनाके मन्वक्त्वकी हैं । अन्यदृष्टिके असंख्यातगुणहानि किसके होती हैं ?
जिस अवस्था जीवने उद्वेगनाके मन्वक्त्वमे प्रसिप्त स्थितिकाण्डरुके भिध्यात्वमे प्रसिप्त किया है ।
अन्यतर मन्वक्त्वमे मन्वक्त्वकी, असंख्यातगुणहानि होती हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कणी असंख्यात-
भागवृद्धि और अवस्थितविशक्ति किसके होती हैं ? अन्यतर भिध्यादृष्टिके होती हैं । असंख्यात-
भागहानि किसके होती हैं ? अन्यतर अन्यदृष्टि या भिध्यादृष्टिके होती हैं । असंख्यातभागवृद्धि,

गुणवट्टी असंखे०गुणवट्टी च कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजोएदूण मिच्छत्तं गदस्स आवल्लियमिच्छाइद्विस्स । अवत्त० कस्स ? अण्णद० पट्ठमसमयसंजुत्तस्स । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजोयस्स चरिमद्विद्विखंडए अवणिदे । अट्टकसाय० असंखे०भागवट्टी अवट्टि० असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स अपच्छिमे द्विद्विखंडए गुणसेद्विसीसगेण सह आगायिदूण णिल्लेविदे । कोहसंजल० असंखे०भागवट्टि-हाणी अवट्टिदं अट्टकसायभंगो । संखेज्जगुणवट्टी कस्स ? अण्णद० पुरिसवेदो कोधे संपक्खित्तो ताधे कोधस्स संखे०गुणवट्टी । माणस्स असंखे०भागवट्टी हाणी अवट्टि० कोहभंगो । संखे०गुणवट्टी कस्स ? अण्णद० कोधस्स पुव्वसंतकम्मे माणे संपक्खित्तो ताधे तस्स संखे०गुणवट्टी । मायाए असंखे०भागवट्टी हाणी अवट्टिदं माणभंगो । संखे०गुणवट्टी कस्स ? अण्णद० माणसंजलणं जाधे मायाए संपक्खित्तं ताधे । लोभसंजलण० असंखे०भागवट्टी हाणी अवट्टि० मायासंजलणभंगो । संखे०गुणवट्टी कस्स ? अण्णद० खवगस्स मायाए पोरणसंतकम्मं जाधे लोभे संपक्खित्तं ताधे । तिण्हं संजलणणं असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स चरिम-

संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवको अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना करके मिथ्यात्वमे जाकर मिथ्यादृष्टि हुए एक आवलि हुआ है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? प्रथम समयमे संयुक्त हुए अन्यतर जीवके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले अन्यतर जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डके अपगत होने पर होती है । आठ कषायोकी असंख्यातभागवृद्धि, अवस्थितविभक्ति और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जिस अन्यतर चपक जीवने अन्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रेणिसीपके साथ ग्रहणकर निर्लेपन किया है उसके होती है । क्रोधसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग आठ कषायोंके समान है । संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने जब पुरुषवेदको क्रोधमे प्रक्षिप्त किया है तब उसके क्रोधसंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । मानसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग क्रोधसंज्वलनके समान है । संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने क्रोधसंज्वलनके पूर्वके सत्कर्मको मानसंज्वलनमे प्रक्षिप्त किया है तब उसके उसकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । मायासंज्वलनकी असंख्यातवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मानसंज्वलनके समान है । इसकी संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने मानसंज्वलनको जब मायासंज्वलनमे प्रक्षिप्त किया तब उसके मायासंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । लोभसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मायासंज्वलनके समान है । इसकी संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर चपक जीव मायासंज्वलनके प्राचीन सत्कर्मको जब लोभसंज्वलनमे प्रक्षिप्त करता है तब इसकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । तीनों संज्वलनोंकी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर चपक चरम स्थितिकाण्डकका

द्विद्विखंदयं संकामैतम् । लोभसंजलणाए असंखे०गुणहाणी णत्थि । इत्थिवेद०
असंखे०भागवद्वी कस्स ? अण्णद० मिच्छादिद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ?
अण्णद० सम्मादिद्विस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद०
त्ववगस्स चरिमद्विद्विखंदयं संकामैतस्स । एवं णडुंस० । पुरिसवे० असंखे०भागवद्वि-
हाणी अवद्विदं संजलणभंगो । णवरि अवद्वि० सम्माइद्विस्स । असंखे०गुणहाणी
कस्स ? अण्णद० त्ववगस्स पुण्वमंतकम्मं फोथे संछुधमाणगस्स । हस्स-रइ-अरइ-
सोगाणं असंखे०भागवद्वि-हाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स मिच्छाइद्विस्स वा ।
भय-दुग्गुद्धा० असंखे०भागवद्वि-हाणी अवद्विदं कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स
मिच्छाइद्विस्स वा ।

१३६०. आदेसेण मिच्छ० असंखे०भागवद्वी अवद्विदं कस्स ? अण्णद०
मिच्छाइद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स
वा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवद्वी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स । असंखे०-
भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । असंखे०गुणवद्वी
कस्स ? अण्णद० उवसमसम्माइद्विस्स गुणसंकमेण अंतोमुहुत्तं पूरेमाणस्स जाव से
फाले विज्झादं पटिहदि त्ति । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० उव्वेज्जमाणगस्स

संज्ञाए कर रहा है उसके होती है । लोभसंजलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं होती । खीवेदकी
असंख्यातभागवद्वि किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि
किनके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके
होती है ? जो अन्यतर सूपक चरम स्थितिकाण्डकका संक्रमण कर रहा है उसके होती है । इसी
प्रकार नपुनकवेदकी अपेक्षासे स्वामित्व जानना चाहिए । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवद्वि,
असंख्यातभागहानि और अवस्थितव्यभिक्तिका भेद संजलनके समान है । इतनी विशेषता है कि
अवस्थितव्यभिक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर
सूपक फालके सद्वर्गके जोषणं प्रथिम कर रहा है उसके होती है । हास्य, रति, अरति और
श्री । जो असंख्यातभागवद्वि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या
मिथ्यादृष्टिके होती है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवद्वि, असंख्यातभागहानि और
अवस्थितव्यभिक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है ।

१३६०. आदेसेण मिथ्यादृष्टी असंख्यातभागवद्वि और अवस्थितव्यभिक्ति किसके
होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर
सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । सम्यग्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवद्वि
किनके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ?
अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातगुणवद्वि किसके होती है ? जो
अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर
सम्यग्दृष्टिके होती है । असंख्यातगुणवद्वि और असंख्यातगुणहानि किसके

चरिमद्विद्विखंडगे अवगदे । अवत्तव्वं कस्स ? अण्णद० पढमसमयसम्माइद्विस्स । अणंताणु०४ असंखे०भागवड्डी अवद्वि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्ण० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । संखे०भागवड्डी संखे०गुणवड्डी असंखे०गुणवड्डी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजोपदूणा संजुत्तस्स आवल्लिगमिच्छादिद्विस्स । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजो-जेंतस्स अपच्छिमे द्विद्विखंडगे णिल्लेविदे । अवत्त० कस्स ? अण्णद० पढमसमय-संजुत्तस्स । वारसक०-भय-दुगुंछा० [असंखे०] भागवड्डी हाणी अवद्वि० कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । इत्थि-णखुंस० असंखे०भागवड्डी कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्विस्स वा । पुरिस० असंखे०भागवड्डी हाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्विस्स वा । अवद्विद्वं कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्डी हाणी कस्स ? अण्णद० सम्मा० मिच्छाइद्विस्स वा । एवं सत्तसु पुढवीसु तिरिक्खगदित्तिरिक्खा पंचिंदियत्तिरिक्खइ देवा भवणादि जाव उवरिम-गेवज्जा त्ति ।

§ ३६१. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछा० असंखे०-

होती है ? जो अन्यतर उद्वेलना करनेवाला जीव चरम स्थितिकाण्डकको विता चुका है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्या-दृष्टिके होती है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके अनन्तर संयुक्त होकर एक आवलि कालतक मिध्यादृष्टि रहा है उसके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जिस अन्यतर जीवने अन्तिम स्थितिकाण्डकका निर्लेपन किया है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर जीवके संयुक्त होनेके प्रथम समयके होती है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-भागहानि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है । खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । हास्य, रति, अपरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोंमें तथा तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३६१. पञ्च०न्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी

भागवट्टी हाणी अवट्टि० सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणी असंखे०गुणहाणी मत्तणोक० अगंखे०भागवट्टि-हाणी कस्स ? अण्णद० । णवरि सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०गुणहाणी क० ? अण्णद० अपच्छिपट्टिद्विखंडयं गालेमाणस्स ।

§ ३६२. मणुमा० श्रोघं । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि मणुसपज्ज० इत्थियेद० छण्णोकसायभंगो । मणुसिणीसु पुरिस-णवुंस० छण्णोकसायभंगो । अणुदिमादि जाव सव्वट्टा ति दंसणतिय-अणंताणु०चउक०-इत्थि०-णवुंस० असंखे०-भागहाणी कस्म ? अण्णद० । अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० निमंजोए'तस्स अपच्छिमे द्विद्विखंडए गुणसेट्ठिसीसगेण सह आगाइदूण णिल्लेविदे । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टी हाणी अवट्टिदं हस्म-रट्ट-अरइ-सोमाणं असंखे०भागवट्टी हाणी कस्स ? अण्णदरस्स । एवं जाव अणाहार ति ।

§ ३६३. कालाणुगमेण दुविट्ठो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण गिच्छत्तस्स असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक्क० पल्लो० असंखे०भागो । हाणी० जह० एगस०, उक्क० वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणहाणी०

‘असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितकिभक्ति, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि तथा सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किन्के होती है। अन्यतरके होती हैं। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि किन्के होती हैं ? अन्तिम स्थितिअण्डकको गलाने-वाले अन्यतरके होती हैं।

§ ३६२. मनुष्योंमें श्रावके समान भन है। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोगमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यपर्याप्तमें श्रीवेदका भन छह नोकपायोंके समान है। मनुष्यनियोगमें पुरवोर और नपुंसकवेदका भन छह नोकपायोंके समान है। अनुदिगसे देवर सर्वा विभिन्नपके देवोंमें तीन दर्शनमोहनीय, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, श्रीवेद और नपुंसक-वेदकी असंख्यातभागहानि किन्के होती हैं ? अन्यतरके होती हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि किन्के होती हैं ? अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर जीव अन्तिम विभिन्नराष्ट्रोंकी मुख्येशिरीपके साथ प्रहण कर निलेपन करता है उसके होती हैं। वारसक, पुरवोर, भय और मनुष्यकी असंख्यातवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित-किभक्ति, सम्यक्त्व, रति, प्ररति और श्रावकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किन्के होती हैं ? अन्यतरके होती हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

अनप्ररार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

§ ३६३. कालाणुगमें श्रावके निर्रोग दो प्रकारका है—श्राव और आदेश। श्रावसे अनाहारकी असंख्यातभागवृद्धि का जन्म जात एक समय है और उत्कृष्ट काल पन्थके अनाहारकी असंख्यातभागहानि का जन्म जात एक समय है और उत्कृष्ट काल

जह० उक० एगस० । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तट्ट समया । सम्मत्त०-
सम्माभि० असंखे० भागवट्टी० जह० उक० अंतोमु० । असंखे० भागहाणी० जह० अंतोमु०,
उक० वेळावट्टिसाग० पल्लिदो० असंखे० भागेण सादिरेयाणि । असंखे० गुणवट्टी० जह०
उक० अंतोमु० । असंखे० गुणहाणी० अवत्त० जह० उक० एगस० । अणंताणु०
असंखे० भागवट्टी० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे० भागो । हाणी० जह०
एगस०, उक० वेळावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । संखे० भागवट्टी० संखे० गुणवट्टी० जह०
एगस०, उक० आवलि० असंखे० भागो । असंखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक०
अंतोमु० । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तट्ट समया ! अवत्त० असंखे० गुणहाणी०
जह० एगस० । अट्टकसाय० असंखे० भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक०
पल्लिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तट्ट समया । असंखे०-
गुणहाणी० जह० उक० एगस० । कोह-माण-मायासंजल० असंखे० भागवट्टी० हाणी०
अवट्टि० अपच्चक्खाणभंगो । संखे० गुणवट्टी० असंखे० गुणहाणी० जह० उक० एगस० ।
एवं लोभसंजल० । णवरि असंखे० गुणहाणी णत्थि । इत्थि० असंखे० भागवट्टी० जह०
एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० वेळावट्टिसागरो०

साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक दो छथासठ सागर है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्कन्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तातु-वन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आचलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । अवक्कन्यविभक्ति और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । आठ कथायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । असंख्यातगुणहानि का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । क्रोध, मान और माथासंज्वलनकी असंख्यात-भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग अप्रत्याख्यान कथायके समान है । संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसीप्रकार लोभसंज्वलनकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यात-गुणहानि नहीं है । खीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो

सादिरियाणि । असंखे०गुणदाणी० जह० उक्क० एगम० । पणुंस० असंखे०भागवट्टी०
जह० एगम०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०भागदाणी० जह० एगस०, उक्क० वेळावट्टि-
नागरो० नीदि पळ्दिओ० सादिरियाणि । असंखे०गुणदाणी० जह० उक्क० एगस० ।
पुरिम० असंखे०भागवट्टी० हा० जह० एगस०, उक्क० पळ्दिओ० असंखे०भागो० असंखे०-
गुणदाणी० जह० उक्क० एगस० । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तट्ट समया ।
हम्म-नड-प्रन्ड-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।
भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टी० हा० जह० एगम०, उक्क० पळ्दिओ० असंखे०भागो० ।
अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तट्ट समया ।

३६४. आद्रेसेण णेरइय० मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक्क०
पळ्दिओ० असंखे०भागो० । असंखे०भागदाणी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो०
देग्वाणि । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तट्ट समया । वारसक०-भय-दुगुंछा०
असंखे०भागवट्टी० हा० जह० एगम०, उक्क० पळ्दिओ० असंखे०भागो० । अवट्टि० जह०
एगम०, उक्क० सत्तट्ट समया । सम्म०-सम्पापि० असंखे०भागवट्टी० जह० उक्क०
अंतोमु० । हाणी० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । असंखे०गुणवट्टी०

विधान्त नागर है । असंख्यातगुणदानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । नपुंसक-
वैश्वी असंख्यातभागवृद्धि जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य अधिक दो
विधान्त नागर है । असंख्यातगुणदानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । पुरुषवैश्वी
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण है । असंख्यातगुणदानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
है । अवशिष्टविभक्ति जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात प्राठ समय है ।
मान्य, रति, अरति और मोक्षकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागदानिका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । भय और जुगुप्सानी असंख्यातभागवृद्धि और
असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवै भाग-
प्रमाण है । अवशिष्टविभक्ति जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात प्राठ
समय है ।

जह० उक० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी० अवत्त० जह० उक० एगस० । अणंताणु०४
 असंखे०भागवड्डी० अवट्टि० मिच्छत्तभंगो । हाणी० जह० एगस०, उक० तेतीसं सा०
 देसू० । संखे०भागवड्डी० संखे०गुणवड्डी० जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०-
 भागो । असंखे०गुणवड्डी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी०
 अवत्त० ज० उक० एगस० । इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागवड्डी० ज० एगस०,
 उक० अंतोमु० । हाणी० ज० एगस०, उक० तेतीसं सागरो० देसूणाणि । पुरिस०
 असंखे०भागवड्डी० हाणी० ज० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्टि०
 जह० एगसमओ, उक० सत्तह समया । चदुणोक० ओघं । एवं सत्तस पुढवीसु ।
 णवरि जम्हि तेतीसं सागरो० देसूणाणि तम्हि सगट्टिदी देसूणा । सत्तमपुढविवज्जासु
 मिच्छ०-अणंताणु० सगट्टिदी ।

§ ३६५. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ० असंखे०भागवड्डी० अवट्टि०
 ओघं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिणिण पलिदो० सादियेयाणि ।
 वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंवा० असंखे०भागवड्डी० हाणी० अवट्टि० ओघं । सम्म०-
 सम्मामि० असंखे०भागवड्डी० जह० उक० अंतोमु० । असंखे०भागहा० ज० एगस०,

हैं । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अनन्तातुघन्यीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितिविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हैं । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हैं । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय हैं । चार नोकपायोका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ पर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा सातवीं पृथिवीको छोड़कर शेषमे मिथ्यात्व और अनन्तातुघन्यी चतुष्ककी अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३६५. तिर्यञ्जगतिमे तिर्यञ्जोमे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्ताकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । सन्यक्त्व और सन्यगिमिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक

उक० तिण्णि पल्लिदो० मादिरेयाणि । असंखे०गुणवट्टी० जह० उक० अंतोमु० ।
असंखे०गुणहा० अत्रत्त० ज० उक० एगस० । अणताणु० असंखे०भागवट्टी० अवट्टि०
ओयं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिण्णिपल्लिदो० सादिरेयाणि ।
संखेज्जभागवट्टी० संखे०गुणवट्टी० ज० एगसमओ, उक० आवट्टि० असंखे०भागो ।
असंखे०गुणवट्टी० ज० एगस०, उक० आवलिया समयूणा । असंखे०गुणहा० अवत्त०
ज० उक० एगस० । इत्थि० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० ।
असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिण्णि पल्लिदोवमाणि । एवं णवुम० ।
हम्म-नइ-अइ-सोंगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० ।
एवं पंचिदियतिरिक्ख० ३ । णवरि जोणिणीमु इत्थि-णवुंस० असंखे०भागहा० तिण्णि
पल्लिदो० देमूणाणि ।

§ ३६६. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे०
भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । अवट्टि० ज० एगस०, उक०
सत्तइ समय । सम्म०-सम्मापि० असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक० अंतोमु०-
पुपत्तं । असंखे०गुणहा० जह० उक० एगस० । सत्तपोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि०
जह० एगस०, उक० अंतोमु० ।

तीन पत्य है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि
और अयत्नव्यधिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्करी
असंख्यातभागवृद्धि और अयत्नव्यधिभक्तिका भद्र ओषके समान है । असंख्यातभागहानिका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । संख्यातगुणवृद्धि और
संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आयत्नव्यधिभक्तिका असंख्यातवै
भाग-
प्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय कम
आवृत्तिप्रमाण है । असंख्यातगुणहानि और अयत्नव्यधिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक
समय है । नीचैरुत्ती असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य है । इसीप्रकार
संख्यातवैदरी अपेक्षाने काल जानना चाहिए । हास्य, रति, प्ररति और शोककी असंख्यात-
भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
है । इसीप्रकार पञ्चन्द्रिय निर्गन्तव्यिकाले जानना चाहिए । मननी विज्ञेपता है कि पञ्चन्द्रिय
निर्गन्तव्ये नोनिर्गन्तव्ये स्वीयेद और संपुंसन्वेदरी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन
पत्य है ।

§ ३६६. पञ्चन्द्रिय निर्गन्तव्ये अपर्यायिकोमे भिध्यात्, मोलह कपाय, भय और जुगुप्सार्का
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है । अयत्नव्यधिभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात प्राठ
समय है । संपुंसन्वेदरी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पत्यत्तप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल
एक समय है । सार मोलहकपाय अपर्यायिकोमे भिध्यात्, मोलह कपाय, भय और जुगुप्सार्का

‡ ३६७. मणुसगदि० मणुस० मिच्छ० असंखे० भागवट्टि-अवट्टि० ओघं । असंखे० भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । असंखे० गुणहाणी० ज० उक्क० एगस० । सम्म०-सम्मायि० असंखे० भागवट्टी० जह० उक्क० अंतोमुहुत्तं । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोट्टि-पुव्वत्तेणभहिद्याणि । असंखे० गुणवट्टी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे० गुणहाणी० अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अणंताणु०४ असंखे० भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० हाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । संखे० भागवट्टि-संखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो० । असंखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक्क० आवलिया समयुणा । असंखे० गुणहाणि-अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अट्ठक०-पुरिसवेद० असंखे० भागवट्टि हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० । असंखे० गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० सत्तह समयया । तिण्णिसंज० असंखे० भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० । संखे० गुणवट्टि-असंखे० गुणहाणी० जह० उक्क० एगसमओ । अवट्टि० ओघं । एवं लोहसंज० । पवारि असंखे० गुणहाणी

एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

‡ ३६७. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व और सत्यमिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोट्टि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यात-गुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्करी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलि है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । आठ कपाय और पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । तीन संवलनोंकी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार लोभसंज्वलनकी अपेक्षासे काल

णत्थि । इत्थि० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०-
भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णिण पल्लिदो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणहाणी०
जह० उक्क० एगस० । एवं णवुंस० । दस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणी०
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । भय-दुगुंछ० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह०
एगम०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगम०, उक्क० सच्च
समया । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०गुणहाणी णत्थि ।
मणुसिणीमृ एवं चेव । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणी णत्थि । इत्थि-
णवुंस० असंखे०भागहाणी० तिण्णिण पल्लिदो० देवणाणि । मणुसपज्ज० पंचिदिय-
तिरिक्कवअपज्जत्तभंगो ।

§ ३६८. देवगदीए देवेसु भिच्छत्त० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०,
उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेचीसं
सागरोवमाणि । अवट्ठि० ओघं । सम्मत०-सम्मापि० असंखे०भागवट्टी० जह०
उक्क० अंतोमु० । असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक्क० तेचीसं सागरो० । असंखे०-
गुणवट्टी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ज० उक्क० एगस० ।
अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-अवट्ठि० ओघं । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०,

जानना चाहिए। उसी विज्ञेयता है कि असंख्यातगुणदानि नहीं है। खीवेदकी असंख्यातभाग-
वट्टिना जघन्य काल एक समय है और उट्टए काल अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातभागदानिका जघन्य
काल एक समय है और उट्टए काल साधिका तीन पत्य है। असंख्यातगुणदानिका जघन्य और
उट्टए काल एक समय है। उसी प्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए। हास्य,
रति, आरति और सोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक
समय है और उट्टए काल अन्तर्मुहूर्त है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि और
असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है और उट्टए काल पत्यके असंख्यातघे भागप्रमाण
है। अवस्थितविभक्तिना जघन्य काल एक समय है और उट्टए काल सात आठ समय है।
मनुष्यपर्याप्तिके उसी प्रकार जानना चाहिए। उसी विज्ञेयता है कि खीवेदकी असंख्यातगुण-
दानि नहीं है। मनुष्यपर्याप्तिके उसी प्रकार है। उसी विज्ञेयता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी
असंख्यातगुणदानि नहीं है। तब ही खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागदानिका उट्टए काल
एक समय तीन पत्य है। मनुष्य पर्याप्तिके पद्यो नित्य तिर्यक्य अपर्याप्तिकेके समान भद्र है।

§ ३६९. देवगदिमे देवोमे भिच्छत्तवी असंख्यातभागवट्टिना जघन्य काल एक समय
है। और उट्टए काल पत्यके असंख्यातघे भागप्रमाण है। असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक
समय है और उट्टए काल तैमीन सागर है। अवस्थितविभक्तिना भद्र अपेक्षे समान है।
असंख्यात और मनुष्यपर्याप्तिके असंख्यातभागदानिका जघन्य और उट्टए काल अन्तर्मुहूर्त है।
असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है और उट्टए काल तैमीन सागर है। असंख्यात-
गुणदानिका जघन्य काल एक समय है। असंख्यातगुणदानि और अवस्थितविभक्ति-
ना जघन्य काल एक समय है। असंख्यातगुणदानिका असंख्यातभागदानिका और
असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है। असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है।

उक० तेतीसं सागरोवमाणि । संखे० भागवड्डि०-संखे० गुणवड्डी० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे० भागो । असंखे० गुणवड्डी० ज० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे० गुणहाणि-अवत० ज० उक० एगस० । अवट्टि० ओषं । वारसक०-पुरिसवेद० भय-दुगुंछ० असंखे० भागवड्डि-हाणी० जह० एगस०, उक० पळिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक० सत्तद्व समया । इत्थि०-गुणुंस० असंखे० भागवड्डी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे० भागहाणी० जह० एगस०, उक० तेतीसं सागरोवमाणि । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवड्डि-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । एवं भवणवासियादि जाव उवरिमगेवजा ति । गवरि जत्थ तेतीसं सागरो० तत्थ सगट्टिदी भाणियव्वा ।

§ ३६६. अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति मिच्छत्त० असंखेज्जभागहाणी० जहणुणक० जहणुणकस्सट्टिदीओ । अणंताणु०४ असंखे० भागहाणी० जह० आवलिया दुसमयूणा, उक० सगट्टिदीओ । असंखे० गुणहाणी० जह० उक० एगस० । सम्म० असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० सगट्टिदीओ । सम्मामि० असंखे० भागहाणी० जह० जहणुणट्टिदी, उक० उकस्सट्टिदीओ । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०-

और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यात-भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार भवनवासी देवोंसे लेकर उपरिम अवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विवेचपता है कि जहां पर तेतीस सागर कहा है वहां पर अपनी अपनी स्थिति कंहीनी चाहिए ।

§ ३६६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री असंख्यातभागहानिका जघन्य काल दो समय कम एक आवलि है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व की असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति-प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-

भागवट्टि० हाणी० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ओघं । इत्थि-णवुंस० असंखे०भागहाणी० जह० जहणणट्टिदी, उक्क० उक्कसट्टिदी । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं जाव अणाहारि चि ।

§ ३७०. अंतराणुगमेण दुविहो णिदोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क० वेखावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० असंखे० लोगा । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागवट्टी० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उवट्टुपोग्गलपरियट्टं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० उवट्टुपोग्गलपरियट्टं । असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उवट्टुपोग्गलपरियट्टं । दोण्ह-मसंखे०गुणवट्टी० सम्मामि० असंखे०गुणहाणी० जह० अंतोमुहुत्तं । अणंतताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० वेखावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-

भागवट्टि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग-ओघके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गया तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

§ ३७०. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवट्टिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवट्टिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अव्यक्तविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । दोनोंकी असंख्यातगुणवट्टिका और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनन्तातुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट

असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० जह० अंतोमु० उक्क० उवड्डुपोगलपरियट्टं ।
 अट्टकसा० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-
 भागो । असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा
 लोगा । एवं चट्टुसंजलणणं । णवरि असंखे०गुणहाणि-संखे०गुणवट्टी० णत्थि अंतरं ।
 लोहमंज० असंखे०गुणहाणी णत्थि । इत्थि० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क०
 वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।
 असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०,
 उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० उवड्डुपोगलपरियट्टं ।
 असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । णवुंस० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क०
 वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि तीहि पल्लिदो० देसूणाणि । असंखे०भागहा० ज०
 एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं
 असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । भय-दुगुंझा० असंखे०-
 भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज०
 एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । आठ कपायोकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार चार संवलनोकी अपेक्षासे अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और संख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । लोभसंवलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । लोभवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरपत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कभ तीन पत्य अधिक दो छथासठ भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ३७१. आदेशेण णेरइय० मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । एवमवट्ठि० । असंखे०भागहाणी० जह० एयस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० ज० पल्लिदो० असंखे०भागो, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टी० अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । संखे०भागवट्टी० संखे०गुणवट्टी० असंखे०गुणवट्टी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोसु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० असंखे०भागवट्टी० हा० ज० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि०-णहुंस० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोसु० । हस्स-रइ-अइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोसु० । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि जम्हि तेत्तीसं सागरोवमाणि तम्हि सगट्ठिदी देसूणा ।

§ ३७२. तिरिकवर्गई० तिरिकवा० मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०,

§ ३७. आदेशसे नारकियोमे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवस्थितविभक्तिका अन्तर-काल है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवकव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात-भागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवकव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सातो धृतिविधियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहां पर कुछ कम तेतीस सागर कहा गया है वहां पर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३७२. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोमे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक

उक० तिण्णि पलिदो० सादिरैयाणि । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्माभि० असंखे० भागवट्ठी० जह० पलिदो० असंखे० भागो, उक० उवट्ठुपोग्गलपरियट्ठं । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक० उवट्ठुपोग्गलपरियट्ठं । असंखे० गुणवट्ठी० हा० अवत्त० ज० पलिदो० असंखे० भागो, उक० उवट्ठुपोग्गलपरियट्ठं । अणंताणु०४ असंखे० भागवट्ठी० हा० ज० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० सादिरैयाणि । हाणीए देसूणा । संखेज्जभागवट्ठी० संखे० गुणवट्ठी० असंखे० गुणवट्ठी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोमुहुत्तं, उक० उवट्ठुपोग्गल० । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० असंखेज्जा लोगा । वारसक०-भय-दुगुंछा० असंखे० भागवट्ठी० हाणी० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० असंखेजा लोगा । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि० ओषं । इत्थि० असंखे० भागवट्ठि० ज० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । णवुंस० असंखे० भागवट्ठी० ज० एगस०, उक० पुव्वकोढी देसूणा । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवट्ठी० हाणी० ज० एगस०,

समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्भ्यात्व की असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । मात्र असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षासे अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल ओषके समान है । स्त्रीवेदकी असंख्यात-भागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नर्पुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक

उक्त० अंतोमु० ।

§ ३७३. पंचिदियतिरिक्त्व३ मिच्छ० असंखे० भागवट्टी० ज० एगस०, उक्त० तिष्णिपल्लिदो० सादिरेयाणि । असंखे० भागहाणी० ज० एगस०, उक्त० पल्लिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्त० सगट्टिदी देसूणा । सम्म०-सम्माभि० असंखे० भागवट्टी० असंखे० गुणवट्टी० हाणी० अवत्त० ज० पल्लिदो० असंखे० भागो, वक्त० तिरिष्णिपल्लिदो० पुन्वकोटिपुधत्तेणभहियाणि । एवमसंखे० भागहाणी० । णवरि जह० एगस० । अणताणु०४ असंखे० भागवट्टी० हा० ज० एगस०, उक्त० तिष्णिपल्लिदो० सादिरेयाणि । हाणी० देसूणा । अवट्टि० मिच्छत्तभंगो । संखे० भागवट्टी० संखे० गुणवट्टी० असंखे० गुणवट्टी० हा० अवत्त० ज० अंतोमु०, उक्त० तिरिष्णिपल्लिदो० पुन्वकोटिपुधत्तेणभहियाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० असंखे० भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक्त० पल्लिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्त० सगट्टिदी देसूणा । इत्थि० असंखे० भागवट्टी० जह० एगस०, उक्त० तिष्णिपल्लिदो० देसूणाणि । असंखे० भागहाणी० ज० एगस०, उक्त० अंतोमु० । णवुंस० असंखे० भागवट्टी० जह० एगस०, उक्त० पुन्वकोटि देसूणा । असंखे०-

समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७३. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । सन्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । इसी प्रकार असंख्यातभागहानिका अन्तर काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर एक समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । मात्र असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय

भागहा० ज० एगस०, उक० अंतोसु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोसु० ।

§ ३७४. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुग्घा० असंखे०-भागवट्टी० हाणी० अवट्ठि० ज० एगस०, उक० अंतोसुहुत्तं । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहा० जह० उक० एगस० । असंखे०गुणहाणी० पत्थि अंतरं । सत्तणोक० असंखेज्जाभागवट्टी० हा० ज० एगस०, उक० अंतोसु० ।

§ ३७५. मणुसगदि० मणुस० पंचि०तिरिदखभंगो । णवरि मिच्छ०-एकारस०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणी० चटुसंजल० असंखे०गुणवट्टी० पत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०गुणवट्टी० सम्मामि० असंखे०गुणहा० जह० अंतोसु० । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थि० असंखे०गुणहाणी पत्थि । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणी पत्थि । मणुसअपज्ज० पंचि०तिरिदख०अपज्जत्तभंगो ।

§ ३७६. देवगदि० देवा० मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० अवट्ठि० ज० एगस०, उक० एकतीसं सागरो० देसूपाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० पत्तिदो० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवट्टी० असंखे०गुणवट्टी०

है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७८. मनुष्यगतिमें मनुष्योमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि और चार संज्वलनोकी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणवृद्धि और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यपर्याप्तकोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्यनियोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे पुरुषवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

§ ३७९. देवगतिमें देवोमे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण है । सम्यक्त्व

हा० अवत्त० ज० पल्लिदो० असंखे०, भागहा० ज० एगस०, उक्क० दो वि एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवड्डी० हाणी० अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । संखे०भागवड्डी० संखे०गुणवड्डी० असंखे०गुणवड्डी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवड्डी० हा० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि-णवुंस० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्डी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं भवणादि जाव उवरिम-गेवज्जा त्ति । णवरि जम्हि एकत्तीसं जम्हि य तेत्तीसं तम्हि सगट्टिदीओ भाणिदन्वाओ ।

§ ३७७. अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि-णवुंस० असंखे०भागहाणी० गत्थि अंतरं । अणंताणु०४ असंखे०भागहा० ज० उक्क० एगसमओ, वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवड्डी-हा० ज० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगसमओ, उक्क० सगट्टिदी देसूणा ।

और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और एक समय है तथा उत्कृष्ट अन्तर दोनों ही कुछ कम इकतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । लीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार भवन-वासिधेसे लेकर उपरिभ्रम्र अवेक तकके देवोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहां पर इकतीस सागर और जहां पर तेतीस सागर कड़ा है वहां वर अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३७७. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, लीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । वारह व.पाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और

हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३७८. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण भिच्छ० असंखे०भागवट्टि-हा०-अवट्टि० णियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहा०विहत्तिया च । एवमट्टकसाय० । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भजियव्वाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हा०-अवट्टि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भजियव्वाणि । चट्टुसंज० एवं चेव । इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागवट्टि-हा० णियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहा०विहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०-गुणहाणिविहत्तिया च । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । भय-दुगुंढा० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णियमा अत्थि ।

§ ३७९. आदेसेण णेरइय० भिच्छत्त-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । । । सिया एदे च अवट्टिओ च । सिया एदे च

उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ३७८. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्ग विचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहाणिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । इसी प्रकार आठ कषायोंकी अपेक्षा भङ्ग जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । चार संज्वलनोकी अपेक्षा इसी प्रकार भङ्ग है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाला एक जीव है । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाले अनेक जीव हैं । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं ।

§ ३७८. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और

अवट्टिदा च । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । इत्थि०-णवुंस०--हस्स--रइ--अरइ--सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । एवं सच्चएोरइय० पंचिदियतिरिक्ख०३ देवगदीए देवा भवणादि जाव उवत्तिमगेवज्जा त्ति ।

§ ३८०. तिरिक्खवई० तिरिक्खा० मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुंछा० असंखे०-भागवट्टि-हाणि-अवट्टिदा णियमा अत्थि । सम्म०-सम्मामि असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । इत्थि-णवुंस०-चदुणोक० असंखे०भागवट्टि-हा० णियमा अत्थि । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्टि-विहत्तिओ च । सिया एदे च अवट्टिदविहत्तिया च ।

§ ३८१. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछा० असंखे०-भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्टिदविहत्तिओ च । सिया एदे च अवट्टिदविहत्तिया च । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सिया

अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। इसीप्रकार सन्न नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिक, देवगतिमे देव और भवनवासियोसे लेकर उपरिम प्रवैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए।

§ ३८०. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं।

§ ३८१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। कदाचित् ये

एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च । सत्तणोक० असंखे०भागवड्डि-हाणि० णियमा अत्थि ।

§ ३८२. मणुसगदी० मणुसा० मिच्छ०--सोलसक०--पुरिस०--भय-दुगुंछ० असंखे०भागवड्डि-हाणि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सम्मत०-सम्मामि० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । इत्थि०--णवुंस० अत्थि असंखे०भागवड्डि-हाणिविहत्तिया । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्डि-हाणि० णियमा अत्थि । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । एवं चेव मणुसिणीसु । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । मणुसअपज्ज० अट्टावीसं पयडीणं सव्वपदा भयणिज्जा ।

§ ३८३. अणुत्तिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवड्डि-हाणि० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्ठिदविहत्तिओ च । सिया एदे च अवट्ठिदविहत्तिया च । मिच्छत्त--सम्म०--सम्मामि०--इत्थि०--णवुंस० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । अणंताणु०४ असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया

जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाले नाना जीव हैं । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं ।

§ ३८२. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । मनुष्यपर्याप्तिकोमै इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । इसीप्रकार मनुष्यनियोमै भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तिकोमै अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं ।

§ ३८३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात-

व । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवड्ढि-हा० विह० णियमा अत्थि । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३८४. भागाभागानु० दुविहो णिहेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छ० असंखे० गुणहाणिविह० सव्वजी० केवडिओ भागो ? अणंतभागो । अवट्ठि० विह० सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । असंखे० भागहा० सव्वजी० केव० ? संखे० भागो । असंखे० भागवड्ढि० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । एवमट्ठकसाय० । सम्म०--सम्मामि० असंखे० भागवड्ढि--असंखे० गुणवड्ढि--हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । असंखे० भागहा० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । अणंतोशु०४ संखे० भागवड्ढि--संखे० गुणवड्ढि-असंखे० गुणवड्ढि-हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अवट्ठि० असंखे०-भागो । असंखे० भागहा० संखे० भागो ; असंखे० भागवड्ढि० सव्वजीवा केव० ? संखेज्जा भागा । चहुसंजल० संखे० गुणवड्ढि-असंखे० गुणहा० सव्वजी० के० ? अणंतभागो । अवट्ठि० असंखे० भागो । असंखे० भागहा० केव० ? संखे० भागो । असंखे० भागवड्ढि० के० ? संखेज्जा भागा । णवरि लोभसंज० असंखे० गुणहाणि०

भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । इसप्रकार अनाहारकर्मार्ग्या तक ले जाना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

§ ३८४. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग-प्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार आठ कपायोंकी अपेक्षा भागाभाग जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवकव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवकव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागवृद्धि वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । चार संव्वलनोंकी संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानि-वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागवृद्धि-वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है

णत्थि । इत्थिण्वुंस० असंखे०गुणहा० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । असंखे० भागवट्ठि० संखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखेज्जा भागा । णवरि ण्वुंस० असंखे०भागवट्ठि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । पुरिस० असंखे०गुणहा०-संखे०-गुणवट्ठि-अवट्ठि० अणंतभागो । असंखे०भागवट्ठि० संखे०भागो । असंखे०भागहा० संखेज्जा भागा । हस्स-रइ-अरइ-सो० असंखे०भागवट्ठि० संखे०भागो । असंखे०-भागहा० संखेज्जा भागा । अरदि-सोग० असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०-भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । भय-दुगुंढा० अवट्ठि० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवट्ठि० संखेज्जा भागा ।

§ ३८५. आदेसेण णेरइय० मिच्च०-चारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० अवट्ठि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० के० ? संखे०भागो । असंखे०-भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । णवरि पुरिस० वट्ठि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहा० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । सेसपदा असंखे०भागो । अणंताणु०४ अवट्ठि० संखे०भागवट्ठि-संखे०गुणवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो ।

कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि-वाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका विपर्यास करना चाहिए। पुरुषवेदकी असंख्यातगुणहानि, संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात-भागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है। अरति और शोककी असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है। भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं।

§ ३८५ आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं ? असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-भागहानिवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। ग्रेप पदवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यात-भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिवाले

असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । इत्थि०णवुंस०-हृस्स-रइ-अरइ-सोग० असंखे०-
भागवट्टि० केव० ? संखे०भागो । असंखे०भागहा० सव्वजी० संखेज्जा भागा ।
णवरि णवुंस अरइ-सोगाणं विवरीयं कायव्वं । एवं सव्वणेरइयं पंचि०तिरिक्ख० ३
देवगई० देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । णवरि आणदादिस्स पुरिस-णवुंस०-
मिच्छत्त०-अणंताणु० ४ असंखे०भागवट्टि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो ।

§ ३८६. तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुंढ० अवट्टि०
सव्वजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि०
संखेज्जा भागा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० असंखेज्जा भागा । सेसपदा
असंखे०भागो । अणंताणु० ४ संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-
अवत्त० अणंतभागो । अवट्टि० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०-
भागो । असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । इत्थि-णवुंस०-हृस्स-रइ-अरइ-सोगा०
णेरइयंभंगो । पुरिस० अवट्टि० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । असंखे०भागवट्टि०
संखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखेज्जा भागा ।

§ ३८७. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंढा० अवट्टि०

जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।
खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव सब जीवोंके
कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके
संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद, ऊरति और शोकका विपरीत
करना चाहिए । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्जत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियों
से लेकर उपरिम ग्रैवैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ज्ञानतादिकमें
पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-
भागहानिका विपर्यास करना चाहिए ।

§ ३८६. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोमे मिथ्यात्व, दारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थित-
विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव
संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सन्यक्त्व
और सन्यगिमिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदवाले
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि,
असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं ।
अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें
भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । खीवेद, नपुंसकवेद,
हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग नारकियोंके समान है । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले
जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले
जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।

§ ३८७ पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तिकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी

सव्वजी० असंखे० भागो । असंखे० भागहाणि० संखे० भागो । असंखे० भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । सम्म०-सम्मामि० असंखे० गुणहा० असंखे० भागो । असंखे० भागहा० असंखेज्जा भागा । सत्तणोक० णेरइयभंगो । णवरि पुरिस० अवट्ठि० णत्थि । एवं मणुसअपज्ज० ।

§ ३८८. मणुसगई० मणुसा० विच्छ०-अट्ठक० असंखे० गुणहा०-अवट्ठि० सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । असंखे० भागहाणि० संखे० भागो । असंखे० भागवट्ठि० संखे० भागा । सम्म०-सम्मामि० असंखे० गुणवट्ठि-हाणि-असंखे० भागवट्ठि-अवत्त० असंखे० भागो । असंखे० भागहा० असंखेज्जा भागा । अणताणु० ४ अवट्ठि०-संखे० भागवट्ठि-सखे० गुणवट्ठि--असंखे० गुणवट्ठि--हाणि--अवत्त० असंखे० भागो । असंखे० भागहा० संखे० भागो । असंखे० भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । तिहिसंज० अवट्ठि० संखे० गुणवट्ठि--असंखे० गुणहाणि० सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । असंखे० भागहा० संखे० भागो । असंखे० भागवट्ठि० संखे० भागा । तोहसंजल० संखे० गुणवट्ठि०-अवट्ठि० सव्वजी० असंखे० भागो । असंखे० भागहा० संखे० भागो । असंखे० भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । इत्थि-णवुंस० असंखे० गुणहा० सव्वजी०

अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। सात नोकषायोंका भङ्ग नारक्तियोंके समान है। इतनी विघेपता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्ति नहीं है। इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमे जानना चाहिए।

§ ३८८. मनुष्यगतिसमें मनुष्योमे मिथ्यात्व और आठ कषायोंकी असंख्यातगुणहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि असंख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तीन संव्वलनोकी अवस्थितविभक्ति, संख्यात-गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धि-वाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। लोभसंव्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितविभक्ति-वाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। स्त्रीवेद और मनुसकवेद-

असंखे०भागो । असंखे०भागवड्ढि-हाणीणं णेरइयभंगो । पुरिसवेद० संखे०गुणवड्ढि-
अवड्ढि-असंखे०गुणहाणि० असंखे०भागो । असंखे०भागवड्ढि० संखे०भागो ।
असंखे०भागहा० संखेज्जा भागा । हस्स-रइ-अरइ-सोगा० असंखे०भागवड्ढि-हाणि०
ओघं । भय-दुगुंछा० अवड्ढि० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो ।
असंखे०भागवड्ढि० संखेज्जा भागा । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि जम्हि असंखे०
भागो तम्हि संखे०भागो । इत्थिवेद० हस्सभंगो । एवं मणुसिणीसु । णवरि पुरिस०-
णवुंस० असंखे०गुणहा० णत्थि ।

§ ३८६. अणुदिसादि जाव सञ्चट्टा त्ति पिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि-
णवुंस० णत्थि भागाभागो । अणंताणु०५ असंखे०गुणहाणि० असंखे०भागो ।
असंखे०भागहाणि० असंखे०भागो । सञ्चट्टे णवरि संखे०भागो संखेज्जा भागा ।
वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अवड्ढि० सञ्चजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहा०
संखे०भागो । असंखे०भागवड्ढि० संखेज्जा भागा । सञ्चट्टे संखेज्जं कायव्वं । हस्स-
रइ-अरइ-सोगाणं देवोघं । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

की असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धि
और असंख्यातभागहानिका भङ्ग नारकियोके समान है । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धि, अवस्थित-
विभक्ति और असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । हास्य,
रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका भङ्ग ओषके समान
है । भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात-
भागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभाग-
प्रमाण हैं । मनुष्य पर्याप्तकोमे इसीप्रकार भागाभाग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातवें
भागप्रमाण हैं वहाँ पर संख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिए । तथा खीवेदका भङ्ग हास्यके
समान है । इसीप्रकार मनुष्यनियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और
नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है ।

§ ३८६. अनुदिरासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
खीवेद और नपुंसकवेदका भागाभाग नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानिवाले
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण है ।
इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमे क्रमसे संख्यातवें भाग और संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।
वाह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोके असंख्यातवें
भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धि-
वाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मात्र सर्वार्थसिद्धिमें असंख्यातके स्थानमे संख्यात करना
चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । इसप्रकार अनाहारक
मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ३६०. परिमाणानु० दुविहो णिहोसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुंछा० अवट्ठि० असंखे०भागवट्ठि-हाणिविह० केत्ति० ? अणंता । असंखे०गुणहाणि० चउसज० संखे०गुणवट्ठि० संखेज्जा । णवरि लोभसंज०-भय-दुगुंछा० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । सम्म०-सम्माभि० सव्वपदवि० असंखेज्जा । अणंताणु०४ अवट्ठि०-असंखे०भागवट्ठि-हाणि० के० ? अणंता । सेसपदा० असंखेज्जा । इत्थि०-पुरिस०-णलुंस० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० केत्ति० ? अणंता । पुरिस० अवट्ठि० असंखेज्जा । सव्वेसिमसंखे०गुणहाणि० पुरिस० संखे०गुणवट्ठि० संखेज्जा । हस्स-रइ-अरइ-सोगा० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० केत्ति० ? अणंता । एवं तिरिक्खा० । णवरि सेट्ठिपदाणि मोत्तण वत्तव्वं ।

§ ३६१. आदेसेण णेरइय० अट्ठावीसं पयदीणं सव्वपदा० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइय० सव्वपंचिदियतिरिक्ख० देवगई० देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । मणुसगदीए एवं चेव । णवरि सेट्ठिपदा मिच्छ० असंखे०-गुणहाणि० अणंताणु० पंचपदा संखेज्जा । पंचि०तिरिक्ख०अप० २८ पयदीणं सव्वपदा असंखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु जाणि पदाणि अत्थि ताणि संखेज्जा । मणुसअपज्ज० २८ पय० सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । अणुदिसादि जाव

§ ३६०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थित, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । असंख्यातगुणहानिवाले और चार संज्वलनोकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलन, भय और जुगुप्साकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सब पदविभक्ति-वाले जीव असंख्यात हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शेष पदवाले जीव असंख्यात हैं । ऋग्वेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं । सबकी असंख्यातगुणहानि-वाले और पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यात हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रेणिसम्बन्धी पदोको छोड़कर कथन करना चाहिए ।

§ ३६१. आदेशसे नारकियोमे अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, देवगतिमें देव और भवनासियों से लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमे जानना चाहिए । मनुष्यगतिमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पदवाले, मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि-वाले और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके पाँच पदवाले जीव संख्यात हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्घोमें जो पदवाले हैं वे संख्यात हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने

अवराइदा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-णत्तुंस० असंखे० भागहा० अणंताणु० ४
असंखे० भागहा०-असंखे० गुणहा० वारसक-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे० भागवट्टि-
हाणि-अवट्टि० चदुणोको० असंखे० भागवट्टि-हा० केत्तिया ? असंखेज्जा । सव्वट्ट०
सव्वपय० सव्वपदा संखेज्जा । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ३६२. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०-
अट्टक०-भय-दुगुंछा० असंखे० भागवट्टि-हा०-अवट्टि० के० खेत्ते ? सव्वलोगे । भय-
दुगुंछवज्ज० असंखे० गुणहाणि० के० खेत्ते ? लोग० असंखे० भागे । सम्म०-सम्मामि०
सव्वपदा० लोग० असंखे० भागे । अणंताणु० ४ मिच्छत्तभंगो । णवरि संखे० भागवट्टि-
संखे० गुणवट्टि--असंखे० गुणवट्टि--हाणि-अवत्त० लोग० असंखे० भागे । चदुसंज०
असंखे० भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० के० खेत्ते ? सव्वलोगे । संखे० गुणवट्टि० लोभसंजलणं
वज्ज० असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे० भागे । इत्थि०-णत्तुंस० असंखे० भागवट्टि-
हाणि० सव्वलोगे । असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे० भागे । एवं पुरिस० । णवरि
अवट्टि०-असंखे० गुणवट्टि० लोग० असंखे० भागे । चदुणोको० असंखे० भागवट्टि-

हैं ? असंख्यात हैं । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व,
सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी
असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले तथा चार नोकपायोकी
असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सर्वार्थसिद्धि-
मे सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक
जानना चाहिए ।

इसीप्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

§ ३९२. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
मिथ्यात्व, आठ कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । भय और जुगुप्साको छोड़कर
असंख्यातगुणहानिवाले जीवोका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है ।
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीवोका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है ।
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातभागवट्टि,
संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोका क्षेत्र
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चार संजलनोंकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । संख्यातगुणवट्टिवाले जीवोका
और लोभसंजलनको छोड़कर शेषकी असंख्यातगुणहानिवाले जीवोका लोकके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण क्षेत्र है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले
जीवोका क्षेत्र सब लोक है । असंख्यातगुणहानिवाले जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण
है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति
और असंख्यातगुणवट्टिवाले जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चार नोकपायोकी

हाणि० सव्वलोगे । एवं तिरिक्त्वा० । एवरि सेट्टिपदा मिच्छ० असंखे०गुणहाणि० च एत्थि ।

§ ३६३. आदेसेण एरइय २८ पय० सव्वपदा लोग० असंखे०भागे । एवं सव्वणेरइय० । सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्स० सव्वपदा त्ति जासिं जाणि पदाणि संभवंति तासिं लोग० असंखे०भागे । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ३६४. पोसणाणुगमेण दुविहो णिदे सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्ठक० असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० केव० खेतं पोसिदं? सव्वलोगो । असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्ठचोदस० । असंखे०भागहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अणंताणु०४ मिच्छत्तभंगो । एवरि संखेज्जभागवट्ठि-संखे०-गुणवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्ठचो० देसूणा । चदुसंजल० संखे०गुणवट्ठि० लोभं वज्ज असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि-णहुंस० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० सव्वलोगो । असंखे०गुण-

असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इसीप्रकार तिर्यञ्चों में जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद और मिथ्यात्वकी असंख्यात-गुणहानि नहीं है ।

§ ३६३. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब मनुष्योंमें सब पदोंसे जिन प्रकृतियोंके जो पद सम्भव हैं उनका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

§ ३६४. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और आठ कषायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सत्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार संवलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले और लोभसंवलनको छोड़कर शेषकी असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । त्रीवेद और नर्पुसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि

हाणि० लो० असंखे० भागो । पुरिस० असंखे० भागवडि-हा० सन्वलो० । अवट्टि० लो० असंखे० भागो अट्टचोइ० । असंखे० गुणहाणि-संखे० गुणवडि० लो० असंखे० भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवडि-हाणि० सन्वलो० । भय-दुगुंछा० असंखे० भागवडि-हाणि-अवट्टि० सन्वलो० ।

§ ३६५. आदेशेण णेरइय० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछा० असंखे० भागवडि-हाणि-अवट्टि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागहाणि-असंखे० गुणहाणि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । सेसपदा० खेतं । अणंताणु०४ संखे० भागवडि--संखे० गुणवडि--असंखे० गुणवडि--असंखे० गुणहाणि-अवत्त० खेत्तभंगो । इत्थि०-णवुंस० असंखे० भागवडि-हाणि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । पुरिस० असंखे० भागवडि-हाणि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । अवट्टि० लो० असंखे० भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवडि-हाणि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । पढमाए खेत्तभंगो । विदियादि जाव सत्तमा ति

और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यात-गुणहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम अट्ट वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यातगुणहानि और संख्यात-गुणवृद्धिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ३६५. आदेशसे नारक्रियोमे भिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्भिध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोका भङ्ग क्षेत्रके समान है। स्त्रीवेद और नपुसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थित-विभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पहली पृथिवीमे क्षेत्रके समान भङ्ग है। दूसरीसे लेकर सातवीं तककी पृथिवियोंमें सामान्य

णिरओधं । गवरि सगपोसणं ।

§ ३६६. तिरिक्त्वा० मिच्छ०--सोलसक०-भय-दुगुंझ० असंखे०भागवट्टि-
हाणि-अवट्टि० सव्वलोगो । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागहाणि-असंखे०गुणहाणि०
लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सेसपदा० लोग० असंखे०भागो । अणंताणु०४
संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो ।
पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वलोगो । अवट्टि० लोग० असंखे०भागो ।
इत्थि०-णवुंस०इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वलोगो ।

§ ३६७. पंचिंदियतिरिक्त्वा३ मिच्छत्त-वारसक०भय-दुगुंझा० असंखे०भागवट्टि-
हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्माभि० असंखे०-
भागहा०-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सेसपदवि०
लोग० असंखे०भागो । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०
भागो सव्वलोगो वा । संखे०भागवट्टि०-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त०
लोग० असंखे०भागो । । इत्थि० असंखे०भागवट्टि० लोग० असंखे०भागो दिवइ-

नारकियोंके स्नान भङ्ग है । इतनी विशेषता है अपना अपना स्पर्शन ऋचा चाहिए ।

§ ३६६. तिर्यञ्चोमं मिथ्यात्व, सोलह कणय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि,
असंख्यातभागहाणि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
सन्धक्त्व और सन्धग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहाणि और असंख्यातगुणहाणिगत जीवोंने
लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदवाचते जीवोंने
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यात-
भागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहाणि और अवच्छिन्नविभक्तिगत
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी असंख्यातभाग-
वट्टि और असंख्यातभागहाणिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवस्थित-
विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छिंदे, संपुंसकंठ
हात्स, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहाणिगत जीवोंने
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ३६७. पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्चिक्रमे मिथ्यात्व, वारह कणय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-
भागवट्टि, असंख्यातभागहाणि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग
और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सन्धक्त्व और सन्धग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-
भागहाणि और असंख्यातगुणहाणिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहाणि और
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । संख्यातभागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहाणि और अवच्छिन्न-
विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छिंदेकी असंख्यात-

चोइस० । असंखे०भागहा० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । पुरिस० असंखे०-
भागवट्टि० लोग० असंखे०भागो छचोइस० । असंखे०भागहाणि० लोग० असंखे०-
भागो सव्वलोगो वा । अवट्टि० तिरिक्खोव० । णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०-
भागवट्टि-हाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ३६८. पंचिदिय-तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०--सोलसक०--भय-दुगुंछा०
असंखे०भागवट्टि-हा०--अवट्टि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म०-
सम्माभि० असंखे०भागहाणि-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो
वा । इत्थि०-पुरिस० असंखे०भागवट्टि० लोग० असंखे०भागो । दोण्हमसंखे०भाग-
हाणि० णवुंस०हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० लोग० असंखे०-
भागो सव्वलोगो वा । मणुसगईए मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु पंचिदियतिरिक्खभंगो ।
णवरि जम्हि वज्जो तम्हि लोग० असंखे०भागो । सेट्टिपदा० लोग० असंखे०भागो ।
मणुसअपज्ज० पंचि०तिरि०अपज्जत्तभंगो ।

§ ३६९. देवगईए देवेसु मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टि-

भागवट्टिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुत्रवेदकी असंख्यातभागवट्टिवाले जीवोंने लोकके
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है। असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है। अवस्थितविभक्तिवाले जीवोका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोके समान है। नपुंसकवेद,
हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने लोकके
असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ३६८. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी
असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें
भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात-
भागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवट्टिवाले जीवोने लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दोनोकी असंख्यातभागहानिवाले जीवोने
तथा नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानि-
वाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति
में मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोमे पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि
जहाँ पर वर्जनीय है वहाँ पर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन है। तथा श्रेणिसम्बन्धी
पदवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्य अपर्याप्तकोमें
पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है।

§ ३६९. देवगतिमें देवोने मिध्यात्व, चारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-

हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो अट्ट-णवचोइसभागो वा देसूणा । सम्म०-सम्मापि० असंखे०भागहाणि-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो अट्ट-णवचोइ० । सेस-पदा० लोग० असंखे०भागो अट्टचोइ० । अणताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो अट्ट-णवचोइ० । संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्टचोइ० । इत्थि० असंखे०-भागवट्टि० पुरिस० असंखेणभागवट्टि-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो अट्टचोइ० देसूणा । दोणहमसंखे०भागहा० चटुणोको असंखे०भागवट्टि-हाणि० लोग० असंखे०-भागो अट्ट-णवचोइ० । एवं सोहम्म० । भवण०-ज्ञाण०-जोदिमि० एवं चेव । पव्वरि सगरज्जू० । सणक्कुमारादि जाव सहससारे त्ति आणदादि जाव अच्चुदा त्ति सग-पोसणं । उवरि खेतभंगो । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

६४००. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसां—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्टक० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० सञ्चद्धा । असंखे०गुणहाणि० जइ०

भागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सन्ध्वत्त्व और सन्ध्वग्निध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । कृतान्तानुबन्धीनपुष्पकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । संख्यातभागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवचक्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । खंविदकी असंख्यातभागवट्टि तथा पुरसवेदकी असंख्यातभागवट्टि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंको असंख्यातभागहानि तथा चार नोकनाथोंकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पमें स्पर्शन है । भवनवासी, व्यन्तर और लोतिनी देवोंमें स्पर्शन इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि अपने अपने राहु करने चाहिए । सनखुणा-से लेकर सहस्रार कल्पतक और आनतसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए । आगेके देवोंमें स्पर्शनका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गका तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

६४००. कालाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और आठ कथायोंकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति

एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया । सम्म०-सम्मापि० असंखे०भागवट्टि-असंखे०-
 गुणवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असं०भागहाणि०
 सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।
 अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वद्धा । संखेज्जभागवट्टि-संखे०-
 गुणवट्टि-असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।
 असंखे०गुणवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । चटुसंजळ०
 असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वद्धा । संखे०गुणवट्टि० लोभसंज० वज्ज०
 असंखे०गुणहा० ज० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । इत्थि-णडुंस० असंखे०भाग-
 वट्टि-हाणि० सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० संखे० समया ।
 पुरिस० असं०भागवट्टि-हा० सव्वद्धा । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० आवलि०
 असं० । असं०गुणहा०-संखे०गुणवट्टि० ज० एगस०, उक्क० संखे० समया । हस्स-रइ-
 अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । भय०-दु० असं०भागवट्टि-हा०-
 अवट्टि० सव्वद्धा ।

§ ४०१. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंखा० असंखे०-

काल सर्वदा है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात
 समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्निमध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका
 जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यात-
 भागहानिका काल सर्वदा है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिकाले जीवोका जघन्य
 काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी-
 चतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा
 है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य
 काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका
 जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चार संव्वलनकी
 असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है । संख्यात-
 गुणवृद्धिका तथा लोभसंवलनकी छोड़कर असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और
 उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-
 भागहानिका काल सर्वदा है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है ।
 अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें
 भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और
 उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और
 असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-
 भागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है ।

§ ४०१. आदेशे नारकियोमे मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी

भागवट्टि-हाणि० सञ्चद्धा । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागहा० सञ्चद्धा । असंखे० गुणहाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० आव० असंखे० भागो । असंखे० भागवट्टि-असंखे० गुणवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । अणताणु०४ असंखे० भागवट्टि०-हाणि० सञ्चद्धा । संखे० भागवट्टि०-संखे० गुणवट्टि०-असंखे० गुणहाणि०-अवट्टि०-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । असंखे० गुणवट्टि० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवट्टि-हाणि० सञ्चद्धा । एवं सत्तमु पुढवीमु ।

§ ४०२, तिरिक्खगदी० तिरिक्खा० ओघं । णवरि सेदिपदाणि भोत्तूण । पंचिदियतिरिक्खतिए णारयभंगो । पंचि० तिरि० अपज्ज० मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे० भागवट्टि-हाणि० सञ्चद्धा । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागहाणि० सञ्चद्धा । असंखे० गुणहाणि० जह० एगसपओ, उक्क० आव० असं० भागो । सत्तणोक्क० असंखे० भागवट्टि-हाणि० सञ्चद्धा ।

असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातगुणवट्टिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । संख्यातभागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवट्टिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । इसी प्रकार सातों धृतिविधोंमें जानना चाहिए ।

§ ४०२. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि श्रेष्ठ-सम्बन्धी पदोंको छोड़कर कहना चाहिए । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चिकमें नारिकोंके समान भङ्ग है । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगप्साकी असंख्यात-भागवट्टि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व की असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है ।

§ ४०३. मणुसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०-
भागवड्ढि-असंखे०गुणवड्ढि० जहणुक्क० अंतोसुहुत्तं । अणंताणु०४ असंखे०गुणवड्ढि०
ज० एगस०, उक्क० अंतोसु० । छण्हमवत्त० अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणि० पुरिस०
अवड्ढि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । खवगपदानमोघं । मणुसपज्जच-
मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणहाणि० धुववंधीणमवड्ढि०
जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । मणुसपज्ज० इत्थि० असंखे०गुणहाणि०
णत्थि । मणुसिणी० पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि ।

§ ४०४. मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे०भागवड्ढि-
हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवड्ढि० जह० एगस०, उक्क०
आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० जह० एगस०,
उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि०
असंखे०भागो । सत्तणोक० असंखे०भागवड्ढि-हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो०
असंखे०भागो ।

§ ४०५. देवगई० देवा० भवणादि जाव उवरिसमेवज्जा ति गारयभंगो ।
अणुद्दिसादि जाव सव्वट्ठा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस० असंखे०-

§ ४०३. मनुष्योमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व
और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । छहकी अवक्तव्यविभक्तिका, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात-
गुणहानिका और पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
संख्यात समय है । क्षपक पदोंका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमे
इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका
तथा ध्रुवचन्धिनी प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
संख्यात समय है । मनुष्य पर्याप्तकोमे स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्यिनियोंमे
पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है ।

§ ४०४. मनुष्य अपर्याप्तकोमे मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-
भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके
असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
प्रावलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यात-
गुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रावलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।
सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।

§ ४०५. देवगतिमे देवोंमे तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमे
नारकियोंके समान भङ्ग है । अनुद्दिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमे मिध्यात्व, सम्यक्त्व,

भागहाणि० सञ्चद्धा । एवमणंताणु०४ । णवरि असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सञ्चद्धा । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सञ्चद्धा । णवरि सञ्चद्धे जम्हि आवलि० असंखेज्जो भागो तम्हि संखेज्जा समया । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ४०६. अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्टक० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । असंखे०गुणहा० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० णत्थि अंतरं । असंखे०भागवट्टि--असंखे०गुणवट्टि--हाणि--अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीस-महोरत्ते सादि० । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि--हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । चदुसंजल० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । संखेज्जगुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । णवरि

सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानियाले जीदोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री अपेक्षासे काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात-गुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ सर्वार्थसिद्धिमें संख्यात समय काल है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गशा तक जानना चाहिए।

इसप्रकार काल समाप्त हुआ ।

§ ४०६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व और आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क्री असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। संख्यात-भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। चार संज्वलनोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है

लोभसंज० असंखे०गुणहाणि० गत्थि । पुरिस० अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । संखे०गुणवट्ठि-असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि एअुंस० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० गत्थि अंतरं । असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० वासपुथत्तं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्ठि-हाणि० गत्थि अंतरं । भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० गत्थि अंतरं । एवं तिरिक्खा० । एवरि सेट्ठिपदा गत्थि दंसणमोहक्खवणा च ।

§ ४०७. आदेशेण पेरइय० मिच्छ०--वारसक०--पुरिस०--भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० गत्थि० अंतरं । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । गन्मत्त-सम्भामि० असंखे०भागहाणि० गत्थि अंतरं । असंखे०भागवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्ठि-हाणि० गत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । संखे०भागवट्ठि-संखेज्जगुणवट्ठि-असंखे०गुणहाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । इत्थि--णवुंस०--हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्ठि-हाणि० गत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरइय० पंचिंदियतिरिक्खतिय०

और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इतनी विशेषता है कि लोभसंखलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। शेष भद्र मिथ्यात्वके समान है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। इसीप्रकार तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे श्रेणिसम्बन्धी पद तथा दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नहीं है।

§ ४०७. आदेशसे नारकीयोमे मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। सत्यक्त्व और सत्यगिमिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अनन्तानुबन्धीचतुष्करी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका अन्तर काल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय

देवगई० देवा भवणादि जाव उचरिमगेवजा ति ।

§ ४०८. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे०-भागवट्टि-हाणि० गत्थि अंतरं । अवट्टि० ज० एगसमओ, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागहाणि० गत्थि अंतरं । असंखेज्जागुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । सत्तणोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि० गत्थि अंतरं ।

§ ४०९. मणुसगई० मणुसा० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सेट्टिपदाणमोचं । मणुसपज्जत्ता० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०गुणहाणि० गत्थि । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पुरिस०-णउंस० असंखे०गुणहाणि० गत्थि । णवरि जम्हि इम्मासा तम्हि वासपुधत्तं । मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागहाणि--असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । सत्तणोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो ।

तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिये सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ४०८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साविक चौबीस दिन-रात है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४०९. मनुष्यगतिये मनुष्योंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि श्रेणिसम्बन्धी पदोका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्यपर्याप्तिकोमें इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्यनियोमे इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । इतनी और विशेषता है कि जहाँ पर छह महीना अन्तर काल कहा है वहाँ पर वर्षपृथक्त्व कहना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तिकोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४१०. अणुदिसादि जाव सव्वट्टा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-
णवुंस० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । अणंताणु०४ असंखेज्जभागहाणि० णत्थि
अंतरं । असंखे०गुणहाणि० जइ० एगस०, उक्क० वासपुधपं । सव्वट्टे पल्लिदो०
संखे०भागो । वारसक०--पुरिसवे०--भय--दुशुंछ० असंखे०भागवड्ढि-हाणि० णत्थि
अंतरं । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । हस्स-रइ--अरइ--सोगाणं
असंखे०भागवड्ढि-हाणि० णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ४११. भावाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण
अट्ठावीसं पयडीणं सव्वपदा ति को भावो ? ओदइओ भावो । एवं जाव
अणाहारि ति ।

§ ४१२. अप्पावहुआणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण
मिच्छत्त-अट्ठक० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०-
भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखे०गुणा । सम्मत-सम्मामि०
सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवत्त० असंखे०गुणा । असंखेज्जगुणवड्ढि० असंखे०-
गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखेज्जगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा ।

§ ४१०. अणुदिसासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय
है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपुयक्त्वप्रमाण है । मात्र सर्वार्थसिद्धिमे पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण
है । धारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्ताकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-
भागहानिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि
और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक
जानना चाहिए ।

इसप्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

§ ४११. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदोका कौन भाव है ? ओदयिक भाव है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा
तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भाव समाप्त हुआ ।

§ ४१२. अल्पवहुत्यानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।
ओघसे मिथ्यात्व और आठ कपायोकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे रतोक्त हैं । उनसे
अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण्ये हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुण्ये
हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी
असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक्त हैं । उनसे अवक्त्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण्ये
हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुण्ये हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव

अणंताणु०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०-
 भागवट्ठि० असंखे०गुणा । संखे०गुणवट्ठि० संखे०गुणा । असंखे०गुणवट्ठि० असंखे०-
 गुणा । अवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि०
 संखेज्जगुणा । तिण्हं संजलणाणं सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवट्ठि० । असंखे०गुणहाणि०
 तत्तिया चेव । अवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०-
 भागवट्ठि० संखे०गुणा । लोभसंजलणाए सव्वत्थोवा संखे०गुणवट्ठि० । अवट्ठि०
 अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा ।
 इत्थि० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०भागवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । पुरिस० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवट्ठि० । असंखे०गुणहाणि०
 तत्तिया चेव । अवट्ठि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । णवुंस० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०-
 भागहाणि० अणंतगुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । एवमरदि-सोगा० । णवरि
 असंखे०गुणहाणि० णत्थि । हस्स-रइ० सव्वत्थोवा असंखे०भागवट्ठि० । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । भय-दुगुंछा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखे०भागहा०

संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
 अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
 हैं । उनसे संख्यातभागवट्ठिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवट्ठिवाले
 जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवट्ठिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव
 असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तीन संव्वलनोंकी
 संख्यातगुणवट्ठिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उतने ही हैं । उनसे
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
 हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । लोभसंजलनकी संख्यातगुणवट्ठिवाले
 जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यात-
 भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।
 खीवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव
 अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवट्ठि-
 वाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उतने ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्ति-
 वाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे
 असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव
 सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभाग-
 वट्ठिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अरति और शोककी अपेक्षा अल्पबहुत्व है । इतनी
 विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि नहीं है । हास्य और रतिकी असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव
 सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । भय और जुगुप्साकी
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे

असंखे०गुणा । असंखे०भागवद्भि० संखे०गुणा ।

§ ४१३. आदेशेण षेरइय० मिच्छत्त-वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्धञ्ज० सव्व-
त्थोवा अवट्ठि० । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवद्भि० संखे०-
गुणा । णवरि पुरिस० वट्ठि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । सम्मत्त-सम्मामि०
सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवत्त० असंखे०गुणा । असंखे०गुणवद्भि० असंखे०-
गुणा । असंखे०भागवद्भि० संखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा ।
अणंताणु०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०-
भागवद्भि० असंखे०गुणा । संखे०गुणवद्भि० संखे०गुणा । असंखे०गुणवद्भि० असंखे०-
गुणा । अवट्ठि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०-
भागवद्भि० संखे०ज्जगुणा । इत्थि-णवुंस०-चट्ठणोक० ओघं । णवरि इत्थि०-णवुंस०
असंखे०गुणहाणि० णत्थि । एवं सत्तमु पुढवीसु पंचिदियतिरिक्ख०३ देवा भवणादि
जाव उवरिभगेवज्जा त्ति । णवरि आणदादिस्स पुरिस० भयभंगो । णवुंसय० इत्थि०-
भंगो । मिच्छ०-अणंताणु०४ वट्ठि-हाणीणं विवज्जासो च कायव्वो ।

हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ४१३. आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्व, वारह कयाव, पुरुषवेद, भय और लुगुप्साकी
श्रवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी
वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-
गुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे श्रवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव
संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्क-
की श्रवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यात-
गुणे हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव
संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे श्रवस्थित-
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे
असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । खीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका भङ्ग
ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं
है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोमे तथा पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोसे
लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आनतादिकमें
पुरुषवेदका भङ्ग भयके समान है । नपुंसकवेदका भङ्ग खीवेदके समान है । तथा मिथ्यात्व और
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य नारकी आदिमे खीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका
भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है सो जहाँ पर ओघमे अनन्तगुणा कहा है वहाँ पर
उन मार्गणांशोमे अक्षरतातगुणा करना चाहिए । ये सब मार्गणांशे असंख्यात संख्यावाती होनेसे
मूलमे इस विशेषताका खुलासा नहीं किया है ।

§ ४१४. तिरिक्त्वर्गई० तिरिक्त्वा० मिच्छत्त-वारसक० भय-दुगुंझा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । एवं पुरिस० । णवरि असंखे० भागवट्ठि० अणंतगुणा । सम्पत्त-सम्मामि०-अणंताणु०४ ओधं । इत्थि०-णवुंस०-चदुणोक० णारयभंगो । पंचिदियतिरिक्त्वअपज्जं० मिच्छ०-सोत्तसक०-भय-दुगुंझा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । सम्पत्त-सम्मामि० सव्वत्थोवा असंखे० गुणहाणि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । सत्तणोकसाय० णारयभंगो । णवरि पुरिस० अवट्ठि० पत्थि ।

§ ४१५. मणुसगई० मणुस्ता० मिच्छ०-अट्टकसा० सव्वत्थोवा असंखे-गुणहाणि० । अवट्ठि० असंखे० गुणा । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे०-भागवट्ठि० संखे० गुणा । सम्पत्त-सम्मामि० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे० गुणवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० गुणहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । अणंताणुवंधिचउक्क० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे० गुणहाणि० संखे० गुणा । संखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । संखे० गुणवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० गुणवट्ठि० संखेज्जगुणा । अवट्ठि० असंखे० गुणा । असंखे०-

§ ४१४. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोमें मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव अनन्तगुणें हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओषके समान है । बीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोका भङ्ग नारकियोंके समान है । पञ्चन्द्रि तिर्यञ्ज अपर्याप्तकामिं मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । सात नोकपायोका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थितपद नहीं है ।

§ ४१५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व और आठ कपायोकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यात-भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्त्वविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यात गुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात-गुणें हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्त्वविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यात-गुणहानिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं ।

भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा । तिण्हं संजळणार्ण
 सव्वत्थोवा संखे०गुणवट्टि० । असंखे०गुणाहाणि० तत्तिया चेव । अवट्टि० असंखे०-
 गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा । लोभ-
 संजल० सव्वत्थोवा संखे०गुणवट्टि० । अवट्टि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि०
 असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा । इत्थि० सव्वत्थोवा असंखे०-
 गुणाहाणि० । असंखे०भागवट्टि० असंखे०ज्जगुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा ।
 एवं णवुंस० । णवरि वट्टि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । पुरिसवेद० सव्वत्थोवा
 संखे०गुणवट्टि० । असंखे०गुणाहाणि० तत्तिया चेव । अवट्टि० संखे०गुणा । असंखे०-
 भागवट्टि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा । चट्टणोकसाय० ओघं ।
 भय-दुग्घा० सव्वत्थोवा अवट्टि० । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०-
 भागवट्टि० संखे०ज्जगुणा । एवं मणुसपज्जता० । णवरि जम्हि असंखे०गुणं तम्हि
 संखे०गुणं कायव्वं । इत्थि० हस्सभंगो । एवं चेव मणुसिणीसु । णवरि पुरिस०-
 णवुंस० असंखे०गुणाहाणि० णत्थि । मणुसअपज्ज० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ४१६. अणुदिसादि जाव अवराइद तिं मिच्छत्त-सम्मत्त०-सम्मामि०-इत्थि०-

उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तीनों संख्यलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उत्तरे ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात-भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । लोभसंख्यलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उत्तरे ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । चार नोकपायोका भङ्ग ओघके समान है । भय और जुगुप्साकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकीमें अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातगुणा है वहाँ संख्यातगुणा करना चाहिए । मात्र स्त्रीवेदका भङ्ग दास्यके समान है । इसीप्रकार मनुष्यनियामोंमें अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकीमें पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकीके समान भङ्ग है ।

§ ४१६. अनुदिससे लेकर अपराजित यिमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व,

णवुंस० णत्थि अप्पावहुअं । अणंताणु०४ सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०-
भागहाणि० असंखे०गुणा । चारसक०-पुरुस०-भय-दुगुञ्ज० सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।
असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । हस्स-रइ-
अरइ-सोगाणं ओधं । एवं सव्वट्ठे । णवरि सव्वत्थ संखेज्जगुणं कायव्वं । एवं जाव
अणाहारि ति पेदव्वं ।

तदो अप्पावहुए समत्ते वट्ठिविहत्ती समत्ता ।

पदणिक्खेवविभागं वट्ठिविहत्तिं च किं चि सुत्तादो ।

वित्थरियं वित्थरदो सुत्तत्थविसारदो समत्थे तु ॥१॥

सो जयइ जस्स परमो अप्पावहुअं पि दव्व-पज्जायं ।

जाणइ गाणपुरंतो लोयालोएक्कदप्पणओ ॥२॥

❀ जहा उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं तथा संतकम्महाणाणि ।

§ ४१७. साभित्तादिअणियोगद्वारेहि जहा उक्कस्सपदेससंतकम्मं परुविदं तथा
पदेससंतकम्महाणाणि वि परुवेयव्वाणि, विसेसाभावादो । णवरि एत्थ तिण्णि
अणियोगद्वाराणि—परुवणा पमाणमप्पावहुए ति । तत्थ परुवणा सव्वकम्मणं जहण-
पदेससंतकम्महाणप्पहुडि जाव उक्कस्सपदेससंतकम्महाणं ति ताव क्रमेण संतवियप्परुवणं ।

सम्यग्मिध्यात्व. स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं।
उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव
संख्यातगुणे हैं। हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है। इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धि
में अल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र संख्यातगुणा करना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारक
मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त होनेपर वृद्धिविभक्ति समाप्त हुई।

जो सूत्रका अर्थ करनेमें विशारद और समर्थ हैं उन्होंने पदान्तिपेपविभक्ति और वृद्धि-
विभक्तिका सूत्रके अनुसार विस्तारसे कुछ व्याख्यान किया है ॥ १ ॥

जिनके ज्ञानरूपी पुरके भीतर लोकालोकरूपी एक उत्कृष्ट दर्पण अल्पबहुत्वको लिए हुए
समस्त द्रव्य और पर्यायोंको जानता है वे भगवान् जयवन्त हों ॥ २ ॥

❀ जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म है उसप्रकार सत्कर्मस्थान है ।

§ ४१७. स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका
कथन किया है उसप्रकार प्रदेशसत्कर्मस्थानोंका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता
नहीं है। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर तीन अनुयोगद्वार हैं—प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व।
उनसेसे सब कर्मोंके जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थानसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक क्रमसे

सा च जहणसामित्तविहाणेण परुविदा त्ति ण पुणो परुविज्जदे । अहवा सव्व-
कम्माणमत्थि पदेससंतकम्मट्टाणाणि त्ति संतपरुवणा परुवणा णाम । पमाणं सव्वेसिं
कम्माणमणंताणि पदेससंतकम्मट्टाणाणि त्ति । अप्पावहुअं जहा उक्कस्सपदेससंत-
कम्मस्स परुविदं तथा अण्णणाहियमेत्थ परुवेयव्वं । एव्वरि जस्स कम्मस्स पदेसगं
विसेसाहियं तस्स पदेससंतकम्मट्टाणाणि विसेसाहियाणि, संखेज्जगुणस्स संखेज्जगुणाणि,
असंखेज्जगुणस्स असंखेज्जगुणाणि, अणंतगुणस्स अणंतगुणाणि त्ति आलावकओ
विसेसो । सेसं सुगमं । एव्वमेदेषु पदणिकखेव-वड्ढि-ट्टाणेषु सवित्थरं परुविदेसु
उत्तरपयडिपदेसविहत्ती समत्ता होदि ।

एवं पदेसविहत्ती समत्ता ।

भौणाभौणचूलिया

भाइय जिणिंदयंदं भाणाणलभौणघाइकम्मंसं ।

भौणाभौणहियारं जहोवएसं पयासेहं ॥ १ ॥

❀ एत्तो भौणमभौणं त्ति पदस्स विहासा कायव्वा ।

§ ४१८. एत्तो एवरि भौणमभौणं त्ति जं पदं तस्स विहासा कायव्वा त्ति

सत्कर्मके भेदोंका कथन करना प्ररूपणा है । परन्तु वह जघन्य स्वामित्वविधिके साथ कही गई है, इसलिए पुनः इसका कथन नहीं करते । अथवा सब कर्मोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान हैं, इसलिए सत्कर्मोंकी प्ररूपणा करना प्ररूपणा है । प्रमाण—सब कर्मोंके अनन्त प्रदेशसत्कर्मस्थान हैं । अल्पबहुत्व—जिसप्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका कथन किया है उस प्रकार न्यूनाधिकतासे रहित यहाँ पर कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिस कर्मका प्रदेशात् विशेष अधिक है उसके प्रदेशसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं, संख्यातगुणोंके संख्यातगुणों हैं, असंख्यातगुणोंके असंख्यातगुणों हैं और अनन्तगुणोंके अनन्तगुणों हैं इसप्रकार कथनकृत विशेषता है । शेष कथन सुगम है । इसप्रकार इन पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थानोंका विस्तारके साथ कथन करनेपर उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्ति समाप्त होती है ।

इसप्रकार प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई ।

भौनाभौनचूलिका

जिन जिनेन्द्र चन्द्र या चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा धातिकर्मोंको विध्वस्त कर दिया है उनका ध्यान करके मैं (टीकाकार) भौनाभौन नामक अधिकारको उपदेशानुसार प्रकाशित करता हूँ ॥ १ ॥

* इससे आगे 'भौमभौणं' इस पदका विवरण करना चाहिये ।

§ ४१८. अब तक गायामे आये हुए 'उक्कस्समणुक्कस्स' इस पद तकका विवरण किया । अब इनसे आगे जो 'भौणमभौणं' पद आया है उसका विवरण करना चाहिए इस प्रकार सूत्रार्थका सन्वन्ध है ।

सुत्तत्थसंबंधो । तत्थ का विहासा याम् ? सुत्तेण सूचिदत्थस्स विसेसियूण भासा विहासा विवरणं ति वुत्तं होदि । पदेसविहत्तीए सवित्थरं परुविय समताए किमद्वमेसो अहियारो ओदिण्णो त्ति ण पच्चवद्देयं, तिस्से चेव चूलियाभावेणेदस्सावयारब्धुवगमादो । कधमेसो पदेसविहत्तीए चूलिया त्ति वुत्ते वुच्चदे—तत्थ खलु उक्कङ्कणाए उक्कस्सपदेससंचओ परुविदो ओकङ्कणावसेण च खविदकम्मंसियम्मि जहण्णपदेससंचओ । तत्थ य कदमाए द्विदीए द्विदपदेसगमुक्कङ्कणाए ओकङ्कणाए च पाओग्गमप्पाओमं वा त्ति ण एरिसो विसेसो सम्ममवहारिओ । तदो तस्स तहाविहसत्तिविरहाविरहलक्खएत्तेण पत्तभीणाभीणववएस्सस्स द्विदीओ अस्सिदूए परुवएद्वमेसो अहियारो ओदिण्णो त्ति चूलियाववएसो ण विरुज्जभदे ।

शंका—सूत्रमें आवे हुए 'विभाषा' इस पदका क्या अर्थ है ?

समाधान—सूत्रसे जो अर्थ सूचित होता है उसका विशेष रूपसे विवरण करना विभाषा है यह इस पदका अर्थ है । विभाषाका अर्थ विवरण है यह इसका तात्पर्य है ।

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे कथन हो लिया है, अतः इस अधिकारके कथन करनेकी क्या आवश्यकता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसीके चूलिका रूपसे यह अधिकार स्वीकार किया गया है ।

शंका—यह अधिकार प्रदेशविभक्ति अधिकारका चूलिका है सो कैसे ?

समाधान—प्रदेशविभक्तिका कथन करते समय उत्कर्षणके द्वारा उल्लेख प्रदेशसंचयका भी कथन किया है और अपकर्षणके वशसे क्षणित कर्मांशके जन्म्य प्रदेशसञ्चयका भी कथन किया है । किन्तु वहाँ इस विशेषताका सम्यक् रीतिसे विचार नहीं किया गया है कि किस स्थितिमें स्थित कर्म उत्कर्षण और अपकर्षणके योग्य हैं तथा कित स्थितिमें स्थित कर्म उत्कर्षण और अपकर्षणके अयोग्य हैं, तथापि इसका विचार किया जाना आवश्यक है अतः इसप्रकारकी शक्तिके सदभाव और असदभावके कारण मीनामीन इस संबन्धको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका स्थितियोंकी अपेक्षा कथन करनेके लिए यह अधिकार आया है, इसलिए इसे चूलिका कहनेमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—पूर्वमें प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे विवेचन किया है । तथापि उससे यह ज्ञात न हो सका कि सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंमेंसे कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उद्वेगके योग्य हैं और कौनसे कर्मपरमाणु इनके अयोग्य हैं । इसीप्रकार इससे यह भी ज्ञात न हो सका कि इन कर्मपरमाणुओंमेंसे कौनसे कर्मपरमाणु उल्लेख स्थितिप्राप्त हैं, कौनसे कर्मपरमाणु निषेकस्थिति प्राप्त हैं, कौनसे कर्मपरमाणु अधःनिषेकस्थितिप्राप्त हैं और कौनसे कर्मपरमाणु उद्वेगस्थितिप्राप्त हैं । परन्तु इन सब बातोंका ज्ञान करना आवश्यक है, इसीलिए प्रदेशविभक्तिके चूलिकारूपसे मीनामीन और स्थितिग ये दो अधिकार आवे हैं । चूलिकारका अर्थ है पूर्वमें कहे गये किसी विषयके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य । आशय यह है कि पूर्वमें जिस विषयका वर्णन कर चुकते हैं उसमें बहुतसी ऐसी बातें छूट जाती हैं जिनका कथन करना आवश्यक रहता है या जिनका कथन किये बिना उस विषयकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिये इन सब बातोंका खुलासा करनेके लिये एक या एकसे अधिक स्वतन्त्र अधिकार रचे जाते हैं जिनका पूर्व

§ ४१६. एत्थ चत्तारि अणियोगद्वाराणि सुत्तसिद्धाणि । तं जहा—समुक्तिणा परूवणा सामित्तमपावहुअं चेदि । तत्थ समुक्तिणा णाम मोहणीयसव्वपयडीण-मुक्कड्डणादीहि चउहि भौणाभौणद्विदियस्स पदेसग्गस्स अत्थित्तमेत्तपरूवणा । तत्परूवणद्व-मुत्तरपुच्छासूत्तेण अवसरो कीरदे—

❀ तं जहा ।

§ ४२०. सुगममेदं पुच्छासूत्तं ।

❀ अत्थि ओक्कड्डणादो भौणद्विदियं उक्कड्डणादो भौणद्विदियं संक्रमणादो भौणद्विदियं उदयादो भौणद्विदियं ।

§ ४२१. एत्थ ताव सुत्तस्सेदस्स पढमवयवत्थविवरणं कस्सामो । 'अत्थि'सद्दो आदिदीवयभावेण चउण्हं पि सुत्तावयवाणं वावओ त्ति पादेक्कं संबंधणिज्जो । ओक्कड्डणा णाम परिणामविसेसेण कम्मपदेसाणं द्विदीए दहरीकरणं । तदो भौणा अप्पाओग्गभावेण अवद्विदा द्विदी जस्स पदेसग्गस्स तपोक्कड्डणादो भौणद्विदियं

अधिकारसे सम्बन्ध रहता है वे सब अधिकार चूलिका कहलाते हैं । प्रकृतमे प्रदेशविभक्तिका कथन किया जा चुका है किन्तु उसमे ऐसी बहुतसी बातें रह गई हैं जिनका निर्देश करना आवश्यक था । इलोकों पूर्तिके लिये भौनाभौन और स्थितिग ये दो चूलिका अधिकार आये हैं ।

§ ४१६. इस भौनाभौन नामक चूलिकामे चार अनुयोगद्वार हैं जो आगे कहे जानेवाले सूत्रोंसे ही सिद्ध हैं । वे ये हैं—समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व । यहाँ समुत्कीर्तनाका अर्थ है मोहनीयकी सब प्रकृतियोंके उत्कर्षण आदि चारकी अपेक्षा भौनाभौन स्थितिवाले कर्म परमाणुओंके अस्तित्वमात्रका कथन करना । अब इसका कथन करनेके लिये आगेका पृच्छासूत्र कहते हैं—

* जैसे—

§ ४२०. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* अपकर्षणसे भौन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, उत्कर्षणसे भौन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, संक्रमणसे भौन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं और उदयसे भौन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । आशय यह है कि ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका अपकर्षण नहीं हो सकता, ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका संक्रमण नहीं हो सकता और ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो उदयमाप्त होनेसे जिनका पुनः उदय नहीं हो सकता ।

§ ४२१. यहा अब सबसे पहले इस सूत्रमें जो 'अस्ति' पद आया है उसका खुलासा करते हैं । 'अस्ति' पद आदिदीपक होनेसे वह सूत्रके चारो ही अवयवोंसे सम्बन्ध रखता है, इसलिये उसे प्रत्येक अवयवके साथ जोड़ लेना चाहिये ।

त्रोक्कड्डणादो भौणद्विदियं—परिणामविशेषके कारण कर्मपरमाणुओंकी स्थितिका कम करना अपकर्षणा है । जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति अपकर्षणसे भौन अर्थात् अपकर्षणके अयोग्य रूपसे स्थित है वे अपकर्षणसे भौन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । यह अवस्था यथायोग्य

सव्वकम्माणमत्थि । अहवा ओकङ्कणादो भीणा परिहीणा जा द्विदी तं गच्छदि त्ति ओकङ्कणादो भीणाद्विदियमिदि समासो कायव्वो । एवमुवरि सव्वत्थ । दहरद्विद्विद्वि-पदेसग्गाणं द्विदीए परिणामविसेसेण वट्टावणमुकङ्कणा गाम । ततो भीणा द्विदी जस्स तं पदेसग्गं सव्वयपयडीणमत्थि । संक्रमादो समयविरोहेण एयपयडिद्विदिपदेसाणं अण्ण-पयडिसरुवेण परिणमणलक्खणादो भीणा द्विदी जस्स तं पि पदेसग्गमत्थि सव्वेसिं कम्माणं । उदयादो कम्माणं फलप्पदानलक्खणादो भीणा द्विदी जस्स पदेसग्गस्स तं च सव्वकम्माणमत्थि त्ति । एत्थ सुत्तसमतीए 'चेदि'सदो किमड्डं ण पवुत्तो ? ण, सुत्तमेत्तियमेत्तं चेव ण होदि, किंतु अण्णं पि अज्झाहारिज्जमाणमत्थि । तदो तस्स समतीए 'चेदि'सदो अज्झाहारेयव्वो त्ति जाणावणड्डं वक्कपरिसमतीए अकरणादो । किं तपज्झाहारिज्जमाणं सुत्तसेसमिदि चे वुच्चदे—ओकङ्कणादो अभीणद्विदियं उकङ्कणादो अभीणद्विदियं संक्रमणादो अभीणद्विदियं उदयादो अभीणद्विदियं चेदि त्ति । कयमेदमण्णाहा भीणाभीणाणं परुवयमुत्तं ह्वेज्ज । सुत्ते पुण एसो अज्झाहारो सामत्थियलद्धो त्ति ण णिद्विट्ठो ।

सब क्रमोंमें सम्भव हैं । अथवा 'भीणद्विदियं' का संस्कृतरूप 'भीनस्थितिनं' भी होता है । इसलिये ऐसा समास करना चाहिए कि जो कर्म परमाणु अपकर्षणसे रहित स्थितिको प्राप्त हैं वे अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । इसीप्रकार आगे सर्वत्र सब पदोंका दो प्रकारसे कथन करना चाहिये ।

उकङ्कणादो भीणद्विदियं—परिणाम विशेषके कारण अल्पस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी स्थितिका बढ़ाना उत्कर्षण है । सब प्रकृतियोंमें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति उत्कर्षणके अयोग्य है ।

संक्रमणादो भीणद्विदियं—जैसा आगममें बतलाया है तदनुसार एक प्रकृतिके स्थितिगत कर्मपरमाणुओंका अन्य सजातीय प्रकृतिरूप परिणमना संक्रमण है । सब क्रमोंमें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति संक्रमणके अयोग्य है, इसलिये वे संक्रमणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

उदयादो भीणद्विदियं—कर्मोंका फल देना उदय है । सब क्रमोंमें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति उदयके अयोग्य हैं, इसलिये वे उदयसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

शंका—यहाँ सूत्रके अन्तमें 'चेदि' शब्द क्यों नहीं रखा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सूत्र केवल इतना ही नहीं है किन्तु और भी अध्याहार करने योग्य है और तब जाकर उस अध्याहृत वाक्यके अन्तमें 'चेदि' शब्दका अध्याहार करना चाहिये । इसप्रकार यह बात बतलानेके लिए सूत्रवाक्यको समाप्त न करके यों ही छोड़ दिया है ।

शंका—सूत्रका वह कौनसा अंश गेप है जो अध्याहार करने योग्य है ?

समाधान—'ओकङ्कणादो अभीणद्विदियं उकङ्कणादो अभीणद्विदियं संक्रमणादो अभीणद्विदियं उदयादो अभीणद्विदियं चेदि' यह वाक्य है जो अध्याहार करने योग्य है ।

यदि ऐसा न माना जाय तो यह सूत्र भीनाभीन दोनोंका प्ररूपक कैसे हो सकता है । तथापि इतना अध्याहार सामर्थ्यलभ्य है, इसलिये इसका सूत्रमे निर्देश नहीं किया ।

§ ४२२. संपहि समुक्त्तिपाणियोगद्वारेण समुक्त्तिदाणमेदेसिं सरूवविसय-
णिण्णयजणणट्ठं परूवणाणिओगद्वारं परूवयमाणो जहा उद्देसो तथा णिद्देसो त्ति
णाएण पद्विह्वमेव ताव ओकड्डणादो भीणट्ठिदियं सपडिवक्कवमासंकासुत्तेण
पत्तावसरं करेदि—

❁ ओकड्डणादो भीणट्ठिदियं णाम किं ?

§ ४२३. अत्थि ओकड्डणादो भीणट्ठिदिगमिदि पुच्चं समुक्त्तिदिं । तत्थ
कदममोक्कड्डणादो भीणट्ठिदियं ? किमविसेसेण सव्वट्ठिदिद्विदपदेसग्गमाहो अत्थि को वि
विसेसो त्ति एसो पदस्स भावत्थो । एवमासंकिंय तव्विसेसपरूवणट्ठमुत्तरमुत्तं भणइ—

❁ जं कम्ममुदयावलिंयत्तंभंतरे द्वियं तमोक्कड्डणादो भीणट्ठिदियं । जसु-
दयावलिंयवाहिरे ट्ठिदं तमोक्कड्डणादो अज्भीणट्ठिदियं ।

विशेषार्थ—भीनाभीन अधिकारका समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व
इन चार उपअधिकारों द्वारा वर्णन किया गया है । इन चारोंका अर्थ स्पष्ट है । यहाँ सर्वप्रथम
समुत्कीर्तनाका निर्देश करते हुए चूणीसूत्रकारने यह बतलाया है कि मोहनीयकी सब प्रकृतियोंमें
ऐसे बहुतसे कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयके अयोग्य हैं ।
तथा बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव इनके योग्य भी हैं । यहाँ सूत्रमे यद्यपि
सूत्रकारने अपर्षण आदिके अयोग्य परमाणुओंके होनेकी सूचना की है तथापि इस अधिकारका
नाम भीनाभीन होनेसे यह भी सूचित हो जाता है कि बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षण
आदिके योग्य भी हैं । यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४२२ अब समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारके द्वारा कहे गये इनके स्वरूप विषयक निर्णयका
ज्ञान करानेके लिए प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं । उसमें भी उद्देश्यके अनुसार
निर्देश किया जाता है इस न्यायके अनुसार सर्वप्रथम आशंकासूत्रद्वारा अपने प्रतिपक्षभूत कर्मके
साथ अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मके कथन करनेकी सूचना करते हैं—

❁ वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४२३. अपकर्षणसे भीन (रहित) स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं यह पहले कह आये हैं ।
अब इस विषयमें यह प्रश्न है कि वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले
हैं । क्या सामान्यसे सब स्थितियोंमे स्थित कर्मपरमाणु ऐसे हैं या कुछ विशेषता है यह
इस सूत्रका भाव है । ऐसी आशंका कर अब उस विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र
कहते हैं—

❁ जो कर्मपरमाणु उदयावलिंके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे भीन स्थिति-
वाले हैं और जो कर्मपरमाणु उदयावलिंके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अभीन
स्थितिवाले हैं । अर्थात् उदयावलिंके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण नहीं
होता किन्तु उदयावलिंके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है ।

§ ४२४. एत्य जं कम्ममिदि बुत्ते जो कम्मपदेसो त्ति घेतत्तव्वं । उदयावल्लिया त्ति उदयसमयप्पहुडि आवल्लियमेत्तट्टिदीणमुत्तावल्लियायारेण ट्टिदाणं सण्णा । कुदो ? उदयसहस्स उवल्लक्खणभावेण उविदत्तादो । तदव्वन्तरे ट्टिदं जं पदेसग्गं तमोकड्डणादो भ्मीणट्टिदिग्गं । ण एदस्स ट्टिदीए ओकड्डणमत्थि ति भावत्थो । कुदो ? सहावदो । परिसो एदस्स सहावो त्ति कत्तो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । जं पुण उदयावल्लियवाहिरे ट्टिदं पदेसग्गं तमोकड्डणादो अव्वभीणट्टिदिग्गमिदि एदेण मुत्तावयवेण उदयावल्लियवाहिरासेसट्टिदिट्टिदपदेसग्गं सव्वमोकड्डणापाओग्गामिदि बुत्तं होदि । एत्य चोदत्रो भग्गदि—उदयावल्लियवाहिरे वि ओकड्डणादो व्वभीणट्टिदिग्गमप्पसत्थउव्वसामणा-णव्वत्तीकरण-णिकाचणाकरणेहि अत्थि चेव जाव दंसणचरित्तमाइक्खवगुव्वसामयअपुव्वकरणचरिमसमओ त्ति तदो किं बुच्चदे उदयावल्लियवाहिरट्टिदिट्टिदपदेसग्गमोकड्डणादो अव्वभीणट्टिदिग्गमिदि ? एत्य परिटारो बुच्चदे—जिस्से ट्टिदीए पदेसग्गस्स ओकड्डणा अच्चंतं ण संभवइ सा ट्टिदी ओकड्डणादो भ्मीणा बुच्चइ, तिस्से अच्चंताभावेण पडिग्गहियत्तादो । ण च गिक्काचिदपरमाणुणमेव्वंविहो णियमो अत्थि, अपुव्वकरण-

§ ४२४. यहाँ सूत्रमें जो 'जं कम्मं' ऐसा कहा है सो उससे 'जो कर्मपरमाणु' ऐसा अर्थ लेना चाहिये । जो उदय समयसे लेकर आयलिप्रमाण स्थितियों मुक्कवल्लिके समान स्थित हैं उनकी उदयावल्लि यह संज्ञा है, क्योंकि ये सब स्थितियों उपलक्षणरूपसे उदयप्राप्त स्थितिके साथ स्थापित हैं । इस उदयावल्लिके भीतर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं वे अपकर्षणसे मीन स्थितिवाले हैं । इस उदयावल्लिप्रमाण स्थितियोंका अपकर्षण नहीं होता यह इस सूत्रका भाव है ।

शंका—उदयावल्लिप्रमाण स्थितियोंका अपकर्षण क्यों नहीं होता ?

समाधान—क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

शंका—इसका ऐसा स्वभाव है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

किन्तु जो कर्मपरमाणु उदयावल्लिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अमीन स्थितिवाले हैं । इसप्रकार सूत्रके इस दूसरे वाक्यद्वारा यह कहा गया है कि उदयावल्लिके बाहर समस्त स्थितियोंमें स्थित जितने कर्मपरमाणु हैं वे सब अपकर्षणके योग्य हैं ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि उदयावल्लिके बाहर भी अग्रस्त उपशमना, निघत्तीकरण और निक्काचनाकरणके सम्बन्धसे ऐसे कर्मपरमाणु बच रहते हैं जो अपकर्षणके अयोग्य हैं । और उनकी यह अयोग्यता दर्शनमोहनीय या चरित्रमोहनीयका क्षणया या उपशमना करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक बनी रहती है, तब फिर यह क्यों कहा जाता है कि उदयावल्लिके बाहरकी स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य हैं ।

समाधान—जिस स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी अपकर्षणा निलङ्गल ही सम्भव नहीं, केवल वही स्थिति यहाँ अपकर्षणके अयोग्य कही गई है, क्योंकि यहाँ ऐसे कर्मपरमाणुओंकी अपकर्षणका निषेध किया है जो किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है । किन्तु निकाचित आदि अचत्त्याको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका ऐसा नियम तो है नहीं, क्योंकि वे कर्मपरमाणु अपूर्वकरण

सचरिमसमयादो उवरि तेसिमोकड्डणादिपाओगभावेण पडिणिययकालपडिवद्धाए ओकड्डणादीणमणागमणपइज्जाए अणुवलंभादो । एदेण सासणसम्माइडिडिमि दंसण-
तियस्स उकड्डणादीहिंतो भीणाद्विदियत्तसंभवविप्पडिवत्ती णिराकरिया, तत्थ धि सव्व-
कालमणागमणपइज्जाए अभावादो । एत्थ मिच्छत्तादिपयडिविसेसणिदेसं काऊण
परूवणा किमहं ण कीरदे ? ण, विसेसविवक्खमकाऊण मूलुत्तरपयडीणं साहारण-
सरूवेण अट्टपदस्स परूवणादो । ण च सामण्णे परूविदे विसेसा अपरूविदा णाम,
तेसिं ततो पुत्रभूदाणमणुवलंभादो । तदो एत्थ पादेक्कं सव्वपयडीणमेसा अट्टपद-
परूवणा वित्थरुइसिस्साणुगाहट्टं कायव्वा ।

के अन्तिम समयके बाद अनिष्टवृत्तिकरणमे अपकर्षणा आदिके योग्य हो जाते हैं और तब फिर उनकी अपकर्षणा आदिको नहीं प्राप्त होनेकी जो प्रतिनियत काल तककी प्रतिज्ञा है वह भी नहीं रहती ।

इस कथनसे सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी स्थितिकी उत्कर्षणा आदि सम्भव नहीं होनेसे जो विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती है उसका भी निराकरण कर दिया, क्योंकि उनमे भी उत्कर्षण आदिके नहीं होनेकी प्रतिज्ञा सदा नहीं पाई जाती ।

शंका—इस सूत्रमे मिथ्यात्व आदि प्रकृतिविशेषका निर्देश करके कथन क्यो नहीं किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ विशेष कथनकी विवक्षा न करके जो मूल और उत्तर प्रकृतियोंमे साधारण है ऐसे अर्थपदका निर्देश किया है और सामान्यकी प्ररूपणामे विशेषकी प्ररूपणा अप्ररूपित नहीं रहती, क्योंकि विशेष सामान्यसे पृथक् नहीं पाये जाते । किन्तु जो शिष्य विस्तारसे समझनेकी रुचि रखते हैं उनके उपकारके लिए यही अर्थपद प्ररूपणा सब प्रकृतियोंकी पृथक् पृथक् करनी चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँपर यह बतलाया है कि कौन कर्मपरमाणु अपकर्षणके अयोग्य हैं और कौन कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य हैं । एक ऐसा नियम है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु संकल करणोंके अयोग्य होते हैं । अर्थात् उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदि कुछ भी सम्भव नहीं है, उनका स्वमुख से या परमुखसे केवल उदय ही होता है, इसलिए इस परसे यह निष्कर्ष निकला कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणके अयोग्य हैं, हाँ उदयावलिके बाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनका अपकर्षण अवश्य हो सकता है । इसीलिए चूणिसूत्रकारने अपकर्षणके विषयमे यह नियम बनाया है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणसे भीन स्थितियाले हैं और उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणसे णभीन स्थितियाले हैं । तब भी यह प्रश्न तो है ही कि उदयावलिके बाहर स्थित सब कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य ही होते हैं ऐसा एकान्त नियम तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि उदयावलिके बाहर स्थित जिन कर्मपरमाणुओंकी अप्रस्तात उपशम, निवृत्तिकरण और निकाचना-
दरण वे अवस्थाएँ हैं उनका अपकर्षण नहीं होता । इसीप्रकार सासादन गुणस्थानमे भी दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका अपकर्षण नहीं होता, इसलिये चूणिसूत्रकारने जो यह कहा है कि उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है सो उनका ऐसा कथन

§ ४३०. एत्यतणपदेसग्गं कम्मट्टिदियव्भंतरे संचिदाणेगसमयपवद्धपडिबद्ध-
मत्थि किं तं सब्बमेव उक्कड्डणाए अप्पाओग्गमाहो अत्थि को इ विसेसो त्ति आसंका-
णिरायरणह्मुत्तरमुत्तमोयरइ—

❀ तस्स पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्म-
ट्टिदी विदिवक्कंता वद्धस्स तं कम्मं ए सक्खा उक्कड्डिटुं ।

§ ४३१. तस्स णिरुद्धट्टिदीए पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलियाए
ऊणिया कम्मट्टिदी विदिवक्कंता वद्धस्स वंधसमयादो पड्डुडि तं कम्मं णो सक्खा
उक्कड्डिटुं, सत्तिट्टिदीए तत्तो उवरि एगसमयमेत्तस्स वि अभावादो । ण च उदयसमए
ट्टिदो जीवो उदयावलियावाहिराणंतरट्टिदिपदेसग्गमुत्तरिदत्तेत्तियमेत्तकम्मट्टिदिय-
मुक्कड्डिटुं समत्थो, उक्कड्डणापाओग्गभावस्स कम्मट्टिदिपरिहाणीए विणहत्तादो । तदो
एदमुक्कड्डणादो भीणट्टिदियमिदि एसो मुत्तस्स भावत्थो ।

§ ४३०. इस पूर्वांक स्थितिके कर्मपरमाणु कर्मस्थितिके भीतर सञ्चित हुए अनेक समय-
प्रवृत्तसन्बन्धी हैं सो क्या वे सबके सब उत्कर्षणके अयोग्य हैं या इनमें कोई विशेषता है? इस
प्रकार इस आर्शकाके निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* किन्तु उन कर्म परमाणुओंकी वन्ध समयसे लेकर यदि एक समय अधिक
एक आवलिसे न्यून सब कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण
नहीं हो सकता ।

§ ४३१. पहले उदाहरणरूपसे जिस स्थितिका निर्देश किया है उसके उन कर्मपरमाणुओंकी
वद्धस्स अर्थात् वन्धके समयसे लेकर यदि एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष सब
कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी
उस स्थितिसे अधिक एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । और उदय समयमें
स्थित हुआ जीव उदयावलिके बाहर अनन्तर समयवर्ता स्थितिके ऐसे कर्म परमाणुओंका,
जिनकी कर्मस्थिति उतनी ही अर्थात् एक समय अधिक उदयावलि प्रमाण ही शेष रही है,
उत्कर्षण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि कर्मस्थितिकी हानि हो जानेसे उन कर्म
परमाणुओंके उत्कर्षणकी योग्यता ही नष्ट हो गई है, इसलिये वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे मीन
स्थितिवाले हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—यह तो पहले ही बतला आये हैं कि उत्कर्षण सब कर्म परमाणुओंका न
होकर कुछका होता है और कुछका नहीं होता । जिनका नहीं होता उनका संक्षेपमे व्योरा
इस प्रकार है—

१—उदयावलिके भीतर स्थित कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता ।

२—उदयावलिके बाहर भी सत्तामें स्थित जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति उत्कर्षणके
समय बंधनेवाले कर्मोंकी आवाधाके बराबर या इससे कम शेष रही है उनका भी उत्कर्षण
नहीं होता ।

३—निर्व्याघात दशामे उत्कर्षणको प्राप्त होनेवाले कर्म परमाणुओंकी अतिस्थापना कमसे

४३२. तित्से चैव गिरूद्धिदीए अण्णं पि पदेसग्गमोक्कड्डणादो परिहीण-
ट्टिदियमत्थि त्ति परूवणट्टमुवरिमसुत्तमोड्डणं—

ॐ तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया
कम्मट्टिदी विदिककंता तं पि उक्कड्डणादो भीणट्टिदियं ।

४३३. सुगमं । किमट्टमेक्किस्से उवरिमाणंतरट्टिदीए ए उक्कड्डिज्जइ तं पदेसग्ग ?
ण, जहण्णावाहादीहाए अइच्छावणाए अभावादो । ण च आवाहाए अब्भंतरे
उक्कट्टणस्स संभवो, 'बंधे उक्कड्डि' त्ति वयणादो । ण हि अहिणववज्झमाणपरमाणु
आवाहाए अब्भंतरे अत्थि, विरोहादो ।

कम एक आवलिप्रमाण बतलाई है, इसलिये अतिस्थापनारूप द्रव्यमे उत्कर्षित द्रव्यका निक्षेप नहीं होता ।

४—व्याघात दशामे कमसे कम आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण अतिस्थापना और इतना ही निक्षेप प्राप्त होनेपर उत्कर्षण होता है, अन्यथा नहीं होता ।

जहाँ अतिस्थापना एक आवलि और निक्षेप आवलिका असंख्यातवों भाग आदि बन जाता है वहाँ निर्व्याघात दशा होती है और जहाँ अतिस्थापनाके एक आवलिप्रमाण होनेमे बाधा आती है वहाँ व्याघात दशा होती है । जब प्राचीन सत्तामें स्थित कर्म परमाणुओंकी स्थितिसे नूतन बन्ध अधिक हो पर इस अधिकका प्रमाण एक आवलि और एक आवलिके असंख्यातवें भागके भीतर ही प्राप्त हो तब यह व्याघात दशा होती है । इसके सिवा उत्कर्षणमे सर्वत्र निर्व्याघात दशा ही जाननी चाहिये ।

प्रकृतमें जिन कर्मपरमाणुओंके उत्कर्षणका निषेध किया है उनसे सम्बन्ध रखनेवाले समयप्रवृद्धकी कर्मस्थिति केवल एक समय अधिक एक आवलिमात्र ही शेष रही है, इसलिये इनका नियम नम्वर दो के अनुसार उत्कर्षण नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ जिन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण विवक्षित है उनका कर्मपरमाणुओंसे सम्बन्ध रखनेवाले समयप्रवृद्धकी कर्मस्थिति उतनी ही शेष रही है, इसलिये उन कर्मपरमाणुओंमे शक्तिस्थितिका सर्वाथा अभाव होनेसे उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता ।

§ ४३२ उसी विवक्षित स्थितिके अन्य कर्म परमाणु भी उत्कर्षणके अयोग्य हैं, अब इस बातका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४३३. यह सूत्र सुगम है ।

शंका—अपनेसे ऊपरकी अनन्तरवर्ती एक स्थितिमे उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण फ्यो नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ जघन्य प्रावाधाप्रमाण अतिस्थापना नहीं पाई जाती और प्रावाधाके भीतर उत्कर्षण हो नहीं सकता, क्योंकि 'बन्धके समय ही उत्कर्षण होता है' ऐसा आगमबचन है । यदि कहा जाय कि नूतन बंधनेवाले कर्म परमाणु आवाधाके भीतर पाये जाते हैं तो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमे विरोध आता है ।

❁ एवं गंतूण जदि वि जहणियाए आवाहाए ञणिया कम्मट्ठिदी विदिव्कंता तं पि उक्कड्डुणादो भीणट्ठिदियं ।

§ ४३४. एवं तिसमयाहियावलिवादिपरिहीणकम्मट्ठिदिं समाणिय ट्ठिदि-पदेसगाणमुक्कड्डुणादो भीणट्ठिदियत्तं वत्तन्वं, अइच्छावणाए पडिबुणत्ताभावेण णिकखेवस्स च अच्चंताभावेण पुव्विक्खादां विसेसाभावा । 'एवं गंतूण जइ वि जहणियाए० भीणट्ठिदिगं' इदि एत्थ चरिमिविचप्पे जइ वि अइच्छावणा संपुण्णा तो वि णिकखेवाभावेण भीणट्ठिदियत्तं पडिवज्जेयन्वं । सेसं सुगमं ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाया गया है कि जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति उद्यावलि से केवल एक समय अधिक शेष है उनका उत्कर्षण नहीं होता । तब यह प्रश्न हुआ कि जिस समयप्रवृद्धकी कर्मस्थिति दो समय अधिक एक आवलिप्रमाण शेष है उसी समयप्रवृद्धके एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें स्थित कर्मपरमाणुओंका अनन्तरवर्ती उपरितन स्थितिमें उत्कर्षण होता है क्या ? इसी प्रश्नका उत्तर देते हुए यहाँ यह बतलाया गया है कि तब भी उत्कर्षण सम्भव नहीं है । इसका यहाँ पर जो कारण बतलाया है उसका आशय यह है कि उत्कर्षण बन्धके समय ही होता है । फिर भी उत्त्पित द्रव्यका निक्षेप अतिस्थापना प्रमाण स्थितिका छोड़कर उपरकी स्थितिमें ही होता है और प्रकृतमें अतिस्थापना जघन्य आवाधासे कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आवाधाकालके भीतर नवान बंधे हुए कर्मोंकी निषेक रचना न होनेसे आवाधाकालके भीतर उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यका निक्षेप ही सम्भव नहीं है । उन्हें माना कि आवाधाकालके भीतर सत्ताने स्थित कर्मोंकी निषेक रचना पाई जाती है, किन्तु 'बन्धके समय ही उत्कर्षण होता है' ऐसा कथन करनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यका निक्षेप तत्काल बंधनेवाले कर्मके निषेकों से ही होता है । पर यह निषेक रचना आवाधा-कालके भीतर नहीं पाई जाती, इसलिये आवाधा निक्षेपके अयोग्य है वह सिद्ध होता है । इस प्रकार उद्यावलिके अनन्तर समयवर्ती कर्म परमाणुओंका उद्यावलिके अनन्तर द्वितीय समयवर्ती स्थितिमें निक्षेप नहीं हो सकता यह सिद्ध होता है और यही प्रकृत सूत्रका आशय है ।

* इस प्रकार जाकर यद्यपि चित्रित कर्म परमाणुओंकी जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो भी वे कर्म परमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले होते हैं ।

§ ४३४. तीन समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष सब कर्मस्थितिको समाप्त करके स्थित हुए कर्म परमाणु भी उत्कर्षणसे हीन स्थितिवाले होते हैं ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये, क्योंकि अतिस्थापना पूरी न होनेसे और निक्षेपका अत्यन्त अभाव होनेसे पूर्व सूत्रके कथनसे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 'इस प्रकार जाकर यद्यपि जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो भी वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे हीन स्थितिवाले होते हैं' इस प्रकार इस अन्तिम विकल्पमें यद्यपि अतिस्थापना पूरी है तो भी निक्षेपका अभाव होनेसे (एक समय अधिक एक आवलिके अन्तिम समयवर्ती कर्म परमाणुओंका) उत्कर्षणसे हीन स्थितिपना जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—पहले उदाहरणरूपसे जो एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें

४३५, संपहि अज्भीणट्टिदियस्स उक्कड्डणापाओग्गस्स तस्सेव णिरुद्धिट्ठिदि-
पदेसग्गस्स परुवणह्मुत्तरमुत्तमागयं—

❀ समयुत्तराए उदयावलिचाए तिस्से ट्ठिदीए जं पदेसग्गं तस्स
पदेसग्गस्स जइ जहणियाए आचाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मट्ठिदी
चिदिक्कंता तं पदेसग्गं सक्खा आवाधामेत्तमुक्कड्डिउमेक्किस्से ट्ठिदीए
णिसिंचिदुं ।

§ ४३६. गयत्थमेदं, सुगमासेसादयवत्तादो । णवरि आवाधामेत्तमुक्कड्डिउमिदि
एत्थ उक्कड्डियुण ति येत्तव्वं । अहवा, आवाधामेत्तमुक्कड्डिउमेक्किस्से ट्ठिदीए णिसिंचिदुं
चेदि संवंधो कायव्वो । च सदेण विणा वि समुच्चयद्वावगमादो । एदरसमुत्तस्स
भावत्थो—पुव्वमादिट्ठिट्ठिदीए पदेसग्गस्स वंधसमयादो पहुडि जइ जहणणावाहाए
समयाहियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी वदिक्कंता होज्ज तो तं पदेसग्गं जहणणावाधामेत्त-
मुक्कड्डिय उवरिमाणंतराए एक्किस्से ट्ठिदीए णिसिंचिदुं सकं, तप्पाओग्गजहणणाण

स्थित कर्म परमाणु वतलाये हैं सो उनका उत्कर्षण कब तक नहीं हो सकता यह इस सूत्रने वतलाया
है । यदि तीन समय अधिक उदयावलिप्रमाण स्थिति शेष हो और बाकीकी स्थिति गल गई
हो तो भी एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती उन कर्म परमाणुओंका शेष दो
स्थितिमें उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि प्रकृतमे अतिस्थापनाका प्रमाण जो जघन्य आवाधा
वतलाया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है और निक्षेपका अभाव तो बना हुआ ही है । इसी प्रकार
चार समय अधिक, पांच समय अधिक उदयावलिप्रमाण स्थितिसे लेकर आवाधाकाल प्रमाण
स्थितिके शेष रहने पर भी उक्त कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँ अन्तिम
विकल्पके सिवा और सब विकल्पोंमें अतिस्थापना तो पूरी हुई नहीं और निक्षेपका अभाव तो
सर्वत्र ही बना हुआ है ।

§ ४३५. अब उसी स्थितिके जो कर्म परमाणु उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले अर्थात्
उत्कर्षणके योग्य हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* एक समय अधिक उदयावलिप्रमाण उसी स्थितिके ऐसे कर्म परमाणु
लो जिनकी यदि एक समय अधिक जघन्य आवाधासे न्यून शेष कर्मस्थिति गली
है तो उन कर्म परमाणुओंका जघन्य आवाधाप्रमाण उत्कर्षण और आवाधासे ऊपर
की एक स्थितिमें निक्षेप ये दोनों बातें शक्य हैं ।

§ ४३६ इस सूत्रका अर्थ 'अवगतप्राय है, क्योंकि इसके सब अवयवोंका अर्थ सुगम है ।
किन्तु उतनी विरोधता है कि 'आवाधामेत्तमुक्कड्डिउं' इस वाक्यमे स्थित 'उक्कड्डिउं' का अर्थ
'उत्कर्षण करके' करना चाहिये । अथवा 'आवाधाप्रमाण उत्कर्षण करनेके लिये और एक स्थिति
में निक्षेप करनेके लिये शक्य है' ऐसा सम्वन्ध कर लेना चाहिये, क्योंकि यद्यपि वाक्य मे 'इ'
पद नहीं दिया है तो भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान हो जाता है । इस सूत्र का यह भावार्थ है कि
पारले उच्चारणरूपसे निर्दिष्ट की गई स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी यदि वेध समयसे लेकर एक
नगम 'अधिक जघन्य आवाधासे न्यून शेष कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो उन कर्मपरमाणुओं
का जघन्य आवाधाप्रमाण उत्कर्षण होकर उसके ऊपर अनन्तर समयवर्ती एक स्थितिमें निक्षेप

मइच्छावणाणिकखेवाणमेत्थुवलंभादो । तदो एदमुक्कड्डणादो अज्झीणद्विदियमिदि उवरि
सव्वत्थ उक्कड्डणापडिसेहो गत्थि त्ति जाणावणद' तन्विसयमाहप्पमुत्तरसुत्तेण भणइ—

❁ जइ दुसमयाहियाए आवाहाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिककंता
तिसमयाहियाए वा आवाहाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिककंता । एवं गंतूण
वासेण वा वासपुधत्तेण वा सागरोवमेण वा सागरोवमपुधत्तेण वा ऊणिया
कम्मद्विदी विदिककंता तं सव्वं पदेसगं उक्कड्डणादो अज्झीणद्विदियं ।

§ ४३७. एदस्स सुत्तस्स सुगमासेसविषयवकलावस्स भावत्थो—पुव्वणिरुद्धाए
समयाहियउदयावलियचरिमद्विदीए पदेसग्गस्स वंधसमयप्पहुट्ठि वोलाविय समयहिय-
जहण्णावाहादिउवरिमासेसमुत्तवियप्परिहीणकम्मद्विदियस्स गत्थि उक्कड्डणादो
भीणद्विदियत्तं । सव्वमेव तमुक्कड्डणापाओगमिदि सव्वस्स वि'एदस्स समयविरोहेण
उक्कड्डिज्जमाणयस्स आवाहमेत्ती अइच्छावणा । णिकखेवो पुण समयुत्तरादिकमेण वट्टमाणो
गच्छदि जाव उक्कसावाहाए समयहियावलियाए च ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ
त्ति । एत्थ सागरोवमपुधत्तेण वा त्ति एदेण वा सदेण अयुत्तसमुच्चयद्वेण सागरोवम-
दसपुधत्तेण वा सदपुधत्तेण वा सहस्सपुधत्तेण वा लक्खपुधत्तेण वा कोडिपुधत्तेण वा
अंतोकोडाकोडीए वा कोडाकोडिपुधत्तेण वा त्ति एदे संभविणो वियप्पा घेत्त्वा ।

होना शक्य है, क्योंकि यहां तद्योग्य जघन्य अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनो पाये जाते हैं, इसलिये ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं । अब आगे सर्वत्र उत्कर्षणका निषेध नहीं है यह जतानेके लिये अगले सूत्रद्वारा उस विषयका माहात्म्य बतलाते हैं—

❁ तथा उसी पूर्वोक्त स्थितिकी यदि दो समय अधिक आवाधासे न्यून कर्मस्थिति गली है या तीन समय अधिक आवाधासे न्यून कर्मस्थिति गली है । इसी प्रकार आगे जाकर यदि एक वर्ष, वर्षपृथक्त्व, एक सागर या सागर पृथक्त्वसे न्यून शेष कर्मस्थिति गली है तो वे सब कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले होते हैं ।

§ ४३७. इस सूत्रके सब पद यद्यपि सुगम हैं तथापि उसका भावार्थ यह है कि पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयसे स्थित स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी जिसने बन्ध समयसे लेकर एक समय अधिक जघन्य आवाधा आदि आगेकी सूत्रोक्त सब स्थिति-विकल्पोंसे न्यून कर्मस्थितिको गला दिया है उसके वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले नहीं होते अर्थात् उसके वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके योग्य होते हैं, इसलिये इन सभी कर्मपरमाणुओंका यथाशास्त्र उत्कर्षण होता है । और तब अतिस्थापना आवाधाप्रमाण होती है । किन्तु निक्षेप एक समयसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ता हुआ उच्छ्रित आवाधा और एक समय अधिक एक आवलिके न्यून सत्तर कोडाकोडी सागरके प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है । इस सूत्रमें 'सागरोवमपुधत्तेण वा' यहां पर आया हुआ 'वा' शब्द अनुक्त विकल्पोंके समुच्चयके लिये है जिससे दस सागरपृथक्त्व, सौ सागर पृथक्त्व, हजार सागरपृथक्त्व, लाख सागर पृथक्त्व, कोडी सागर पृथक्त्व, अन्तःकोडाकोडी सागर और कोडाकोडी सागर पृथक्त्व ये सब संभव

मृत्तुतचियप्पाणं देसामासयभावेण वा एदेसिसंगहो कायण्वो ।

विकल्प प्रहरण करने चाहिए, या सत्रोक्त विकल्प देशामर्पक होनेसे इन विकल्पोका संग्रह करना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाया जा चुका है कि एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें स्थित कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके अयोग्य हैं। अब पिछले दो सूत्रोमे यह बतलाया गया है कि कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके योग्य हैं। इसका खुलासा करते हुए जो बतलाया गया है उसका भाव यह है कि उस एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें स्थित जिन कर्मपरमाणुओंसम्बन्धी समयप्रवद्धोंकी स्थिति यदि आवाधासे एक समय आदि के क्रम से अधिक शेष रहती है तो उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है और ऐसा होते हुए जितनी आवाधा होती है उतना अतिस्थापनाका प्रमाण होता है तथा आवाधासे जितनी अधिक स्थिति होती है उतना निक्षेपका प्रमाण होता है। यदि आवाधासे एक समय अधिक होती है तो निक्षेपका प्रमाण एक समय होता है। यदि दो समय अधिक होती है तो निक्षेपका प्रमाण दो समय होता है। इसी प्रकार तीन समय, चार समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, एक दिन, एक मास, एक वर्ष, वर्षेष्टयवत्त्व, एक सागर, सागर पृथक्त्व, दस सागर पृथक्त्व, सौ सागर पृथक्त्व, हजार सागर पृथक्त्व, लाख सागर पृथक्त्व, करोड़ सागर पृथक्त्व, अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर, कोड़ाकोड़ीसागर पृथक्त्वरूप जितनी स्थिति शेष रहती है उतना निक्षेपका प्रमाण होता है। इस प्रकार यदि उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण प्राप्त किया जाता है तो वह उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक एक आवलिले न्यून सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण प्राप्त होता है। यह उत्कृष्ट निक्षेप एक समय अधिक वन्धावलिको गलाकर उदयावलिकी उपरितन स्थितिमे स्थित कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण करने पर प्राप्त होता है। परन्तु उस उदयावलिकी उपरितन स्थितिमे अनेक समयप्रवद्धोके परमाणु होते हैं, इसलिये किन परमाणुओंका उत्कर्षण करने पर यह उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होता है इसका खुलासा करते हैं—

किसी एक संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवने मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया। फिर वन्धावलिको गलाकर उसने आवाधाके बाहर स्थितिमे स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण करके उदयावलिके बाहर निक्षेप किया। यहाँ उदयावलिके बाहर द्वितीय समयवर्ती स्थितिमे अपकर्षण करके निक्षेप किया गया द्रव्य विवक्षित है, क्योंकि उदयावलिके बाहर प्रथम समयमे निक्षेप द्रव्यका तदनन्तर समय में उदयावलिके भीतर प्रवेश हो जाता है, इसलिये उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। अनन्तर दूसरे समयमे उत्कृष्ट संक्लेशके बशसे उत्कृष्ट स्थितिको बांधता हुआ विवक्षित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण करके उन्हें वह आवाधाके बाहर प्रथम निषेकस्थितिसे लेकर सब निषेक स्थितियोंमें निक्षेप करता है। केवल एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण अन्तिम स्थितियोंमें निक्षेप नहीं करता, क्योंकि उनमें निक्षेप करने योग्य उन कर्म परमाणुओंकी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती। यहाँ उत्कृष्ट आवाधाके भीतर निक्षेप नहीं है और अन्तकी एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितियोंमें निक्षेप नहीं है, इसलिये उत्कृष्ट स्थितिमेसे इतना कम कर देने पर निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक एक आवलिले न्यून उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है।

एक यहाँ प्रकरणसे उत्कर्षणका फल, अतिस्थापना, निक्षेप और शक्तिस्थिति इन चार भागोंका भी खुलासा किया जाता है, क्योंकि इनको जाने बिना उत्कर्षणका ठीक तरहसे ज्ञान नहीं हो सकता।

§ ४३८ संपहि उदयद्विदीदो हेद्विमासेसकम्मद्विदिसंचिदसमयपवद्वपदेसगस्त
अहियारद्विदीए अविसेसेण संभवविसयासंकाणिरायरणदुवारेण अवत्थुवियप्पाणं
णवकबंधमस्सियूण परूवणद्वमुत्तरमुत्ताणमवयारो । ण च एदेसिं परूवणा णिरत्थिया,
त्पटुत्पायणमुहेण उक्कड्डाविसए सिस्साणं णिणयजणणेण एदिस्से फळोवत्तंभादो ।

१ उत्कर्षणका काल—उत्कर्षण बन्धके समय ही होता है। अर्थात् जब जिस कर्मका बन्ध हो रहा हो तभी उस कर्मके सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है, अन्यथा नहीं। उदाहरणार्थ—यदि कोई जीव साता प्रकृतिका बन्ध कर रहा है तो उस समय सत्तामें स्थित साता प्रकृतिके कर्मपरमाणुओंका ही उत्कर्षण होगा असाताके कर्म परमाणुओं-
। नहीं।

२ अतिस्थापना—कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण होते समय उनका अपनेसे ऊपरकी जितनी स्थितिमें निक्षेप नहीं होता वह अतिस्थापनारूप स्थिति कहलाती है। अव्याघात दशामें जघन्य अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट आवाधाप्रमाण होती है। किन्तु व्याघात दशामें जघन्य अतिस्थापना आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना एक समय कम एक आवलिप्रमाण होती है।

३ निक्षेप—उत्कर्षण होकर कर्मपरमाणुओंका जिन स्थितिविकल्पोंमें पतन होता है उनकी निक्षेप संज्ञा है। अव्याघात दशामें जघन्य निक्षेपका प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून सत्तार कोड़ाकोड़ी सागर है। तथा व्याघात दशामें जघन्य और उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

४ शक्तिस्थिति—बन्धके समय उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होने पर अन्तिम निषेककी सबकी सब व्यक्तस्थिति होती है। आशय यह है कि अन्तिम निषेककी एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती। तथा इससे उपान्त्य निषेककी एक समयमात्र शक्तिस्थिति होती है और शेष स्थिति व्यक्त रहती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक निषेक नीचे जाने पर शक्तिस्थितिका एक एक समय बढ़ता जाता है और व्यक्तस्थितिका एक एक समय घटता जाता है। इस क्रमसे प्रथम निषेककी शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थितिका विचार करने पर व्यक्तस्थिति एक समय अधिक उत्कृष्ट आवाधाप्रमाण प्राप्त होती है और इस व्यक्तस्थितिको पूरी स्थितिमेंसे घटा देने पर जितनी स्थिति शेष रहे उतनी शक्तिस्थिति प्राप्त होती है। यह तो बन्धके समय जैसी निषेक रचना होती है उसके अनुसार विचार हुआ। किन्तु अपकर्षणसे इसमें कुछ विशेषता आ जाती है। बात यह है कि अपकर्षण द्वारा जिस निषेककी जितनी व्यक्तस्थिति घट जाती है उसकी उतनी शक्तिस्थिति बढ़ जाती है। यह उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थितिका विचार है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध न होने पर जितना स्थितिवन्ध कम हो उतनी अन्तिम निषेककी शक्तिस्थिति होती है और शेष निषेककी इसीके अनुसार शक्तिस्थिति बढ़ती जाती है।

§ ४३८. अब उदयस्थितिसे नीचेकी सब कर्मस्थितियोंमें संचित हुए समयप्रबद्धों सम्बन्धी कर्म परमाणुओंके अधिकृत स्थितिमें सामान्यसे सम्भव होनेरूप आशंकाके निराकरण-द्वारा नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तु विकल्पोंका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं। यदि कहा जाय कि इन विकल्पोंका कथन करना निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि इनके कथन करनेका यही फल है कि इससे शिष्योंको उत्कर्षणके विषयमें ठीक ठीक निर्णय करनेका अवसर मिलता है।

❁ समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चैव द्विदीए पदेसगस्स एगो समओ पवद्धस्स अइच्छिदो त्ति अबत्थु, दो समया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अबत्थु, तिणिण समया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अबत्थु, एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अबत्थु ।

§ ४३६ जा पुव्वमाइहा समयाहियाए उदयावलियाए चरिमद्विदी तिस्से चैव द्विदीए पदेसगस्स पवद्धस्स पारद्धबंधस्स बंधसमयप्पहुडि एओ समओ अइच्छिदो त्ति अब्बकंतो चि अबत्थु । तं पदेसगमेदिस्से द्विदीए णत्थि । कुदो आवाहामेत्तमुवरि गंतूण तस्सावट्ठाणादो । एवं सव्वत्थ वत्तव्वं । अहवा जा समयाहियाए उदयावलियाए द्विदी एदिस्से द्विदीए जं पदेसगं तमादिद्वमिदि पुव्वं परुविदं । तिस्से च द्विदीए उदयद्विदीदो हेट्टिमासेससमयपवद्धाणं पदेसगमत्थि आहो णत्थि संतं वा किमुक्कड्डणदो भूणिद्विदिगमभूणिद्विदिगं वा उक्कड्डिज्जमाणं वा केत्तियमद्दाण-मुक्कड्डिज्जि का वा एदस्स अधिच्छावणा णिक्खेवो वा त्ति ण एसो विसेसो सम्म-मवहारिओ तदो तप्परुवणद्वमेदिंसि सुत्ताणमवयारो त्ति वक्खणोयव्वं ।

❁ एक समय अधिक उदयावलिकी जो अन्तिम स्थिति है उसमें वे कर्म-परमाणु नहीं हैं जिन्हें बांधनेके वाद एक समय व्यतीत हुआ है, वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके वाद दो समय व्यतीत हुए हैं, वे कर्म परमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके वाद तीन समय व्यतीत हुए हैं । इस प्रकार निरन्तर जाकर ए से कर्मपरमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके वाद एक आवलि व्यतीत हुई है ।

§ ४३६. जिन कर्मपरमाणुओंका बन्धके वाद अर्थात् बन्धसमयसे लेकर एक समय व्यतीत हुआ है वे कर्मपरमाणु पूर्वमें जो एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थिति कह आये हैं उसमें प्रयस्तु हैं । अर्थात् वे कर्मपरमाणु इस स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्यों कि आवाधाके वाद उनका सञ्जाव पाया जाता है । इसी प्रकार सर्वत्र कथन करना चाहिये । अथवा यहाँ यह व्याख्यान करना चाहिये कि एक समय अधिक उदयावलिकी जो अन्तिम स्थिति है और इसके जो कर्म परमाणु हैं वे यहा विवक्षित हैं ऐसा जो पहले कहा है सो उस स्थितिमें उदय स्थितिसे नीचेके पथान् पूर्वके सब समयप्रवहोंके कर्मपरमाणु हैं या नहीं हैं । यदि हैं तो वे क्या उत्कर्षणसे भूनि स्थितियांलें हैं या अभूनि स्थितियांलें हैं । यदि उत्कर्षण होता है तो कितना उत्कर्षण होता है । तथा उनका स्थितिस्थापना और निक्षेप कितना है । इस प्रकार यह सब विज्ञेपता भले प्रकारसे धात नरें हर्, इसलिये इस विज्ञेपताका कथन करनेके लिये इन सूत्रोंका अवतार हुआ है ऐसा यहाँ व्याख्यान करना चाहिए ।

विज्ञेपार्थ—प्रकृत सूत्रमें यह बतलाया है कि एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिमें जिन समयप्रवहोंके कर्म परमाणु नहीं पाये जाते । ऐसा नियम है कि बंधे हुए कर्म अपने पन्थाकालसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालतक तदवस्थ रहते हैं । एक यह भी नियम है कि बंधने-वाले कर्मों परने पानाधाकालमें निषेक रचना नहीं पाई जाती । इन दो नियमोंको ध्यानमें रख कर यदि विचार किया जाता है तो इनसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वर्तमान कालसे एक

§ ४४० एवमेदंण मुत्तेण आवलियमेत्ते अवत्युवियप्पे परुविय संपहि उक्कट्टणपाओग्गन्नधुवियप्पपरुवणट्टमुत्तरमुत्तं भणइ—

❀ तित्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स समयुत्तरावलिया पद्धस्स अइच्छिदा त्ति एसो आदेसो होज्ज ।

§ ४४१ पदस्स मुत्तस्स अत्यां चुच्चदे—तित्से चेव पुव्वणिरुद्धसमयाहिया-वल्लियचरिमद्विदीए पदेसग्गस्स उक्कसदो दोआवलियपरिहीणकम्मद्विदिमेत्तसमय-पवद्धपडिवद्धस्स अब्भंतरे जस्स पदेसग्गस्स वंधसमयादो पडुडि उदयद्विदीदो हेहा समयुत्तरावलिया अधिच्छिदा सो एत्थ आदेसो होज्ज । आदिश्यत इत्यादेशो विवत्तित्तस्यित्तां वस्तुरूपेणावस्थितः प्रदेश आदेश इति यावत् । कथमेदस्स आवाहादो उवरि णिसित्तस्स आदिद्विद्विदीए संभत्तां ? ण, वंधावक्रियाए बोलीणाए एगेण समएणोक्कट्टिय पयद्विद्विदीए णिवत्तित्तस्स तत्त्यत्थित्तं पडि विरोहाभावादो । ण एस कपो

आवलि तक पूर्वके वंधे हुए समयप्रवृत्तोंके कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें अर्थात् एक समय अधिक उद्यावलिकी अन्तिम स्थितिमें पाया जाना सम्भव नहीं है। यहाँ वर्तमान काल ही उद्यकाल है और इनसे लेकर एक आवलिकाल उद्यावलि काल कहलाता है तथा इससे आगेकी स्थिति एक समय अधिक उद्यावलिकी अन्तिम स्थिति कहलाती है। अब वर्तमान काल अर्थात् उद्यकालमें विचार यह करना है कि उक्त स्थितिमें कितने समयप्रवृत्तोंके कर्मपरमाणु नहीं पाये जाते। प्रकृत सूत्रमें इसी प्रश्नका उत्तर दिया गया है। उसका आशय यह है कि उद्यकालसे पूर्व एक आवलि काल तकके वंधे हुए समयप्रवृद्ध उक्त स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्योंकि उक्त स्थिति आवाधाकालके भीतर आ जाती है और आवाधाकालमें नियेक रचना नहीं होती यह पहले ही लिख आये हैं।

§ ४४२. इस प्रकार इस सूत्र द्वारा आवलिप्रमाण अवस्तुरूप विकल्पोका कथन करके अब उत्कर्षण के योग्य वस्तुरूप विकल्पोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु उसी स्थितिमें वे कर्म परमाणु हैं जिनकी वाँधनेके बाद एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है ।

§ ४४३. अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं—उसी पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें जो कर्मपरमाणु हैं वे यद्यपि उक्कट्ट रूपसे दो आवलिकर्म कर्म स्थितिप्रमाण समयप्रवृत्तोंके हैं तथापि इनके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंकी बन्ध समयसे लेकर उद्य स्थितिसे पहले-पहले एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हो गई है उनका यहाँ सञ्जाव है। आदेश का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—आदिश्यते अर्थात् विवक्षित स्थितिमें वास्तविक रूपसे अवस्थित प्रदेश ।

शंका—जब कि बन्धके समय सब कर्मपरमाणु आवाधासे उपरकी स्थितिमें निक्षिप्त किये जाते हैं तब वे विवक्षित स्थितिमें कैसे सम्भव हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्धावलिसे व्यतीत होनेके पश्चात् एक समय द्वारा अपकर्षण करके आवाधासे उपरितन स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें निक्षिप्त कर दिये जाते हैं, इसलिये इनका यहाँ अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं आता ।

पुच्युत्तावलियमेत्तममयपवद्धपरमाणुणमत्थि, तेसि वंधावलियाए असमत्तीदो उक्कड्डणा-
पाश्रोग्गचाभावादो । समाणिद्वेधावलियस्स त्रि तत्थतणचरिपवियप्पडिग्गहिय-
समयपवद्धस्स उदयसमयमहिद्विदजीवेणोक्कड्डणावावदेण णिरुद्धद्विद्विसयमाणिदस्स
संतस्स त्रि पयदुक्कड्डणाणुवजोगितेणावत्थुत्तं पडिच्चजेयव्वं । तदां तेसिमेत्था-
वत्थुत्तमेदस्स च वत्थुत्तं सिद्धं ।

§ ४४२. एवमादिदस्स पदेसग्गस्स उक्कड्डणाद्धाणपरूवणमुत्तरसुत्तेण कुणइ—

❀ तं पुण पदेसग्गं कम्मद्विदिं णो सक्का उक्कड्डिदुं, समयाहियाए
आवलिपाए ऊणियं कम्मद्विदिं सक्का उक्कड्डिदुं ।

§ ४४३. कुदो ? एतियमेत्तीए चेव सत्तिद्विदीए अवहिदत्तादो । एदं
जद्विदिं पडुच्च वुत्तं । णिसेयद्विदिं पुण पडुच्च दुसमयाहियदो आवलियाहि ऊणियं कम्म-

किन्तु यह क्रम पूर्वोक्त आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोके व र्मपरमाणुओंका नहीं बनता, क्योंकि उनकी बन्धावलि समाप्त नहीं हुई है, इसलिये तब अपकर्षणकी योग्यता नहीं पाई जाती है । बन्धावलिके समाप्त हो जाने पर भी जो समयप्रवद्ध वहाँ अन्तिम विकल्परूपसे स्वीकृत है उसका उदय समयमें स्थित जीवके द्वारा अपकर्षण होकर वह यद्यपि निर्दिष्ट स्थितिके विषय-भावको प्राप्त हो रहा है फिर भी प्रकृत उत्कर्षणके अयोग्य होनेसे वह अबस्तु है, इसलिये उसे छोड़ देना चाहिये । इसलिए उदय समयसे पूर्वकी एक आवलिके अन्तर बंधनेवाले कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें नहीं हैं और जिन कर्मपरमाणुओंका बंधे हुए बन्ध समयसे लेकर उदय समय तक एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें हैं यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—पहले यह बतला आये हैं कि प्रकृत स्थितिमें कितने समयप्रवद्धोंके कर्म-परमाणु नहीं पाये जाते हैं । अब इस सूत्रद्वारा यह बतलाया गया है कि प्रकृत स्थितिमें जिन कर्म-परमाणुओंको बंधे एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना सम्भव है । इमपर यह शंका हुई कि जब कि आवाधा कालके भीतर निषेक रचना नहीं होती और प्रकृत स्थिति आवाधा कालके भीतर पाई जाती है तब फिर इस स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंको बंधे हुए एक समय अधिक एक आवलिकाल व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना कैसे सम्भव है । इस शंकाका मूलमें जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि बन्धावलिके व्यतीत हो जाने पर बंधे हुए द्रव्यका अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदीरणा हो सकती है, इसलिये एक समय अधिक एक आवलि पूर्ण बंधा हुआ द्रव्य विवक्षित स्थितिमें पाया जाता है ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं आती ।

§ ४४२. अब इस प्रकार विवक्षित हुए कर्मपरमाणुओंके उत्कर्षण अध्वानका कथन आगेके सूत्रद्वारा करते हैं—

❀ किन्तु उन कर्म परमाणुओंका कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण नहीं हो सकता ।
हो एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता है ।

§ ४४३. क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंमें इतनीमात्र शक्तिस्थिति पाई जाती है । तथापि
यह ध्यान रखिये कि अपेक्षाने किया है । निषेकस्थितिकी अपेक्षासे विचार करने पर

द्विदिं सकमुकद्विदुमिदि वत्तव्वं, उदयद्विदीदो समयाहियउदयावलियमेत्तमद्धान-
 सुवरिं गंतूण पयदणिसेयस्स अवहाणादो । एदस्स सुत्तस्स भावत्थो—उदयद्विदीदो
 हेहा समयाहियावलियमेत्तमद्धानमोयरिय वद्धसमयपवद्धप्पहुडि सेसासेसकम्मद्विदि-
 अब्भंतरसंचिदसमयपवद्धपरमाणुमहियारद्विदीए अत्थित्ते विरोहो णत्थि तदो ण तं
 उक्कट्टणादो भीणद्विदिया । उक्कट्टिज्जमाणा च ते जेत्थियमद्धानं हेहदो आयरिय
 वद्धा तेत्थियमेत्तेणूणियं कम्मद्विदिमावाहामेत्तमविच्छाविय णवक्कवंधसुवरि
 णिक्खिपंपत्ति, तंत्थियमेत्तीए चंच सत्तिद्विदीए अवसिहत्तादो ति । णवरि कम्मद्विदीए
 आदीदो प्पहुडि जहण्णावाहमेत्ताणं समयपवद्धाणं जहासंभवमुक्कट्टणादो भीणद्विदियत्तं
 पुच्चिल्लपरूवणादो जाणिय वत्तव्वं । ण पुच्चिल्लपरूवणादो एदिस्से णवक्कवंध-
 मस्सियूण पयट्टाए अवत्थु-वत्थुपरूवणाए अवसिहत्तमासंकणज्जं, तिस्से कम्मद्विदीए
 आदीदो प्पहुडि पुत्राणुपुव्वीए संतकम्ममस्सियूण वावदत्तादो, एदिस्से चंच
 णवक्कवंधमस्सियूण पच्छाणुपुव्वीए पयट्टत्तादो । पढमपरूवणाए संतकम्ममस्सियूण
 आवलियमेत्ता अवत्थुत्रियप्पा किण्ण परूविदा ? तं जहा—सत्तरिसागरोवम-
 कोढाकोडिमेत्तकम्मद्विदिं सब्बं गालिय पुणो से काले णिल्लेविहिदिं ति उदयद्विदीए
 द्विदपदेसगमेदिस्से समयाहियावलियचरिमद्विदीए अवत्थु । तिस्से चंच द्विदीए

तो दो समय अधिक दो आवलित्से न्यून कर्मस्थितिप्रमाण ही उत्कर्षण हो सकता है
 ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये, क्योंकि उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक
 आवलिप्रमाण स्थान ऊपर जाकर ही प्रकृत निपेक स्थित है । इस सूत्रका यह भावार्थ है कि
 उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थान नीचे उतर कर जो समयप्रवद्ध बंधा
 है उससे लेकर बाकीकी सब कर्मस्थितिके भीतर संचित हुए समयप्रवद्धोके कर्मपरमाणुओंका
 विचक्षित स्थितिमें अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं है, इसलिये वे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले
 नहीं है । उत्कर्षण होते हुए भी जितना स्थान नीचे (पीछे) जाकर वे वेंधे होते हैं उतने स्थानसे
 न्यून शेष रही कर्मस्थितिमें उनका उत्कर्षण होता है । उसमें भी आवाधाप्रमाण अतिस्थापनाको
 छोड़कर नवकवन्धमें इनका निक्षेप होता है । शेष रही कर्मस्थितिमें इनका उत्कर्षण इसलिए होता
 है कि उनकी उतनी ही शक्तिस्थिति शेष है । किन्तु इतनी विशेषता है कि कर्मस्थितिके आदिसे
 लेकर जो जघन्य आवाधाप्रमाण समयप्रवद्ध हैं वे यथासम्भव उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं
 यह कथन पहले की गई प्ररूपणासे जानकर करना चाहिये । यदि कहा जाय कि पूर्व प्ररूपणासे
 नककवन्धकी अपेक्षा अवस्तु और वस्तु विकल्पोके कथनमें प्रवृत्त हुई इस प्ररूपणामें कोई विशेषता
 नहीं है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व प्ररूपणा कर्मस्थितिके प्रारम्भसे
 लेकर पूर्वानुपूर्वीसे सत्कर्मकी अपेक्षा प्रवृत्त हुई है और यह प्ररूपणा नवकवन्धकी अपेक्षा
 परचादानुपूर्वीसे प्रवृत्त हुई है, इसलिये इन दोनों प्ररूपणाओंमें अन्तर है ।

शंका—प्रथम प्ररूपणामें सत्कर्मकी अपेक्षा एक आवलिप्रमाण अवस्तुरूप विकल्पोका
 कथन क्यों नहीं किया है ? जिनका खुलासा इस प्रकार है—सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण सब
 कर्मस्थितिको गलाकर फिर तदनन्तर समयसे उस कर्मस्थितिका अभाव होगा । इस प्रकार केवल
 उदय स्थितिमें स्थित उस कर्मस्थितिके कर्मपरमाणु इस एक समय अधिक आवलिकी अन्तिम

जस्स पदेसगस्स हुममयूणा कम्मट्ठिदी विदिकंता त्ति एदं पि अवत्थु । एवं णिरंतंरं
 गंतूण जइ वि आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिकंता होज्ज तं पि अवत्थु त्ति ।
 एवमेदं अवत्थुवियप्पे आवलियमेत्ते अपरूविय समयाहियाए आवलियाए ऊणिया
 कम्मट्ठिदी जस्स विदिकंता तदो प्पहुट्ठि वत्थुवियप्पाणं भ्रीणाभ्रीणट्ठिदियत्तगवेसणं
 कुणमाणस्स सुण्णिमुत्तयारस्स को अहिप्पाओ त्ति ? ण एस दोसो, समयाहिया-
 वलियमेत्तावसिद्धकम्मट्ठिदियस्स समयपवद्धपदेसगस्स उक्कड्डणादो भ्रीणट्ठिदियस्स
 परूवणाए चेवं तेसिमवत्थुवियप्पाणमणुत्तसिद्धीदो । ण च पदमहादो हेट्ठिमाणमेत्तिय-
 मेत्ती ट्ठिदी अत्थि जेणेदंसेमेत्थ वत्थुत्तसंभवो होज्ज, विरोहादो । ण च संतमत्थं सुत्तं
 ए विसईकरेदं, तस्स अन्वावयत्तावत्तीदो । तदो तप्परिहारदुवारेण सेसपरूवणादो
 चेवं तेसिमवत्थुत्तं सुत्तयारेण सूचिदमिदि ण किं चि विरुद्धं पेच्छामो । णवकबंध-
 मस्मियूण परूविदाणमावलियमेत्ताणमेदंसिमवत्थुवियप्पाणं देसामासयभावेण वा
 तेसिमेत्थ परूवणा कायव्वा ।

स्थितिमें नहीं पाये जाते । तथा जिन कर्मपरमाणुओंकी दो समय कम पूरी कर्मस्थिति व्यतीत
 हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विचित्र स्थितिमें नहीं हैं । इसी प्रकार निरन्तर जाकर यदि
 एक आवलिकर्म कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे एक आवलिके कर्मपरमाणु भी इस विचित्र
 स्थितिमें नहीं हैं । इस प्रकार एक आवलिप्रमाण अवस्तु विकल्पोका कथन न करके चूर्णिसूत्रकार
 ने जो 'एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति जिसकी व्यतीत हो गई है' यहाँसे
 लेकर वस्तुविकल्पोमें भ्रीणाभ्रीणस्थितिपनेका विचार किया है सो उनका इस प्रकारके कथन
 करनेमें क्या अभिप्राय है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब एक समय अधिक एक आवलि शेष
 रही कर्मस्थितिसन्वन्धी समयप्रवृत्तोंके कर्मपरमाणुओंको उत्कर्षणके अयोग्य कह दिया
 तब उन्हींसे उन आवलिप्रमाण अवस्तुविकल्पोकी विना कहे सिद्धि हो जाती है ।
 और एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिसे नीचेके निपेकोकी इतनी अर्थात्
 एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थिति तो हो नहीं सकती जिससे इन नीचेके निपेकोका
 यहाँ मन्त्राव माना जावे, क्योंकि ऐसा होनेमें विरोध आता है । और सूत्र जो अर्थ विद्यमान है
 उसे विपर नहीं करता यह वान कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा होनेपर सूत्रको अन्व्यापक
 मानना पड़ेगा । उसलिये उन आवलिप्रमाण विकल्पोका कथन न करके सूत्रकारने शेष प्ररूपणा
 द्वारा ही उनका अन्वय नूचित कर दिया है, इसलिये इस कथनमें हम कोई विरोध नहीं देखते ।
 अथवा उन दूसरी प्ररूपणामें जो नवकथनकी अपेक्षा एक आवलिप्रमाण अवस्तु विकल्प कहे
 गये हैं उनमें देसामर्षपरूपमें प्रथम प्ररूपणासन्वन्धी उन एक आवलिप्रमाण अवस्तुविकल्पोकी
 नई प्ररूपणा कर लेनी चाहिये ।

विशेषार्थ—उस सूत्रकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने कई बातों पर प्रकाश
 डाला है । तथा—

(१) नवकथनके जो कर्मपरमाणु अपकर्षित होकर विचित्र स्थिति अर्थान् एक समय
 अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें निश्चित हुए हैं उनका उत्कर्षणके समय बांधनेवाले

कर्मकी कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो सकता है ?

(२) पूर्व प्ररूपणासे इस प्ररूपणामें तात्त्विक अन्तर क्या है ?

(३) पूर्व प्ररूपणामें क्या अवस्तु विकल्प सम्भव हैं यदि हों तो उनका उस प्ररूपणाका विवेचन करते समय कथन क्यों नहीं किया ?

इनका क्रमशः खुलासा इस प्रकार है—

(१) जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि कर्मोंमें दो प्रकारकी स्थिति होती है— एक व्यक्तस्थिति और दूसरी शक्तिस्थिति । जिस कर्मकी जितनी उच्छ्रष्ट कर्मस्थिति होती है उस कर्मके अन्तिम निषेककी वह व्यक्तस्थिति है । उस अन्तिम निषेकमें शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती । किन्तु शेष निषेकमें यथासम्भव शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दोनों पाई जाती हैं । उदाहरणार्थ एक कर्मकी ४८ समय कर्मस्थिति है । इसमेंसे प्रारम्भके १२ समय आवाधाके निकाल देने पर शेष ३६ समयोंमें निषेक रचना हुई । इस प्रकार पहले निषेककी १३ समय स्थिति पड़ी और दूसरे निषेककी १४ समय स्थिति पड़ी । इसप्रकार उत्तरोत्तर एक एक निषेक की एक एक समयप्रमाण स्थिति बढ़ कर अन्तिम निषेककी ४८ समय स्थिति पड़ी । यह सबकी सब स्थिति व्यक्तस्थिति है । अब जो प्रथम निषेककी १३ समय स्थिति पड़ी है सो उसके सिवा उसकी शेष ३५ समय स्थिति शक्तिस्थिति है । दूसरे निषेककी १४ समय के सिवा शेष ३४ समय शक्तिस्थिति है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये । इस उदाहरणसे स्पष्ट है कि उच्छ्रष्ट कर्मस्थितिके अन्तिम निषेकमें शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । किन्तु शेष निषेकमें शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दोनों प्रकारकी स्थितियाँ पाई जाती हैं ।

अब किसी एक जीवने बन्धावलिके बाद नवकबन्धका अपकर्षण करके उसका उदयावलि के ऊपर प्रथम स्थितिमें निक्षेप किया और तदनन्तर समयमें वह उसका उत्कर्षण करना चाहता है तो यहाँ यह विचार करना है कि इस अपकर्षित द्रव्यका तत्काल बंधनेवाले कर्म के ऊपर कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो कर निक्षेप होगा । यह अपकर्षण बन्धावलिके बाद हुआ है, इसलिये एक आवलि तो यह कम हो गई और एक समय अपकर्षणमें लगा, इसलिये एक समय यह कम हो गया । इस प्रकार प्रकृत कर्मस्थितिमेंसे एक समय अधिक एक आवलिके घटा देने पर जो शेष कर्मस्थिति बची है तत्काल बंधनेवाले कर्मकी उतनी स्थितिमें इस अपकर्षित द्रव्यका उत्कर्षण हो सकता है । उदाहरणार्थ पहले जो ४८ समय स्थितिवाले नवकबन्धका दृष्टान्त दे आये हैं सो उसके अनुसार बन्धावलिके ३ समय बाद चौथे समयमें आवाधाके ऊपरके द्रव्यका अपकर्षण करके उसे उदयावलिके ऊपरकी स्थितिमें निक्षेप किया । यहाँ बन्धावलिके बाद उदयावलि ले लेना चाहिये और उदयावलिके बाद एक समय छोड़कर अगली स्थितिमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप कराना चाहिये, क्योंकि एक समय अपकर्षणरूप क्रियामें लग कर दूसरे समयमें वह उदयावलिके प्रविष्ट हो जाता है । इस हिसाबसे अपकर्षित होकर स्थित हुए द्रव्यका आठवें समयमें उत्कर्षण होगा । पर यह उत्कर्षण की क्रिया बन्धावलिके बाद दूसरे समयमें हो रही है इसलिये सर्व स्थिति ४८ समयमेंसे बन्धावलिके ३ और अपकर्षणका १ इस प्रकार ४ समय घटा देने पर तत्काल बंधनेवाले कर्ममें आवाधाके बाद १३ समयसे लेकर ४४ वें समयतक इस द्रव्यका निक्षेप होगा । इस प्रकार इसकी स्थिति एक समय अधिक बन्धावलिके न्यून ४४ समय प्राप्त हुई । यह यत्स्थिति है । उत्कर्षण और संक्रमणके समय जो स्थिति रहे वह यत्स्थिति है । किन्तु उत्कर्षण उदयावलिके ऊपरके निषेक में स्थित द्रव्यका हुआ है, इसलिये निषेकस्थितिमें एक समय अधिक एक आवलि और घट जाती है, इसलिये

४४४ एवमेतिहास पदधेण पुञ्जणिरुद्धाए द्विदीए उक्कट्टणादो मीणाभीण-
द्विद्वियपदेसगगवेसणं काऊण तत्संवधेण च पसंगागयमवत्थयियप्पपरुद्धणं समाणिय
संपदि पयदमन्थपुत्रमंहरमाणो इदमाह—

एदे वियप्पा जा समयाहियउदधावलिया तिरसे द्विदीए
पदेसगगस्स ।

४४५ गयत्थमेदमुवसंसारसुत्तं । एवं विस्सरणालुआणं सिस्साणं पुञ्जुत्तमइं
संभालिय संपदि पदेसिमेव वियप्पाणमप्पणमुवरिं वि एदेण समाणपरुद्धणेसु
द्विद्विविसेसेसु कुणमाणो सृत्तमुत्तरं भणइ—

निपेक्षस्थिति ४४ समय न प्राप्त होकर ४० समय प्राप्त होगी। इस प्रकार अपकर्षित द्रव्यका
उत्कर्षणके समय बंधनेवाले कर्मकी कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो सकता है इसका विचार हुआ।

(२) प्रथम प्ररूपणामे सत्कर्मकी अपेक्षा विचार किया है उरामे वतलाया है कि जिस
कर्मकी केवल एक समय अधिक उद्यावलिप्रमाण कर्मस्थिति ज्ञेय रही है उसका उत्कर्षण नहीं हो
सकता। जिसकी दो समय अधिक उद्यावलिप्रमाण कर्मस्थिति ज्ञेय है उसका भी उत्कर्षण नहीं
हो सकता। तात्पर्य यह कि उत्कर्षणके समय बंधनेवाले कर्मकी कितनी आवाधा पड़े उतना
स्थितिके ज्ञेय रहने तक सत्कामे स्थित कर्मों का उत्कर्षण नहीं हो सकता। हाँ सत्कर्मकी आवाधासे
अधिक स्थितिके ज्ञेय रहने पर नूतन बन्धमे उसका उत्कर्षण हो सकता है। इस प्रकार प्रथम
प्ररूपणामे सत्कर्मकी अपेक्षा पूर्वानुपूर्वीसे विचार किया है। किन्तु इस दूसरी प्ररूपणामे यह
वतलाया है कि नूतन बन्ध होने पर बन्धावलि तक तो यह तदवस्थ रहता है। हाँ बन्धावलिके
बाद प्रपकरणे होकर उसका तत्काल बंधनेवाले कर्ममे उत्कर्षण हो सकता है। इस प्रकार दूसरी
प्ररूपणामे पश्चादानुपूर्वीसे नूतन बन्धमे उत्कर्षणका विचार किया है, इसलिये इन दोनों
प्ररूपणामे तात्त्विक भेद है।

(३) जब यह वतला दिया कि जिस कर्मकी स्थिति एक समय अधिक एक आवलि ज्ञेय
है उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता तब यह अर्थ सुतरा फलित हो जाना है कि जिस कर्मकी एक
समय दो समय, तीन समय इनी प्रकार उद्यावलिप्रमाण स्थिति ज्ञेय है उसका न तो उत्कर्षण
होता सकता है और न उस स्थितिके कर्म परमाणुओंका एक समय अधिक उद्यावलिकी
अन्तिम स्थितिमें ही पाया जाना सम्भव है। यही कारण है कि प्रथम प्ररूपणामे एक आवलि-
प्रमाण अवगु विकरपोंके रहते हुए भी उसका निर्देश नहीं दिया है।

४४५. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा दो बातोंका विचार किया। प्रथम तो यह विचार
किया कि पूर्व निकट स्थितिमें कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भोजन स्थितिवाले हैं और कौनसे
नर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अग्रहीन स्थितिवाले हैं। दूसरे इसके सम्बन्धसे प्रसंगानुसार अवगु
धिरानोंका कथन किया। अब प्रश्न अर्थके उपसंहार करनेकी इच्छासे अगला सूत्र कहते हैं—

* एक समय अधिक उद्यावलिकी जो अन्तिम स्थिति है उसके कर्म
परमाणुओंके इतने विकल्प होते हैं ।

४४५. इस उपसंहार सूत्रका अर्थ गतार्थ है। इस प्रकार विस्मरणावली शिष्योंको पूर्वोक्त
कर्मोंकी संख्या पर कर जब किन स्थितियोंकी प्ररूपणा उस स्थितिके समान है उनमें इन सब
विकल्पोंसे बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ एदे चेय वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावलिया तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स ।

§ ४४६ एदस्स सुत्तस्स अत्थो उच्चदे । तं जहा—जे ते पुव्वणिरुद्धसमयाहिय-उदयावलयचरिमद्विदीए दोहि वि परूवणाहि परूविदा वियप्पा एदे चेव अणूणाहिया वत्तच्चा जा दुसमयाहिया उदयावलिया तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स गिरुंभणं काऊण । णवरि पढमपरूवणाए कीरमाणाए एदिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिकंता वद्धस्स तं कम्मसुकुड्डणाए अवत्थु, हेट्ठिमाए चेव द्विदीए तस्स गिट्ठविदकम्मद्विदियत्तादो । तदो हेट्ठिमाणं पुण अवत्थुत्तं पुव्वं व अणुत्तसिद्धं । तस्सेव पदेसग्गस्स जइ दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिकंता तं कम्ममेत्थ आदेसो होंतं पि ण सकसुकुड्डिदुं; तत्तो उवरि सत्ति-द्विदीए एगस्स वि समयस्स अभावादो । तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि तिसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिकंता तं पि उक्कड्डणादो भ्मीणद्विदियं । एत्थ कारणमणंतरपरूविदं । एत्तो उवरि पुव्वं व सेसजहण्णावाहमेत्ता भ्मीणद्विदिय-वियप्पा उप्पाएयच्चा । तत्तो परमभ्मीणद्विदिया, जहण्णावाहमेत्तमविच्छाविय एकस्से द्विदीए णिक्खेवस्स तदणंतरउवरिमवियप्पे संभवादो । एदेण कारणेण अवत्थुवियप्पा

❀ दो समय अधिक उदयावलिक्की जो अन्तिम स्थिति है उस स्थितिके कर्म परमाणुओंके भी ये ही सबके सब विकल्प होते हैं ।

§ ४४६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक उदयावलिक्की अन्तिम स्थितिके दोनों ही प्ररूपणाओंके द्वारा जितने भी विकल्प कहे हैं न्यूनाधिक किये बिना वे सबके सब विकल्प यहां भी दो समय अधिक उदयावलिक्की अन्तिम स्थितिके कर्म परमाणुओंको विवक्षित करके कहने चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम प्ररूपणाके करने पर यदि बन्ध होनेके बाद कर्मपरमाणुओंकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें नहीं होते, क्योंकि इस विवक्षित स्थितिसे नीचेकी स्थितिमें ही उन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति समाप्त हो गयी है । किन्तु इससे नीचेकी स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंका इस विवक्षित स्थितिमें नहीं पाया जाना पहलेके समान अनुक्तसिद्ध है । उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु यद्यपि इस विवक्षित स्थितिमें पाये अवश्य जाते हैं परन्तु उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर शक्तिस्थितिका एक भी समय नहीं पाया जाता है । उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि तीन समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे मीन स्थितिवाले हैं । ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे मीन स्थितिवाले क्यों हैं इसका कारण पहले कह आये हैं । इसी प्रकार इसके आगे भी पहलेके समान बाकीके जघन्य आवाधाप्रमाण मीन स्थितिविकल्प उत्पन्न कर लेने चाहिये । इससे आगे अमीन स्थितिविकल्प होते हैं, क्योंकि इसके आगेके विकल्पमें जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके आवाधाके ऊपरकी एक स्थितिमें निक्षेप सम्भव है । इस कारणसे यहाँ अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं

रुवाहिया भीणद्विद्वियवियप्पा च रूवृणा होंति । अभीणद्विद्विएसु गत्थि पाणत्तं । विद्वियपरवृणाए वि एद्विस्से द्विदीए पदेसगस्स एगो समओ पवद्धस्स अइच्छिदो ति अवत्थु । दां समया पवद्धस्स अविच्छिदा ति अवत्थु । एवं णिरंतरं गंतूण आवत्थिया समयपवद्धस्स पुच्चं व अइच्छिदा ति अवत्थु । तिस्से चैव द्विदीए पदेसगस्स समयुत्तरावत्थिया वद्धस्स अइच्छिदा ति एसो आदेसो होज्ज । तं पुण पदेसगं कम्मद्विदि णो सक्कमुक्कड्डिदुं, समयाहियाए आवत्थियाए णिसेगं पडुच्च तिसमयाहियदां आवत्थियाहि वा ज्जणियं कम्मद्विदिं सक्कमुक्कड्डिदुं, तेत्थियमेत्तीए चैव सत्तिद्विदीए अवसेसादो ति । एत्तिओ चैव विसेसो गत्थि अण्णत्थ कत्थ वि । एसो चैव विसेसो मुत्तणिलीणो चैव पज्जवद्वियणयावलंबणेण परवृदो ण सुत्तवहिम्भूदो ति ।

अंतर मीन स्थितिविकल्प एक कम होते हैं । हों अभीन स्थितियोगे कोई भेद नहीं है । दूसरी प्ररूपणाके करने पर भी जिन कर्मपरमाणुओंको वन्ध करनेके बाद एक समय व्यतीत हुआ है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । जिन्हे बांधनेके बाद दो समय व्यतीत हुए हैं वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । इस प्रकार निरन्तर जाकर बांधनेके बाद जिन्हे एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । मात्र जिन कर्मपरमाणुओंको बांधनेके बाद एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें हैं । किन्तु उन कर्मपरमाणुओंका कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण नहीं हो सकता; किन्तु यत्स्थितिकी अपेक्षा एक समय अधिक एक आवलि कम कर्मस्थितिप्रमाण और निपेक्ष स्थितिकी अपेक्षा तीन समय अधिक दो आवलिकम कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता है; क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंमें उनकी ही शक्ति स्थिति शेष है । इस प्रकार इस स्थितिकी अपेक्षा इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र और कोई विशेषता नहीं । किन्तु यह विशेषता सूत्रमें गर्भित है जिसका पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे ग्रथन किया गया है । अतः यह विशेषता सूत्रके बाहर नहीं है ।

विशेषार्थ—पहले एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिकी प्रधानतासे दो प्रकार की प्ररूपणाओं द्वारा उत्कर्षणविषयक प्ररूपणा की गई रही । अब यहाँ दो समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिकी प्रधानतासे उत्कर्षण विषयक प्ररूपणा की गई है । तो सामान्यसे इन दोनों स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंकी अपेक्षा उत्कर्षण विषयक प्ररूपणाके कोई अन्तर नहीं है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा जो भी थोड़ा बहुत अन्तर है उसका उल्लेख टीकामें कर ही दिया है । पहली प्ररूपणाके अनुसार तो यह अन्तर बतलाया है कि एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें जितने अवस्तुविकल्प और भीन स्थितिविकल्प एते हैं उनसे इस विवक्षित स्थितिमें अवस्तु विकल्प एक अधिक और भीन स्थितिविकल्प एक कम होते हैं । पूर्वमें उद्यावलिके ऊपरकी प्रथम स्थितिकी लेकर विचार किया गया था, इसलिये अवस्तु विकल्प एक आवलिप्रमाण थे किन्तु यहाँ उद्यावलिके ऊपर तीसरी स्थितिकी लेकर विचार किया जा रहा है इसलिये यहाँ अवस्तु विकल्प एक अधिक हो गया है । और यहाँ प्राधान्यमें एक समय कम हो गया है इसलिये पहलेसे भीनस्थिति विकल्प एक कम हो गया है । तथा दूसरी प्ररूपणाके अनुसार निपेक्षस्थितिकी अपेक्षा उत्कर्षण एक समय घट गया है, एतद्विहित स्थितिकी उत्कर्षण हो रहा है उसमें एक समय बढ़ गया है, इसलिये भीनस्थितिमें एक समय घट जानेसे निपेक्षस्थितिकी अपेक्षा उत्कर्षण एक समय कम प्राप्त होता है ।

❀ एवं तिसमयाहियाए चदुसमयाहियाए जाव आवाधाए आबलि-
यूणाए एवदिमादो त्ति ।

. ४४७. एत्थ उदयावलि्याए इदि अणुवट्टे । तेणेवं संबंधो कायन्त्रो, जहा
समयाहियाए दुसमयाहियाए च उदयावलि्याए गिरुंभणं काऊण एदं वियप्पा
परुविदा, एवं तिसमयाहियाए चउसमयाहियाए उदयावलि्याए इच्चाट्टिदीणं पुव
पुव गिरुंभणं काऊण पुच्चुत्तासेसवियप्पा वत्तन्वा जाव आवाधाए आबलियूणाए
जाव चरिमट्टिदीं एवदिमादो त्ति । गवरि संतकम्पमस्सियुण अवन्थुवियप्पा ट्टिदि
पडि स्वाहियकमेण भ्मीणट्टिदियप्पा च स्ववृणकमेण णेद्ववा । पवकवंधमस्सियुण
णत्थि णाणनं । एदांमिं च ट्टिदीणमइच्छावणा स्ववृणादिकमेणाणवट्टिदा दट्टव्वा ।
आवाहाचरिमसमयादो उवरिमाणंतरट्टिदीए सव्वासि पि एदांसिमभ्मीणट्टिदियस्स
पदेमगस्स उक्कड्डुणाए णिकवेवुवलंभादो । ण एम क्रमो उवरिमासु ट्टिदीसु, तत्थ
आवन्थियमेत्तीए अइच्छावणा [ए] अयट्टिदमस्वेषुवलंभादो । एदस्स च विसेसस्स
अत्थिय तपस्वणट्टमेत्थ आवन्थियुणावाहाचरिमट्टिदीए सुत्तयारेण णिसेयपस्वणा-
विसवां कआं ।

❀ इमी प्रकार तीन समय अधिक और चार समय अधिक उदयावलिसे
लेकर एक आवलि क्रम आवाधा काल तक की पृथक् पृथक् स्थितियों पूर्वोक्त सब
विकल्प होते हैं ।

§ ४४७. इस सूत्रमें 'उदयावलि्याए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । उससे इस सूत्रका
इस प्रकार सन्बन्ध करना चाहिए कि जिस प्रकार एक समय अधिक और दो समय अधिक
उदयावलिको विवक्षित करके विकल्प कहे हैं उसी प्रकार तीन समय अधिक और चार समय
अधिक उदयावलि आदि स्थितियोंका पृथक्-पृथक् विवक्षित करके पूर्वोक्त सब विकल्प कहने चाहिये ।
इस प्रकार यह क्रम एक आवलि क्रम आवाधा काल तक जाता है । यही अन्तिम स्थिति है जहाँ
नक ये विकल्प प्राप्त होते हैं । किन्तु इनकी विशेषता है कि सत्कर्मकी अपेक्षा उत्तरांतर एक एक
स्थितिके प्रति अवस्तु विकल्प एक एक बढ़ता जाता है और मीन स्थितिविकल्प एक एक कम
होता जाता है । किन्तु नवकवन्धकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । फिर भी इन स्थितियोंकी
अतिस्थापना उत्तरांतर एक एक समय कम होती जानेके कारण वह अनवस्थित जाननी चाहिये;
क्योंकि आवाधाके अन्तिम समयसे आगेकी अनन्तर स्थितिमें इन सभी स्थितियोंके अमीन-
स्थितिवाले क्रमपरमाणुओंका उत्कर्षण होकर निक्षेप देखा जाता है । परन्तु यह क्रम एक
आवलिक्रम आवाधाकालसे आगेकी स्थितियोंमें नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर अवस्थितरूपसे
एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पाई जाती है । इस विशेषके अस्तित्वका कथन करनेके लिए
यहाँ पर एक आवलि क्रम आवाधाकी चरम स्थितिको सूत्रकारने निष्पेक प्ररूपणाका विषय
किया है ।

विशेषार्थ—एक समय अधिक उदयावलि और दो समय अधिक उदयावलिको
विवक्षित करके सामान्यसे जितने विकल्प प्राप्त हुए थे वे सबके सब विकल्प और कितनी स्थितियों-

ॐ आवलियाए समयूणाए ऊणियाए आवाहाए एवडिमाए द्विदीए जं पदेसगं तस्स के वियप्पा ।

४४८. पुव्वमावलियाए ऊणिया जा आवाहा तस्से चरिमद्विदीए पदेसग-
मवहिं काऊण हेट्टिमासेसद्विदीणं वियप्पा परूविदा । संपहि तदणंतरउवरिमाए
द्विदीए आवलियाए समयूणाए ऊणिया जा आवाहा एवडिमाए जं पदेसगं तस्स
के वियप्पा हंति ? ण ताव पुव्वुत्ता चंच गिरवसेसा, तंसे हेट्टिमाणंतरद्विदीए मज्जादा-
भावेण परूविदत्तादो । ण च तंसेमेत्थ वि संभवे तहा परूवणं सफलं होदि,
विप्पडिमेहादो । अह अण्णे, के ते ? ण तंसे सरूवं जाणामो चि एसो एदस्स

को विवक्षित करनेमें प्राप्त हो सकते हैं यह बात यहाँ बतलाई गई है । बात यह है कि एक समय
अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिमें कितनी स्थितियोंके कर्मपरमाणु सम्भव हैं और कितनी
स्थितियोंके नहीं । तथा उन स्थितिके कितने कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है और कितना
नहीं यह जैसे पहले बतलाया है वैसे ही एक धावलिकम आवाधाके भीतर सब स्थितियोंमें
समान्यसे वही क्रम बन जाता है, इसलिये इस सब कथनका सामान्यसे एक समान कड़ा है ।
रूनु विवक्षित स्थिति उत्तर चर आगे आगेकी हांती जानेके कारण अवस्तु विकल्प एक एक
पढ़ना जाता है और मीनन्वितिविकल्प एक एक कम होता जाता है । तथा अतिस्थापना भी
पढनी जाती है । जब समयधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण
विवक्षित था तब अतिस्थापना समयधिक आवलिये न्यून आवाधाकाल प्रमाण थी । जब दो
समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण विवक्षित हुआ तब
अतिस्थापना दो समय अधिक एक आवलिये न्यून आवाधाकाल प्रमाण रही । उसी प्रकार
आगे आगे अतिस्थापनामें एक एक समय कम होता जाता है । यहाँ इतना विशेष और जानना
चाहिए कि जिन हिंसावसे अतिस्थापना कम हांती जाती है उसी हिंसावसे शक्तिस्थिति भी
पढनी जाती है । अब देखना यह है कि यही क्रम आवलिकम आवाधासे आगेकी स्थितियों
का क्या नहीं बतलाया । टीकाकारने उन प्रश्नका यह उत्तर दिया है कि आवलियम आवाधासे
आगेकी स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होने पर अतिस्थापना निश्चितरूपसे एक
बाराल प्राप्त होती है । यही कारण है कि आवलिकम आवाधासे आगेकी स्थितियोंका क्रम
भिन्न प्रश्नमें बतलाया है ।

ॐ एक समय कम एक आवलिये न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिमें जो कर्म-
परमाणु पाये जाते हैं उनके कितने विकल्प होते हैं ।

४४९. पहले आवलिकम आवाधाकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी मर्यादा
परतु पूर्वो सब स्थितियोंके विकल्प को । जब यह बतलाना है कि उससे आगेकी जो एक
समय कम एक आवलिये न्यून आवाधा है और उसमें जो कर्मपरमाणु हैं उनके कितने विकल्प
होते हैं वह कम जाय कि पूर्वोक्त सब विकल्प होते हैं सो तो बात है नहीं, क्योंकि वे सब
विशेष रूपमें अन्तराली पूर्वोकी स्थिति तक ही कहे हैं । अब यदि उनको यहाँ भी सम्भव
मानकर उस प्रकार कथनो मरण कड़ा जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन करना
गिरिद है । अब यदि अन्य विचार होते हैं तो वे कौन हैं, क्योंकि हम उनके स्वरूपको नहीं

पुच्छासुत्तस्स भावत्थो । संपहि एदिस्से पुच्छाए उत्तरमाह—

✽ जस्स पदेसग्गस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिवकंता तं पि पदेसग्गमेदिस्से ट्ठिदीए णत्थि ।

§ ४४६. एदिस्से णिरुद्धाए ट्ठिदीए तं पदेसग्गं णत्थि जस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिवकंता । कुदो ? एत्तो दूरयरं हेट्ठदो ओसरिय तस्स अवट्ठाणादो । तत्तो पुण हेट्ठिमा आवलियमेत्ता अवत्थुवियप्पा अणुत्तसिद्धा त्ति ण परूविदा ।

✽ जस्स पदेसग्गस्स दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिवकंता तं पि णत्थि ।

§ ४४०. एत्थ एदिस्से ट्ठिदीए इदि अणुवट्ठदे । सेसं सुग्गं ।

जानते इस प्रकार यह इस पुच्छासूत्रका भावार्थ है । अब इस पुच्छाका उत्तर कहते हैं—

✽ जिन कर्म परमाणुओंकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें नहीं हैं ।

§ ४४६. इस विवक्षित स्थितिमें वे कर्म परमाणु-नहीं है जिनकी एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है; क्योंकि वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिसे बहुत दूर पीछे जाकर अवस्थित हैं । तथा इन कर्मपरमाणुओंसे पूर्वकी एक आवलिप्रमाण स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं है यह बात अनुक्तसिद्ध है, इसलिये इसका यहाँ कथन नहीं किया ।

विशेषार्थ—आबाधाकालमें से एक समय कम एक आवलिके घटा देने पर जो अन्तकी स्थिति प्राप्त हो वह यहाँ विवक्षित स्थिति है । अब यह विचार करना है कि इस स्थितिमें किन स्थितियोंके कर्मपरमाणु हैं और किनके नहीं । एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिसे यह विवक्षित स्थिति बहुत काल आगे जाकर प्राप्त होती है, इसलिये इस विवक्षित स्थितिमें एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिसे कर्मपरमाणु नहीं पाये जा सकते यह इस सूत्रका तात्पर्य है । किन्तु इस विवक्षित स्थितिमें एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिसे पूर्वकी एक आवलिप्रमाण स्थितियोंके कर्मपरमाणु भी तो नहीं पाये जाते फिर यहाँ उनका निषेध क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है । अतएव इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिये टीकामें यह वतलाया है कि जब अगली स्थितिसे कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें निषेध पर दिया तब इससे पिछली स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें निषेध बिना कहे ही हो जाता है, इसलिये उनके निषेधका यहाँ अलगसे उल्लेख नहीं किया ।

✽ जिन कर्मपरमाणुओंकी दो समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्म-स्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं ।

§ ४४०. इस सूत्रमें 'एदिस्से ट्ठिदीए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । शेष अर्थ सुग्गं है ।

ॐ एवं गंतूण जहेही एसा द्विदी एत्तिएण जणिया कम्मद्विदी विद्विक्कंता जस्स पदेसग्गस्स तमेदिस्से द्विदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उफट्टणादो भीण्हिदियं ।

§ ४५१. केहे ही एसा द्विदी ? जहेही समयूणावलियपरिहीणावाहा तहेही । मेसं सुगमं ।

ॐ एदं द्विदिमार्दिं कादूण जाव जहस्सियाए आवाहाए एत्तिएण जणिया कम्मद्विदी विद्विक्कंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए होज्ज । तं पुण सच्चमुक्कट्टणादो भीण्हिदियं ।

§ ४५२. कुदो ? अवट्टिदाए अइच्छावणाए आवलियमेतीए समयूणतणेण अज्ज वि संपुण्णात्ताभावादो । एदमेत्थतणचरिमवियप्पस्स वुत्तं, सेसासेसमञ्जिम-वियप्पाणं पि एदं चेव कारणं वत्तव्वं, विसेसाभावादो ।

* इस प्रकार आगे जाकर जितनी यह विवक्षित स्थिति है उससे न्यून शेष कर्मस्थिति जिन कर्मपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु इस स्थितिमें हो सकते हैं । परन्तु वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४५२. शंका—इस स्थितिका कितना प्रमाण है ?

समाधान—एक समय कम आयलसे न्यून आवाधा जितनी है उतना इस स्थितिका प्रमाण है ।

शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—इस सूत्रमे यह बतलाया है कि इस विवक्षित स्थितिमे किस स्थितिसे पूर्वके कर्मपरमाणु नहीं हैं और वह प्रारम्भकी कौनसी स्थिति है जिराके परमाणु इनमे हैं । जैसा कि पहले लिख आये हैं कि एग विवक्षित स्थितिमे जिन कर्मपरमाणुओंकी एक समय अधिक आयलमे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु नहीं हैं । जिनकी दो समय अधिक आयलमे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ते हुए जिनकी एक आयल न्यून आवाधाप्रमाण कर्मस्थिति शेष रही है वे कर्मपरमाणु भी उन विवक्षित स्थितिमे नहीं हैं । मात्र जिनकी एक समय कम आयलसे न्यून आवाधाप्रमाण कर्मस्थिति शेष है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमे अवश्य पाये जाते हैं । फिर भी उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकना, क्योंकि इनमे एक समयमात्र भी शक्ति-स्थिति नहीं पाई जानी है यह उन सूत्रका भाव है ।

* इस स्थितिमे लेकर जघन्य आवाधा तक जितनी स्थिति है उससे न्यून कर्मस्थिति जिन कर्मपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें हैं परन्तु वे सबके सब उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४५२. क्योंकि अबनियत शक्तिन्यापना एक आयलनिप्रमाण बतलाइ है वह एक समय एक शक्तिमे कर्म की नहीं होई है । यह नहीं अनिगम विवक्षका कारण कहा है । चाकीके सब कारण विवक्षका भी नहीं कारण बतला जाचिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

§ ४५३. संपहियारिरुद्धिदीए पुञ्चमादिद्वहेद्विमद्विदीणं च साधारणी एसा परूवणा; तत्थ वि आवाहामेतावसेसकम्मद्विदियस्स पदेसग्गस्स भीणद्विदियत्तुव-
लंभादो । संपहि एत्थतणअसामण्णवियप्पपरूवणद्वमुत्तरो पबंथो—

❀ आवाधाए समयुत्तराए ञ्णिया कम्मद्विदी विदिककता जस्स पदेसग्गस्स तं पि एदिस्से द्विदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उक्कड्डुणादो भीणद्विदियं ।

§ ४५४. जइ वि एत्थ अइच्छावणा आवलियमेती पुएणा तो वि णिवस्सेवा-
धावेण उक्कड्डुणादो भीणद्विदियत्तमिदि घेतव्वं । कुदो णिवस्सेवाभावो ? आवलियमेत्तं
मोत्तूण उवरि सत्तिद्विदीए अभावादो । एसो एत्थ णिरुद्धिदीए संतकम्मपस्सियूण

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमे यह वतलाया है कि इस विवक्षित स्थितिमें स्थित किस स्थिति तकके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता । यह तो पहले ही वतला आये हैं कि एक समय कम एक आवलियसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे सर्वत्र अतिस्थापना एक आवलि प्राप्त होती है । अब जब इस नियमका सामने रखकर विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन कर्मपरमाणुओंकी एक समय कम एक आवलियसे न्यून आवाधा प्रमाण स्थितिसे लेकर आवाधाप्रमाण स्थिति शेष है उनका भी उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्रारम्भके विकल्पमें एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति या अतिस्थापना नहीं पाई जाती । दूसरे विकल्पमे अतिस्थापना केवल एक समयमात्र पाई जाती है । तीसरे विकल्पमें दो समय अतिस्थापना पाई जाती है इस प्रकार आगे आगे जाने पर अन्तिय विकल्पमे वह अतिस्थापना एक समय कम एक आवलि पाई जाती है । परन्तु पूरी आवलिप्रमाण अतिस्थापना किसी भी विकल्पमें नहीं पाई जाती इसलिये इन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता यह इस सूत्रका भाव है ।

§ ४५३. किन्तु इस समय जो स्थिति विवक्षित है और इससे पूर्वकी जो स्थितियाँ विवक्षित रही उन दोनोंके प्रति यह प्ररूपणा साधारण है; क्योंकि वहाँ भी जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति आवाधाप्रमाण शेष रही है उनमे भीनस्थितिपना स्वीकार किया गया है । अब इस स्थितिराम्बन्धी असाधारण विकल्पका कथन करनेके लिये आगेकी रचना है—

❀ जिन कर्मपरमाणुओंकी एक समय अधिक आवाधासे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें हैं पर वे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४५४. यद्यपि यहाँ एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पूरी हो गई है तो भी निक्षेपका अभाव होनेसे वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं यह यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—निक्षेपका अभाव क्यों है ?

समाधान—क्योंकि इन कर्मपरमाणुओंकी एक आवलिके सिवा और अधिक शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती, इसलिये निक्षेपका अभाव है ।

इस विवक्षित स्थितिमें सत्कर्मकी अपेक्षासे जो यह विकल्प विशेष कदा है सो यह

हेद्विल्लद्विदीहितो अपुणरुतो वियप्पविसेसो हेद्विमद्विदिपदेसग्गणामाहासेसमेत्त-
मधिच्छाविय तदणंतरोवरिमाए एकस्से द्विदीए णिकखेवुवलंभादो । णवकबंध-
मस्सियूण पुण आवलियमेत्ता चेय अवत्थुवियप्पा पुच्चं व सब्वत्थ अख्खाहिया होंति
त्ति णत्थि तत्थ णाणत्तं । णवरि पुच्चपरुवविदाणमावलियमेत्तणवकबंधाणं मज्झे
पढमसमयपदद्धस्सावलियाविच्छिदबंधस्स जहा णिसेयसरुव्हेण वत्थुत्तमेत्थ दीसइ,
हेद्विमसमए चेव तदावाहापरिच्छित्तिदंसणादो । तं पि कुदो ? जहण्णावाहाए चेव
सब्वत्थ विवक्खियत्तादो । कथं पुण संपुण्णावलियमेत्तपमाणमेत्थ तच्चियप्पाणमिदि
णासंकणिज्जं, त्कालियणवकबंधेण सह तेसि तदविरोहादो । एत्तिओ चेव विसेसो,
णत्थि अण्णो को इ विसेसो त्ति जाणावणद्वमृत्तरमुत्तं—

❧ तेण परमज्झीणद्विदियं ।

§ ४४५. ततो समयुत्तरवाहापरिहीणविदिवक्तकम्मद्विदियादो णिरुद्धद्विदि-
पदेसग्गदो परमण्णं पदेसग्गमज्झीणद्विदियमुक्कड्डणादो त्ति अहियारवसेणाहिसंबंधो ।
कुदो एदमज्झीणद्विदियं ? अधिच्छावणा-णिकखेवाणमेत्थ संभवादो । केत्तियमेत्ती

विकल्प पूर्वकी स्थितियोसे अपुनरुत्त है; क्योकि पूर्वकी स्थितियोके कर्मपरमाणुओकी जो
आवाधा शेष रहती है उसे अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके उससे आगेकी एक स्थितिमें
निक्षेप पाया जाता है । नवकबन्धकी अपेक्षा तो सर्वत्र न्यूनाधिकतासे रहित पहलेके समान एक
आवलिप्रमाण ही अवस्तु विकल्प होते हैं, इसलिये उनके कथनमें सर्वत्र कोई भेद नहीं है ।
किन्तु इतनी विरोधता है कि पहले जो एक आवलिप्रमाण नवकबन्ध कहे हैं उनमेंसे जिसे
बंध एक आवलि हो गया है ऐसे प्रथम समयप्रवद्धके निपेकोकी जैसा रचना हुई उसके अनुसार
सद्भाव यहाँ विवक्षित स्थितिमें दिखाई देता है; क्योकि इससे पूर्वके समयमें ही उस समयप्रवद्धके
आवाधाका अन्त देखा जाता है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—क्योकि सर्वत्र जघन्य आवाधा ही विवक्षित है ।

यदि ऐसा है तो फिर यहाँ पर नवकबन्धसम्बन्धी अवस्तुविकल्प पूरी आवलिप्रमाण
कैसे हो सकते हैं सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योकि तत्कालिक नवकबन्धके साथ
उन्हे पूरी आवलिप्रमाण माननेमें कोई विरोध नहीं आता । यहाँ इतनी ही विरोधता है अन्य
कोई विशेषता नहीं है इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❧ उससे आगे अभीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

§ ४४५. हमसे आगे अर्थात् पहले जो एक समय अधिक आवाधासे हीन कर्मस्थिति
और इस स्थितिके जो कर्मपरमाणु कहे हैं उनसे आगे अन्य कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभीन
स्थितिवाले हैं ऐसा यहाँ अधिकारके अनुसार अर्थ करना चाहिये ।

शंका—ये कर्म परमाणु अभीन स्थितिवाले क्यों है ?

समाधान—क्योकि यहाँ अतिस्थापना और निक्षेप दोनो सम्भव हैं ।

एत्थतणी अधिच्छावणा ? आवलियमेत्ती अवट्टिदा चेयमुवरि सन्वत्थ । केत्तिओ पुण एत्थ णिकखेवो ? एओ समओ । सो च अणवट्टिओ समउत्तरादिकमेण उवरिम-
वियप्पेसु वट्टमाणो गच्छइ ।

§ ४५६. संपहि पयदट्टिदीए वियप्पे समाणिय उवरिमासु ट्टिदीसु वियप्पगवेसंणं कुणमाणो चुण्णिमुत्तयारो इदमाह—

❀ समयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा । एदिस्से ट्टिदीए वियप्पा समत्ता ।

§ ४५७. सुगमं ।

❀ एदादो ट्टिदीदो समयुत्तराए ट्टिदीए वियप्पे भणिस्सामो ।

शंका—यहाँ अतिस्थापनाका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक आवली, जो कि आगे सर्वत्र अवस्थित ही जानना चाहिये ।

शंका—यहाँ निक्षेपका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक समय जो कि अनवस्थित है, क्योंकि वह आगेके विकल्पोंमें एक-एक समय अधिकके क्रमसे बढ़ता जाता है ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाकर कि एक समय कम आवलियसे न्यून आवाधाप्रमाण कर्मस्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति एक समय अधिक आवाधाप्रमाण शेष हो उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके रहने पर भी निक्षेपका सर्वथा अभाव है । अब यह बतलाया गया है कि उसी विवक्षित स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उक्त स्थितिसे अधिक शेष हो उनका उत्कर्षण हो सकता है । यहाँ सर्वत्र अतिस्थापना तो एक आवलिप्रमाण ही प्राप्त होती है न्यूनाधिक नहीं । पर निक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । यदि पूर्वस्थितिसे एक समय अधिक स्थिति शेष हो तो निक्षेप एक समय प्राप्त होता है । यदि दो समय अधिक शेष हो तो निक्षेप दो समय प्राप्त होता है । इस प्रकार आगे आगे शेष रही स्थितिके अनुसार निक्षेप बढ़ता जाता है ।

§ ४५६. अब प्रकृत स्थितिमें विकल्पोंको समाप्त करके आगेकी स्थितियोंमें विकल्पोंका विचार करते हुए चुण्णिसूत्रकार आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ विवक्षित स्थितिमें एक समय कम आवलियसे न्यून आवाधाप्रमाण अवस्तु विकल्प होते हैं । इस प्रकार इस स्थितिके विकल्प समाप्त हुए ।

४५७. यह सूत्र सरल है ।

विशेषार्थ—विवक्षित स्थिति दो समय कम आवलियसे न्यून आवाधाकी अन्तिम स्थिति है, अतः इसमें, जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उदय समयसे लेकर एक समय कम आवलियसे न्यून आवाधाकाल तक शेष रही है, वे कर्मपरमाणु नहीं पाये जाते । इसीसे इस विवक्षित स्थितिमें एक समय कम आवलियसे न्यून आवाधाप्रमाण अवस्तुविकल्प बतलाये हैं ।

❀ अब इस स्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे ।

§ ४५८. इमादो पुव्वणिरुद्धद्विदीदो समयुत्तरा जा द्विदी तिरुसे पदेसग्गस्स अवत्थुवियप्पे भीणाभीणद्विदियवियप्पे च भणिससामो त्ति सुत्तत्थो ।

✽ सा पुण का द्विदी ।

§ ४५९. सा पुण संपहि णिरुंभिज्जमाणा का द्विदी, कइत्थी सा, उदयद्विदीदो केत्तियमद्धानमुवरि चडिय ववद्विदा, आवाहा चरिमसमयादो वा केत्तियमेत्तमोइण्णा त्ति एवमासंक्रिय सिससं गिरारेयं काउमुत्तरसुत्तं भणइ—

✽ दुसमयूणाए आवलियाए उणिया जा आवाहा एसा सा द्विदी ।

§ ४६०. जेत्तिया दुसमयूणाए आवलियाए उणिया आवाहा एसा सा द्विदी, एवद्विदा सा द्विदी जा संपहि वियप्पपरूवणद्वमाइदा । उदयद्विदीदो दुसमयूणावलिय-परिहीणावाहामेत्तमद्धानमुवरि चडिय आवाहाचरिमसमयादो दुसमयूणावलियमेत्तं हेद्वदो वोसरिय पुव्ववाणंतरणिरुद्धद्विदीए उवरि द्विदा एसा द्विदि त्ति वुत्तं होइ ।

✽ इवाणिमेदिससे द्विदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया ।

§ ४६१. सुगमं ।

✽ जावदिया हेद्विल्लियाए द्विदीए अवत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा ।

§ ४५८. इससे अर्थात् पूर्व विवक्षित स्थितिसे जो एक समय अधिक स्थिति है उस स्थितिके कर्मपरमाणुओके अवस्तुविकल्प और भीनाभीन स्थितिविकल्प कहेंगे यह इस सूत्रका भाव है ।

✽ वह कौनसी स्थिति है ?

§ ४५९. जो इस समय विवक्षित है वह कौनसी स्थिति है, उसका क्या प्रमाण है, उदयस्थितिसे कितना स्थान आगे जाकर वह स्थित है, या आवाधाके अन्तिम समयसे कितना काल पीछे जाकर वह पाई जाती है इस प्रकारकी शंका करनेवाले शिष्यको निःशंका करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ दो समय कम आवलिसे न्यून जो आवाधा है यह वह स्थिति है ।

§ ४६०. दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाका जितना प्रमाण हो इतनी वह स्थिति है जो इस समय विकल्पोका कथन करनेके लिये विवक्षित है । उदय स्थितिसे दो समय कम आवलिसे हीन आवाधाप्रमाण स्थान आगे जाकर और आवाधाके अन्तिम समयसे दो समय कम आवलिप्रमाण स्थान पीछे जाकर पूर्वोक्त अनन्तरवर्ती विवक्षित स्थितिके आगे यह स्थिति है यह इस सूत्रका भाव है ।

✽ अब इस स्थितिके अवस्तुविकल्प कितने हैं ।

§ ४६१. यह सूत्र सरल है ।

✽ पिछली स्थितिके जितने अवस्तु विकल्प हैं उनसे एक अधिक है ।

§ ४६२. संतकम्ममस्सियुण जेतिया अणंतरहेट्ठिमाए अवत्थुवियप्पा तदो रूबुत्तरा एत्थ ते वत्तवा, तत्तो रूबुत्तरमद्दाणं चडिय एदिस्से अवट्ठाणादो । एदं रूबुत्तरवयणमंतदीवयं । तेण हेट्ठिमासेसट्ठिदीणमवत्थुवियप्पा अणतराणंतरादो रूबुत्तरा ति घेत्तव्वं । एदं च संतकम्ममस्सियुण परूविदं, ण णवकवंधमस्सिय, तथावलयि-
मेत्ताणमवत्थुवियप्पाणमवट्ठिदसरूवेणावट्ठाणादां । एवमवत्थुवियप्पे परूविय वत्थु-
वियप्पाणं भीणाभीणट्ठिदियभेदभिष्णाणं परूवणट्ठसुत्तरो पवंधो—

❊ जहेही एसा ट्ठिदी तत्तियं ट्ठिदिसंतकम्मं कम्मट्ठिदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तं पयेसग्गमेदिस्से ट्ठिदीए होज्ज तं पुण उक्कड्डणादो भीणट्ठिदियं ।

§ ४६३. कुदो ? उवरि सत्तिट्ठिदीए एयस्स वि समयस्स अभावादो ।

❊ एदादो ट्ठिदीदो समयुत्तरट्ठिदिसंतकम्मं कम्मट्ठिदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तसुक्कड्डणादो भीणट्ठिदियं ।

§ ४६४. सुगम ।

❊ एवं गंतूण आवाहामेत्तट्ठिदिसंतकम्मं कम्मट्ठिदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदीए ट्ठिदीए दीसइ तं पि उक्कड्डणादो भीणट्ठिदियं ।

§ ४६२. सत्कर्मकी अपेक्षा जितने अनन्तरवर्ती पिछली स्थितिके अवस्तुविकल्प हैं उनसे एक अधिक यहाँ वे विकल्प हैं, क्योंकि पूर्वस्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति अवस्थित है। इस सूत्रमें जो 'रूबुत्तरा' वचन आया है सो यह अन्तदीपक है। इससे यह मालूम होता है कि पीछे सर्वत्र पूर्व पूर्व अनन्तरवर्ती स्थितिसे आगे आगेकी स्थितिके अवस्तु विकल्प एक एक अधिक होते हैं। यह सब सत्कर्मकी अपेक्षासे कहा है, नवकवन्धकी अपेक्षासे नहीं, क्योंकि नवकवन्धकी अपेक्षासे सर्वत्र एक आवलिप्रमाण ही अवस्तुविकल्प पाये जाते हैं। इस प्रकार अवस्तुविकल्पोका कथन करके भीनाभीनस्थितियोंकी अपेक्षासे अनेक प्रकारके वस्तुविकल्पोका कथन करनेके लिये आगेकी रचना है—

❊ जितनी यह स्थिति है उतना स्थितिसत्कर्म जिन कर्मपरमाणुओंका शेष है व कर्मपरमाणु इस स्थितिमें हैं। किन्तु वे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं ।

§ ४६३. क्योंकि ऊपर एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती है ।

❊ इस स्थितिसे जिन कर्मपरमाणुओंका कर्मस्थितिमें एक समय अधिक स्थिति-सत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं ।

§ ४६४. यह सूत्र सरल है ।

❊ इसी प्रकार आगे जाकर कर्मस्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंका आवाधा-प्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । परन्तु वे भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

१ ४६५. एत्थ तं पि सद्धो आविहृत्तीए दोवारमहिंसंबंधेयव्वो । तं पि पदेसग्ग-
मेदिस्से द्विदीए टीसइ । दिस्समाणं पि तमुक्कहुणादो भीणद्विदियमिदि ।

❁ आवाहासमयुत्तरमेत्तं द्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स
पदेसग्गस्स तं पि उक्कहुणादो भीणद्विदियं ।

१ ४६६. कम्मद्विदीए अब्भंतरे जस्स पदेसग्गस्स समयुत्तरावाहामेत्तद्विदि-
संतकम्मवसेसं तं पि एदिस्से द्विदीए द्विटमुक्कहुणादो भीणद्विदियं । कुदो ?
अधिच्छावणाए अज्ज वि समयुत्तदंसणादो ।

❁ आवाधादुसमयुत्तरमेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स
पदेसग्गस्स एदिस्से द्विदीए दिस्सइ तं पदेसग्गमुक्कहुणादो भीणद्विदियं ।

१ ४६७. कुदां अधिच्छावणाए आवलियमेत्तीए संपुण्णाए संतीए भीणद्विदियत्त-
मेदस्स ? ण, णिकखेवाभावणे तद्वाभावाविरोहादो ।

१ ४६५. इस सूत्रमें 'तं पि' शब्दकी आवृत्ति करके दो वार सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।
यथा—वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । पाये जाकर भी वे उत्कर्षणसे भीन
स्थितिवाले हैं ।

❁ तथा जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थितिमें एक समय अधिक आवाधा-
प्रमाण स्थिति शेष है वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

१ ४६६. कर्मस्थितिके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंका एक समय अधिक आवाधाप्रमाण
स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी यद्यपि इस स्थितिमें हैं तो भी वे उत्कर्षणसे भीन
स्थितिवाले हैं, क्योंकि अभी भी अतिस्थापनामें एक समय कम देखा जाता है ।

❁ कर्मस्थितिके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंका दो समय अधिक आवाधा-
प्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । परन्तु
वे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

१ ४६७. शंका—जब कि अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण पूरी है तब इन कर्म-
परमाणुओंमें भीनस्थितिपना कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि निक्षेपका अभाव होनेसे इन कर्मपरमाणुओंमें भीनस्थिति-
पनेके होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—इन पूर्वोक्त सूत्रोंमें यह बतलाया है कि तीन समय अधिक आवलिसे न्यून
आवाधाप्रमाण स्थितिमें भीनस्थिति विकल्प कहाँसे लेकर कहाँ तक होते हैं । यह तो पहले ही
बतलाया जा चुका है कि एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे
सर्वत्र अतिस्थापना एक आवलि प्राप्त होती है । विवक्षित स्थिति भी उक्त स्थितिसे दो समय
आगे जाकर प्राप्त है, इसलिये इसमें भी अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवलि प्राप्त होता है ।
आशय यह है कि इस स्थितिमें जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनमेंसे जिनकी स्थिति उसी विवक्षित

❀ तेण परमुक्कड्डणादो अभीणट्टिदियं ।

§ ४६८. आवलियमेत्तमइच्छावि एक्किस्से अणंतरोवरिमट्टिदीए णिक्खेवुव-
ल्लंभादो उवरि णिक्खेवस्स समयुत्तरकमेण वड्ढिदंसणादो च ।

❀ दुस्समयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एवडिमाए ट्टिदीए
वियप्पा स्समत्ता ।

❀ एत्तो समयुत्तराए ट्टिदीए वियप्पे भणिस्सामो ।

§ ४६९. एत्तो समणंतरविदिवक्कंठणिरुद्धट्टिदीदो जा समयुत्तरा ट्टिदी तिस्से
वियप्पे अवत्थु भीणाभीणट्टिदियभेदभिण्णे भणिस्सामो ति पइज्जामुत्तमेदं ।

❀ एत्तो पुण ट्टिदीदो समयुत्तरा ट्टिदी कदमा ।

§ ४७०. सुगमं ।

❀ जहणिया आवाहा तिसमयूणाए आवलियाए ऊणिया
एवडिमा ट्टिदी ।

स्थितिप्रनाए या उससे एक समयने लेकर एक आवलि तक अधिक हैं उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अग्निम विकल्पमे यद्यपि अतिस्थापना पूरी हो गई है तो भी निक्षेपका सर्वत्र अभाव है ।

* उससे आगे उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

§ ४६८. क्योंकि यहाँ एक आवलिप्रमाण स्थितियोंको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके अनन्तरवर्ती आगेकी एक स्थितिमें निक्षेप देखा जाता है और आगे भी एक एक समय अधिकके क्रमसे निक्षेपकी वृद्धि देखी जाती है ।

विशेषार्थ—दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिमें जिन कर्म-
परमाणुओंकी स्थिति तीन समय अधिक आवाधा प्रमाण या इससे भी अधिक है उन कर्म-
परमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि यहाँ अतिस्थापना और निक्षेप दोनों पाये जाते हैं
यह इस सूत्रका आशय है ।

* दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिके विकल्प समाप्त हुए ।

* अब इस पूर्वोक्त स्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे ।

§ ४६९. अब इस समनन्तर व्यतीत हुई विवक्षित स्थितिसे जो एक समय अधिक स्थिति
है उसके अवस्तु और भीनाभीन स्थितियोंकी अपेक्षा नाना प्रकारके विकल्पोंको कहेंगे इस प्रकार
यह प्रतिज्ञा सूत्र है ।

* किन्तु इस स्थितिसे एक समय अधिक स्थिति कौन सी है ।

§ ४७०. यह सूत्र सुगम है ।

* तीन समय कम आवलिसे न्यून जग्न्य आवाधाका जितना प्रमाण है यह
वह स्थिति है ।

§ ४७१. उदयद्विदीदो तिसमयूणावलयपरिहीणजहण्णावाहामेतमुवरि चडिय आवाहाचरिमसमयादो तिसमयूणावलयमेत्तमोदरिय एसा द्विदी द्विदा ति चुचं होदि । एदिस्से द्विदीए केत्तिया वियप्पा होंति ति सिस्साभिप्पायमासंकिय एत्तियमेत्ता होंति ति जाणावणद्दमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

✽ एदिस्से द्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा । एवरि अवत्थुवियप्पा रूवुत्तरा ।

§ ४७२. एदिस्से संपहि णिरुद्धिदीए एत्तिया चेव वियप्पा होंति जेत्तिया अणंतरहेट्टिमाए । णवरि संतकम्ममस्सियूण अवत्थुवियप्पा रूवुत्तरा होंति, तत्तो रूवुत्तरमेत्तमद्दाणमुवरि गंतूणावहाणादो ।

✽ एस कमो जाव जहणिया आवाहा समयुत्तरा ति ।

§ ४७३. एस अणंतरपरूविदो कमो जाव जहणिया आवाहा समयुत्तरा ति अवद्विदाणं दुसमयूणावलयमेत्तियाणमुवरिमद्विदीणं पि अणूणाहिओ जाणेयव्वो, विसेसाभावादो । णवरि आवाहाचरिमसमयादो अणंतरोवरिमाए द्विदीए णवकबंध-मस्सियूण अवत्थुवियप्पा ण लब्धंति । आवाहाए वाहिं तक्कालियस्स वि णवकबंध-

§ ५७१. उदय स्थितिसे तीन समय कम आचलितसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान आगे जाकर और आवाधाके अन्तिम समयसे तीन समय कम एक आचलिप्रमाण स्थान पीछे आकर यह स्थिति स्थित है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस स्थितिमें कितने विकल्प होते हैं इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायानुसार आशंका करके इतने विकल्प होते हैं यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

✽ इस स्थितिमें इतने ही विकल्प होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं ।

§ ४७२. इस समय जो स्थिति विवक्षित है उसमें इतने ही विकल्प होते हैं जितने अनन्तर पूर्ववर्ती स्थितिमें बतला आये हैं । किन्तु सत्कर्मकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं, क्योंकि पूर्व स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति अवस्थित है ।

विशेषार्थ—पूर्व स्थितिसे इस स्थितिमें और कोई विशेषता नहीं है, इसलिये इसके और सब विकल्प तो पूर्व स्थितिके ही समान हैं । किन्तु अवस्तुविकल्पमें एककी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पूर्व स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति स्थित है यह इस सूत्रका भाव है ।

✽ एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिये ।

§ ४७३. यह जो इससे पहले क्रम कहा है वह एक समय अधिक जघन्य आवाधाके प्राप्त होने तक जो दो समय कम एक आचलिप्रमाण स्थितियाँ अवस्थित हैं उन आगेकी स्थितियोंका भी न्यूनाधिकताके बिना पूर्ववत् जानना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि आवाधाके अन्तिम समयसे अनन्तर स्थित आगेकी स्थितिमें नवकबंधकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं पाये जाते, क्योंकि आवाधाके बाहर जिस

पदेसणितेयस्स पडिसेहाभावादो ।

❁ जहणियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि एत्थि उक्कण्णपादो भीणट्टिदियं ।

§ ४७४. एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थपरूवणा सुगमा । एत्थ चोदओ भणदि—
दुसमयुत्तरजहणणावाहाओ उवरिमट्टिदीसु वि उक्कण्णपादो भीणट्टिदियं पदेसग्गपत्थि,
तत्थेव णिट्ठियकम्मट्टिदियसमयपवद्धपदेसग्गपहुडि अइच्छावणावत्थियमेत्ताणमेत्थ
भीणट्टिदियवियप्पाणमुवलंभादो । ण च णवक्कबंधमस्सिस्यूण अवत्थुवियप्पा गत्थि
त्ति तथा परूवणं णाइयं, तेसिमेत्थ पहाणत्ताभावादो । तदो आवत्थियमेत्तेसु भीण-
ट्टिदियवियप्पेसु आवाहादो उवरि वि ट्टिदिं पडि लब्धमाणेसु किमेदं बुच्चदे—
आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि एत्थि उक्कण्णपादो भीणट्टिदियमिदि ? एत्थ परिहारो
बुच्चदे—उक्कण्णपादो भीणा ट्टिदी जस्स पदेसग्गस्स तमुक्कण्णपादो भीणट्टिदियं
णाम । ण च एदं दुसमयुत्तरावाहपहुडि उवरिमासु ट्टिदीसु संभवइ, तत्थ समाणिद-

समय बन्ध होता है उस समय भी नवकबन्धके निषेकोका प्रतिषेध नहीं है ।

विशेषार्थ—तीन समय कम आवलित्से न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिके सम्बन्धमे जो क्रम कहा है वही क्रम एक समय अधिक आवाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक भी प्रत्येक स्थितिका जानना चाहिये यह इस सूत्रका आशय है । किन्तु आवाधाप्रमाण स्थितित्से आगेकी स्थितिमें नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं पाये जाते, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये । इसका कारण यह है कि आवाधाके भीतर निषेकरचना नहीं होनेके कारण सर्वत्र एक आवलि-
प्रमाण अवस्तुविकल्प प्राप्त हो जाते हैं । पर आवाधाके बाहर तां प्रारम्भसे ही निषेकरचना पाई जाती है, इसलिये यहाँ नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है ।

❁ दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितित्से लेकर आगे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु नहीं हैं ।

§ ४७४. इस सूत्रके प्रत्येक पदका व्याख्यान सुगम है ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितित्से लेकर आगेकी स्थितियोंमें भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, क्योंकि समयप्रबद्धके जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति यहाँ समाप्त हो गई है उन कर्मपरमाणुओंसे लेकर अतिस्थापनावलिप्रमाण भीनस्थितिविकल्प यहाँ पाये जाते हैं । यदि कहा जाय कि नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं हैं, इसलिये ऐसा कथन करना न्याय्य है सो भी बात नहीं है, क्योंकि उनकी यहाँ प्रधानता नहीं है । इसलिए जब कि आवाधासे ऊपर प्रत्येक स्थितिके प्रति एक आवलिप्रमाण भीनस्थितिविकल्प पाये जाते हैं तब फिर यह क्यों कहा जाता है कि दो समय अधिक आवाधाप्रमाण स्थितित्से आगे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु नहीं हैं ?

समाधान—अब यहाँ इस शंकाका परिहार करते हैं—जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उत्कर्षणसे भीन है वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले कहलाते हैं । किन्तु यह अर्थ दो समय अधिक आवाधासे आगेकी स्थितियोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि समयप्रबद्धके जिन

कम्मट्टिदियसमयपवद्धपडिबद्धपदेसग्गस्स ओकड्डणाए आवाहाब्भंतरे णिक्खित्तस्स पुणो वि उक्कड्डियूण आवाहादो उवरि णिक्खेवसंभवेण तत्तो भीणट्टिदियत्ताणुव-
लंभादो । ण च णिरुद्धट्टिदीए चेव समवट्टिदाणमुक्कड्डणा ण संभवदि त्ति तत्तो
भीणट्टिदियत्तं वोत्तुं लुत्तं, जत्थ वा तत्थ वा ट्टिदस्स णिरुद्धट्टिदिपदेसग्गस्स
उक्कड्डणासत्तीए अच्चंताभावस्सेह विवक्खियत्तादो । एसा सन्वा वि उक्कड्डणादो
भीणाभीणट्टिदियाणमट्टपदपरूवणा ओयेण मूलुत्तरपयडिविसेसविवक्खमक्काऊण
सामण्णेण परूविदा । एत्तो सन्वासु वि मग्गणासु सगसगजहण्णावाहाओ अस्सियूण
पुथ पुथ सन्वकम्माणमादेसपरूवणा कायन्वा ।

❖ एवमुक्कड्डणादो भीणट्टिदियस्स अट्टपदं समत्तं ।

❖ एत्तो संकमणादो भीणट्टिदियं ।

§ ४७५. एत्तो उवरि संकमणादो भीणट्टिदियं भणिस्सामो त्ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❖ जं उदयावलियपविट्ठं तं, एत्थि अण्णो वियप्पो ।

§ ४७६. एत्थ संकमणादो भीणट्टिदियमिदि अणुवट्टे । तेण जसुदयावलियं
पइट्ठं तं संकमणादो भीणट्टिदियं होदि त्ति संबंधो कायन्वो । कुदो उदयावलियब्भंतरे

कर्मपरमाणुओंने वहाँ अपनी स्थिति समाप्त कर ली हो उनको अपकर्षण द्वारा आवाधाके भीतर
निश्चित कर देने पर उत्कर्षण होकर फिर भी उनका आवाधाके ऊपर निक्षेप सम्भव है, इसलिये
उनमें उत्कर्षणसे भीनस्थितिपना नहीं पाया जाता ।

यदि कहा जाय कि विवक्षित स्थितिमें हो अवस्थित रहते हुए इनका उत्कर्षण सम्भव नहीं
है, इसलिये इन्हें उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाला कहना युक्त है सो भी बात नहीं है, क्योंकि विवक्षित
स्थितिके कर्मपरमाणु कहीं भी स्थित रहे किन्तु यहाँ तो उत्कर्षणशक्तिका अत्यन्त अभाव
विवक्षित है । उत्कर्षणसे भीनाभीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी यह सबकी सब अर्थपदप्ररूपणा
ओषसे मूल और उत्तर प्रकृतिविशेषकी विषयता न करके सामान्यसे यहाँ कही है । आगे
सभी भागोंआओमें अपनी अपनी जघन्य आवाधाओंकी अपेक्षा पृथक्-पृथक् सब कर्मोंकी
आदेशप्ररूपणा करनी चाहिये ।

* इस प्रकार उत्कर्षणसे भीनस्थितिक प्रदेशाग्रका अर्थपद समाप्त हुआ ।

* अब इससे आगे संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं ।

§ ४७५. इससे आगे संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारको कहेंगे इस प्रकार यह
प्रतिज्ञासूत्र है ।

* जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे संक्रमणसे भीनस्थितिवाले
हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ दूसरा विकल्प नहीं है ।

§ ४७६. इस सूत्रमें 'संकमणादो भीणट्टिदियं' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । इससे इस
सूत्रका यह अर्थ होता है कि जो कर्म उदयावलिके भीतर स्थित हैं वह कर्म संक्रमणसे भीन-

संकमो गत्थि ? सहावदो । एत्तिओ चेव संकमणादो भ्नीणद्विद्विओ पदेसविसेसो
त्ति जाणावणद्वेदं मुत्तं । गत्थि अण्णो वियप्यो त्ति उदयावलियवाहिरद्विद्विपदेसगं
बंधावलियवदिकं तं सव्वमेव संकमपाओग्गत्तेण तत्तो अन्नीणद्विद्वियमिदि बुत्तं होइ ।

❀ उदयादो भ्नीणद्विद्वियं ।

§ ४७७. एत्तो उदयादो भ्नीणद्विद्वियं बुच्चइ त्ति अहियारसंभालणमुत्तमेदं ।

❀ जमुद्दिणं तं, एत्थि अण्णं ।

§ ४७८. एत्थ जमुद्दिणं दिण्णफलं होऊण तक्कालगळमाणं तमुदयादो भ्नीण-
द्विद्वियमिदि मुत्तत्थसंबंधो । गत्थि अण्णं । कुदो ? सेसासेसद्विद्विपदेसगसस कमेण
उदयपाओग्गत्तदंसणादो ।

स्थितिवाला है, क्योंकि उदयावलिके भीतर संक्रमण नहीं होता ऐसा स्वभाव है। इतने ही
कर्मपरमाणु संक्रमणसे भीनस्थितिवाले हैं यह जतानेके लिये यह सूत्र आया है। यहाँ इसके
अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसका यह अभिप्राय है कि बन्धावलिके सिवा उदयावलिके
वाहर जितने भी कर्मपरमाणु स्थित हैं वे सब संक्रमणके योग्य हैं, इसलिये वे संक्रमणसे अन्नी-
स्थितिवाले हैं।

विशेषार्थ—विचक्षित कर्मके परमाणुओंका सजातीय कर्मरूप हो जाना संक्रमण
कहलाता है। यहाँ यह बतलाया है कि इस प्रकारका संक्रमण किन परमाणुओंका हो सकता है
और किनका नहीं। जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे सबके सब संक्रमणके
अयोग्य हैं और उदयावलिके वाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं वे सबके सब संक्रमणके योग्य हैं
यह इसका भाव है। किन्तु इससे तत्काल बँधे हुए कर्मोंका भी बन्धावलिके भीतर संक्रमण
प्राप्त हुआ जो कि होता नहीं, इसलिये इसका निषेध करनेके लिये टीकामें इतना विशेष
और कहा है कि बन्धावलिके सिवा उदयावलिके वाहरके कर्मपरमाणुओंका संक्रमण होता है।
अब यहाँ प्रश्न यह है कि ऐसे भी कर्म हैं जिनका उदयावलिके वाहर भी संक्रमण सम्भव नहीं।
जैसे आयुकर्म। अतः यहाँ इनके संक्रमणका निषेध क्यों नहीं किया सो इसका यह समाधान
है कि जिन कर्मोंमें संक्रमण सम्भव है उन्हींकी अपेक्षासे यहाँ विचार करके यह बतलाया है कि
उनमेसे किन कर्मपरमाणुओंका संक्रमण हो सकता है और किनका नहीं। आयु कर्म ऐसा है
जिसका संक्रमण ही नहीं होता, अतः उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है।

❀ अब उदयसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं ।

§ ४७७. संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करनेके बाद अब उदयसे भीन-
स्थितिक अधिकारका कथन करते हैं इस प्रकार यह सूत्र स्वतन्त्र अधिकारकी संहाल करनेके
लिये आया है ।

❀ जो कर्म उदीर्ण हो रहा है वह उदयसे भीनस्थितिवाला है। इसके
अतिरिक्त यहाँ और कोई दूसरा विकल्प नहीं है ।

§ ४७८. जो कर्म उदीर्ण हो रहा है अर्थात् फल देकर तत्काल गल रहा है वह उदयसे
भीनस्थितिवाला है यह यहाँ इस सूत्रका अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प
नहीं, क्योंकि वाकीकी सब स्थितियोंके कर्मपरमाणु क्रमसे उदयके योग्य देखे जाते हैं ।

§ ४८४. संपहि दंसणमोहणीयं खवेंतस्स कम्हि उहेसे सामितं होदि ति आसंक्रिय तदुद्दे सपदुप्पायणदमहाह—अपच्छिमद्विदिव्खंडयं संखुभमाणयं संखुद्धमावलिया समयूणा सेसा इच्चादि । अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि बहुएसु द्विदिव्खंडयसदहस्सेसु पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभावीसु अंतोसुहुत्तमेत्तकीरणद्धापडिवद्धेसु पदिदेसु पुणो अणियद्विअद्धाए संखेज्जेसु भागोसु बोलीणेसु णिप्पच्छिमं द्विदिव्खंडयं पल्लिदो-वमासंखेज्जभागपमाणायाममावलयवज्जं संखुभमाणयं सम्मामिच्छत्तस्सुवरि णिरवसेसं संखुद्धं । जाधे उदयावलिया समयूणा सेसा ताधे तस्स गुणितकम्मंसियस्स उक्कस्सय-मोकड्डणादो भौणद्विदियं मिच्छत्तपदेसग्गं होदि । कुदो आवलियाए समयूणत्तं ? उदयाभावेण सम्पत्तस्सुवरि तदुदयणियेयसमाणमिच्छत्तेयद्विदीए यिवुक्कसंकमेण संकंतीदो । कुदो पुण एदस्स आवलियपइठपदेसग्गस्स ओकड्डणादो भौणद्विदियस्स उक्कस्सत्तं ? ण, पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेढीए आवूरिदगुणसेडिगोशुच्चाणं हेडिमासेसतन्वियप्पेहिंतो असंखेज्जगुणाणमुक्कस्सभावस्स णाइयत्तादो ।

उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४८५. अब दर्शनमोहनीयकी क्षण करतें हुए भी किस स्थान पर उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ऐसी आशंकाके होने पर उस स्थानका निर्देश करनेके लिये 'अपच्छिमद्विदिव्खंडयं संखुभमाणयं संखुद्धमावलिया समयूणा सेसा' इत्यादि सूत्र कहा है । अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्गृह्यप्रमाण उत्कीरण कालसे सम्बन्ध रखनेवाले हजारों स्थितिकाण्डकोका ओर एक एक स्थितिकाण्डके प्रति हजारों अनुभागकाण्डकोका पतन करनेके पश्चात् जब यह जीव अनिष्टित्तिकरणमें प्रवेश करके और उसके संख्यात बहुभागोंके व्यतीत होने पर एक आवलिके सिवा पत्यके असंख्यातवर्गे भाग आयामवाले अन्तिम स्थितिकाण्डका पतन करनेका प्रारम्भ करता है और उसे सत्रका सब सम्यग्मिथ्यात्वमें निक्षेप करनेके बाद जब एक समयकम एक आवलिकाल शेष रहता है तब इस गुणितकर्मांशवाले जीवके मिथ्यात्वके अपकर्षणसे झीन-स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं ।

शंका—यहाँ आवलिकों एक समय कम क्यों बतलाया ?

समाधान—क्योंकि वहाँ मिथ्यात्वका उदय न होनेसे सम्यक्त्वके उदयरूप निषेकके बराबरकी मिथ्यात्वकी एक स्थिति स्तित्वुक संक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वके द्रव्यमें संक्रान्त हो गई है, इसलिये आवलिकमें एक समय कम बतलाया है ।

शंका—अपकर्षणसे झीनस्थितिवाले ये कर्मपरमाणु आवलिके भीतर प्रविष्ट होनेपर ही उत्कृष्ट क्यों होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वे कर्मपरमाणु प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिके द्वारा गुणश्रेणियोंके प्राप्त हैं और नीचेके तत्सम्बन्धी और सब विकल्पोसे असंख्यातगुणों हैं, इसलिये इन्हें उत्कृष्ट मानना न्याय्य है ।

निर्णयार्थ—यह तो पहले ही बतला आये हैं कि जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे झीनस्थितिवाले हैं और जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अझीन स्थितिवाले हैं । अब इन झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंमें मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट विकल्प कहाँ प्राप्त होता है यह बतलाया है । मिथ्यात्वका अन्यत्र उदयावलिमें

§ ४८४. संपहि दंसणमोहणीयं खवेंतस्स कम्मि उद्देसे सामित्तं होदि त्ति आसंकिय तदुद्देसपटुप्पायणद्वमाह—अपच्छिमद्विदिवंडयं संछुभमाणयं संछुद्धमावलिया समयूणा सेसा इच्चादि । अपुव्वकरणपहमसमयप्पहुट्टि बहुपसु द्विदिवंडयसहस्सेसु पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभावीसु अंतोमुहुत्तमेत्तकीरणद्धापडिचद्धेसु पदिदेसु पुणो अणियद्विअद्धाए संखेज्जं सु भागेषु वोलीणेषु णिप्पच्छिमं द्विदिवंडयं पल्लिदो-वमासंखेज्जभागपमाणायामभावलियवज्जं संछुभमाणयं सम्मामिच्छत्तस्सुवरि णिरवसेसं संछुद्धं । जाधे उदयावलिया समयूणा सेसा ताधे तस्स गुणिट्ठकम्मंसियस्स उक्कस्सय-मोक्कड्डणादो भीणद्विदियं मिच्छत्तपदेसगं होदि । कुदो आवलियाए समयूणत्तं ? उदयाभावेण सम्मत्तस्सुवरि तदुदयणित्थेयसमाणमिच्छत्तेयद्विदीए थिबुक्कसंकमेण संकंतीदो । कुदो पुण एदस्स आवलियपइट्टपदेसगस्स ओक्कड्डणादो भीणद्विदियस्स उक्कस्सत्तं ? ण, पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेडीए आवूरिदगुणसेडिमोडुच्चाणं हेट्टिमासेसतत्थियप्पेहिंतो असंखेज्जगुणागमुक्कस्स भावस्स णाइयत्तादो ।

उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४८५. अत्र दर्शनमोहनीयकी क्षणमात्रेण कर्तव्यं भूय भी क्विस्त्वं स्थानं पर उत्कृष्टं स्वामित्वं होता है ऐसी आशंकाके होने पर उस स्थानका निर्देश करनेके लिये 'अपच्छिमद्विदिवंडयं संछुभमाणयं संछुद्धमावलिया समयूणा सेसा' इत्यादि सूत्र कहा है । अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुद्देशप्रमाण उत्कीरण कालसे सम्बन्ध रखनेवाले हजारों स्थितिकाण्डकोका और एक एक स्थितिकाण्डके प्रति हजारों अनुभागकाण्डकोका पतन करनेके पश्चात् जब यह जीव अनिष्टचित्करणमे प्रवेश करके और उसके संख्यात बहुभागके व्यतीत होने पर एक आवलिके सिवा पत्यके असंख्यातवें भाग आयामवाले अन्तिम स्थितिकाण्डकोका पतन करनेका प्रारम्भ करता है और उसे सबका सब सम्यग्मिथ्यात्वमे निक्षेप करनेके बाद जब एक समयकम एक आवलिकाल शेष रहता है तब इस गुणितकर्मशवाले जीवके मिथ्यात्वके अपकर्षणसे झीन-स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं ।

शंका—यहाँ आवलिको एक समय कम क्यों बतलाया ?

समाधान—क्योंकि वहाँ मिथ्यात्वका उदय न होनेसे सम्यक्त्वके उदयरूप निषेकके बराबरकी मिथ्यात्वकी एक स्थिति स्तिबुक्क संक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वके द्रव्यमे संक्रान्त हो गई है, इसलिये आवलिके एक समय कम बतलाया है ।

शंका—अपकर्षणसे झीनस्थितिवाले ये कर्मपरमाणु आवलिके भीतर प्रविष्ट होनेपर ही उत्कृष्ट क्यों होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वे कर्मपरमाणु प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिके द्वारा गुणश्रेणिकोपुच्छको प्राप्त हैं और नीचेके तत्सम्बन्धी और सब विकल्पोसे असंख्यातगुणो हैं, इसलिये इन्हें उत्कृष्ट मानना न्याय्य है ।

विशेषार्थ—यह तो पहले ही बतला आये हैं कि जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे झीनस्थितिवाले हैं और जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अभीनस्थितिवाले हैं । अत्र इन झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओमे मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट विकल्प कहाँ प्राप्त होता है यह बतलाया है । मिथ्यात्वका अन्यत्र उदयावलिमे

§ ४८५. संपहि एदस्स सामित्तविसईकयदव्वस्स पमाणाणुमं कस्सामो । तं जहा—दिवहुगुणहाणिमेत्तकस्ससमयपवद्धे द्विय पुणो समयूणावलियाए ओवट्टिदचरिमफालीए तप्पाओगपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तरूवभजिदाए भागे हिदे एदं दव्वमागच्छदि, अब्भंतरीकयचरिमफालिणसेयस्स गुणसेट्ठिगोवुच्छदव्वस्स पाहणियादो। अधवा दिवहुगुणहाणिगुणिदमुक्कस्ससमयपवद्धं ठविय ओकड्डुकड्डुणभागहारेण तप्पाओगपलिदोवमासंखेज्जभागेण गुणिय किंचूणीकएण तम्मि भागे हिदे पयदसामित्तविसईकयदव्वमागच्छदि त्ति वत्तव्वं । एवमुवरि वि सच्चत्थ वत्तव्वं । संपहि एदेण समाणसामियाणं उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियाणमेदेण चेय गयत्थाणं सामित्तपरूवणट्टमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

❖ तस्सेव उक्कस्सयमुक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं ।

§ ४८६. गयत्थमेदं सुत्तं । संपहि उदयादो भीणट्टिदियस्स उक्कस्ससामित्तपरूवणट्टं पुच्छासुत्तेणावसरं करेइ—

❖ उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियं कस्स ?

जितना द्रव्य रहता है उस सबसे अधिक क्षणिक समय अन्तिम स्थितिकाण्डके पतनके बाद उदयावलिमें रहता है, क्योंकि यहाँ उदयावलिमें गुणश्रेणियोंका द्रव्य पाया जाता है जो कि उत्तरोत्तर असंख्यात गुणितक्रमसे स्थापित है, इसलिये जो जीव मिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिका खण्डन करके उदयावलिमें भीतर प्रविष्ट है वह मिथ्यात्वके अपकर्षणसे ज्ञानस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४८७. अब उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयभूत द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं जो इस प्रकार है—डेढ़ गुणहानिप्रमाण उत्कृष्ट समयप्रवृत्तियोंको स्थापित करके उनमें, तद्योग्य पत्त्यके असंख्यातवै भागसे भाजित अन्तिम फालिमें एक समय कम आवलिका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका भाग देनेपर यह उत्कृष्ट द्रव्य आता है, क्योंकि यहाँ अन्तिम फालिके निषेकोके भीतर गुणश्रेणियोंको पुच्छाका द्रव्य प्रधान है । अथवा डेढ़गुणहानिसे गुणित उत्कृष्ट समयप्रवृत्तियोंको स्थापित करके उसमें, तद्योग्य पत्त्यके असंख्यातवै भागसे गुणित अपकर्षण भागहारको लब्ध कम करके उसका भाग देनेपर प्रकृत स्वामित्वसे सम्बन्ध रखनेवाला द्रव्य आता है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये । तथा इसी प्रकार आगे भी सर्वत्र कथन करना चाहिये । अब जिनका स्वामी इसीके समान है और जिनके स्वामीका ज्ञान इसीसे हो जाता है ऐसे उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन स्थितिवालोंके स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

❖ तथा वही उत्कर्षण और संक्रमणसे उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ४८६. इस सूत्रका अर्थ अबगतत्राय है । अब उदयसे ज्ञानस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये पुच्छासूत्र कहते हैं—

❖ उदयसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

१. "मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पदेसउदओ कस्व ।"—वव० आ० प० १०६५ ।

§ ४८७. सुगमं ।

✽ गुणिदकर्मसिञ्चो संजमासंजमगुणसेडी संजमगुणसेडी च एदाओ गुणसेडीओ काऊण मिच्छत्तं गदो । जाधे गुणसेडिसीसयाणि पढमसमय-मिच्छादिद्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ४८८. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा—जो गुणिदकर्मसिञ्चो संजमासंजमगुणसेडी संजमगुणसेडी चेदि एदाओ गुणसेडीओ सच्चुक्कस्सपरिणामेहि काऊण परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गदो तस्स पढमसमयमिच्छाद्विस्स जाधे गुणसेडिसीसयाणि दो वि एगीभूदाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं होदि ति पदसंबंधो । कधमेदाओ दो वि गुणसेडीओ भिण्णकालसंबंधिणीओ एयद्धं काळं सक्किज्जंति ? ण, संजमगुणसेडिणिकखेवायामादो संजमासंजमगुणसेडिणिकखेवदीहत्तस्स संखेज्जगुणत्तेण कमेण कीरमाणीणं तासिं तहाभावाविरोहादो । तदो गुणिदकर्मसियलक्खणेणान्तूण सत्तमपुढवीदो उव्वट्ठिय सच्चलहुं समयाविरोहेण

§ ४८७. यह सूत्र सुगम है ।

✽ कोई एक गुणितकर्मांशवाला जीव संयमासंयमगुणश्रेणि और संयम-गुणश्रेणि इन दोनों गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस जीवके जब मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४८८. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं जो इस प्रकार है—जो गुणितकर्मांशवाला जीव सर्वोत्कृष्ट परिणामके द्वारा संयमासंयमगुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणि इन दोनों गुणश्रेणियोंको करके अनन्तर परिणाम विभेपके कारण मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें जब दोनों ही गुणश्रेणिशीर्ष मिलकर उदयको प्राप्त होते हैं तब मिथ्यात्वके उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं यह इस सूत्रका वाक्यार्थ है ।

शंका—ये दोनों ही गुणश्रेणियाँ भिन्न कालसे सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये इन्हे एकत्र कैसे किया जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संयमगुणश्रेणिके निक्षेपकी दीर्घतासे संयमासंयमगुणश्रेणिके निक्षेपकी दीर्घता संख्यातगुणी है, इसलिये इन्हे क्रमसे करनेपर इनके एकत्र होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

किसी एक जीवने गुणित कर्मांशकी विधिसे आकर और सातवीं पृथिवीसे निकलकर अतिशीघ्र आगमोक्त विधिसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके उपराम सम्यक्त्वके कालको व्यतीत

१. 'गुणिदकर्मसियस्स दोगुणसेडीसीसयस्स !'— धव० आ० प० १०६५ ।

'मिच्छत्तमीसणंताणुबंधिअसमत्तथीणगिद्वीणं ।

निरिउदएगंताए य विइया तइया य गुणसेडी ॥'—कर्मप्र० उदय गा० १३ ।

पढमसम्मत्तमुप्पाइय उवसमसम्मत्तद्धं वोलाविय अधापवत्त-अपुव्वकरणाणि करिय अपुव्वकरणचरिमसमयादो से काले गहिदसंजमासंजमो एयंताणुव्वद्धावड्ढिपढम-समयप्पहुडि जाव तिससे चरिमसमओ चि ताव पडिसमयमणंतगुणाए संजमासंजम-विसोहीए तिसुज्झंतो अंतोमुहुत्तमेत्तकालं सव्वकम्माणं समयं पडि असंखेज्जगुणं दव्वमोकड्डिय उदयावलियवाहिरे अंतोमुहुत्तायामवड्ढिदगुणसेट्ठिणिकखेवं काऊण पुणो अधापवत्तसंजदासंजदविसोहीए वि पदिदो संतो अंतोमुहुत्तकालं चहुहि वड्ढि-हाणीहि गुणसेट्ठि काऊण पुणो चि ताणि चेव दो करणाणि करिय गहिदसंजमपढमसमयप्पहुडि मिच्छत्तपदेसग्गमसंखेज्जगुणाए सेहीए ओकड्डिय उदयावलियवाहिरट्ठिदिमादिं कादूण अंतोमुहुत्तमेत्तट्ठिदीसु संजदासंजदगुणसेट्ठिणिकखेवादो संखेज्जगुणहीणासु अंतोमुहुत्तमेत्त कालमवड्ढिदगुणसेट्ठिणिकखेवमणंतगुणाए संजमविसोहीए करेमाणो संजदासंजद-एयंताणुव्वद्धिचरिमसमयकदगुणसेट्ठिणिकखेवस्स संखेज्जे भागे गंतूण संखेज्जदिभागमेत्ते सेसे तदेयंताणुव्वद्धिचरिमसमयकदगुणसेट्ठिसीसएण सरिसं सगएयंताणुव्वद्धिचरिमसमय-गुणसेट्ठिसीसयं णिक्खिविय एवं दो चि गुणसेट्ठिसीसयाणि एकदो काऊण पुणो अधापवत्तसंजदभावेण परिणमिय दोण्हमेदेसिमहिकयगुणसेट्ठिसीसयाणमुव्वरि

किया । अनन्तर वह अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको करके अपूर्वकरणके अन्तिम समयसे अनन्तर समयमें संयमासंयमको प्राप्त हुआ । यहाँ इसके सर्वप्रथम एकान्तानुवृद्धिका प्रारम्भ होता है, इसलिये उसने एकान्तानुवृद्धिके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी संयमासंयमविशुद्धिसे विशुद्ध होकर अन्तर्मुहूर्त कालतक सब कर्मोंके, प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणो द्रव्यका अपकर्षण करके उसे उदयावलिसे वाहर अन्तर्मुहूर्त आयामवाले अवस्थित गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त किया । फिर अधःप्रवृत्त संयतासंयत विशुद्धिसे भी गिरता हुआ अन्तर्मुहूर्त कालतक चार वृद्धि और चार हानियोंके द्वारा गुणश्रेणि की । इसके बाद फिर भी उन दो करणोंको करके संयमको प्राप्त हुआ । और इस प्रकार संयमको प्राप्त करके उसके प्रथम समयसे लेकर मिथ्यात्वके कर्मपरमाणुओंको असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे अपकर्षित करके उदयावलिसे वाहरकी स्थितिसे लेकर संयतासंयतके गुणश्रेणिनिक्षेपसे संख्यातगुणी हीन अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितियोंमें अनन्तगुणी संयमसम्बन्धी विशुद्धिके द्वारा अन्तर्मुहूर्तकाल तक अवस्थित गुणश्रेणिका निक्षेप करता है । यहाँ पर संयतासंयतके एकान्तानु-वृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें किये गये गुणश्रेणिनिक्षेपके संख्यात बहुभागको वितारक और संख्यातवै भागकालके शेष रहने पर जो संयतासंयतके एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें गुणश्रेणिशरीर्षका निक्षेप किया गया है सो उसीके समान संयत भी अपने एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें गुणश्रेणिशरीर्षका निक्षेप करे । और इस प्रकार दोनों ही गुणश्रेणिशरीर्षकों एक करके फिर अधःप्रवृत्तसंयतभावको प्राप्त हो जाय । और इस

१. वड्ढावड्ढी एव भण्णिदे तासु चेव सजमासंजमसंजमलद्धेसु अलदपुव्ववासु पटिलद्धासु तत्ताम-पढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालम्भतरे पडिसमयमणंतगुणाए सेहीए परिणामवट्ठी गरेयव्वा; उव्वव्वरि परिणामवट्ठीए वड्ढावड्ढीववएसालवण्णादो ।—जयध० पु० का० ६३१६ ।

अंतीगुहृत्तमेत्तकालं छवट्टि-हाणिपरिणामेहि भोक्कड्डिज्जमाणपदेसग्गस्स चउन्विहवट्टि-
हाणिकारणभूदेहि गुणसेदिं करेमाणो ताव गच्छदि जाव एवं पूरिदाणि गुणसेदिसीसयाणि
दो वि दुचरिमसमयअपत्तउदयट्टिदियाणि ति । तदो से काले मिच्छत्तं गदस्स तस्स जाधे
गुणसेदिसीसयाणि एत्तिएण पयत्तेण पूरिदाणि दो वि जुगवमुदिण्णाणि ताधे
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदिय होदि ति एसो मुत्तस्स समुदायत्थो । कुदो
एदस्स उदिण्णस्स उदयादो भीणट्टिदियत्तं ? ण, पुणो तप्पाओग्गत्ताभावं पेक्खियुण
तहोवएसादो । एत्थ जाधे दो वि गुणसेदिसीसयाणि उदयावलयिं ण पविस्संति ताधे
चेय संजदो किमट्ठं मिच्छत्तं ण जीदो ? ण, अधापवत्तसंजदगुणसेदिलाहस्स अभाव-
प्पसंगादो । जइ एवं, गुणसेदिसीसएसु उदयावलयिब्भंतं पइहेसु मिच्छत्तं येहामो
उवरि अविणट्ठे शुवसंजमेखावट्ठाणफलाणुवलभादो ति ? ण, मिच्छाइट्टिउदीरणादो
विसोहिवसेणासंखेज्जगुणसंजदउदीरणाए जणिदलाहस्स एत्थ वि अभावावत्तीदो ।
ण च तत्थ मिच्छत्तस्स उदयाभावपुञ्जउदीरणाभावेण पयदफलाभावो आसंक्कणिज्जो,

प्रकार इस भावको प्राप्त करके अधिकृत दोनो ही गुणश्रेणियोंके आगे अपकर्षणका प्राप्त होनेवाले कर्मपरमाणुओंके चार प्रकारकी हानि और वृद्धियोंके कारणभूत छह प्रकारकी वृद्धि और हानिरूप परिणामोंके द्वारा अन्तर्गुहृत कालतक गुणश्रेणियोंके करता हुआ तब तक जाता है जब जाकर पूर्वोक्त विधिसे पूरे गये दोनो ही गुणश्रेणियोंके उदयस्थितिके उपान्त्य रामयको प्राप्त होते हैं । इसके बाद तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होने पर इसके इतने प्रयत्नसे पूरे गये दोनो ही गुणश्रेणियोंके मिलकर उदयमें आते हैं तब मिथ्यात्वके उदयसे हीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । इस प्रकार यह इस सूत्रका समुदायार्थ है ।

शंका—जब कि ये उदयप्राप्त हैं तब ये उदयसे हीनस्थितिवाले कैसे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ये फिरसे उदययोग्य नहीं हो सकते, इसलिये इन्हे उदयसे हीनस्थितिवाला कहा है ।

शंका—यहाँ दोनो ही गुणश्रेणियोंके उदयावलिमें प्रवेश करनेके पहले संयतको मिथ्यात्व गुणस्थान क्यों नहीं प्राप्त कराया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ऐसा करनेसे इसके अधःप्रवृत्तसंयतके होनेवाली गुणश्रेणिके लाभका अभाव प्राप्त होता ।

शंका—यदि ऐसा है तो गुणश्रेणियोंके उदयावलिमें प्रवेश करनेपर मिथ्यात्व गुणस्थानमें ले जाना उचित था, क्योंकि इसके आगे संयमका नाश किये बिना उसके साथ रहनेका कोई फल नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके होनेवाली उदीरणाकी अपेक्षा विद्युद्धिके कारण संयतके होनेवाली असंख्यातगुणी उदीरणासे होनेवाला लाभ ऐसी हालतमें भी नहीं बन सकेगा, इसलिये गुणश्रेणियोंके उदयावलिमें प्रवेश करते ही इसे मिथ्यात्वमें नहीं ले गये हैं ।

यदि कहा जाय कि संयतके मिथ्यात्वका उदय न हो सकेसे उदीरणा भी नहीं हो सकती, इसलिये यहाँ उदीरणासे होनेवाले फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती सो ऐसी आशंका करना भी ठीक

सम्पत्तियुक्तसंकममस्सियूण ल्हादंसणादो । अण्णं च आवलियमेत्तकालावसेसे मिच्छत्तं गच्छमाणो पुव्वमेव संकिलिस्सदि त्ति विसोद्विगिबंधणो गुणसेदिल्लाहो बहुओ ण लब्भदि । ण च संकिलेसावूरणेण विणा मिच्छत्ताहिमुहभावसंभवो, तस्स तदविणा-भावितादो । तेण कारणेण जाव गुणसेदिसीसयाणि दुचरिमसमयअणुदिण्णाणि ताव संजदभावेणच्छाविय पुणो से काले एगंताणुवट्टिचरिमगुणसेदिसीसयाणि दो वि एकलग्गाणि उदयमागच्छिहिंति त्ति मिच्छत्तं गदपढमसमए उक्कस्सयउदयादो भ्मीण-द्विदियस्स सामित्तं दिण्णं । एत्थ पमाणाणुगमो जाणिय कायव्वो । अहवा गुणसेदिसीसयाणि त्ति बुत्ते दोणहमोघचरिमगुणसेदिसीसयाणि सव्वुक्कस्सविसोद्विगिबंधणणि घेप्पंति ण एयंतवड्ढावट्टिचरिमगुणसेदिसीसयाणि, तत्थतणचरिमविसोहीदो अधापवत्त-संजदसत्थाणविसोहीए अणंतगुणत्तादो । ण चेदं णिण्णिबंधणं, लद्धिद्वानपखवणाए परुविस्समाणप्पावहुअणिवंधणत्तादो । तदो ओघचरिमसंजदासंजदगुणसेदिसीसयस्सुवरि सव्वविमुद्धसंजदणिविजत्तगुणसेदिसीसयमेत्थ घेत्तव्वं । एवं घेतूण एदमणंत-गुणविसोहीए कदगुणसेदिसीसयदव्वं संजदासंजदगुणसेदिसीसएण सह जाधे पढम-समयमिच्छादिद्विस्स उदयमागयं ताधे उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्विदियमिदि सामित्तं वत्तव्वं ।

नहीं है, क्योंकि सन्यक्तत्वसम्बन्धी स्तिबुक्त संक्रमणकी अपेक्षा लाभ देखा जाता है । दूसरे एक आवलिकालके शेष रहने पर यदि इस जोवको मिथ्यात्वमे ले जाते हैं तो वह पहलेसे संक्लिष्ट हो जायगा और ऐसी हालतमें विशुद्धिनिमित्तक अधिक गुणश्रेणिका लाभ नहीं हो सकेगा । यदि कहा जाय कि संक्लेशरूप परिणाम हुए बिना ही मिथ्यात्वके अनुकूल भाव हो सकते हैं तो भी बात नहीं है; क्योंकि इन दोनोंका परस्परमें अविनाभाव सम्बन्ध है, इसलिये जब तक गुणश्रेणिशीर्ष उदयके उपान्त्य समयको नहीं प्राप्त होते तब तक इस जीवको संयत ही रहने दे । किन्तु तदनन्तर समयमें एकान्तानुबुद्धिके अन्तिम समयमें की गईं दोनों ही गुणश्रेणियाँ उदयको प्राप्त होगी, इसलिये मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही उदयसे झीनस्थितिवाले कर्म-परमणुओंका स्वामी बतलाया है । यहाँ इनके प्रमाणका विचार जानकर कर लेना चाहिये । अथवा गुणश्रेणिशीर्ष ऐसा कहने पर संयमासंययम और संयम इन दोनों अवस्थाओंके सबसे उत्कृष्ट विशुद्धिके निमित्तसे अन्तमे होनेवाले ओघ गुणश्रेणिशीर्ष लेने चाहिये, एकान्तबुद्धिके अन्तमें होनेवाले गुणश्रेणिशीर्ष नहीं, क्योंकि एकान्तबुद्धिके अन्तमें होनेवाली विशुद्धिसे अध-प्रवृत्तसंयतकी स्वस्थानविशुद्धि अनन्तगुणी होती है । यदि कहा जाय कि यह कथन अहेतुक है तो भी बात नहीं है, क्योंकि लक्षिस्थानोका कथन करते समय जो अल्पबहुत्व कहा है उससे इसकी पुष्टि होती है, इसलिये ओघसे अन्तमे प्राप्त हुए संयतासंयतके गुणश्रेणिशीर्षके ऊपर सर्वविशुद्ध संयतके प्राप्त हुआ गुणश्रेणिशीर्षका यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार अनन्तगुणी विशुद्धिसे निष्पन्न हुआ यह गुणश्रेणिशीर्षका द्रव्य संयतासंयतसम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षके साथ जब मिथ्यात्वके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होता है तब उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओं-का स्वामी होता है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व कर्मकी अपेक्षा उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-

परमात्रोका स्वामी बतलाते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि ऐसा जीव एक तो गुणितकर्मशावाला होना चाहिये, क्योंकि अन्य जीवके कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता। दूसरे गुणितकर्मशा होनेके बाद यथासम्भव अतिशीघ्र संयमासंयम और तदनन्तर संयमकी प्राप्ति करकर इसे एकान्तवृद्धि परिणामो के द्वारा संयमासंयम गुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणिकी प्राप्ति करा देनी चाहिये। किन्तु इनकी प्राप्ति इस ढंगसे करानी चाहिये जिससे इन दोनों गुणश्रेणियोंका शीर्ष एक समयवर्ती हो जाय। फिर गुणश्रेणिशीर्षोंके उपान्त्य समयके प्राप्त होने तक जीवको वहीं संयमभावके साथ रहने देना चाहिये। किन्तु जब तक यह जीव संयमभावके साथ रहे तब तक भी इसके गुणश्रेणिका क्रम चालू ही रखना चाहिये, क्योंकि जब तक संयमासंयमरूप या संयमरूप परिणाम बने रहते हैं तब तक गुणश्रेणिरचनाके चालू रहनेमें कोई बाधा नहीं आती। बात इतनी है कि इन दोनों भावोंकी प्राप्ति होनेके प्रथम समयसे एकान्तवृद्धिरूप परिणाम होते हैं, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्रेणिरचना होती है और बादमें अधःप्रवृत्तसंयमासंयम या अधःप्रवृत्तसंयमरूप अवस्था आ जाती है, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्रेणि रचना होने लगती है। जिन परिणामोंकी अन्तर्मुहूर्त काल तक उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होती जाती है और जिनके होनेपर स्थितिकारणकघात, अनुभागकाण्डकघात तथा स्थितिबन्धापसरण ये क्रियाएँ पूर्ववत् चालू रहती हैं वे एकान्तवृद्धिरूप परिणाम हैं। तथा जिनके होने पर स्वस्थानके योग्य संक्लेश और विशुद्धि होती रहती है वे अधःप्रवृत्त परिणाम हैं। एकान्तवृद्धिरूप परिणामोंके होने पर मिथ्यात्वकर्मकी अपेक्षा गुणश्रेणिरचनाका क्रम इस प्रकार है—

संयमासंयमगुणको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें उपरिम स्थितिमें स्थित द्रव्यका अपकर्षण करके उदयावलिके बाहर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थितियोंमें गुणश्रेणिशिर्षक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है। अर्थात् उदयावलिके बाहर अनन्तर स्थित स्थितिमें जितने द्रव्यका निक्षेप करता है उससे अगली स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणिशिर्ष तक जानना चाहिये। किन्तु गुणश्रेणिशिर्षसे अगली स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है और इसके आगे विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। दूसरे समयमें प्रथम समयकी अपेक्षा भी असंख्यातगुणे द्रव्यका पूर्वोक्त क्रमसे निक्षेप करता है। इस प्रकार एकान्तानुवृद्धिका काल समाप्त होने तक यही क्रम चालू रहता है।

किन्तु अधःप्रवृत्तरूप परिणामोंकी अपेक्षा गुणश्रेणिरचनाके क्रममें कुछ अन्तर है। बात यह है कि अधःप्रवृत्तरूप परिणाम सदा एकसे नहीं रहते किन्तु संक्लेश और विशुद्धिके अनुसार उनमें घटावही हुआ करती है, इसलिये जब जैसे परिणाम होते हैं तब उन परिणामोंके अनुसार गुणश्रेणि रचनामें भी कर्म परमाणु न्यूनाधिक प्राप्त होते हैं। विशुद्धिकी न्यूनाधिकताके अनुसार कभी प्रति समय असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणि रचना करता है। कभी प्रति समय संख्यातगुणे संख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणि रचना करता है। इसी प्रकार कभी प्रति समय संख्यातवें भाग अधिक या कभी असंख्यातवें भाग अधिक द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणि रचना करता है। और यदि संक्लेशरूप परिणाम हुए तो उनमें भी जब जैसी न्यूनाधिकता होती है उसके अनुसार कभी असंख्यातगुणे हीन कभी संख्यातगुणे हीन और कभी संख्यातवें भाग हीन और कभी असंख्यातवें भाग हीन द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणिरचना करता है। इस प्रकार संयमासंयम और संयमके अन्त तक यह क्रम चालू रहता है।

यदि संयमासंयम या संयमसे च्युत होकर अतिशीघ्र इन भावोंको जीव पुनः

❀ सम्मत्तस उक्कस्सयमोकङ्कणादो उक्कङ्कणादो संकमणादो उदयादो च भीणट्टिदियं कस्स ।

§ ४८६. सुगममेदं पुच्छामुत्तं । णवरि उदयावल्लियवाहिरट्टिदिसमवट्टिदस्स सम्मत्तपदेसाणं वज्झमाणमिच्छत्तस्सुवरि समट्टिदीए संकताणमुक्कङ्कणासंभवं पेक्खियूण सम्मत्तस्स तत्तो भीणाभीणट्टिदियत्तमेत्थ घेत्तव्वं, अण्णहा तदणुववत्तीदो ।

❀ गुण्णिदकम्मसिञ्चो सव्वलहं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाढत्तो

प्राप्त करता है तो एकान्तवृद्धिरूप परिणाम और उनके कार्य नहीं होते। यहाँ एकान्तवृद्धिसे उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणी परिणामोकी विद्युद्धि होती जाती है, इसलिये संयमासंयमी और संयमीके इन परिणामोंके अन्तमे जो गुणश्रेणिशिर्ष होते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है अथवा यद्यपि अधःप्रवृत्तरूप परिणाम घटते बढ़ते रहते हैं तथापि सर्वोत्कृष्ट विद्युद्धिके कारणभूत ये परिणाम अन्तिम समयमे होनेवाले एकान्तवृद्धिरूप परिणामोंसे भी अनन्तगुणे होते हैं, अतः इन परिणामोंके निमित्तसे जो गुणश्रेणिशिर्ष प्राप्त हों उनकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये। इस प्रकार मिथ्यात्वकी अपेक्षा उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट स्वामी कौन है इसका विचार किया। यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार करते हुए टीकामे अनेक शंका प्रतिशंकाएँ की गई हैं पर उनका विचार वहाँ किया ही है, अतः उनका यहाँ निर्देश नहीं किया।

* सम्यक्त्वके अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे संक्रमणसे और उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है।

§ ४८६. यह पृच्छासूत्र सरल है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उदयावल्लिके बाहरकी स्थितिमे स्थित जो सम्यक्त्वके प्रदेश बँधनेवाले मिथ्यात्वके ऊपर समान स्थितिमे संक्रान्त होते हैं उनका उत्कर्षण सम्भव है इसी अपेक्षासे ही यहाँ सम्यक्त्वके उत्कर्षणसे भीनाभीनस्थितिपनेका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा सम्यक्त्वक उत्कर्षणसे भीनाभीनस्थितिपना नहीं बन सकता।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व यह बँधनेवाली प्रकृति नहीं है, इसलिये इसका अपने बन्धकी अपेक्षा उत्कर्षण ही सम्भव नहीं है। हाँ मिथ्यात्वके बन्धकालमे सम्यक्त्वके कर्मपरमाणुओंका मिथ्यात्वमे संक्रमण होकर उनका उत्कर्षण हो सकता है। यद्यपि यह संक्रमित द्रव्य मिथ्यात्वका एक हिस्सा हो गया है तथापि पूर्वमे ये सम्यक्त्वके परमाणु रहे इस अपेक्षासे इस उत्कर्षणको सम्यक्त्वके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण कहनेमे भी आपत्ति नहीं। इस प्रकार इस अपेक्षासे सम्यक्त्वके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण मानकर फिर यह विचार किया गया है कि सम्यक्त्वके कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं और कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अर्भकनस्थितिवाले हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो सम्यक्त्व प्रकृतिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण ही घटित नहीं होता है। और तब फिर सम्यक्त्वका उत्कर्षणसे भीनाभीनस्थितिपना भी कैसे बन सकता है। अर्थात् नहीं बन सकता है। इसलिये सम्यक्त्वके उत्कर्षणकी व्यवस्था उक्त प्रकारसे करके ही भीनाभीनस्थितिपनेका विचार करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

* जिस गुणित कर्मांशवाले जीवने अतिशीघ्र दर्शनमोहनीय कर्मके क्षय करनका

अधद्विदियं गलंतं जाथे उदयावलियं पविससमाणं पविट्टं ताथे उक्कस्सय-
मोकङ्कणादो वि उक्कङ्कणादो वि संकमणादो वि भीणद्विदियं ।

§ ४६०. एदस्स तिण्हं भीणद्विदियाणं सामित्तपरुवणासुत्तस्स अत्थो—जो
गुणिककम्मंसिओ पुच्चविहाणेगागदो सच्चलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाहत्तो
अपुच्चअणियट्टिकरणपरिणामेहि बहुएहि द्विदिअणुभागखंडएहि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते
संछुहिय पुणो तं पि पल्लिदोवमस्स असंखे० भागयेत्तचरिमद्विदिखंडयचरिमफालि-
सरुवेण सम्मत्ते संछुहंतो सम्मत्तस्स चि त्कालिएण द्विदिखंडएण पल्लिदोवमासंखेज्जदि
भागिएण अट्टवस्समेत्तद्विदिसंतकम्मावसेसं काऊण तत्थ संछुहिय पुणो वि
संखेज्जद्विदिखंडयसहस्सेहि सम्मत्तद्विदिमइदहरीकरिय कदकरणिज्जो होदुणावद्विदो
तस्स अधद्विदियं गलंतं सम्मत्तं जाथे क्रमेण उदयावलियं पविसमाणं संतं गिरवसेसं
पइट्टं ताथे आवलियमेत्तगुणसंदिगोवुच्छा ओदरिय अट्टद्विदस्स ओकङ्कणादां वि
उक्कङ्कणादो वि संकमणादो वि भीणद्विदियं पदेसग्गं होइ । एत्थ उदयावलियं
पविसमायां पविट्टमिदि वयणमकमपवेसासंकाणिरायरणदुवारेण कम्मपदेस-
पदुप्पायणट्टं दट्टव्वं । सेसं सुगमं ।

आरम्भ क्रिया है उसके अधःस्थितिके द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब उदयावलिमें
प्रवेश करता है तब वह अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वाामी होता है ।

§ ४६०. अब तीन भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके स्वामित्वका कथन करनेवाले इस
सूत्रका अर्थ कहते हैं—पूर्वविधिसे आये हुए गुणितकर्मशांशवाले जिस जीवने अतिशीघ्र दर्शन-
मोहनीय कर्मके क्षयका आरम्भ करके अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके निमित्तसे
बहुतसे स्थितिकाण्डके और अनुभागकाण्डकोके द्वारा मिध्यात्वको सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमित
किया । फिर सम्यग्मिध्यात्वको भी पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तित स्थितिकाण्डकी
अन्तित फालिरूपसे सम्यक्त्वमें संक्रमित किया । फिर सम्यक्त्वका भी उसी समय होनेवाले
पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डकोके द्वारा आठ वर्षप्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष
रत्नकर शेषको उसी शेष स्थितिमें निक्षिप्त किया । इसके बाद फिर भी संख्यात हजार स्थिति-
काण्डकोके द्वारा सम्यक्त्व की स्थितिको अत्यन्त ह्रस्व करके जो वृत्कृत्य होकर स्थित हुआ
उसके अधःस्थितिके द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब क्रमसे उदयावलिमें पूराका पूरा प्रवेश
कर जाता है तब एक आवलिप्रमाण गोपुच्छा उतर कर स्थित हुए इस जांबके अपकर्षण,
उत्कर्षण और संक्रमण इन तीनोंसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । यहाँ सूत्रमें
जो 'उदयावलिं पविसमाणं पविट्टं' यह वचन कहा है सो यह युगपत् प्रवेशकी आशंकाके
निराकरण द्वारा क्रमसे होनेवाले प्रवेशका सूचन करनेके लिये जानना चाहिये । शेष कथन
सुगम है ।

विशेषार्थ—इस सूत्रमें अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा सम्यक्त्वके भीन
स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका निर्देश किया है । यद्यपि यहाँ जो दृष्टान्त दिया है

§ ४६१. संपहि उदयादो उक्कस्सज्झीणट्ठिदियस्स सामित्तविसेसपरूवणद्वमुत्तर-
सुत्तस्सावयारो—

❁ तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सब्वमुदयं
तमुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्ठिदियं ।

§ ४६२. तस्सेव पुव्वपरूविदजीवस्स पुणो वि गाल्लिदसमयुणावलियमेत्त-
गोवुच्चस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयभावे चट्टमाणस्स जं सब्वमुदयं तं
पदेसग्गं तद्दुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्ठिदियमिदि सुत्तत्थसंवधो । एत्थ सब्वमुदयं तमिदि
वुत्ते सर्वेषामुदयानामन्त्यं निःपश्चिममुदयप्रदेशाग्रं सर्वोदयान्त्यमिति व्याख्येयं । कुदो
पुण एदस्स सब्वोदयंतस्स सब्वुक्कस्सत्तं ? ण, दंसणमोहणीयदव्वस्स सब्वस्सेव त्थोवूणस्स
पुंजीभूदस्सेत्थुवत्तंभादो । तदो चेयं पाठंतरभवत्तंविद्य वक्खाणंतरमेत्थ चरिम-
समयअक्खीणं जं दंसणमोहणीयं तस्स जो सब्वोदओ अब्बिक्खियकिंचूणभावो तं
घेत्तूण उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्ठिदियं होदि ति ।

वह दर्शनमोहनीयकी क्षणिका समयका है और तब न तो सम्यक्त्वका संक्रमण ही होता है
और न उत्कर्षण ही । तथापि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैं इस
सामान्य कथनके अनुसार उनका उत्कृष्ट प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है इस विषयसे यह स्वामित्व
जानना चाहिये ।

§ ४६१. अब उदयसे उत्कृष्ट झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओके स्वामित्वविशेषका कथन
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिसने दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षणिका नहीं की है ऐसे उसी जीवके
दर्शनमोहनीयकी क्षणिकाके अन्तिम समयमें जो सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं वे
उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं ।

§ ४६२. जिसने और भी एक समय कम आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंको गला दिया है
और दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षणिका न होनेसे उसके अन्तिम समयमें विद्यमान हैं ऐसे उसी पूर्वमें
कहे गये जीवके जो सम्यक्त्वके सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं वे उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणु हैं यह इस सूत्रका अभिप्राय है । यहाँ सूत्रमें जो 'सब्वमुदयं तं, ऐसा कहा है सो इस
पदका ऐसा व्याख्यान करना चाहिये कि सब उदयोके अन्तमें जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ
लिये गये हैं ।

शंका—सब उदयोके अन्तमें स्थित ये कर्मपरमाणु सबसे उत्कृष्ट कैसे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दर्शनमोहनीयका कुछ कम सब द्रव्य एकत्रित होकर यहाँ
पाया जाता है, इसलिये ये कर्मपरमाणु सबसे उत्कृष्ट हैं । उक्त सूत्रका यह एक व्याख्यान हुआ ।
अब पाठान्तरका अवलम्ब लेकर इसका दूसरा व्याख्यान करते हैं । यथा—अन्तिम समयमें
जो अक्षीण दर्शनमोहनीय है उसका जो सर्वोदय है उसकी अपेक्षा उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्म परमाणु होते हैं । यहाँ किंचित् ऊनपनेकी विषयान न करके सर्वोदय पदका प्रयोग किया है
इतना विशेष जानना चाहिए ।

❁ सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोक्कङ्खणादो उक्कङ्खणादो संकमणादो व भीणद्विदियं कस्स ।

§ ४६३. सुगममेदं पुच्छासुत्तं । णवरि सम्मत्तस्सेव एत्थ उक्कङ्खणादो भीणद्विदियस्स संभवो वत्तव्वो ।

❁ गुण्णिकम्मसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेमाणस्स सम्मामिच्छत्तस्स अपच्छिमद्विदिल्लंघयं संलुभमाणयं संलुद्धमुदयावलिया उदयवज्जा

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमें सम्यक्त्वकी अपेक्षा उदयसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है यह बतलाया है। गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर जिसने अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षणका प्रारम्भ किया है वह पहले मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमे और सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमे प्रक्षिप्त करनेके बाद कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होता है। फिर सम्यक्त्वको अद्यःस्थितिके द्वारा गलाता हुआ क्रमसे उदयके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। इस प्रकार इस उदय समयमे सम्यक्त्वका जितना द्रव्य पाया जाता है उतना अन्यत्र सम्भव नहीं, इसलिये इसे उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है। यहाँ सूत्रमे आये हुए 'चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वमुदयं' इसके दो पाठ मानकर दो अर्थ सूचित किये गये हैं। प्रथम पाठ तो यही है और इसके अनुसार 'चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स' यह सूत्रमे आये हुए 'तस्सेव' पदका विशेषण हो जाता है और 'सव्वमुदयं' पाठ स्वतन्त्र हो जाता है। किन्तु दूसरा पाठ 'चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयसव्वोदयं' ध्वनित होता है। और इसके अनुसार 'अन्तिम समयमे अक्षीण जो दर्शनमोहनीय उसका जो सर्वोदय उसकी अपेक्षा' यह अर्थ प्राप्त होता है। मालूम होता है कि ये दो पाठ टीकाकारने दो भिन्न प्रतियोंके आधारसे सूचित किये हैं। फिर भी वे प्रथम पाठ को मुख्य मानते रहे, इसलिये उसे प्रथम स्थान दिया और पाठान्तररूपसे दूसरेकी सूचना की। यहाँ पाठ कोई भी विवक्षित रहे तब भी निष्कर्षमे कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि यह दोनो ही पाठोंका निष्कर्ष है कि इस प्रकार सम्यक्त्वकी क्षणका अन्तिम समयमे जो उदयगत कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं वे उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं।

❁ सम्यग्मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है।

§ ४६३. यह पृच्छासूत्र सुगम है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर सम्यक्त्वके समान ही उत्कर्षणसे भीनस्थितिपनेके सद्भावका कथन करना चाहिये। आशय यह है सम्यक्त्वके समान सम्यग्मिथ्यात्वका भी बन्ध नहीं होता, इसलिये अपने बन्धकी अपेक्षा इसका उत्कर्षण नहीं बन सकता। अतएव जिस क्रमसे सम्यक्त्वमें उत्कर्षण घटित करके बतला आये हैं वैसे ही सम्यग्मिथ्यात्वमें घटित कर लेना चाहिये।

❁ अति शीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षण करनेवाले गुणितकर्मांशवाले जिस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे क्षेपण हो गया है और

भरिदल्लिया तरुल उक्कस्सयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं ।

§ ४६४. एदस्स सामित्तविहाययसुत्तस्सासेवायवत्थपरूवणा सुगमा, मिच्छत्त-सामित्तसुत्तम्मि परूविदत्तादो । णवरि उदयावलिया त्ति बुत्ते उदयसमयं मोत्तूण समयूणावलियमेत्तदंसणमोहणीयक्खवणगुणसेट्ठिगोबुच्छाट्ठि जावदि सक्कं ताव आवूरिदपदेसग्गाहि उदयावलिया संपुण्णीक्या त्ति घेत्तच्चं । उदयसमओ किमिदि वज्जिदो ? ण, उदयाभावेण तस्स त्थिबुक्कसंकमेण सम्मत्तुदयगोबुच्छाए उवरि संकमिय विपच्चंतस्स एत्थाणुवजोगित्तादो ।

❖ उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियं कस्स ।

§ ४६५. सुगमं ।

❖ गुणित्तकर्म्मसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेट्ठीओ काऊण ताये गदो सम्मामिच्छत्तं जाये गुणसेट्ठिसीसयाणि पढमसमयसम्मामिच्छाट्ठिस्स

उदयसमयके सिवा शेष उदयावलि पूरित हो गई है वह सम्यग्मिध्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४६४. स्वामित्वका विधान करनेवाले इस सूत्रके सब अवयवोंका अर्थ सुगम है, क्योंकि मिध्यात्वके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रमें उनका प्ररूपण कर आये हैं । किन्तु सूत्रमें जो 'उदयावलि उदयवज्जा भरिदल्लिया' ऐसा कहा है सो इसका आशय यह है कि उदयसमय के सिवा एक समय कम उदयावलिप्रमाण जो दर्शनमोहनीयकी क्षणसम्बन्धी गोपुच्छाए हैं, जो कि यथासम्भव अधिकसे अधिक कर्मपरमाणुओंसे पूरित की गई हैं, उनसे उदयावलि को परिपूर्ण करे ।

शंका—यहाँ उदय समयका वर्जन क्यों किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सन्यग्मिध्यात्वका उदय न होनेसे वह उदयसम्बन्धी गोपुच्छा स्तिबुक्क संक्रमणके द्वारा सन्यक्त्वकी उदयसम्बन्धी गोपुच्छामे संक्रमित होकर फल देने लगती है, इसलिये वह यहाँ उपयोगी नहीं है ।

विशेषार्थ—जो गुणित्तकर्मांशवाला जीव अतिशीघ्र आकर दर्शनमोहनीयकी क्षणणा करता है उसके सन्यग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन हो जानेके बाद जो एक समय कम उदयावलि प्रमाण कर्म परमाणु शेष रहते हैं वे अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन-स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं यह इस सूत्रका भाव है । शेष विशेषता जैसे सन्यक्त्वके उत्कृष्ट स्वामित्वका विशेष खुलासा करते समय लिख आये है उसी प्रकार यहाँ भी जान लेनी चाहिये ।

* उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म परमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ४६५. यह सूत्र सुगम है ।

* गुणित्तकर्मांशवाला जो जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके तब सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ जब सन्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम

उदयमागदाणि ताथे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ४६६. एत्थ जो गुणितकर्मसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण ताथे सम्मामिच्छत्तं गदो जाधे पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स गुणसेढिसीसयाणि उदयमागयाणि ति पदसंबंधो कायव्वो । सेसपरूवणाए मिच्छत्तभंगो ।

§ ४६७. एत्थ के वि आइरिया एवं भणंति—जहा सम्मामिच्छत्तस्स उदयादो भीणद्विदियं णाम अत्थसंबंधेण संजदासंजद-संजदगुणसेढीओ काऊण पुणो अणंताणु-बंधिविसंजोयणगुणसेढीए सह जाधे एदाणि तिण्णि वि गुणसेढिसीसयाणि पढमसमय-सम्मामिच्छाइडिस्स उदयमागच्छंति ताथे तस्स उक्कस्सयं होइ, अणंताणुबंधि-विसंजोयणगुणसेढीए सुत्तपरूविददोगुणसेढीहिंतो पदेसगं पडुच्च असंखेज्जगुणत्तादो । जइ वि संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ अणंताणुबंधिविसंजोयणाए ण लब्धंति तो वि एदीए चेव पज्जत्तं, तत्तो असंखेज्जगुणत्तादो । णवरि अणंताणुबंधिविसंजोयणगुण-सेढिसीसयं गंथयारेण ण जोइदमिदि ण एदं घडदे । कुदो ? अणंताणुबंधिविसंजोयण-गुणसेढीए अविणट्ठसरूवाए अच्चंतीए सम्मामिच्छत्तगुणपरिणमणाभावादो । एदं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । ण च संतमत्थं ण परूवेदि सुत्तं, तम्स अच्चावयत्त-

समयमें गुणश्रेणिशीर्षे उदयको प्राप्त होते हैं तो प्रथम समयवर्ती वह सम्यग्मिध्या-दृष्टि जीव उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४६६. यहाँपर जो गुणितकर्माशाला जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके तब सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्षे उदयको प्राप्त होते हैं इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष प्ररूपणा मिध्यात्वके समान है ।

§ ४६७. यहाँपर कितने ही आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं कि उदयसे सम्यग्मिध्यात्वका भीनस्थितिपना जैसे किसी एक गुणितकर्माशाले जीवने संयतासंयत और संयतकी गुणश्रेणियोंको किया । फिर उसके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण-श्रेणिशीर्षके साथ जब ये तीनों ही गुणश्रेणिशीर्षे सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होते हैं तब उसके उत्कृष्ट भीनस्थिति द्रव्य होता है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिसूत्रमें कही गई दो गुणश्रेणियों कर्मपरमाणुओंकी अपेक्षा असंख्यातगुणी होती हैं । यद्यपि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके समय संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियों नहीं प्राप्त होती हैं तो भी यही केवल पर्याप्त है, क्योंकि यह उन दोनोंसे असंख्यातगुणी होती है । किन्तु ग्रन्थकारने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण-श्रेणिशीर्षको नहीं जोड़ा है इसलिए यह बात नहीं बनती, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-सम्बन्धी गुणश्रेणिके निर्माणें हुए बिना रहते हुए सम्यग्मिध्यात्वगुणकी प्राप्ति नहीं होती ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

दोसपसंगादो ।

§ ४६८. अप्णं च एदस्स णिवंधणमत्थि । तं जहा—संतकम्ममहाहियारे कदि-वेदणादिचउवीसमणियोगद्वारेसु पडिवद्धे उदओ एाम अत्थाहियारो द्विदि-अणु-भाग-पदेसाणं पयडिसमणियाणमुकस्साणुकस्सजहण्णाजहण्णुदयपरुवणेयवावारो, तत्थुकस्सपदेसुदयसामितसाहणद्ध' सम्मत्तुपत्तियादिएकारसगुणसेढीओ परुविय पुणो जाओ' गुणसेढीओ संकिलेसेण सह भवंतरं संकामेत्ति ताओ वचइस्सामो । तं जहा—उवसमसम्मत्तगुणसेढी संजदासंजदगुणसेढी अथापवत्तसंजदगुणसेढी ति एदाओ तिरिणु गुणसेढीओ अप्पसत्थमरणेण वि मदस्स परभवे दीसंति । सेसासु गुणसेढीसु भतीणासु अप्पसत्थमरणं भवे इदि वुत्तं तं पि केणाहिप्पाएण वुत्तं, उक्कस्स-संकिलेसेण सह तासिं विरोहादो ति । तं पि जुदो ? संकिलेसानूरणकालादो पयदगुण-सेढीणमायामस्स संखेज्जगुणहीणतब्धुवगमादो । तदो एदेण साहणेण एत्थ वि तासि-

यदि कहा जाय कि सूत्र विद्यमान अर्थका कथन नहीं करता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर सूत्रको अव्यापकत्व दोषका प्रसंग प्राप्त होता है ।

§ ४६८. तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिके सद्भावमे जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणको नहीं प्राप्त होता इसका एक अन्य कारण है जो इस प्रकार है—कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्कर्म महाधिकारमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यरूप उदयके कथन करनेमें व्यापृत एक उदय नामका अर्थोधिकार है । वहाँ उत्कृष्ट प्रदेशोदयके स्वामित्वका साधन करनेके लिये सम्यक्त्वकी उत्पत्ति आदि ग्यारह गुणश्रेणियोंका कथन करनेके बाद फिर "जो गुणश्रेणियाँ संक्लेशरूप परिणामोके साथ भवान्तरमें जाती हैं उन्हें घतलाते हैं । जैसे—उपराम सम्यक्त्व-गुणश्रेणिये, संयतासंयतगुणश्रेणिये और अधःप्रवृत्तसंयतगुणश्रेणिये इस प्रकार ये तीन गुणश्रेणियाँ अप्रशस्त मरणके साथ भी मरे हुए जीवके परभवमे दिखाई देती हैं । किन्तु शेष गुणश्रेणियोंके क्षयको प्राप्त होने पर ही अप्रशस्त मरण होता है ।" यह कहा है सो यह किस अभिप्रायसे कहा है ? साध्य होता है कि शेष गुणश्रेणियोंका उत्कृष्ट संक्लेशके साथ विरोध है, इसलिये ऐसा कहा है ।

शंका—यह भी कैसे जाना ?

समाधान—संक्लेशको पूरा करनेका जो काल है उससे प्रकृत गुणश्रेणियोंका आयाम संख्यातगुणा हीन स्वीकार किया है, इससे जाना जाता है कि शेष गुणश्रेणियोंका उत्कृष्ट संक्लेशके साथ विरोध है ।

इसलिये इस साधनसे वहाँ भी अर्थात् सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमे भी उतका अभाव

१. ध० आ०, पृ १०६५ । "तिन्नि वि पटमिह्णाओ मिच्छत्ताए वि होव अन्नमवे ।"—कर्म प्र० उदय गा० १० । 'सम्मत्तुप्पादगुणसेढी देसविरदगुणसेढी अहापमत्तचंययगुणसेढी य एया तिन्नि वि पट-मिह्णाओ गुणसेढीतो मिच्छत्तं वि होव अन्नमवे' ति मिच्छत्तं गंतए अय्यसत्थं, मरणेण मओ गुणसेढितियदलियं परभवगतो वि कि त्रिकालं वेदिजा ।'—चूर्णि ।

मभावो सिद्धो । ण च पत्थ संकिलेसो णस्थि ति वोर्त्तुं जुत्तं, संकिलेसावूरणेण विणा सम्माइद्धिस्स सम्मामिच्छत्तगुणपरिणामासंभवादो । ण च तत्थ अप्पसत्थमरणं तं तते ण बुत्तं, संकिलेसमेत्तेण सह तासिं विरोहपदुप्पायणट्ठं तहोवएसादो । तम्हा सुत्तपरुविदाणि चेय दोगुणसेहितीसयाणि संकिलेसकालो वि अविणस्संतसरूवाणि जाथे पढमसमयसम्मामिच्छाइद्धिस्स उदयमागयाणि ताथे तस्स उक्कस्सयमुदयादो म्हीणट्ठिदियस्स मिच्छत्तस्सेव सामित्तं वत्तव्वमिदि सिद्धं ।

सिद्ध हुआ । यदि कहा जाय कि यहाँ संक्लेश नहीं होता सो भी बात नहीं है, क्योंकि संक्लेश पूरा हुए बिना सम्यग्दृष्टिके सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं । यदि कहा जाय कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अप्रशस्त मरण होता है यह बात आगममें नहीं कही है सो ऐसा कहकर भी मुख्य बात को नहीं टला जा सकता है, क्योंकि संक्लेशमात्रके साथ उक्त गुणश्रेणियों के विरोधका कथन करनेके लिये वैसा उपदेश दिया है । इसलिये सूत्रमें कहे गये दो गुणश्रेणियों ही नाशको प्राप्त हुए बिना जब सम्यग्मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होते हैं तभी उसके उदयसे मीनस्थितिवले कर्मपरमाणुओंका मिध्यात्वके समान उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—जो जीव गुणितःसंज्ञाकी विधिसे आया और अतिरीत्र संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके इस प्रकार सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिध्यात्वके प्रथम समयमें इन दोनों गुणश्रेणियोंके शीर्ष उदयको प्राप्त हुए तब इसके उदयसे मीनस्थितिवले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं । किन्तु कुछ आचार्य इन दो गुणश्रेणियोंके उदयके साथ अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उदयको मिलाकर तीन गुणश्रेणियोंका उदय होनेपर उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते हैं । इतना ही नहीं किन्तु वे यह भी कहते हैं कि यदि इन तीनों गुणश्रेणियोंका उदय सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें सम्भव न हो तो केवल एक अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियोंका उदय ही पर्याप्त है, क्योंकि संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंमें जितने कर्मपरमाणु पाये जाते हैं उनसे इस गुणश्रेणियोंके असंख्यातगुण कर्मपरमाणु पाये जाते हैं । किन्तु टीकाकारने उक्त आचार्योंके इस कथनको दो कारणोंसे नहीं माना है । प्रथम कारण तो यह है कि यदि सम्यग्मिध्यात्वगुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ पाई जाती होती तो चूर्णिसूत्रकार ने उक्त दो गुणश्रेणियोंके साथ इसका अवश्य ही समावेश किया होता, या स्वतन्त्रभावसे इसका आश्रय लेकर ही उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन किया होता । किन्तु जिस कारणसे सूत्रकारने ऐसा नहीं किया इससे ज्ञात होता है कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ नहीं पाई जाती । दूसरे सत्कर्म नामक महाधिकारसे प्रदेशोदयके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये ग्यारह गुणश्रेणियोंका निर्देश करते हुए बतलाया है कि 'उपशमसम्यक्त्वगुणश्रेण्यि, संयतासंयतगुणश्रेण्यि और अधःप्रवृत्तसंयतगुणश्रेण्यि ये तीन गुणश्रेणियाँ ही मरणके बाद परभवमें दिखाई देती हैं ।' इससे ज्ञात होता है कि संक्लेश परिणामोंके प्राप्त होने पर केवल ये तीन गुणश्रेणियाँ ही पाई जाती हैं शेष गुणश्रेणियाँ नहीं, क्योंकि उनका काल संक्लेशको पूरा करनेके कालसे थोड़ा है । यतः सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति संक्लेशरूप परिणाम हुए बिना वन नहीं सकती अतः सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ नहीं पाई जाती ।

❀ अणंताणुबंधीणमुक्कस्सयमोकड्डुणादितियहं पि भीणद्विदियं कस्स ?
 § ४६६. सुगमपेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेहीहि अविणट्ठाहि
 अणंताणुबंधी विसंजोएदुमाढत्तो, तेसिमपच्छिमद्विदिसंखंडयं संबुभमाणयं
 संखुद्धं तस्स उक्कस्सयमोकड्डुणादितियहं पि भीणद्विदियं ।

§ ५००. जो गुणिदकम्मंसिओ सबलहुमणंताणुबंधिकसाए विसंजोएदु-
 माढत्तो । किंभूदो सो संजमासंजम-संजमगुणसेहीए अविणट्ठसरूवाहि उवलक्खिओ
 तेण जाधे तेसिमपच्छिमद्विदिसंखंडयं सेसकसायाणमुवरि संबुभमाणायं संखुद्धं ताधे
 तस्स उक्कस्सयमोकड्डुणादीणं तिणहं पि संबंधि भीणद्विदियं होदि त्ति सुत्तयसंबंधो ।
 कुदो एदस्स उक्कस्सत्तं ? ण; तिणहं पि सग-सगुक्कस्सपरिणामेहि कयगुणसेट्ठिगोवुच्छाणं

यहाँ एक यह तर्क किया जा सकता है कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें मरण नहीं होता और
 उपशमसम्यक्त्व गुणश्रेणि आदि तीनके सिवा शेषका निषेध मरणका आलम्बन लेकर किया है
 संक्लेशका आलम्बन लेकर नहीं, अतः सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-
 सम्बन्धी गुणश्रेणिके माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । पर यह तर्क भी ठीक नहीं ज्ञात होता, क्योंकि
 संक्लेशका और मरणका परस्पर सम्बन्ध है । संक्लेशके होने पर मरण आवश्यक है यह बात
 नहीं पर मरणके लिये संक्लेश आवश्यक है । इसलिये यहाँ तीनके सिवा शेष गुणश्रेणियाँ
 संक्लेशमात्रमें सम्भव नहीं यह तात्पर्य निकलता है । यद्यपि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें
 अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनावाला जीव जाता है पर वह तभी जाता है जब गुणश्रेणिका काल
 समाप्त हो लेता है । अतः संयमासंयम और संयम इन दो गुणश्रेणियोंके उदयकी अपेक्षा ही
 सम्यग्मिध्यात्वके प्रथम समयमें उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु कहने चाहिये यह
 तात्पर्य निकलता है ।

* अनन्तानुबन्धीके अपकर्षण आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-
 परमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ४६६. यह पृच्छासुत्र सुगम है ।

* जिस गुणितकर्मांशवाले जीवने संयमासंयम और संयमकी गुणश्रेणियोंका
 नाश किये बिना अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका आरम्भ किया और जिसके
 अनन्तानुबन्धियोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे नाश हो गया वह अपकर्षण
 आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५००. गुणितकर्मांशवाले जिस जीवने अतिशीघ्र अनन्तानुबन्धी कषायकी विसंयोजना
 का प्रारम्भ किया । विसंयोजनाका प्रारम्भ करनेवाला जो नाशको नहीं प्राप्त हुई संयमासंयम
 और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंसे युक्त है । उसने जब उन अनन्तानुबन्धी कषायके अन्तिम
 स्थितिकाण्डकको शेष कषायोमें क्रमसे निक्षिप्त कर दिया तब उसके अपकर्षणआदि तीनों सम्बन्धी
 उत्कृष्ट भीनस्थिति होती है यह इस सूत्रका अभिप्राय है ।

शंका—इसीके उत्कृष्टपना कैसे होता है ?

समयगुणवलयमेत्ताणमेत्थुवलंभादो । एत्थाणंताणुबंधिविसंजोयणगुणसेढी चैव पहाणा, सेसाणमेत्तो असंखेज्जगुणहीणत्तदंसणादो ।

❀ उक्खस्सयमुदयादो मीणद्विदियं कस्स ?

§ ५०१. सुगमं ।

❀ संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण तत्थ मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेढिसीसयाणि पहमसमयमिच्छाइटिस्स उदयभागयाणि ताधे तरस्स पहमसमयमिच्छाइटिस्स उक्खस्सयमुदयादो मीणद्विदियं ।

§ ५०२. एत्थ गुणिककम्मंसियणिहेसो किपट्टं ण कदो ? ण, तरस्स पुण्डिल्ल-सामित्तसुत्तादो अणुवुत्तिदंसणादो । गुणसेढीणं परिणामपरतंतभावेण ण तं णिफलं, पयडिगोवुच्छाए लाहदंसणादो । एत्थ पदसंबंधो संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण तत्थुदो से मिच्छत्तं गओ जाधे गयस्स पहमसमयमिच्छाइटिस्स दो वि गुणसेढि-

समाधान—नहीं, क्योंकि अपने-अपने उत्कृष्ट परिणामोंके द्वारा की गईं तीनों ही गुणश्रेणियोंपुच्छाएँ एक समय कम एक आवलिप्रमाण यहाँ पाई जाती हैं, इसलिये अपकर्षणादि की मीनस्थितियोंकी अपेक्षा इसीके उत्कृष्टपना है । तो भी यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-सम्बन्धी गुणश्रेणि ही प्रधान है, क्योंकि शेष दो गुणश्रेणियाँ इससे असंख्यातगुणी हीन देखी जाती हैं ।

विशेषार्थ—जो गुणितकर्माशवाला जीव अतिशीघ्र संयमासंयम, संयम और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इन तीनों सम्बन्धी गुणश्रेणियोंको क्रमसे करके तदनन्तर अनन्तानुबन्धीके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करके स्थित होता है उसके अनन्तानुबन्धीके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह उक्त सूत्रका आशय है ।

❀ उदयसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०१. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जो संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यात्वमें गया और वहाँ पहुँचने पर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि उदयसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५०२. शंका—इस सूत्रमें 'गुणिककम्मंसिय' पदका निर्देश क्यो नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उस पदकी पूर्वके स्वामित्वसूत्रसे अनुवृत्ति देखी जाती है । और गुणश्रेणियों परिणामोंके अधीन रहती हैं, इसलिये यह निष्फल भी नहीं है, क्योंकि इससे प्रकृतियोंपुच्छाका लाभ दिखाई देता है ।

अब इस सूत्रके पदोंका इस प्रकार सम्बन्ध करे कि संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके फिर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और जब मिथ्यात्वमें जाकर प्रथम

सीसयाणि उदयमागदाणि होज्ज ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियमिदि । सम्माइट्ठिम्मि अणंताणुवंधीणमुदयाभावेण उदीरणा पत्थि त्ति गुणसेट्ठिसीसएसु आवल्लियपइट्ठेसु उदीरणादव्वसंगहट्ठमेसो मिच्छत्तं णेदव्वो त्ति णासकणिज्जं, तत्थ पुव्वमेव संकिलेसवसेण छाहादो असंखेज्जगुणसेट्ठिदव्वस्स हाणिदंसणादो । ण च विसोहिपरतंता गुणसेट्ठिणिज्जरा उदीरणा वा संकिलेसकाले बहुगी होइ, विरोहादो ।

❀ अट्ठएहं कसायाणमुक्कस्सयमोकड्डुणादितिएहं पि भीणट्ठिदियं कस्स ?

§ ५०३. सुगमं ।

❀ गुणितकर्मसिद्धौ कसायकत्ववर्णाए अब्भुट्ठिवो जाधे अट्ठएहं

समयमें दोनों ही गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त हुए उसी समय उसके उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं। यदि यह कहा जाय कि सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धियोंका उदय नहीं होनेसे उदीरण नहीं होती अतएव उदीरणाद्रव्यके संग्रह करनेके लिए जब गुणश्रेणियोंके आवल्लिके भीतर प्रविष्ट हो जाय तभी इसे मिथ्यात्वमें ले जाना चाहिये सो ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहाँ पहले ही संक्लेशके वशसे लाभकी अपेक्षा असंख्यातगुण श्रेणियोंकी हानि देखी जाती है। और जो गुणश्रेणियोंकी विशुद्धिके निमित्तसे होती है वह संक्लेशकालमें उदीरणके समान बहुत होगी सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है।

विशेषार्थ—इस सूत्रमें अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका निर्देश किया है। जो गुणितकर्मोंकी विधिसे आकर अतिशीघ्र संयमासंयम और संयमनी गुणश्रेणियोंकरके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है उसके वहाँ प्रथम समयमें ही यदि उक्त गुणश्रेणियोंके शीर्ष उदयमें आ जाते हैं तो उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है यह इस सूत्रका भाव है। यहाँ एक शंका यह कर्ता गई है कि उदय समयमें ही इस जीवको मिथ्यात्वमें न लाकर एक आवल्लि पहलेसे ले आना चाहिये। इससे लाभ यह होगा कि उदीरणका द्रव्य प्राप्त हो जानेसे गुणश्रेणियोंके परमाणु और अधिक हो जायेंगे। इस शंकाका जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है कि संक्लेश परिणामोंके बिना तो मिथ्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति होती नहीं। अब जब कि गुणश्रेणियोंके आवल्लिके भीतर प्रवेश करते ही इसे मिथ्यात्वमें ले जाना है तो पूर्वमें ही संक्लेश परिणाम हो जानेसे उदीरणके द्वारा होनेवाले लाभसे असंख्यातगुणोंके द्रव्यकी हानि हो जाती है, क्योंकि इतने समय पहलेसे ही इसकी गुणश्रेणियोंकी रचनाका क्रम बन्द हो जायगा। इसलिये ऐसे समय ही इसे मिथ्यात्वमें ले जाना चाहिये जब मिथ्यात्वमें पहुँचते ही गुणश्रेणियोंका उदय हो जाय।

* आठ कषायोंके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है।

§ ५०३. यह सूत्र सुगम है।

* जिस गुणितकर्मोंवाले जीवने कषायोंकी क्षणका आरम्भ किया है वह

कसायाणमपच्छिमद्विदिखंडयं संछुभमाणं संछुद्धं ताथे उक्खस्सयं तिण्हं पि भीणद्विदियं ।

६५०४. एत्थ पदसंबंधो एवं कायव्वो—जो गुणितकर्मसिओ सव्वलहु-
मद्ववसाणमंतोहुत्तुत्तमहियाणमुवरि कदासेसकरिणिज्जो होऊण कमायक्खवणाए
अव्वुद्विदो तेण जाथे अपुञ्चाणियट्टिकरणपरिणासेहि द्विदिखंडयसहस्साणि पादेंतेण
अद्वुहं कसायाणमपच्छिमद्विदिखंडयमावत्तियवज्जं संजलणाणमुवरि संछुभमाणयं
संछुद्धं ताथे तस्स उक्खस्सयमोक्खणादीणं तिण्हं पि भीणद्विदियं होइ ति । कुदो
एदमावत्तियपइद्वद्ववमुक्खसं ? ण, समयूणावत्तियमेत्तखवयशुणसेदीणमेत्थुवल्लभादो ।
हेहा चेय संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवणाणसेदीओ घेत्तूण सामित्तं किमिदि
ण एरुविदं ? ण, तासिं सव्वासिं पि मिल्लिदाणं खवगगुणसेदीए असंखेज्जदि-
भागत्तादो ।

❀ उक्खस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ?

जब आठ कषायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे पतन कर देता है तब वह
अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी
होता है ।

§ ५०४. यहाँ पर पदोका सम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि जो गुणितकर्मांशवाला
जीव अतिशीघ्र आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके बाद करने योग्य सब कार्योंको करके कषायोंकी
क्षपणाके लिये उद्यत हुआ, वह जब अपूर्णकरण और अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा हजारो
स्थितिकाण्डकोका पतन करके आठ कषायोंके एक आवलिके सिवा अन्तिम स्थितिकाण्डको
संज्वलनोमे क्रमसे निश्चित करता है तब वह अपकर्षण आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—आवलिके भीतर प्रविष्ट हुआ यह द्रव्य उत्कृष्ट कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक समय कम आवलिप्रमाण क्षपकगुणश्रेणियाँ यहाँ पाई
जाती हैं, इसलिये यह द्रव्य उत्कृष्ट है ।

शंका—इसके पूर्वमे ही संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा इन तीनों
गुणश्रेणियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वाभित्तिका कथन क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वे सब मिलकर भी क्षपकगुणश्रेणिके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण होती हैं ।

विशेषार्थ—गुणितकर्मांशवाला जो जीव आठ कषायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका
पतन करके जब स्थित होता है तब उसके आठ कषायोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी
अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह बुद्ध कथनका तात्पर्य है । शेष शंका-
समाधान सरल है ।

❀ उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०५. एत्थ अट्ठण्हं कसायाणमिदि अट्ठियारसंवंधो । सुगममन्यत् ।

☸ गुणितकर्मसियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवण-
गुणसेदीओ एदाओ तिण्णिण गुणसेदीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढम-
समयअसंजदस्स गुणसेदिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अट्ठकसायाण-
सुक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियं ।

५०६, एत्थ पदसंवंधो एवं कायव्वो । तं जहा—गुणितकर्मसियस्स अट्ठ-
कसायाणसुक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियं होइ । किं सर्वस्यैव ? नेत्याह—संजमासंजम-
संजम-दंसणमोहणीयक्खवणगुणसेदीओ त्ति एदाओ तिण्णिण गुणसेदीओ क्रमेण काऊण
असंजमं गदो तस्स पढमसमयअसंजदस्स जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदयमागदाणि
ताधे पयदुक्कस्ससामित्तं होइ त्ति । किमट्ठमेसो पयदसामिओ असंजमं णीदो ? ण,
अण्णहा अट्ठकसायाणमुदयासंभवादो । एत्याणंताणुवंधि विसंजोयणगुणसेदीए सह
चत्तारि गुणसेदीओ किण्ण परूविदाओ त्ति णासंक्किणज्जं, तिस्से सगअणुव्वाणियट्ठि-
करणद्दाहिंतो विसेसाहियगळ्ढित्सेससरूवाए एत्तियमेत्तकालमवट्ठाणासंभवादो । तम्हा

§ ५०५. इस सूत्रमे अधिकारके अनुसार 'आठ कपायोके' इन पदोका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

☸ जो गुणितकर्मांशवाला जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षणसास्मन्धी इन तीन गुणश्रेणियोंको करके असंयमको प्राप्त हुआ है उस असंयतके जब प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह आठ कपायोंके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५०६. यहाँ पदोंके सम्बन्ध करनेका क्रम इस प्रकार है—गुणितकर्मांशवाला जीव आठ कपायोके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—क्या सभी गुणितकर्मांशवाले जीव स्वामी होते हैं ?

समाधान—नहीं, किन्तु जो संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षणसास्मन्धी इन तीन गुणश्रेणियोंको क्रमसे करके असंयमको प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस असंयतके जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है ।

शंका—यह प्रकृत स्वामी असंयमको क्यों प्राप्त कराया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा आठ कपायोंका उदय नहीं बन सकता था । और यहाँ उनका उदय अपेक्षित था, इसलिये यह असंयमको प्राप्त कराया गया है ।

शंका—यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिके साथ चार गुणश्रेणियोंका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—यहाँ ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह अपने अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ ही अधिक होती है, इसलिये शेष भागके गल जानेसे इतने कालतक का मद्भाव मानना असंभव है ।

गुणदकर्मसियलकवणेणांतूण संजदासंजद-संजदगुणसेढीओ काऊण पुणो अणंताणु-
बंधी विसंजोइय दंसणमोहणीयं खवेमाणो वि अट्टकसायाणं पुञ्चिल्लदोयुणसेढि-
सीसएहि सरिसमप्पणो गुणसेढिसीसयं काऊण अथापवत्तसंजदो जादो । गुणसेढि-
सीसएसु उदयभागच्छमायेसु कालं काऊण देवेसुप्पणपढमसमए वट्टमाणओ जो
जीवो तस्स पढमसमयअसंजदस्स उदिण्णगुणसेढिसीसयस्स अट्टकसायाणमुक्कस्स-
मुदयादो भीणद्विदियं होदि ति सिद्धं । एत्थ सत्थाणम्मि चेव असंजमं णेऊण
सामित्तं किण्ण दिण्णं ऽ ण, सत्थाणम्मि असंजमं गच्छमाणो पुञ्चमेव अंतोमुहुत्तकालं
संकिलेसमावूरेइ ति एत्तियमेत्तकालपडिवद्धगुणसेढिलाहस्स विणासप्पसंगादो ।
सिस्सो' भणइ—एदग्हादो उवसमसेढिमस्सियूण उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं
बहुअं लहिस्सामो । तं जहा—जो गुणदकर्मसिओ सञ्चलहुं कसायउवसामणाए
अब्भुद्धिदो अपुञ्चकरणपढमसमयप्पहुडि गुणसेढि करेमाणो अपुञ्चकरणद्धादो
अणियद्विअद्धाओ च विसेसाहियं काऊण अणियद्विअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु
से काले अंतरं पारभदि ति मदो देवो जादो तस्स अंतोमुहुत्तोवणल्लयस्स जाये

इसलिये गुणितकर्मशाकी विधिसे आकर और संयतासंयत तथा संयतसम्बन्धी गुण-
श्रेणियोंको करके फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके दर्शनमोहनीयकी क्षणा करता हुआ
भी आठ कषायोंके पहले दो गुणश्रेणियोंके समान अपने गुणश्रेणियोंके करके अधःप्रवृत्त-
संयत हो गया । फिर गुणश्रेणियोंके उदयसे आनेपर भरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार
देवोंमें उत्पन्न होकर जो प्रथम समयसे विद्यमान है उस प्रथम समयवर्ती असंयतके गुणश्रेण-
ियोंके उदय होनेपर आठ कषायोंके उदयकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं
यह सिद्ध हुआ ।

शंका—यहाँ स्वस्थानने ही असंयम प्राप्त कराकर स्वामित्वका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि इस जीवको स्वस्थानमें ही असंयम प्राप्त कराते हैं तो
अन्तर्मुहूर्त काल पहलेसे ही इसे संक्लेशकी प्राप्ति करानी होगी जिससे इतने कालसे सम्बन्ध
रखनेवाली गुणश्रेणिका लाभ न मिल सकेगा, अतः स्वस्थानने ही असंयम प्राप्त कराकर
स्वामित्वका कथन न करके इसे देवोंमें उत्पन्न कराया गया है ।

शंका—यहाँ शिष्यका कहना है कि पीछे जो क्रम कहा है इसके स्थानमें यदि उपशम-
श्रेणिकी अपेक्षा यह कथन किया जाय तो उदयसे मीनस्थितिवाले अधिक परमाणु प्राप्त हो सकते
हैं और तब इन्हें उत्कृष्ट कहना ठीक होगा । खुलासा इस प्रकार है—गुणितकर्मशाखाला जो जीव
अतिशीघ्र कषायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत हुआ । फिर अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर
गुणश्रेणिको करता हुआ अपूर्वकरणके कालसे अनिवृत्तिकरणके कालको विशेषाधिक करके
अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाने पर तदनन्तर समयमें अन्तरकरणका
प्राप्ति करता किन्तु ऐसा न करके मरा और देव हो गया उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त

१. 'अंतरकरणं होदि ति जायदेवत्त तं मुहुत्तो । अट्टपहकसायाणं ।'—कर्मप्र० उदय गा० १४ ।

गुणसेदिसीसयमुदिणं ताधे उकस्सयमुदयादो भीणद्विदियं । एदं च पुण्विल्लसव्व-
गुणसेदिसीसयदव्वादादो विसोहिपाहम्मणं असंखेज्जगुणं, तम्हा एत्थोवसामित्तेण
होदव्वं । जइ वि एसो अंतोमुहुत्तकालमुक्कड्डिय गुणसेदिदव्वमुवरिं संखुहदि परपयडीसु
च अधापवत्तसंक्रमेण संकामेदि तो वि एदं विणासिज्जमाणसव्वदव्वमप्पहाणं
गुणसेदिसीसयस्स असंखेज्जभागत्तादो त्ति एदं घट्ठे, देवेसुववज्जिय अंतोमुहुत्तकाल-
मच्छमाणस्स ओकड्डुकुक्कणादीहि गुणसेदिसीसयस्स असंखेज्जाणं भागाणं परिक्खय-
दंसणादो । ण चेदमसिद्धं, एदम्हादो चेव सुत्तादो त्हाभावसाहणादो । ण च
देवेसुप्पण्णपढमसमए चेव उवसामणगुणसेदिगोबुच्छावत्त्ववणेण पयदसामित्तसमत्थणं पि
समंजसं, तत्थतणगुणसेदिगोबुच्छदव्वस्स दंसणमोहक्खवयगुणसेदिसीसयादो असंखेज्ज-
गुणत्तणिण्णयादो । सुत्तयाराहिप्पाएण पुण दंसणमोहक्खवयगुणसेदिसीसयस्सेव ततो
असंखेज्जगुणत्तणिण्णयादो । अण्णहा तप्परिहारणेत्थेव सामित्तविहाणाणुववचीदो ।
ण च दंसणमोहक्खवयगुणसेदिसीसएण सह तं घेत्तुण सामित्तावत्त्ववणं पि घट्टमाणयं
गल्लिदसेसखुवदंसणमोहक्खवयगुणसेदिसीसयस्स त्तेत्तियमेत्तकालावट्टाणस्स अक्कंत-
मसंभवादो । तम्हा सुत्तुत्तमेव सामित्तमविरुद्धं सिद्धं । अहवा णिच्चावादेण सत्थाणे

वाद जव गुणश्रेणिशीर्षे उदयको प्राप्त होता है तब उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मप्रमाण
होते हैं । और यह द्रव्य विशुद्धिकी अधिकतासे संचित होता है, इसलिये पिछले सब गुणश्रेणि-
शीर्षोंके द्रव्यसे असंख्यातगुणा है । इसलिये यहाँ अन्य कोई स्वामी न होकर उपशामक होना
चाहिये । यद्यपि यह अन्तर्मुहूर्तकाल तक उत्कर्षण करके गुणश्रेणिके द्रव्यको ऊपर निक्षिप्त करता
है और अधःप्रवृत्त संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतियोंमें भी संक्रमित करता है तो भी इस प्रकारसे
चिनाशको प्राप्त होनेवाला यह सब द्रव्य अप्रधान है, क्योंकि यह गुणश्रेणिशीर्षके असंख्यातव-
भागप्रमाण है ?

समाधान—सो यह कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि देवोमें उत्पन्न होकर अन्त-
र्मुहूर्तकालतक रहते हुए इसके अपकर्षण, उत्कर्षण आदिके द्वारा गुणश्रेणिशीर्षके असंख्यात
बहुभागको क्षय देखा जाता है और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे इसकी
सिद्धि होती है । यदि कहा जाय कि देवोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही उपशामश्रेणिसम्बन्धी
गोपुच्छोके अवलम्बनसे प्रकृत स्वामित्वका समर्थन भी उचित है, क्योंकि यह बात निर्णीत-सी
है कि वहाँ प्रथम समयमें जो गुणश्रेणिगोपुच्छका द्रव्य प्राप्त होता है वह दर्शनमोहनीयके क्षण-
सम्बन्धी शीर्षसे असंख्यातगुणा होता है । सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि सूत्रकारके
अभिप्रायसे तो दर्शनमोहनीयका क्षणसम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्ष ही उससे असंख्यातगुणा होता है
यह बात निर्णीत है । यदि ऐसा न होता तो उपशामश्रेणिकी अपेक्षा स्वामित्वके कथनका त्याग
करके सूत्रमें दर्शनमोहनीयकी क्षणकी अपेक्षा ही स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता था ।
यदि कहा जाय कि दर्शनमोहके क्षणसम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षके साथ उपशामश्रेणिसम्बन्धी
गुणश्रेणिको लेकर स्वामित्वका कथन बन जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि दर्शनमोहक्षण-
सम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षका जो अंश गलकर शेष बचता है उसका चारित्रमोहनीयकी उपशामना
होते हुए अन्तरकरणके कालके प्राप्त होनेके एक समय बादतक अवस्थित रहना अत्यन्त असम्भव
है । इसलिये सूत्रमें जो स्वामित्व कहा है वही ठीक है यह बात सिद्ध हुई । अथवा निर्व्याघातसे

चेव सामिच्चमेत्थ सुत्तयाराहिप्पेदं । ण च उवसमसेठीए तहा संभवो, विरोहादो । तदो सत्थाणे चेव असंजमं णेदूण सामिच्चमेदं वत्तव्वमिदि ।

यहाँ स्वस्थानमे ही स्वामित्व सूत्रकारको अभिप्रेत है । किन्तु उपशमश्रेणिमे इस प्रकारसे स्वामित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमे विरोध आता है, इसलिये स्वस्थानमे ही असंयमको प्राप्त कराके इस स्वामित्वका कथन करना चाहिये ।

विश्वार्थ—यहाँ आठ कषायोंके उदयकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-परमाणुओंके स्वामीका निर्देश करते हुए सूत्रमे तो केवल इतना ही कहा है कि जो गुणितकर्मांश-वाला जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहक्षपकसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके जब असंयम-भावको प्राप्त होता है तब उसके प्रथम समयमे इन तीनों गुणश्रेणियोंके शीर्षके उदय होने पर उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है । किन्तु इसका व्याख्यान करते हुए वीरसेन स्वामीने इतना विशेष बतलाया है कि ऐसे जीवको देवपर्यायमें ले जाकर वहाँ प्रथम समयमे गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त होने पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । उन्होंने इस व्यवस्थामे यह लाम बतलाया है कि ऐसा करनेसे असंयमकी प्राप्तिके लिये अन्तर्मुहूर्तप्रमाण संकलेशरूप काल षच जाता है । जिससे अधिक गुणश्रेणिका लाभ मिल जाता है । अब यदि इसे देवपर्यायमे न ले जाकर स्वस्थानमे ही असंयमभावकी प्राप्ति कराई जाती है तो एक अन्तर्मुहूर्त पहलेसे गुणश्रेणिका कार्य बन्द हो जायगा जिससे लाभके स्थानमें हानि होगी, इसलिये असंयमभावकी प्राप्तिके समय इसे देवपर्यायमे ले जाना ही उचित है । यह वह व्याख्यान है जिसपर टीकामे अधिक जोर दिया गया है । इसके बाद एक दूसरे प्रकारसे उत्कृष्ट स्वामित्वकी उपस्थापना करके उसका खण्डन किया गया है । यह मत धवला सत्कर्ममहाधिकारके उदयप्रकरणमे और श्वेतान्बर कर्मप्रकृति व पंचसंप्रहमे पाया जाता है । इसका आशय यह है कि कोई एक गुणितकर्मांशवाला जीव उपशमश्रेणियोंपर चढ़ा और वहाँ अपूर्वकरण तथा अनिष्टत्तिकरणमे अन्तरकरण क्रियाके पहले तक उसने गुणश्रेणियों रचना की । इसके बाद मरकर वह देव हो गया । इसप्रकार इस देवके अन्तर्मुहूर्तमे जब गुणश्रेणियोंकी उदय होता है तब उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है । बात यह है कि दर्शनमोहक्षपकगुणश्रेणियोंसे उपशमकगुणश्रेणियों असंख्यातगुणी बतलाई हैं, इसलिये इस कथनको पूर्वोक्त कथनसे अधिक बल प्राप्त हो जाता है । तथापि टीकामे यह कहकर इस मतको अस्वीकार किया गया है कि देव होने के बाद बीचका जो अन्तर्मुहूर्त काल है उस कालमे अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदिके द्वारा गुणश्रेणियोंके बहुभाग द्रव्यका अभाव हो जाता है, इसलिये इस स्थलपर उत्कृष्ट स्वामित्व न बतलाकर चूणिसूत्रकारके अभिप्रायानुसार ही उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाना ठीक है । वैसे तो इन दोनों मतोंपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता है कि ये दोनों ही मत भिन्न-भिन्न दो परम्पराओंके द्योतक हैं, अतएव अपने-अपने स्थानमे इन दोनोंको ही प्रमाण मानना उचित है । यद्यपि इनमेसे कोई एक मत सही हांगा पर इस समय इसका निर्णय करना कठिन है । इसीप्रकार टीकामे यह मत भी दिया है कि उपशमश्रेणियोंके पूर्वोक्त प्रकारसे मरकर जो देव होता है उसके प्रथम समयमे जो आठ कषायोंका द्रव्य उदयमे आता है वह पूर्वोक्त तीन गुण-श्रेणियोंके द्रव्यसे अधिक होता है, इसलिये उत्कृष्ट स्वामित्व तीन गुणश्रेणियोंके उदयमे न प्राप्त होकर उपशमश्रेणियोंके मरकर देवपर्याय प्राप्त होनेके प्रथम समयमे प्राप्त होता पर टीकामे इस मतका भी यह कहकर निराकरण किया गया है कि सूत्रकारका यह अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सूत्रकार तीन गुणश्रेणियोंके द्रव्यको इससे अधिक मानते हैं । तभी तो उन्होंने तीन गुणश्रेणियोंसे उदयमे उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया है । इसके साथ ही साथ प्रसंगसे इन दो

❀ कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोक्कुणादितिएहं पि भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५०७. सुगमं ।

❀ गुणिदकम्मंसियस्स कोधं खवेतस्स चरिमद्विदिवं डयचरिमसमए असंछुहमाणयस्स उक्कस्सयं तिएहं पि भीणद्विदियं ।

§ ५०८. एत्थ चरिमद्विदिवं डयचरिमसमयअसंछुहमाणयस्से ति तुत्ते गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सव्वलहुं कसायक्खवणाए अब्भुद्विदस्स कोहपढमद्विदिं गुणसेदिआयारेणावद्विदं समयाहियोदयावलयिवज्जं सव्वमपद्विदीए गालिय कोहवेदगचरिमसमए से काले माणवेदओ होहदि ति कोहचरिमद्विदिवं डयचरिमसमयअसंछोहयभावेणावद्विदस्स आवलयिपइहगुणसेदिगोवुच्छाओ गुणसेदिसीएण सह

आपत्तियोका और निराकरण करके टीकामे प्रकारान्तरसे सूत्रकारके अभिप्रायकी पुष्टि की गई है। प्रथम आपत्ति तो यह है कि पूर्वोक्त तीन गुणश्रेणियोंमें अनन्तानुबन्धीविसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियोंको मिलाकर इन चारोंके उदयमे उत्कृष्ट स्वामित्व कहना अधिक उपयुक्त होता। पर यह कथन इसलिये नहीं बनता कि अनन्तानुबन्धीविसंयोजनागुणश्रेणिका काल इतना बड़ा नहीं है कि उसका सद्भाव दर्शनमोहक्षपणाके बाद तक रहा आवे, इसलिये तो पहली आपत्तिका निराकरण हो जाता है। तथा दूसरी आपत्ति यह है कि दर्शनमोहक्षपणासम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उपशमश्रेणिसम्बन्धीगुणश्रेणियोंके साथ मिलाकर उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों नहीं कहा? इसका भी यही कहकर निराकरण किया गया है कि दर्शनमोहक्षपणासम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उपशमश्रेणिसम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उक्त काल तक रह नहीं सकती, अतः यह कथन भी नहीं बनता। अन्तमें प्रकारान्तरसे जो सूत्रकारके अभिप्रायका समर्थन किया है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि सूत्रकारको स्वस्थानमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व इष्ट रहा है। यदि उन्हें देवपर्यायमे ले जाकर स्वामित्वका कथन करना इष्ट होता तो वे सूत्रमें इसका स्पष्ट उल्लेख करते।

❀ क्रोधसंज्वलनके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०७. यह सूत्र सुगम है।

❀ जो गुणित कर्मांशवाला जीव क्रोधका क्षय कर रहा है। पर ऐसा करते हुए जिसने अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें पहुँचकर भी अभी उसका पतन नहीं किया है वह उक्त तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है।

§ ५०८. यहां 'अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमे जिसने उसका पतन किया है उसको ऐसा कथन करनेसे यह अभिप्राय लेना चाहिये कि गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर जो अतिशीघ्र कपायकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ है और ऐसा करते हुए एक समय अधिक एक आचलिके सिवा क्रोधकी गुणश्रेणिरूपसे स्थित शेष सब प्रथम स्थितिको अन्तःस्थिति द्वारा गलाकर जो क्रोधवेदकके अन्तिम 'समयमे स्थित है' उसके गुणश्रेणियोंके साथ आचलिके भीतर प्रविष्ट हुई गुणश्रेणियोंपुच्छाओंके रहते हुए प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। यह जीव अगले

वट्टमाणओ घेत्तूण पयदुक्कस्ससामिच्चं होदि चि घेत्तव्वं ।

§ ५०६. ण एत्थ गुणसेट्ठिसीसयस्स बहिब्भावो ति पढमसमयमाणवेदयम्मि समयुणुच्छिष्टावलिमत्तट्ठिदीओ घेत्तूण सामिच्चं दायव्वमिदि संकणिज्जं, उप्पायाणु-च्छेयमस्सिदूण गुणसेट्ठिसीसयस्स वि एत्थंत्तव्वामुवत्तंभादो । एवमेव चेष घेत्तव्वं, अण्णहा तस्सेव उक्कस्सयमुदयादो म्भीणट्ठिदियं परूविस्समाणेणुत्तरसुत्तेण सह विरोहादो । अहवा दव्वट्ठियणयावत्तवीभूदपुव्वगइणायावत्तं वणेण पढमसमयमाण-वेदयस्सेव कोहचरिमट्ठिदिव्वंडयचरिमसमयअसंछोहयत्तं परूवेदव्वं । ण च एवं संते उवरिमसुत्तत्थो दुग्गहो, भयणवाईणमम्हाणं तत्थ अणुप्पायाणुच्छेदं पज्जवट्ठियणय-णियमेण समवत्तंविषय घटावणादो । एदमत्थपदमुव्वरिमाणंतरसुत्तेसु वि जोजेयव्वं ।

समयमे मानवेदक होगा, इसलिये यह समय क्रोधके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समय होनेसे अभी इसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन नहीं हुआ है ।

§ ५०९. यकि कोई यहां ऐसी आशंका करे कि यहां गुणश्रेणिशीर्षं बहिर्भूत है, इसलिये मानवेदकके प्रथम समयमे एक समय कम उच्छिष्टावलिप्रमाण स्थितियोंकी अपेक्षा स्वामित्वका विधान करना चाहिये उस उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा गुणश्रेणिशीर्षका भी यहां अन्तर्भाव पाया जाता है । और यह अर्थ प्रकृतमे इसी रूपसे लेना चाहिये, अन्यथा आगे जो यह सूत्र आया है कि 'इसी जीवके उदयसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं' सो इसके साथ विरोध प्राप्त होता है । अथवा द्रव्यार्थिक नयका आलम्बनभूत भूतपूर्वगति न्यायका सहारा लेकर प्रथम समयवर्ती मानवेदकके ही अपने अन्तिम समयवर्ती क्रोधके अन्तिम स्थितिकाण्डकका सद्भाव कहना चाहिये । यदि कहा जाय कि ऐसा मानने पर आगेके सूत्रका अर्थ घटित करना कठिन हो जायगा सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भजनावादी हैं, इसलिए पर्यायार्थिक नयके नियमानुसार अनुत्पादानुच्छेदका आलम्बन लेकर उक्त अर्थ घटित कर दिया जायगा । इस अर्थ पदको आगेके अन्तरवर्ती सूत्रमे भी घटित कर लेना चाहिये ।

विशेषार्थ—वस्तुस्थिति यह है कि जो गुणितकर्माशवाला जीव क्षणिके समय क्रोध-वेदकके कालको बिताकर मानवेदकके कालमे स्थित है वह क्रोधसंचलनके अन्तर्कषण आदि तीनकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओका स्वामी होता है । किन्तु यहां सूत्रमे यह स्वामित्व क्रोधवेदकके अन्तिम समयमे ही बतलाया गया है जिसे घटित करनेमे बड़ी कठिनाई जाती है । वह एक शंकाकारने तो इस सूत्र प्रतिपादित विषयका प्रकारान्तरसे खण्डन ही कर दिया है । वह कहता है कि यहां गुणश्रेणिशीर्षकी तो चर्चा ही छोड़ देनी चाहिये । उत्कृष्ट स्वामित्वका जितना भी द्रव्य है उसमे इसका सद्भाव तो कथमपि नहीं किया जा सकता । हां मानवेदकके प्रथम समयमे जो एक समय कम उच्छिष्टावलिप्रमाण द्रव्य शेष रहता है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना ठीक है । पर टीकाकारने इस विरोधको दो प्रकारसे शमन किया है । (१) प्रथम तो उन्होने उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षासे इस विरोधको शान्त किया है । उत्पादानुच्छेद द्रव्यार्थिक नयको कहते हैं । यह सत्त्वावस्थामे ही विनाशको स्वीकार करता है । उदाहरणार्थ सूक्ष्मसास्पराय नामक दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमे सूक्ष्म लोभका उदय है पर वहा उसको उदयच्युच्छिन्न चितलाई जाती है सो यह कथन उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षासे जानना

ॐ उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणट्टिदियं पि तस्सेव ।

§ ५१०. एत्थ कोहसंजलणस्से ति अणुवट्टे, तेणेवमहिसंबंधो कायव्वो— तस्सेव णयदयविसयीकयस्स पुच्चिञ्जलसामियस्स कोहसंजलणसंबंधि उक्कस्सय- मुदयादो भ्मीणट्टिदियमिदि । सेसं पुच्चं व । णवरि उदिण्णमेदपदेसग्गमेयट्टिदि- पडिबद्धयेत्थ सामित्तविसईकयं होइ ।

ॐ एवं चेव माणसंजलणस्स । णवरि ट्टिदिकंडयं चरिमसमयअसंखुह- माणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भ्मीणट्टिदियाणि ।

§ ५११. माणसंजलणस्स वि एवं चेव सामित्तं दायव्वं । णवरि माणट्टिदि- कंडयं चरिमसमयअसंखुहमाणयस्से ति सणामपडिवट्टो आलावभेदो चेव णत्थि अण्णो ति समप्पणासुत्तमेयं ।

चाहिये । इसीप्रकार प्रकृतमे भी जब कि क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व स्वीकार कर लिया तब गुणश्रेण्णशीर्षका उत्कृष्ट स्वामित्वविषयक द्रव्यमें अन्तर्भाव माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । इस कथनको इसी रूपमें माननेके लिये इसलिये भी जोर दिया है कि अगले सूत्रमें जो उदयकी अपेक्षा भ्मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है वह ऐसा माने बिना बन नहीं सकता । (२) दूसरे भूतपूर्व न्यायकी अपेक्षा मानवेदकके यह सब स्वीकार करके उक्त विरोधका शमन किया गया है । यद्यपि ऐसा करनेसे अगले सूत्रके साथ संगति विठलानेमें कठिनाई जाती है पर अगले सूत्रका अर्थ अनुत्पादानुच्छेद अर्थात् पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे कर लेनेपर वह कठिनाई दूर हो जाती है । इसप्रकार विविध दृष्टियोंसे विचार करके जहां जो अर्थ संगत बैठे उसे घटित कर लेना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

ॐ उदयसे भ्मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म परमाणुओंका स्वामी भी वही है ।

§ ५१०. इस सूत्रमें 'कोहसंजलणस्स' इत पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये इस सूत्रका ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि जिसे पहले दो नयोंका विषय बतला आये हैं उसी पूर्वोक्त स्वामीके क्रोधसंज्वलनकी अपेक्षा उदयसे भ्मीन स्थितिवाले उत्कृष्ट परमाणु होते हैं । शेष कथन पहलेके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक स्थितिगत जो कर्मपरमाणु उदयमें आ रहे हैं उनका ही यहां स्वामित्वसे सम्बन्ध है ।

विशेषार्थ—क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें क्रोधके जिन कर्मपरमाणुओंका उदय हो रहा है उसमें गुणश्रेण्णशीर्षका द्रव्य सम्मिलित है, अतः यहां उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है, क्योंकि उदयगत कर्मपरमाणुओंकी यह संख्या अन्यत्र नहीं प्राप्त होती ।

ॐ इसी प्रकार मानसंज्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसने अपने अन्तिम समयमें मानस्थितिकाण्डकका पतन नहीं किया है वह चारोंकी अपेक्षा भ्मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५११. मानसंज्वलनके स्वामित्वका भी इसीप्रकार अर्थात् क्रोधसंज्वलनके समान विधान करना चाहिये । किन्तु जिसने मानस्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं किया है इसप्रकार यहां क्रोधके स्थानमें मानका सम्बन्ध होनेसे कथनमें इतना भेद हो जाता है, इसके सिवा अन्य कोई भेद नहीं है । इसप्रकार यह समर्पणासूत्र है ।

✽ एवं चेव मायासंजलणस्स । एवरि मायाट्टिदिकंड्यं चरिमसमय-
असंछुहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भीणट्टिदियाणि ।

§ ५१२. सुगमं ।

✽ लोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोक्कहुणादितियहं पि भीणट्टिदियं
कस्स ?

§ ५१३. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

✽ गुण्णिकम्मंसियस्स सच्चसंतकम्ममावलिथं पविस्समाण्यं पविट्ठं
ताथे तस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५१४. एत्थ गुण्णिकम्मंसियाणिदेसो तव्विवरीयकम्मंसियाणिवारणफलो ।
तं पि कुदो ? गुण्णिकम्मंसियादो अण्णत्थ पदेससंचयस्स उक्करसभावाणुववत्तीदो ।

✽ इसीप्रकार मायासंज्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसने मायास्थितिकाएडकके अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं किया है वह चारोंकी ही अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५१२. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—पहले जैसे क्रोधसंज्वलनके अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका कथन कर आये हैं वैसे ही मानसंज्वलन और माया संज्वलनकी अपेक्षा भी जानना चाहिये । यदि उक्त कथनसे इसमें कोई विशेषता है तो वह इतनी ही कि क्रोधसंज्वलनके वेदककालमें उस प्रकृतिकी अपेक्षासे कथन किया था किन्तु यहां मानसंज्वलन और मायासंज्वलनके वेदककालमें इनकी अपेक्षा कथन करना चाहिये ।

✽ लोभसंज्वलनके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५१३. यह पृच्छामुत्तं सुगम है ।

✽ जिस गुणितकर्मांश जीवके सब सत्कर्म जब क्रमसे एक आवलिके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं तब वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५१४. यहाँ सूत्रमें 'गुणितकर्मांश' पदका निर्देश इससे विपरीत कर्मांशके निवारण करनेके लिये किया है ।

शंका—ऐसा करनेका क्या प्रयोजन है ?

समाधान—क्योंकि गुणितकर्मांशके सिवा अन्यत्र कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता । वस यही एक प्रयोजन है जिस कारणसे इस सूत्रमें 'गुणितकर्मांश' पदका निर्देश किया है ।

तरस सव्वलहुं खवणाए अब्भुद्धिदस्स जाधे सव्वसंतकम्ममविविक्खय थोवुणभाव-
भावलिउं पविस्समाणयं पविस्समाणयं कमेण पविट्ठं ताधे पयदुक्कस्ससामित्तं होइ ।
सव्वसंतकम्मवयणेणेदेण विणट्ठासेसदव्वमेदस्स असंखेज्जदिभागत्तेण अप्पहाणमिदि
सूचिदं पविस्समाणयं पविट्ठमिदि एदेण अकमपवेसो पडिसिद्धो ।

❀ उक्कस्सयसुदयादो भीणट्ठिदियं कस्स ?

§ ५१५. सुगमं ।

❀ चरिमसमयसकसायखवगस्स ।

§ ५१६. एत्थ चरिमसमयसकसाओ जो खवगो सुहुमसांपरायसण्णिदो तरस
पयदुक्कस्ससामित्तं होइ ति संबंधो कायव्वो । कुदो एदमुक्कस्सयं ? मोहणीय-
सव्वदव्वस्स एत्थेइ पुंजीभूदस्सुवल्लंभादो । एत्थ दव्वपमाणायणं जाणिय वत्तव्वं ।

इस जीवके अतिशीघ्र क्षणणके लिये उद्यत होनेपर जब सब सत्कर्म क्रमसे आवलिके भीतर प्रविष्ट हो जाता है तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वाभित्व होता है । यहाँ यद्यपि कुछ ऐसे कर्म बच जाते हैं जो आवलिके भीतर प्रविष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ उनकी विवक्षा नहीं की गई है । इस सूत्रमे जो 'सब सत्कर्म' यह वचन दिया है सो इससे यह सूचित किया है कि जो द्रव्य नष्ट हो गया है वह इसना असंख्यातर्वा भागप्रमाण होनेसे अप्रधान है । तथा सूत्रमे जो 'पविस्समाणयं पविट्ठं' यह वचन दिया है सो इससे अक्रमप्रवेशका निषेध कर दिया है । आशय यह है कि सब सत्कर्म क्रमसे ही आवलिके भीतर प्रविष्ट होता है ।

विशेषार्थ—गुणितकर्माशाला जीव अतिशीघ्र क्षणणके लिये उद्यत होकर जब क्रमसे सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमे पहुँचकर लोभके सब कर्मपरमाणुओको आवलिके भीतर प्रवेश करा देता है तब इसके उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुआ द्रव्य राबसे उत्कृष्ट होता है । किन्तु यह अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणके अयोग्य होता है । इसीसे इन तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओका स्वामी इसे बतलाया है ।

* उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओका स्वामी कौन है ।

§ ५१५. यह सूत्र सरल है ।

* जो क्षणक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है वह उदयसे भीन-
स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओका स्वामी है ।

§ ५१६. यहाँ पर जो क्षणक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमे स्थित है और जिसे सूक्ष्मसांपरायसंयत कहते हैं उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वाभित्व होता है ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—इसे ही उत्कृष्ट स्वामी क्यों कहा ?

समाधान—क्योंकि यहाँ पर मोहनीय कर्मका सब द्रव्य एकत्रित होकर पाया जाता है ।

यहाँ पर इस उत्कृष्ट द्रव्यके लानेके क्रमको जानकर उसका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—सूक्ष्मसांपराय संयतके अन्तिम गुणश्रेणिशीर्षका सब द्रव्य इस गुणस्थानके अन्तिम समयमें उदयमे देखा जाता है । इसमे अब तक निर्जीर्ण हुए द्रव्यको छोड़कर शेष सब चारित्रमोहनीयका द्रव्य आ जाता है, इसलिये इसे उत्कृष्ट कहा है । आशय

❊ इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमोकङ्कणादिचउण्हं पि भीणद्धिदियं कस्स ?

§ ५१७. सुगममेदं सामिच्चविसयं पुच्छासुत्तं । एवं पुच्छिदं तत्थ ताव तिण्हं भीणद्धिदियाणमेयसामियाणं परूवणहमुत्तरमुत्तं भणइ—

❊ इत्थिवेदपुरिदकम्मंसियस्स आवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स तियिण वि भीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि ।

§ ५१८. गुणितकम्मंसियलक्खणेणागंतूण पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तसगपूरण-कालब्भंतरे इत्थिवेदं पूरेमाणामपपविट्ठविहाणे कस्स सामिच्चं होइ किमविसेसेण पूरिदकम्मंसियस्स तं होइ ति आसंकाणिरायरणहं विसेसणमाह—‘आवलियचरिम-समयअसंछोहयस्स’ । चरिमसमय-दुचरिमसमयअसंछोहयादिकमेण हेट्ठदो ओयरिय आवलियचरिमसमयअसंछोहयभावेणावट्ठिदजीवस्से ति बुत्तं होइ । एत्थ समयूणा-वलियचरिमसमयअसंछोहयस्से त्ति वत्तब्बं, सवेददुचरिमसमए इत्थिवेदचरिमफालीए णिल्लेवाणुवत्तंभादो त्ति ? ण एस दोसो, अणुप्पायाणुच्छेदमस्सियूण चरिमसमय-

यह है कि संज्वलन लोभके उदयसे भीनस्थितिवाले इतने कर्मपरमाणु अन्यत्र नहीं पाये जाते, अतः सूक्ष्म लोभके अन्तिम समयमें विद्यमान जीव ही संज्वलन लोभके उदयसे भीनस्थितिवाले बल्लष्ठ कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

* स्त्रीवेदके अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-परमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५१७. यह स्वामित्वविषयक पृच्छासूत्र सरल है । इस प्रकार पूछने पर उनमेंसे पहले एकस्वामिक तीन भीनस्थितिवालोक कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिसने गुणितकर्मांशकी विधिसे स्त्रीवेदको उसके कर्मपरमाणुओंसे भर दिया है और जो एक आवलिके अन्तिम समयमें उसका अपकर्षण आदि नहीं कर रहा है वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५१८. गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अपने पूरण कालके भीतर स्त्रीवेदको पूरा करनेवाले जीवोंमें भेद किये बिना यह समझना कठिन है कि स्वामित्व किसको प्राप्त है ? क्या सामान्यसे गुणितकर्मांशवाले सभी जीवोंको यह स्वामित्व प्राप्त है ? इसप्रकार इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये ‘आवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स’ यह विशेषण कहा है । जो अन्तिम समयमें या उपान्त्य समयमें स्त्रीवेदके अपकर्षण आदिसे रहित है । तथा इसी क्रमसे पीछे जाकर जो एक आवलिके अन्तिम समयमें अपकर्षण आदि भावसे रहित है वह जीव स्वामी होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यहां ‘समयूणावलियचरिमसमयअसंछोहयस्स’ ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि सवेदभागके द्विचरम समयमें स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिका अभाव नहीं पाया जाता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनुत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा अन्तिम

सवेदस्सेव तथाभावोवयारादो । एसो अत्थो पुरिस-णवुंसयवेदसामित्तमुत्तेसु वि जोजेयच्चो, विसेसाभावादो । पुच्चविहाणेण गंतूण सच्चलहुं खवणाए अब्बुद्धिय सोदएण इत्थिवेदं सञ्छुहमाणयस्स विदियद्धिदीए चरिमद्धिदिवंडयपमाणेणावद्धिदाए पढमद्धिदीए च आवलियमेत्तीए गुणसेहिसरूवेणावसिहाए तिण्णि वि भीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि हंति त्ति सुत्तत्थसंगहो ।

§ ५१६. संपहि पुच्चिल्लपुच्छासुत्तविसईकयमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदिय-सामित्तमुत्तरमुत्तेण भणइ—

❀ उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियं चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स ।

§ ५२०. तस्सेव समयूणावलियमेत्तद्धिदीओ गाल्लिय द्विदस्स जाधे पढमद्धिदीए चरिमणिसेओ उदिण्णो ताधे तस्स चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियमिदि सुत्तत्थसंबंधो ।

❀ पुरिसवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचट्टुण्हं पि भीणद्धिदियं कस्स ?

§ ५२१. सुगमं ।

समयवर्ती सवेदीके ही स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिका अभाव उपचारसे मान लिया है। पुरुषवेद और नपुंसकवेदके स्वामित्वविषयक सूत्रोंका कथन करते समय भी इसी अर्थकी योजना कर लेनी चाहिये, क्योंकि इससे उनसे कोई विशेषता नहीं है।

जो कोई एक जीव पूर्वविधिसे आकर और अतिशीघ्र क्षपणाके लिये उद्यत होकर स्वोदयसे स्त्रीवेदका पतन कर रहा है उसके द्वितीय स्थितिमें अन्तिम स्थितिकाण्डकके शेष रहनेपर तथा प्रथम स्थितिमें एक आवलिप्रमाण गुणश्रेणिके अवस्थित रहनेपर तीनों ही भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं यह इस सूत्रका अभिप्राय है।

§ ५१६. अब जिसका पिछले पृच्छासूत्रमें उल्लेख कर आये हैं ऐसे उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामित्वका कथन अगले सूत्रद्वारा करते हैं—

❀ तथा स्त्रीवेदका क्षपक जीव अपने अन्तिम समयमें उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२०. एक समय कर्म आवलिप्रमाण स्थितियोंको गलाकर स्थित हुए उसी जीवके जब प्रथम स्थितिका अन्तिम निषेक उदयको प्राप्त होता है तब अन्तिम समयवर्ती वह स्त्रीवेदी क्षपक जीव उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका अभिप्राय है।

❀ पुरुषवेदके अपकर्षण आदि चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२१. यह सूत्र सुगम है ।

❀ गुणितकर्मसियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयस्स आवलियचरिमसमय-
असंज्ञोहयस्स तस्स उक्कस्सयं तियहं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५२२. एत्थ गुणितकर्मसियवयणेण तिण्हं वेदाणं पूरिदकम्मसियस्स गहणं
कायव्वं, अण्णहा पुरिसवेदुक्कस्ससंचयाणुववत्तीदो । सेसं सुगमं ।

❀ उक्कस्सयसुदयादो भीणट्टिदियं चरिमसमयपुरिसवेदयस्स ।

§ ५२३. तस्सेव पुरिसवेदोदएण खवगसेट्टिमारूढस्स अधट्टिदीए गाल्लिदपढम-
ट्टिदियस्स चरिमसमयपुरिसवेदयस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ त्ति सुत्तथो ।

❀ एणुंसयवेदयस्स उक्कस्सयं तियहं पि भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५२४. सुगममेदयासंकासुत्तं ।

❀ गुणितकर्मसियस्स एणुंसयवेदेण उवट्टिदस्स खवयस्स
एणुंसयवेदआवलियचरिमसमयअसंज्ञोहयस्स तियिण्णं वि भीणट्टिदियाणि
उक्कस्सयाणि ।

§ ५२५. एत्थ गुणितकर्मसियस्स पयदुक्कस्सभीणट्टिदियाणि होति त्ति

* जो गुणितकर्माशाला जीव पुरुषवेदकी क्षपणा करता हुआ आवलिके
चरम समयमें असंचोभक है वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२२. इस सूत्रमें जो गुणितकर्माश यह वचन आया है सो इससे तीनों वेदोंके गुणित-
कर्माशवाले जीवका ग्रहण करना चाहिये । अन्यथा पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है ।
शेष कथन सुगम है ।

❀ तथा पुरुषवेदका क्षपक जीव अपने अन्तिम समयमें उदयसे भीनस्थितिवाले
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२३. जो पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणियर चढ़ा है और जिसने अधःस्थितिके द्वारा
प्रथम स्थितिको गला दिया है उसके पुरुषवेदके उदयके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व
होता है यह इस सूत्रका अर्थ है ।

* नपुंसकवेदके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२४. यह आशंका सूत्र सरल है ।

* जो गुणितकर्माशवाला जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिय पर आरोहण
करके नपुंसकवेदका आवलिके चरम समयमें असंचोभक है वह अपकर्षण आदि
तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२५. यहाँ गुणितकर्माशवाले जीवके प्रकृत उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं

संबंधो कायव्वो । किम्विसेसेण ? नेत्याह—णवुंसयवेदेण उवट्टिदखवयस्स पुणो वि तिस्सेव विसेसणमावलियचरिमसमयअसंखोहयस्से ति । जो आवलियमेतकालेण चरिमसमयअसंखोहओ होहिदि तस्स आवलियमेतगुणसेट्ठिगोवुच्छाओ धेत्तूण सामित्थेदं दट्ठव्वमिदि वुत्तं होइ ।

❖ उक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियं तस्सेव चरिमसमयणवुंसयवेदकखवयस्स ।

§ ५२६. तस्सेव चरिमसमयणवुंसयवेदकखवयभावेणावहियस्स णवुंसयवेदसंबंधिपयदुक्कस्ससामित्तं होइ । सेसं सुगमं ।

❖ छुणणोकसायाणमुक्कस्सियाणि तिरिण वि भीणट्ठिदियाणि कस्स ?

§ ५२७. सुबोहमेदं पुच्छामुत्तं ।

❖ गुणिट्ठकम्मंसिएण खवएण जाधे अंतरं कीरमाणं कदं तेसिं चेव कम्मंसाणमुदयावलियाओ उदयवज्जाओ पुयणाओ ताधे उक्कस्सयाणि तिरिण वि भीणट्ठिदियाणि ।

ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये । तो क्या यह स्वामित्व सामान्यसे सभी गुणितकर्मांशवाले जीवोंके होता है ? नहीं होता, बस यही बतलानेके लिये 'जो नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ा है' यह कहा है । और फिर इसका भी विशेषण 'आवलियचरिमसमयअसंखोहयस्स' दिया है । जो एक आवलिप्रमाण कालके द्वारा अन्तिम समयमे अपकर्षणादि नहीं करेगा उसके एक आवलिप्रमाण गुणश्रेणियोंपुच्छाओंकी अपेक्षा यह स्वामित्व जानना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❖ तथा वही अन्तिम समयवर्ती नपुंसकवेदी क्षपक जीव उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२६. जो अन्तिम समयमे नपुंसकवेदकी क्षपणा करता हुआ स्थित है उसीके नपुंसकवेदसम्बन्धी प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । जेप कथन सुगम है ।

❖ वह नोकपार्योंके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२७. इस पृच्छासूत्रका अर्थ समझनेके लिये सरल है ।

❖ जो गुणितकर्मांशवाला क्षपक जीव अन्तरकरण करनेके बाद जब उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी गुणश्रेणि द्वारा उदय समयके सिवा उदयावलिको भर देता है तब वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२८. एत्थेवं सुत्तत्थसंबंधो कायन्वो—गुणितकर्मसियलक्खणेणागदखवणेण जाधे षण्णोकसायाणमंतरं कमेण कीरमाणमतोमुहुत्तेण कदं । तेसिं चैव कम्मसाण-मुदयावलिआओ उदयवज्जाओ गुणसेदिगोबुच्छाहि पुण्णाओ अवसिद्धाओ ताधे तत्तिय-मेत्तगुणसेदिगोबुच्छाओ घेत्तूण तस्स जीवस्स उक्कस्सयाणि तिण्णि वि भीण्णदिदियाणि होंति त्ति । किमट्ठमेत्थ उदयसमयवज्जिदो, ण; उदयाभावेण परपयढीसु थिबुक्केण तस्स सकंतिदंसणादो ।

❖ तेसिं चैव उक्कस्सयमुदयादो भीण्णदिदियं कस्स ?

§ ५२९. सुगमं ।

❖ गुणितकर्मसियस्स खवयरस्स चरिमसमयअपुव्वकरणे वट्ट-माणयस्स ।

§ ५३०. एत्थ गुणितकर्मसियणिहेसो तच्चिवरीयकम्मसियपडिसेहफलो । खवयणिहेसो उवसामयगिरायरण्हो । तं पि कुदो ? तच्चिसोहीदो अणंतगुणक्खवय-

§ ५२८. यहाँ इस सूत्रका इस प्रकार अर्थ घटित करना चाहिये कि कोई एक जीव गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर क्षपक हुआ फिर जब वह क्रमसे अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर छह नोकषायोका अन्तर कर देता है और जब उसके उन्हीं कर्मोंकी गुणश्रेणियोंपुच्छाओंके द्वारा परिपूर्ण हुई उदय समयके सिवा उदयावलिप्रमाण गोपुच्छाएँ शेष रह जाती हैं तब वह उतनी गुणश्रेणियोंपुच्छाओंका आश्रय लेकर अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—यहाँ उदय समयको क्यों छोड़ दिया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ छह नोकषायोका उदय नहीं होनेसे उसका स्तित्वक संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतियोगे संक्रमण देखा जाता है ।

विशेषार्थ—छह नोकषायोका उदय यथासम्भव आठवें गुणस्थान तक ही होता है, अतः क्षपकके नौवें गुणस्थानमे उदय समयके सिवा उदयावलिप्रमाण गुणश्रेणियोंपुच्छाओंका आश्रय लेकर यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है ।

❖ उन्हीं छह नोकषायोंके उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२९. यह सूत्र सुगम है ।

❖ जो गुणितकर्मांश क्षपक जीव अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह छह नोकषायोंके उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५३०. इस सूत्रमे गुणितकर्मांश पदका निर्देश इससे विपरीत क्षपितकर्मांश जीवका निषेध करनेके लिये किया है । तथा क्षपक पदका निर्देश उपशामक जीवका निवारण करनेके लिये किया है ।

शंका—ऐसा क्यों किया ?

विसोहीए बहुअस्स गुणसेदिद्वस्स संगहट्ठं । दुचरिमसमयादिहेट्ठिमापुव्वकरण-
णिवारणफलो चरिमसमयअपुव्वकरणणिदेसो । तस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ । ततो उवरि
बहुदव्वाचूरिदग्गुणसेदिणिसेए उदिण्णे सामित्तं किण्ण दिण्णं ? ण, तत्थेवेदेसिमुदय-
वोच्छेदेण उवरि दाहुमसत्तीदो । उवसमसेहीए अणियट्ठिउवसामओ से काले अंतरं
काहिदि त्ति मदो देवो जादो तस्स अंतोमुहुत्तुववण्णल्लयस्स जाघे अपच्छिम्मं गुणसेदि-
सीसयमुदयमागयं ताघे छण्हमेदेसि कम्मसाणं पयदुक्कस्ससामित्तं दायव्वमिदि
णासंकण्णिज्जं, तत्थतणविसोहीदो अणंतगुणउवसंतकसायुक्कस्सविसोहिं पेक्खियूण सव्व-
जहणियाए वि अपुव्वकरणक्खवयविसोहीए अणंतगुणत्तुवलंभादो । एत्थेव विसेसंतर-
पदुप्पायणद्वमुत्तरमुत्तं—

❀ एचरि हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ भय-दुगुंछ्वाणमवेदणो

समाधान—क्योंकि उपशामककी विशुद्धिसे क्षपककी विशुद्धि अनन्तगुणी होती है जिससे गुणश्रेणि द्रव्यका अधिक संचय होता है। यही कारण है कि यहाँ उपशामक पदका निर्देशन न कर्के क्षपक पदका निर्देशन किया है।

यहाँ अपूर्वकरणके उपान्त्य समय आदि पिछले समयोंका निषेध करनेके लिये 'चरिम-समयअपुव्वकरण' पदका निर्देशन किया है, क्योंकि प्रकृत विषयका उत्कृष्ट स्वामित्व इसीके होता है।

शंका—अपूर्वकरणके अन्तिम समयसे आगे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें जिसमें बहुत द्रव्यका संचय है ऐसे गुणश्रेणिनिषेकका उदय होता है, अतः इस उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान वहाँ जाकर करना चाहिये था ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें ही इन प्रकृतियोंकी उदय-व्युच्छित्ति हो जाती है, अतः उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान आगे नहीं किया जा सकता।

शंका—उपशामश्रेणिये अनिवृत्तिकरण उपशामक तदनन्तर समयमें अन्तर करेगा किन्तु अन्तर न करके मरा और देव हो गया। उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद जब अन्तिम गुणश्रेणिसीर्ष उदयमें आता है तब इन छह कर्मोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान करना चाहिये ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उपशामक अनिवृत्तिकरणमें अन्तरकरण करनेके पूर्व जितनी विशुद्धि होती है उससे उपशान्तकपायकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है और इससे भी क्षपक अपूर्वकरणकी सबसे जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी बतलाई है। इसीसे इन छह कर्मोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान अन्यत्र न करके क्षपक अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें किया है।

अब इस विषयमें जो विशेष अन्तर है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ किन्तु इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति या शोकका यदि कर रहा

कायव्वो । जह भयस्स तदो दुगुंछाए अब्बेदगो कायव्वो । अह दुगुंछाए तदो भयस्स अब्बेदगो कायव्वो ।

§ ५३१. कुदो एवं कीरदे ? ण, अविक्खियाणं णोकसायाणमवेदगत्ते त्थिज्जसंकमस्सियाणं विक्खियपयहीणमसंखेज्जसमयपवद्धमेत्तणुणसेदिगोवुच्छदव्वस्स काहदंसणादो ।

§ ५३२. संपहि पयदस्स उवसंहरणद्वुत्तरसुत्तमोइणं—

❀ उक्कस्सयं सामित्तं समत्तमोघेण ।

है तो उसे भय और जुगुप्साका अबेदक रखना चाहिये । यदि भयका कर रहा है तो उसे जुगुप्साका अबेदक रखना चाहिये और जुगुप्साका कर रहा है तो भयका अबेदक रखना चाहिये ।

§ ५३१. शंका—इस व्यवस्थाके करनेका क्या कारण है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि यह जीव अविक्खित नोकपायोंका अबेदक रहता है तो इसके विक्खित प्रकृतियोंमें स्तिवुक संक्रमणके द्वारा असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण गुणश्रेणिगोपुच्छाके द्रव्यका लाभ देखा जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर गुणितकर्मांश क्षपक जीवके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व वतलाया है सो इसका कारण यह है कि छह नोकपायोंका उदयगत उत्कृष्ट द्रव्य वहीं पर प्राप्त होता है अन्यत्र नहीं । यद्यपि शंकाकार यह समझकर कि अपूर्वकरणसे अनिवृत्तिकरणमें अधिक द्रव्यका संचय होता है ऐसे जीवको अनिवृत्तिकरणमें ले गया है और वहाँ नोकपायोंका उदय न होनेसे उदयगत उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त करनेके लिये उसे देवपर्यायमें उत्पन्न कराया है । किन्तु उपशमश्रेणित्से उपशान्तकषाय गुणस्थानमें और इससे क्षपक जीवके परिणामोकी विशुद्धि अनन्तगुणी होती है, इसलिये गुणश्रेणिका उत्कृष्ट संचय क्षपक अपूर्वकरणमें ही होगा । यही कारण है कि उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें किया है । तथापि ऐसा नियम है कि किसीके भय और जुगुप्सा दोनोंका उदय होता है । किसीके इनमेंसे किसी एकका उदय होता है और किसीके दोनोंका ही उदय नहीं होता । इसलिये यदि हास्य, रति, अरति या शोककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो दोनोंके उदयके अभावमें कहना चाहिये । यदि भयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो जुगुप्साके अभावमें कहना चाहिये और जुगुप्साकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो भयके अभावमें कहना चाहिये । ऐसा करनेसे लाभ यह है कि जब जिस प्रकृतिका उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त किया जायगा तब उसे जिन प्रकृतियोंका उदय न होगा, स्तिवुक संक्रमणके द्वारा उनका द्रव्य भी मिल जायगा ।

§ ५३२. अब प्रकृत विपयका उपसंहार करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

५३३. सुगमं । एदेण सुत्तेण सूचिदो आदेसो गदि-इंदियादिचोइसमगणासु अणुमगियन्वो । एत्थ अणुक्कस्ससामित्तं किण्ण परुविदं इदि णासंका कायन्वा, उक्कस्सपरुवणादो चेव तस्स वि अणुत्तसिद्धीदो । उक्कस्सादो वदिरित्तमणुक्कस्समिदि ।

❀ एत्तो जहण्णयं सामित्तं वत्तइस्सामो ।

§ ५३४. एत्तो अणंतरं जहण्णयमोकड्डुकड्डुणादिचदुण्हं भीणट्टिदियाणं सामित्तमणुवत्तइस्सामो त्ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❀ मिच्छुत्तस्स जहण्णयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५३५. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ उवसामओ ह्वसु आवलियासु सेसासु आसाणं गओ तस्स पढमसमयमिच्छुइदिसस जहण्णयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं ।

§ ५३३. यह सूत्र सुगम है। इस सूत्रमें आये हुए ओघ पदसे आदेशका भी सूचन हो जाता है, इसलिये उसका गति और इन्द्रिय आदि चौदह मार्गणाओमें विचार कर कथन करना चाहिये।

शंका—यहाँ अनुत्कृष्ट स्वामित्वका कथन क्यों नहीं किया है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन कर देनेसे ही अनुत्कृष्ट स्वामित्वका कथन हो जाता है, क्योंकि उत्कृष्टके सिवा अनुत्कृष्ट होता है।

विशेषार्थ—चूर्णिसूत्रकारने केवल ओघसे अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिक उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है और इसीलिये प्रकरणके अन्तमें 'ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ' यह सूत्र रचा है। निरुचयतः इस सूत्रमें ओघ पद देखकर ही टीकामें यह सूचना की गई है कि इसी प्रकार विचार कर आदेशकी अपेक्षा भी गति आदि मार्गणाओमें इस उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिये।

❀ अब इससे आगे जघन्य स्वामित्वको बतलाते हैं।

§ ५३४. अब इस उत्कृष्ट स्वामित्वके बाद अपकर्षणादि चारों भीनस्थितिवालोंके जघन्य स्वामित्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र है।

❀ मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है।

§ ५३५. यह प्रच्छासूत्र सरल है।

❀ जो उपशमसम्यग्दृष्टि ब्रह्म आवलियोंके शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर प्रथम समयमें वह अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है।

§ ५३६. एत्थ उवसामगो त्ति बुत्ते दंसणमोहणीयउवसामओ घेत्तव्वो, मिच्छत्तेणाहियारादो । जइ एवमुवसमसम्माइट्ठि त्ति वत्तव्वं, अण्णहा उवसामणा-वावदावत्थाए चेव गहणप्पसंगादो ? ण एस दोसो, पाचओ भु'जइ' त्ति णिण्वावारा-वत्थाए चि किरियाणिमित्तववएसुवत्तंभादो । छसु आवळियासु सेसासु आसाणं गओ त्ति एदेण वा उवसंतदंसणमोहणीयावत्थस्स गहणं कायव्वं । ण च तदवत्थस्स आसाणगमणे संबवो, विरोहादो । किमासाणं णाम ? सम्भत्तविराहणं । तं पि किंपच्चइयं ? परिणामपच्चइयमिदि भणामो । ण च सो परिणामो णिरहेउओ, अणंताणु-वंधित्तव्वोदयहेउत्तादो ।

§ ५३७. सम्महंसणपरम्मूहीभावेण मिच्छत्ताहिमुहीभावो अणंताणुवंधित्तव्वो-दयजणियत्तव्वयरसंक्खिसेदसिओ आसाणमिदि बुत्तं होइ । किमद्वमेसो छसु आवळियासु सेसासु आसाणं णीदो, ण बुणो उवसमसम्माइट्ठी चेय मिच्छत्तं णिज्जइ

§ ५३६. यहाँ सूत्रमें जो 'उपशामक' पद कहा है सो उससे दर्शनमोहनीयका उपशामक लेना चाहिये, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्वका अधिकार है ।

शंका—यदि ऐसा है तो सूत्रमें 'उपशामसम्यग्दृष्टि' इस पदका निर्देश करना चाहिये, अन्यथा उपशामनारूप अवस्थाके ही ग्रहणका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसे 'पाचक भोजन करता है' यहाँ पाचन क्रियाके अभावमें भी पाचक शब्दका प्रयोग किया गया है वैसे ही व्यापार रहित अवस्थामें भी क्रियानिमित्तक संज्ञाका व्यवहार देखा जाता है, अतः उपशामसम्यग्दृष्टिको भी उपशामक कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है ।

अथवा सूत्रमें आये हुए 'छसु आवळियासु सेसासु आसाणं गओ' इस वचनसे दर्शन-मोहनीय अवस्थाका उपशाम करके उपशामसम्यग्दृष्टि हुए जीवका ग्रहण करना चाहिये । कारण कि उपशासकका सासादनमें जाना नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

शंका—सासादनका क्या अर्थ है ?

समाधान—सम्यक्त्वकी विराधना करना यही सासादनका अर्थ है ।

शंका—वह सासादन किस निमित्तसे होता है ?

समाधान—परिणामोंके निमित्तसे होता है ऐसा हम कहते हैं । परन्तु वह परिणाम बिना कारणके नहीं होता, क्योंकि यह अनन्तानुबन्धीके तीव्र उदयसे होता है ।

§ ५३७. सम्यग्दर्शनसे विमुख होकर जो अनन्तानुबन्धीके तीव्र उदयसे उत्पन्न हुआ तीव्रतर संक्खेशरूप दूषित मिथ्यात्वके अनुकूल परिणाम होता है वह सासादन है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यह जीव छह आवलिकाल शेष रहने पर सासादन गुणस्थानमें क्यों ले जाया गया है, सीधा उपशामसम्यग्दृष्टि ही मिथ्यात्वमें क्यों नहीं ले जाया गया ?

त्ति णासंक्कणिज्जं; तत्थतणसंक्किलेसादो एत्थ संक्किलेसवहुत्तुवल्लंभेण तहा करणादो । कुदो संक्किलेसवहुत्तमिच्छिज्जदि त्ति चे ण, मिच्छत्तं गदपढमसमए ओक्कड्डिय उदयावल्लियब्भंतरे णिसिंचमाणदव्वस्स थोवयरीकरणट्ठं तहाब्भुवगमादो । ण च संक्किलेसकाले वहुदव्वोक्कड्डणासंभवो, विरोहादो ।

§ ५३८. तदो एवं सुत्तत्थसंबंधो कायव्वो—जो उवसमसम्माइही उवसम-सम्मत्तद्धाए छसु आवल्लियासु सेसासु परिणामपच्चएण आसाणं गदो, तदो तस्स अणंताणुवंधितिव्वोदयवसेण पडिसमयमणंतगुणाए संक्किलेसवहुदीए वोलाविय सगद्धस्स पढमसमयमिच्छाइडिस्स जहण्णयमोक्कड्डणादो भीणट्ठिदियमिदि । एसो पयदसामिओ खविद-गुणिदकम्मंसियाणं कदरो ? अण्णदरो । कुदो ? सुत्ते खविदेयरविसेसणा-दंसणादो । खविदकम्मंसियत्तं किण्ण इच्छिज्जदे ? ण, एत्थ परिणामवसेण संक्किले-सावूरणलक्खणेण उदयावल्लियब्भंतरे ओक्कड्डिय णिसिंचमाणदव्वस्स खविद-गुणिद-कम्मंसिएसु समाणपरिणामेसु सरिसत्तदंसणेण खविदकम्मंसियगहणे फलविसेसाशुव-

समाधान—ऐसी आशंका करनी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्राप्त होनेवाले संक्लेशसे सासादनमे बहुत अधिक संक्लेश पाया जाता है, इसलिये ऐसा किया है ।

शंका—यहाँ अधिक संक्लेश किसलिये चाहा गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें अपकर्षण होकर उदयावल्लिके भीतर दिये जानेवाले द्रव्यके थोड़ा प्राप्त करनेके लिये ऐसा स्वीकार किया है । यदि कहा जाय कि संक्लेशके समय बहुत द्रव्यका अपकर्षण हो जायगा सो बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

§ ५३८. इसलिये इस सूत्रका यह अर्थ समझना चाहिये कि जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वके कालमें छह आवल्लि कालके शेष रहने पर परिणामोके निमित्तसे सासादनको प्राप्त हुआ । फिर वहाँ अनन्तालुवन्धोके तीत्रोदयसे प्रति समय अनन्तगुणी हुई संक्लेशकी वृद्धिको विताकर जब वह मिथ्यादृष्टि होता है तब मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें वह अपकर्षण आदि तीनसे मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—यह प्रकृत स्वामी क्षपितकर्मांश और गुणितकर्मांश इनमेसे कौन-सा है ?

समाधान—दोनोंमेसे कोई भी हो सकता है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—क्योंकि सूत्रमें क्षपितकर्मांश या गुणितकर्मांश ऐसा कोई विशेषण नहीं दिखाई देता ।

शंका—यहाँ क्षपितकर्मांश क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संक्लेशको पूरा करनेवाले परिणामके निमित्तसे अपकर्षण करके उदयावल्लिके भीतर जो द्रव्य दिया जाता है वह एक समान परिणामवाले क्षपितकर्मांश और गुणितकर्मांश जीवोके समान देखा जाता है, इसलिये यहाँ सूत्रमें क्षपितकर्मांश पदके ग्रहण

लंभादो । तदो जेण वा तेण वा लक्खणेणागंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय सगद्धाए
 छावळियावसेसियाए आसाणमासादिय संकिलेसं पूरेयूण मिच्छत्तं गदपढमसमए
 उदीरिदथोवयरकम्मपदेसे घेत्तूण तस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति णिस्संसयं
 पडिवज्जेयव्वं ।

§ ५३६. एत्थ पयददच्चविसए सिस्साणं णिणयजणणट्ठमंतरपूरणविहारणं
 वत्तइस्सामो । तत्थ ताव अंतरं सेसदीहत्तमुवसमसम्मत्तद्धादो संखेज्जगुणं होदि । कुदो
 एदं परिच्छिज्जदे ? दंसणमोहणीयउवसामणाए परूविस्समाणपणुवीसपडिअप्पावहुअ-
 दंडयादो । तदो पुव्वविहाणेणागदपढमसमयमिच्छाइद्दी अंतरविदियट्ठिदिपढमणिसेय-
 मादिं कादूण जाव मिच्छत्तस्स अंतोकोडाकोडिमेत्तट्ठिदीए चरिमणिसेओ त्ति ताव
 एदेसिं पदेसगं पलिदोवमासंखे०भागमेत्तोक्कडु कड्डणभागहारेण खंडेयूण तत्थेयखंड-
 मंतरावूरणट्ठमोक्कडुदि । पुणो एवमोक्कडुददव्वमसंखेज्जाजोगमेत्तभागहारेण खंडिय
 तत्थेयखंडं घेत्तूण उदए बहुअं णिसिंचदि । विदियसमए विसेसहीणं णिसेयभागहारेण ।
 एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जानुदयावळियचरिमसमयमेत्तद्धाणं गंतूण असंखेज्जलोग-

करनेमे विशेष लाभ नहीं है ।

इसलिये क्षुपितकर्मांश और गुणितकर्मांश इनमेसे किसी भी एक विधिसे आकर और
 उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके जब उपशमसम्यक्त्वके कालमे छह आवलि शेष रह जाय तब
 सासादन गुणस्थानको प्राप्त कर और संक्लेशको पूरा कर मिथ्यात्वमे जाय । इस प्रकार मिथ्यात्व
 को प्राप्त हुए इस जीवके उसके प्रथम समयमे उदीरणाको प्राप्त हुए थोड़ेसे कर्मपरमाणुओकी
 अपेक्षा प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है इस प्रकार यह वात निःशंसयरूपसे जाननी चाहिये ।

§ ५३६. अब यहाँ प्रकृत द्रव्यके विषयमे शिष्योंको निर्णय हो जाय इसलिये अन्तरके
 पूरा करनेकी विधि बतलाते हैं—यहाँ उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए जितना अन्तरकाल समाप्त
 हुआ है उससे जो अन्तरकाल शेष बचा रहता है वह उपशमसम्यक्त्वके कालसे संख्यातगुणा
 होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—दर्शनमोहनीयकी उपशामनाके सिलसिलेमे जो पच्चीस स्थानीय अल्पबहुत्व-
 दंडक कहा जायगा उससे यह जाना जाता है ।

अतएव पूर्व विधिसे आकर जो मिथ्यादृष्टि हो गया है वह मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके
 प्रथम समयमे अन्तरकालके ऊपर दूसरी स्थितिमे स्थित प्रथम निषेकसे लेकर मिथ्यात्वकी
 अन्तःकोडाकोडीप्रमाण स्थितिके अन्तिम निषेक तक जितनी स्थितियाँ हैं उन सबके कर्म-
 परमाणुओमे पत्यके असंख्यातवं भागप्रमाण अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारका भाग देकर वहाँ जो
 एक भाग प्राप्त होता है उसे अन्तरको पूरा करनेके लिये अपकर्षित करता है । फिर इस प्रकार
 अपकर्षित हुए द्रव्यमे असंख्यात लोकप्रमाण भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त हो उससेसे
 बहुभाग उदयमे देता है । दूसरे समयमे विशेष हीन देता है । यह विशेषका प्रमाण निषेक-
 भागहारसे ले आना चाहिये । इस प्रकार उदयावलिके अन्तिम समय तक विशेष हीन विशेष हीन
 द्रव्य देना चाहिये । यहाँ उदय समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समय तक असंख्यात-

पडिभागेण गहिददव्वं णिद्धिदं ति । एदं च पयदसाभित्तविसयीकयं जहण्णदव्वं । पुणो सेसअसंखेज्जभागे घेत्तुणुवरिमाणंतरद्धिदीए असंखेज्जगुणं णिसिंचदि । को एत्थ गुणगारो ? असंखेज्जा लोगा । तत्तो णिसेयभागहारेण दोगुणहाणिपमाणेण विसेसहीणं णिक्खिन्नदि जावंतरचरिमद्धिदि ति । पुणो अणंतरउवरिमद्धिदीए दिस्समाणपदेसग-स्सुवरिं असंखेज्जगुणहीणं संखुहदि । तत्तो प्यहुडि पुव्वविहाणेण विसेसहीणं विसेसहीणं देदि जावप्पणो गहिदपदेसमहिच्छावणावलियामेत्तेण अपत्तं ति ।

§ ५४०. एत्थ विदियद्धिदिपढमणिसेयम्मि दिज्जमाणदव्वस्स अंतरचरिमद्धिदि-णिमित्तपदेसगादो असंखेज्जगुणहीणत्तसाहणद्वमिमा ताव परूवणा कीरदे । तं जहा—अंतोकोडाकोडिमेत्तविदियद्धिदिसव्वदव्वमप्पणो पढमणिसेयपमाणेण कीरमाणं दिवडु-गुणहाणिमेत्तं होइ ति कट्टहु दिवडुगुणहाणी आयामं विदियद्धिदिपढमणिसेयविकत्वंभं खेत्तमुडुयारेण ठविय पुणो ओकडुक्कडुणभागहारमेत्तफालीओ उडुं फालिय तत्थेय-फालिं घेत्तूण दक्खिणफासे ठविदे पढमसमयमिच्छादिद्वीणं अंतरावूरणद्वमोक्कडिददव्वं खेत्तायारेण पुव्वुत्तायामं पुत्तिवल्लविकखंभादो असंखेज्जगुणहीणं विकखंभं होऊण

लोकप्रतिभागसे प्राप्त हुआ एक भागप्रमाण द्रव्य समाप्त हो जाता है । यह प्रकृत स्वामित्वका विषयभूत जघन्य द्रव्य है । फिर शेष असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यमेसे उपरिम अनन्तरवर्ती स्थितिमे असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है ।

शंका—यहाँ गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान — असंख्यात लोक ।

फिर इससे आगेकी स्थितिमे दो गुणहानिप्रमाण निषेकभागहारकी अपेक्षा विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है । इस प्रकार यह क्रम अन्तरकालके अन्तिम समय तक चालू रहता है । फिर इससे आगेकी उपरिम स्थितिमे दृश्यमान कर्मपरमाणुओंके ऊपर असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है । फिर इससे आगे अतिस्थापनावलिके प्राप्त होनेके पूर्व तक पूर्वविधिसे विनोद हीन विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है ।

§ ५४०. अब यहाँ द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमे दिया गया द्रव्य अन्तरकालकी अन्तिम स्थितिमें दिये गये द्रव्यसे जो असंख्यातगुणा हीन है सो इसकी सिद्धि करनेके लिये यह आगेकी प्ररूपणा करते हैं । जो इस प्रकार है—अन्तःकोडाकोडीप्रमाण दूसरी स्थितिमें स्थित सब द्रव्यके अपने प्रथम निषेकके बराबर हिस्से करने पर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं ऐसा समझकर डेढ़ गुणहानिप्रमाण लम्बे और दूसरी स्थितिके प्रथम निषेकप्रमाण चौड़े क्षेत्रकी ऊर्ध्वाकाररूपसे स्थापना करो । फिर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण फालियोंको उपरमे नीचे तक एक रेखामें फाड़ कर उनमेसे एक फालिको ग्रहण करके उसे दक्षिण पार्श्वमें रनां । इस प्रकार रखी गई इस फालिका प्रमाण मिध्यादृष्टियोंके प्रथम समयमें अन्तरको पूरा करनेके लिये जो द्रव्य अपकर्षित किया जाता है उतना होगा और क्षेत्रके आकार रूपसे देगने पर यह पहले जो क्षेत्रकी लम्बाई बतला आये है उतनी लम्बी तथा पहले बतलाये गये क्षेत्रकी चौड़ाई

चिद्विद् । एत्थ असंखेज्जलोगपडिभागेण उदयावलियब्भंतरे णिसित्तदव्वमप्पमाणां काऊण सयलसमत्थाए एदिस्से फालीए आयामे अंतोमुहुत्तोवट्टिददिवड्डुगुणहाणीए खंडिदे अंतरदीहरा अणंतरपरुच्चिदविकखंभा संपहियभागहारमेत्ता खंडा लब्भंति । पुणो एदेसिमंतरे रूवूणोकड्डुकड्डुणभागहारमेत्तखंडे घेत्तूण पुव्विल्लखेत्तस्स हेददो संधिय द्दविदे द्विदिं पडि विदियद्विदिपढमणिसेयदिस्समाणपदेसग्गपमाणेण अंतरं णिरंतरमावूरिदं होइ । णवरि गोवुच्चविसेसादिउत्तरअंतोमुहुत्तगच्छसंकलणारखेत्तमवसिद्धरूवूणोकड्डुकड्डुणभागहारपरिहीणपुव्वभागहारमेत्तखंडदव्वपुंजादो घेत्तूण विवज्जासं काऊण अंतरब्भंतरे ठवेयव्वं । अण्णहा गोवुच्चायाराणुप्पत्तीदो । एवमंतरद्विदीसु पदिददव्वपमाणपरूवदा कदा ।

§ ५४१. संपहि विदियद्विदिपढमणिसेए पढमाणदव्वपमाणाणुगमं कस्सामो । तं जहा—पुव्विल्लपुथद्विदखंडेहिंतो परूविदायामविकखंभपमाणेहितो एयं खंडं उच्चाइय एदमुदयावलियवाहिरद्विदीसु सव्वासु वि विहज्जिय पदइ त्ति अंतरोवट्टिददिवड्डुगुणहाणीए रूवाहियाए विकखंभमोवट्टिय वित्थारिदे एयखंडमस्सियूण णिरुद्धिदीए पदिदपदेसग्गमप्पणो मूलदव्वमोकड्डुकड्डुणभागहारेण संपहियभागहारपटुप्पण्णेण खंडिय तत्थेयखंडपमायां होइ । सेसखंडाणि वि अस्सियूण एत्थियमेत्तं चेय

असंख्यातगुणी हीन चौड़ी होकर स्थित होती है । यहाँ असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके द्वारा उदयावलिके भीतर निक्षिप्त किये गये द्रव्यकी प्रधानता न करके पूरी समर्थ इस फालिके आयाममे अन्तर्मुहूर्तसे भाजित डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर अन्तरकाल प्रमाण लम्बे और पूर्वोक्त विष्कम्भवाले साम्प्रतिक भागहारप्रमाण खण्ड प्राप्त होते हैं । फिर इन खण्डोमेसे एक कम अपकर्षण-उत्कर्षण-भागहारप्रमाण खण्डोको ग्रहण कर पूर्वोक्त क्षेत्रके नीचे मिलाकर स्थापित करने पर प्रत्येक स्थितिके प्रति द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमे दृश्ययान कर्मपरमाणुओके प्रमाणके हिसाबसे अन्तर निरन्तर क्रमसे आपुरित हो जाता है । किन्तु गोपुच्छविशेषके प्रारम्भसे लेकर अन्त तक जो अन्तर्मुहूर्तप्रमाण गच्छ है उसके संकलनरूप क्षेत्रको एक कम अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे हीन पूर्वभागहारप्रमाण खण्डभूत द्रव्यपुंजोमेसे ग्रहण करके और विपरीत करके अन्तरके भीतर स्थापित कर देना चाहिये । अन्यथा गोपुच्छके आकारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । इस प्रकार अन्तरस्थितियोमे जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसके प्रमाणका कथन किया ।

§ ५४१. अब द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसके प्रमाणका विचार करते हैं जो इस प्रकार है—जिसके आयाम और विष्कम्भके प्रमाणका पहले कथन कर आये हैं ऐसे प्रथक स्थापित पूर्वोक्त खण्डमेसे एक खण्डको निकाल ले । फिर यह खण्ड उदयावलिके बाहरकी सभी स्थितियोमे विभक्त होकर प्राप्त होता है, इसलिये डेढ़ गुणहानिमे अन्तरकालका भाग देने पर जो लव्व आवे एक अधिक उसका विष्कम्भमे भाग देकर प्राप्त हुई राशिको फैलाने पर एक खण्डकी अपेक्षा विवक्षित स्थितिमे जो कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं उनकी संख्या आती है जो अपने मूल द्रव्यमे साम्प्रतिक भागहारसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर प्राप्त हुए एक खण्डप्रमाण होता है । शेष खण्डोकी अपेक्षा भी इतना ही द्रव्य प्राप्त होता

द्वं लहामो त्ति खंडगुणयारो पुव्वपरुविदपमाणो एदस्स गुणयारसरुत्तेण उवेयन्वो । एवं कदे सव्वखंडाणि अस्सियुण अहियारद्विदीए पदिददव्वमागच्छदि । एत्थ जइ गुणगारभागहारा सरिसा होंति तो सयलेयखंडपडिभागिषं पयदणिसेयदव्वपमाणं होज्ज ? ण च एवं, भागहारं पेक्खियुण गुणगारस्स ओकहुक्कड्डणभागहारमेत्तरुवेहि हीणत्तदंसणादो । तदो किंचूणमेयखंडपडिवद्धदव्वं पयदणिसेए दिज्जमाणं होइ । अंतरचरिमद्विदिणिसित्तदव्वे पुण एदेण पमाणेण कीरमाणे सादरेयओकहुक्कड्डण-भागहारमेत्ताओ सलागाओ लब्भंति, पुव्विददव्वस्सुवरि एत्थियमेत्तदव्वस्स सविसेसस्स पवेसुवत्तांभादो । खंडं पडि उव्वरिददव्वस्स अणंतरभागहारोवद्विदसंपुण्णोक्कहुक्कड्डण-भागहारपदुत्पण्णसयलेयखंडपमाणत्तुवत्तांभादो च । एत्थ तेरासियं काऊण सिस्साणं सादरेयओकहुक्कड्डणभागहारमेत्तगुणयारविसओ पबोहो कायव्वो । तम्हा अणंतर-चरिमद्विदिणिसित्तदव्ववादो विदियद्विदिपडमणिसेयम्मि णिवदंतदव्वमसंखेज्जगुणहीण-मिदि सिद्धं । दिस्समाणपदेसगं पुण विसेसहीणं णिसेयभागहारपडिभागेण । तदो उदयावलिपवाहिरे अतरपडमद्विदिमादिं कादूण एया गोवुच्छा । जेणेवमंतरम्मि उदया-वलिपवज्जम्मि बहुअं दव्वं णिक्खिवदि तेणंतरस्स हेइदो उदयावलिपव्वंभंतरे असंखेज्जगुणहीणा एयगोउच्छा जादा । तदो एवंविहउदयावलिपव्वंभंतरणिसित्त-दव्वं पेत्तुण पयदजहण्णसामित्तमिदि सुसंवद्धं ।

है, इसलिये पूर्वोक्त प्रमाण खण्डगुणकारको इसके गुणकाररूपसे स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार करने पर सब खण्डोंकी अपेक्षा विवक्षित स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसका प्रमाण आता है । यहाँ यदि गुणकार और भागहार समान होते तो पूरे एक खण्डका प्रतिभाग प्रकृत निषेकके द्रव्यप्रमाण प्राप्त होता । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि भागहारकी अपेक्षा गुणकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके जितने अंक हैं उतना कम देखा जाता है । इसलिये कुछ कम एक खण्डसम्बन्धी द्रव्य प्रकृत निषेकमें दीयमान द्रव्य होता है । किन्तु अन्तरकालकी अन्तिम स्थितिमें जो द्रव्य निश्चित किया गया है उसे इस प्रमाणसे करने पर साधिक अपकर्षण-उत्कर्षण-भागहार शलाकाएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि पूर्वकालीन द्रव्यके ऊपर साधिक इतने द्रव्यका प्रवेश पाया जाता है और एक खण्डके प्रति जो द्रव्य शेष बचता है वह, अन्तरभागहारसे पूरे अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारमें भाग देकर जो प्राप्त हो उससे पूरे एक खण्डको गुणा करने पर जो प्राप्त हो, उतना होता है । यहाँ पर त्रैशिक करके शिष्योंको साधिक अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार-प्रमाण गुणकारका ज्ञान कराना चाहिये । इसलिये अन्तर अन्तिम स्थितिमें निश्चित हुए द्रव्यसे द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें निश्चित होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा हीन होता है यह सिद्ध हुआ । किन्तु दृश्यमान कर्मपरमाणु निषेकभागहाररूप प्रतिभागकी अपेक्षा विशेष हीन होते हैं । इसलिये उदयावलिके बाहर अन्तरकालकी प्रथम स्थितिसे लेकर एक गोपुच्छा है । यतः इस प्रकार उदयावलिके सिवा अन्तरकालके भीतर बहुत द्रव्य निश्चित होता है अतः अन्तरकालके नीचे उदयावलिके भीतर असंख्यातगुणी हीन एक गोपुच्छा प्राप्त होती है । इसलिये इस प्रकार उदयावलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात सुसम्बद्ध है ।

विश्लेषार्थ—यहाँ अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा मिथ्यात्वके मीनस्थिति-

§ ५४२. संपहि जहण्णयमुदयादो भीणह्दिदियं कस्से त्ति आसंकाए गिरायरणह्मिदमाह—

❀ उदयादो जहण्णयं भीणह्दिदियं तस्सेव आवलियमिच्छादिह्दिस्स ।

§ ५४३. तस्सेव उवसामयस्स उवसमसम्मत्तद्धाए छ आवलियाओ अत्थि त्ति आसाणं गंतूण संकिलेसेण वोलाविदसगद्धस्स मिच्छत्तमुवणमिय पढमसमयमिच्छादिह्दिआदिकमेण आवलियमिच्छादिह्दिभावेणावह्दिदस्स जहण्णयमुदयादो भीणह्दिदियं

वाले कर्मपरमाणुओंके जघन्य स्वामित्वका विचार किया जा रहा है। उदयावलि के भीतर स्थित कर्मपरमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैं यह तो पहले ही बतला आये हैं। अब यहाँ यह देखना है कि उदयावलि के भीतर मिथ्यात्वके कमसे कम कर्मपरमाणु कहाँ प्राप्त होते हैं। उपशमसम्यक्त्वके कालसे अन्तरकाल संख्यातगुणा बड़ा होता है ऐसा नियम है, अतः ऐसा जीव जब उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थानमे आता है तो उसे वहाँ मिथ्यात्वका अपकर्षण करके अन्तरकालके भीतर फिरसे निषेक रचना करनी पड़ती है, इसलिये यहाँ उदयावलिमे पूर्व संचित द्रव्य न होनेसे वह कमती प्राप्त होता है। यद्यपि ऐसे जीवके संक्लेशरूप परिणाम तो होते हैं पर यह जीव उपशमसम्यक्त्वके कालको समाप्त करके मिथ्यात्वमे गया है इसलिये इसके संक्लेशरूप परिणामोंको उत्कृष्टता नहीं प्राप्त हो सकती है और संक्लेशरूप परिणामोंकी जितनी न्यूनता रहेगी कर्मपरमाणुओंका उतना ही अधिक अपकर्षण होगा ऐसा नियम है, अतः इस प्रकार जो जीव सीधा उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होता है उसके भी अपकर्षण आदि तीनोंके अयोग्य मिथ्यात्वका जघन्य द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसीसे चूर्णिसूत्रकारने इसे छह आवलि काल शेष रहने पर पहले सासादन गुणस्थानमे उत्पन्न कराया है और फिर मिथ्यात्वमे ले गये हैं। ऐसे जीवके संक्लेशकी अधिकता रहनेसे मिथ्यात्वके प्रथम समयमे बहुत कम मिथ्यात्वके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण होता है। ऐसा जीव गुणितकर्मांश भी हो सकता है और क्षपितकर्मांश भी, क्योंकि एक तो अन्तरकालके भीतर द्रव्य नहीं रहता, दूसरे इन दोनोंके उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वमें पहुँचने तक समान परिणाम रहते हैं, अतः इन दोनोंके ही द्वितीय स्थितिमे स्थित द्रव्यमे महान् अन्तर रहते हुए भी मिथ्यात्वके प्रथम समयमें समान द्रव्यका अपकर्षण होता है। इसलिये अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका जघन्य स्वामित्व ऐसे ही प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके कदना चाहिये जो उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर छह आवलि कालतक सासादन गुणस्थानमे रहा है और फिर वहाँसे मिथ्यात्वमे गया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

§ ५४२. अब उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ वही मिथ्यादृष्टि जीव एक आवलि कालके अन्तमें उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है।

§ ५४३. वही उपशामक उपशमसम्यक्त्वके कालमे छह आवलि कालके रहने पर सासादनमे जाकर और संक्लेशके साथ सासादनके कालको विताकर जब मिथ्यात्वको प्राप्त होकर वहाँ प्रथम समयसे लेकर एक आवलि कालतक मिथ्यात्वरूप परिणामोंके साथ अचलस्थित रहता है तब वह उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है। मिथ्यादृष्टिके

होदि । मिच्छाइद्विपढमसमयप्पहुडि पडिसमयमणंतगुणं संकिलेसमावूरिय समयूणा-
वलयमेत्तकालमहियारद्विदीए णिसिंचमाणदव्वस्स समयूणावलयमेत्तगोबुच्छविसेसेहिते
असंखेज्जगुणाहीणत्तादो पढमसमयमिच्छाइद्विपरिहारेणावलयिमिच्छाइद्विमि सामित्तं
दिण्णं, अपणहा पढमसमयमि चव सामित्तप्पसंगादो । कुदो एदं परिच्छज्जेदं ?
एदम्हादो चव सुत्तादो ।

❖ सम्मत्तस्स जहणणयमोकड्डुणादितियहं पि भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५४४. सुगमं ।

❖ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइद्विस्स
ओकड्डुणादो उकड्डुणादो संकमणादो च भीणद्विदियं ।

§ ५४५. पढमसमयवेदयसम्माइद्विस्स पयदसामित्तं होइ ति सुत्तथसंबंधो ।
किमविसिद्धस्स ? नेत्याह उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स उवशमसम्यक्त्वं पश्चात्कृतं येन

प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमे अनन्तगुणे संक्लेशको प्राप्त करके एक समय कम आवलि-
प्रमाण कालतक अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य प्राप्त होता है वह एक समय कम आवलिप्रमाण-
गोपुच्छाविशेषोंसे असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिको छोड़कर
एक आवलि कालतक रहे मिथ्यादृष्टिके जघन्य स्वामित्व कहा है । अन्यथा प्रथम समयमें ही
जघन्य स्वामित्वका प्रसंग प्राप्त हो जाता ।

शंका—जिसे मिथ्यात्व प्राप्त हुए एक आवलि काल हुआ है उसे जघन्य स्वामित्व प्राप्त
होता है यह किस प्रमाणसे जाना ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना ।

विशेषार्थ—यद्यपि जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर और छह आवलि कालतक
सासादन गुणस्थानमे रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है उसके पहले समयमे ही मिथ्यात्वका
उदय हो जाता है परन्तु इस समय जो उदयगत द्रव्य है उससे एक आवलिकालके अन्तमें
उदयमें आनेवाला द्रव्य न्यून होता है । इसीसे उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका जघन्य
स्वामित्व मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर
उसके अन्तिम समयमें कहा है ।

❖ सम्यक्त्वके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५४४. यह सूत्र सुगम है ।

❖ जो उपशमसम्यक्त्वसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है उसके प्रथम
समयमें वह अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-
परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५४५. प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिके प्रकृत स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका
अभिप्राय है । क्या सामान्यसे सभी प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टियोंके जघन्य स्वामित्व
होता है ? नहीं, बस इसी बातके बतलानेके लिये 'उपशमसम्मत्तपच्छायदस्स' यह पद कहा है ।

स तथोच्यते । उवसमसम्मतं पच्छायरिय गहिदवेदयसम्मत्तस्स पढमसमए असंखेज्ज-
ल्लोयपडिभाएण उदयावलियवर्भंतरे णिसित्तदव्वं घेत्तूण सम्मतस्स अप्पियसामित्तमिदि
वुत्तं होइ । सेसपरूवणाए मिच्छत्तभंगो ।

§ ५४६. संपहि जहणयमुदयादो भीणट्टिदियं कस्से त्ति आसंकाणिवारणह-
मुचरसुत्तमोइण्णं—

❀ तस्सेव आवलियवेदयसम्माइट्टिस्स जहणयमुदयादो भीणट्टिदियं ।

§ ५४७. तस्सेव पुव्विल्लसामियस्स आवलियमेत्तकालं वेदयसम्मत्ताणुपालणेण
आवलियवेदयसम्माइट्टिवपएसमुव्वहंतस्स पयदञ्जहणसामित्तं होइ । एत्थ पढमसमय-
वेदयसम्माइट्टिपरिहारेण उदयावलियचरियसमए सामित्तविहाणे पुव्वं व कारणं
परूवेयव्वं ।

इसका अर्थ है जिसने उपशमसम्यक्त्वको पीछे कर दिया है वह जो उपशमसम्यक्त्वको त्याग कर
वेदकसम्यग्दृष्टि हुआ है उसके प्रथम समयमें असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार
उदयावलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा सम्यक्त्वका विवक्षित स्वामित्व होता है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है । शेष सब कथन मिथ्यात्वके समान है ।

विशेषार्थ— जब उपशमसम्यग्दृष्टि उपशमसम्यक्त्वके कालको समाप्त करके वेदक
सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तब वह अपने प्रथम समयमें ही सम्यक्त्व प्रकृतिका अपकर्षण करके
उससे अन्तरकालको भर देता है । यद्यपि इस प्रकार अन्तरकालके भीतर अपकर्षित द्रव्य प्राप्त
होता है तथापि यहाँ पूर्वं संचित द्रव्य नहीं रहनेसे यह द्रव्य अति थोड़ा है, इसलिये ऐसे जीवको
ही सम्यक्त्व प्रकृतिकी अपेक्षा अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कहा है । यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि उपशमसम्यग्दृष्टि-
को मिथ्यात्वमे ले जाकर जघन्य स्वामी क्यों नहीं कहा; क्योंकि वहाँ वेदक सम्यग्दृष्टिसे कम
द्रव्यका अपकर्षण होता है । पर बात यह है कि जिस प्रकृतिका उदय होता है उदय समयसे
लेकर अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उसी प्रकृतिका होता है । किन्तु मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्यक्त्व
प्रकृतिका उदय होता नहीं, इसलिये ऐसे जीवके मिथ्यात्वमे एक आवलि कालतक उदयावलिप्रमाण
निषेक ही सम्भव नहीं, अतः जघन्य स्वामित्व मिथ्यात्वमे न बतला कर वेदक सम्यक्त्वके
प्रथम समयमे बतलाया है ।

§ ५४६. अब उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है इम आशंकाके
निवारण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* वही वेदक सम्यग्दृष्टि जीव एक आवलि कालके अन्तमें उदयसे भीन-
स्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५४७. एक आवलिप्रमाण कालतक वेदकसम्यक्त्वका पालन करनेसे 'आवलिक वेदक-
सम्यग्दृष्टि' इस संबन्धको प्राप्त हुए उसी पूर्वोक्त जीवके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है । यहाँ
प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिका परिहार करके जो उदयावलिके अन्तिम समयमें स्वामित्वका
विधान किया है सो इसका पहलेके समान कारण कहना चाहिये ।

विशेषार्थ— जैसे मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका
स्वामित्व उदयावलिके अन्तिम समयमें कहा है उसी प्रकार प्रकृतमे जानना चाहिये ।

❀ एवम् सम्मामिच्छुत्तस्स ।

§ ५४८. सुगममेदमप्यणामुत्तं ।

❀ एवरि पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स आवलियसम्मामिच्छाइडिस्स चेदि ।

§ ५४९. दोसु वि सामित्तमुत्तेसु आलावकओ विससो जाणियव्वो ।

❀ अट्टकसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं जहणय-मोकडुणादो उक्कणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५५०. सुगममेदं ।

❀ उवसंतकसाओ मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहणयण-मोकडुणादो उक्कडुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं ।

§ ५५१. जो उवसंतकसाओ वीदरागळदुमत्यो अण्णदरकम्मंसियलक्खणेणा-गंतूण सेट्ठिमारूढो कालगदसमाणो मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवभावेणावट्टियस्स

* इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वके विषयमें जानना चाहिये ।

§ ५४८. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

* किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिध्यादृष्टिके और उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती सम्यग्मिध्यादृष्टिके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये ।

§ ५४९. दोनों ही स्वामित्व सूत्रोंमें व्याख्यानकृत विशेषता प्रकरणसे जान लेनी चाहिये । विशेषार्थ—जैसे सन्यक्त्व प्रकृतिकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्वका कथन करते समय जीवको उपशमसम्यक्त्वसे वेदकसम्यक्त्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और उदयावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-परमाणुओंका स्वामी कहा है वैसे ही उपशमसम्यक्त्वसे सम्यग्मिध्यात्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और उदयावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कहना चाहिये यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है ।

* आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हस्य, रति, भय और जुगुप्साके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५०. यह सूत्र सुगम है ।

* जो उपशान्तकषाय जीव मरकर देव हो गया, प्रथम समयवर्ती वह देव उक्त प्रकृतियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५१. क्षपितकर्मांश या गुणितकर्मांश इनमेंसे किसी भी एक विधिसे आकर जो जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर उपशान्तकषाय वीतरागद्वयस्थ हो गया और फिर मरकर देव हो गया

जहणयमोकङ्कणादितिणहं पि भीणद्विदियं होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो । कथं देवेसुप्पणपढमसमए विदियद्विदीए द्विदपदेसग्गाणमंतरद्विदीसु असंताणमेकसराहेण उदयावलियप्पवेसो ? ण, सर्व्वेसि कारणाणं परिणामवसेण अकमेणुग्घादाणुवलंभादो । तदो उवसंतकसाएण देवेसुप्पणपढमसमए पुव्वुत्तविहाणेणंतरं पूरेमाणेण उदयावलिय-
 ंभंतरे असंखेज्जल्लोयपडिभाएण णिसित्तदव्वं घेत्तूण सुत्तुत्तासेसकम्ममाणं विवक्खिय-
 जहएणसामित्तं होइ त्ति घेतव्वं । एत्थ केइ आइरिया एवं भणंति—जहा होउ णाम
 लोभसंजलणस्स उवसंतकसायपच्चापददंविम्मि देवपज्जायपढमसमए वट्टमाणयम्मि
 जहणसामित्तं, अण्णहाकाउमसत्तीदो । कुदो एवं चेव ? हेट्ठा अण्णदरसंजलणपढमद्विदीए
 णिल्लेवणासंभवादो । तहा सेससंजल्लाणं पि तत्थेव सामित्तं होउ णाम, अण्णहा देवेसु-
 प्पणपढमसमए विवक्खियसंजलणाणसुवरि अविक्खियसंजलणाणुणसेट्ठिदव्वस्स
 थियुक्कसंकमप्पसंगेण जहणत्ताणुववत्तीदो । ण बुणो सेसकसायाणमेत्थ सामित्तेण
 होयव्वं, चहमाणअणियद्विचरदेवम्मि तेसिमंतरं काऊण देवेसुप्पणपढमसमए वट्टमाणयम्मि
 जहणसामित्ते छाहदंसणादो । तं जहा—सो देवेसुप्पणपढमसमए जेसिमुदओ

वह प्रथम समयवर्ती देव अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

शंका—जो कर्मपरमाणु अन्तरकालकी स्थितियोंमें न पाये जाकर द्वितीय स्थितिमें पाये जाते हैं उनका देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही एकदम उदयावलिमें कैसे प्रवेश हो जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहां परिणामोकी परिवशतासे सभी कारणोंका युगपत् उद्घाटन पाया जाता है, इसलिये जो उपशान्तकषाय जीव देवोंमें उत्पन्न होता है वह वहां प्रथम समयमें ही पूर्वोक्त विधिसे अन्तरकालको कर्मनिषेकोसे पूरा कर देता है । और इसप्रकार उदयावलिमें भीतर असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार जो द्रव्य निश्चित होता है उसकी अपेक्षा सूत्रमें कहे गये सब कर्मोंका विवक्षित जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है, यह अर्थ यहां लेना चाहिये ।

शंका—यहांपर कितने ही आचार्य इसप्रकार कथन करते हैं कि जो उपशान्तकषाय जीव मरकर देव हुआ और देव पर्यायके प्रथम समयमें विद्यमान है उसके लोभसंज्वलनका जघन्य स्वामित्व भले ही रहा आओ, क्योंकि इसको अन्य प्रकारसे घटित करना शक्य नहीं है । ऐसा ही क्यों है ऐसा पूछनेपर शंकाकार कहता है कि इससे नीचे संज्वलनकी सब प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिका अभाव असंभव है अतः वहां जघन्य स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है । उसीप्रकार शेष संज्वलनोका भी स्वामित्व यहींपर रहा आवे, अन्यथा देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें विवक्षित संज्वलनोके ऊपर अविवक्षित संज्वलनोके गुणश्रेणिद्रव्यका स्तिवुक संक्रमण प्राप्त होनेसे जघन्यपना नहीं बन सकता है । परन्तु शेष कषायोंका स्वामित्व यहांपर नहीं होना चाहिये, क्योंकि जो उपशामश्रेणिकर चढ़ते हुए अनिश्चितिकरण गुणस्थानमें मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है वह पहले अनिश्चितिकरणमें उक्त प्रकृतियोंका अन्तर करके जब मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ तब वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयवर्ती उसके जघन्य स्वामित्वका कथन करनेमें लाभ देखा जाता

अत्थि तेसिमुदीरिज्जमाणद्वभुवसंतकसायचरमदेविसोहीदो अणंतगुणहीणविसोहिण्ण
 पुच्चिल्लसामिदब्बादो थोवररमुदयादी संछुहदि, विसोहिपरतंताए उदीरणाए त्तारत-
 माणुविहाणस्स णाइयत्तादो । ण एत्थ स्थिबुक्कसंकमस्स संभवो आसंकणिज्जो,
 जेसिमुदयो णत्थि तेसिमुदयावल्लियवाहिरे एयगोबुच्छायारेण णिसेयदंसणादो
 विवक्खियकसायस्स सजादियसंजलणपढमहिदीए सह तत्थुप्पायणादो च । तम्हा
 अट्ठकसायाणं मज्जे जस्स जस्स जहणणसामित्तमिच्छिज्जदि तस्स तस्स एवं देवेसु-
 प्पणपढमसमए उदयं काऊण सामित्तं दायव्वं, अण्णहा जहणणभावाणुववत्तीदो ।
 तहा पुरिसवेद--हस्स--रदि--भय--दुगुंछाणमप्पणो ट्ठाणे ओयरमाणअणियट्ठि-
 उवसामओ ओकड्डियूण उदए दाहिदि त्ति अदाऊण कालं करिय देवेसुप्पण-
 पढमसमए ओकड्डणादित्तिण्हं पि भीणट्ठिदियजहणणसामित्तमत्थसंबंधेण दायव्वं ?
 ण एत्थ वि कसायाणं स्थिबुक्कसंकमसंभावो आसंकियव्वो, कसायत्थिबुक्कसंकमस्स
 णोकसाएसु अणवभुवगमादो । कुदो एवं चे ? स्थिबुक्कसंकमस्स पाएण समाणजाइयपयहीसु
 चव पडिबंधवभुवगमादो । तम्हा णिरवज्जमेदमेत्थ सामित्तमिदि । एत्थ परिहारो
 उच्चदे—उवसमसेठीए कालं काऊण देवेसुप्पणपढमसमए जस्स वा तस्स वा विसोही

है । यथा—यह तो प्रसिद्ध बात है कि उपशान्तकपायचर देवसे इसकी विशुद्धि अनन्तगुणी हीन
 होती है, इसलिये उपशान्तकपायचर देव अपने प्रथम समयमे जिन प्रकृतियोंका उदय है उनकी
 उदीरणा करते हुए जितने द्रव्यको उदयादिमे निक्षिप्त करता है उससे यह जीव थोड़े द्रव्यको
 उदयादिमे निक्षिप्त करता है, क्योंकि उदीरणा विशुद्धिके अनुसार होती है, इसलिये यहां जो
 उदीरणके होनेका इसप्रकारका विधान किया है सो वह न्याय्य है । यहां स्तिबुक्कसंकमणकी
 सम्भावनाविषयक आशंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक तो यहां जिनका उदय नहीं
 होता उनके केवल उदयावलिके बाहर ही एक गोपुच्छके आकाररूपसे निषेक देखे जाते हैं और
 दूसरे विवक्षित कषायका सजातीय संज्वलनकी प्रथम स्थितिके साथ वहां उत्पन्न होता है,
 इसलिये आठ कषायोमेसे जिस जिसका जघन्य स्वामित्व चाहा जाय उस उसका पूर्वोक्त प्रकारसे
 देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे उदय कराके स्वामित्वका विधान करना चाहिये, अन्यथा
 जघन्यपना नहीं प्राप्त हो सकता । तथा जो उपशामक उत्तरकर अनिवृत्तिकरणमे आया है वह
 पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका अपने अपने स्थानमें अपकषेण करके उदयमे देगा
 किन्तु न देकर मरा और देवोमे उत्पन्न हो गया उसके वहा उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे अपकर्षणादि
 तीनोंके ही भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओका जघन्य स्वामित्व प्रकरणवशा देना चाहिये ।
 किन्तु यहांपर भी कषायोके स्तिबुक्क संक्रमणकी सम्भावनाकी आशंका करना उचित नहीं है,
 क्योंकि कषायोका स्तिबुक्क संक्रमण नोकषायोमे नहीं स्वीकार किया है । यदि कहा जाय कि ऐसा
 क्यों है सो इसका उत्तर यह है कि स्तिबुक्कसंकमणका सम्बन्ध प्रायः समान जातीय प्रकृतियोंमे
 ही स्वीकार किया है, इसलिये यहांपर जो उक्त प्रकारसे स्वामित्व वतलाया है वह निर्दोष है ?

समाधान—अब यहां इसका परिहार करते हैं—जो भी कोई उपशामश्रेणिमें मरकर
 देवोमे उत्पन्न हुआ है उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे विशुद्धि समान ही होती है इस

सरिसी चैव सेहीए अणंतगुणहीणाहियभादणिरवेक्खा होइ त्ति एदेणाहिप्पाएण पयट्ठमेदं सुत्त । जइ एवं, जत्थ वा तत्थ वा सामित्तमदाऊण केणाहिप्पाएण उवसंत-कसायचरो चैव देवो अवलंविआं ? ण, अणत्थ सुत्तुचासंसपयडीणं सामित्तस्स दाच-मसकियत्तेणेत्थेव सामित्तविहाणादो । एत्थ जस्स जस्स जहण्णसामित्तमिच्छिज्जइ तस्स तस्स उवसंतकसायच्छायददेवपढमसमए उदयं काऊण गहेयन्वं, अण्णहा अणुदइल्लत्तेण उदयावलियन्भंतरे णिवल्लेवासंभवादो । एत्थ चोदओ भणइ—ण एदं घट्ठे, देवेसुप्पणपढमसमए लोभं भोत्तूण सेसकसायाणमुदयासंभवादो । कुदो एस त्रिसेसो लब्भए चे ? परमगुरूवएसादो । तदो लोभकसायवदिरित्तकसायाणमेत्थ सामित्तेण ण होद्वं, तत्थ तेसिमुदयाभावादो त्ति । एत्थ परिहारो बुच्चे—सच्चमेवेदमेत्थ वि जइ तहाविहो अहिप्पाओ अवलंविओ होज्ज, किन्तु ण देवेसुप्पणपढमसमए एवंविहो णियमो अत्थि, अत्रिसेसेण सव्वकसायाणमुदओ तत्थ ण विदुक्कइ त्ति एसो चुण्णि-सुत्तयाराहिप्पाओ, अण्णहा एत्थ सामित्तविहाणाणुववचीए । तदो देवेसुप्पणपढमसमए सव्वकसायाणमुदओ संभवइ त्ति तत्थ जहण्णसामित्तविहाणमविरुद्धं सिद्धं ।

अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । किन्तु इतनी विगोपता है कि उपशान्तश्रेणिसे जो विशुद्धिका अनन्तगुणा हीनाधिकभाव देखा जाता है उसकी यहां अपेक्षा नहीं की गई है ।

शंका—यदि ऐसा है तो जहां कहीं भी स्वामित्वका विधान न करके उपशान्तकपायचर देवकी अपेक्षा ही स्वामित्वका विधान किस अभिप्रायसे किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यत्र सूत्रमे कही गई सब प्रकृतियोंके स्वामित्वका विधान करना सम्भव नहीं था, इसलिये यहां ही स्वामित्वका विधान किया है । यहांपर जिस जिस प्रकृतिका जघन्य स्वामित्व लाना इष्ट हां उस उसका उपशान्तकपायसे मरकर देवोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उदय कराकर स्वामित्वका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा उदय न होनेके कारण उदयावलिके भीतर अनुदयवाली प्रकृतियोंके निषेकोका निषेप होना सम्भव नहीं है ।

शंका—यहांपर शंकाकारका कहना है कि उक्त कथन नहीं बन सकता है, क्योंकि देवोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें लोभको छोड़कर शेष कषायोंका उदय नहीं पाया जाता है । यदि कहा जाय कि यह विगोपता कहांसे प्राप्त हुई तो इसका उत्तर यह है कि परम गुरुके उपदेशसे यह विगोपता प्राप्त हुई है, इसलिये लोभकपायके सिवा शेष कषायोंका स्वामित्व यहां देवोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें नहीं होना चाहिये, क्योंकि यहां उनका उदय नहीं पाया जाता ?

समाधान—अब यहां इस शंकाका परिहार करते हैं—यह कहना तब सही होता जब यहां भी वैसा ही अभिप्राय विवक्षित होता । किन्तु प्रकृतसे चूर्णिसूत्रकारका यह अभिप्राय है कि देवोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इसप्रकारका नियम नहीं पाया जाता और सामान्यसे सब कषायोंका उदय वहां विरोधको नहीं प्राप्त होता । यदि ऐसा न होता तो यहां स्वामित्वका विधान ही नहीं किया जा सकता था, यतः देवोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सब कषायोंका उदय सम्भव है इसलिये वहां जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया है सो वह दिना विरोधके सिद्ध है ।

विशेषार्थ—यहां पर आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले कर्म-परमाणुओंके जघन्य स्वामित्वका विधान करते हुए यह बतलाया है कि जो उपशान्तकषाय छद्मस्थ जीव मरकर देवोमे उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमे यह जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है। यहांपर शंकाकारने मुख्यतया तीन शंकाएं उठाई हैं जिनमेसे पहली शंकाका भाव यह है कि उपशान्तकषायमें बारह कषायों और नोकषायोंकी प्रथम स्थिति तो पाई नहीं जाती, क्योंकि वहां अन्तरकालकी स्थितियोंमें निषेकोंका अभाव रहता है। अब जब यह जीव मरकर देवोमें उत्पन्न होता है तब वहां इनकी प्रथम स्थिति एकसाथ कैसे उत्पन्न हो सकती है। इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि उपशान्तकषाय गुणस्थानमें जो करण उपशान्त रहते हैं वे देवके प्रथम समयमे अपना काम करने लगते हैं, इसलिये वहां द्वितीय स्थितिमे स्थित इन कर्मोंके कर्म-परमाणु अपकर्षित होकर प्रथम स्थितिमे आ जाते हैं। उसमे भी जिन प्रकृतियोंका प्रथम समयसे ही उदय होता है उनके कर्मपरमाणु उदय समयसे निक्षिप्त होते हैं और जिनका उदय प्रथम समयसे नहीं होता उनके कर्मपरमाणु उदयावलिसे बाहरकी स्थितिमे निक्षिप्त होते हैं, इसलिये वहां प्रथम स्थितिमे विवक्षित प्रकृतियोंके कर्मपरमाणु सम्भव हो जानेसे जघन्य स्वामित्व भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी शंका यह है कि यतः संज्वलन लोभका उपशम दसवें गुणस्थानके अन्तमे होता है अतः इसकी अपेक्षा जो उपशान्तकषाय छद्मस्थ जीव मरकर देवोमें उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमे जघन्य स्वामित्व भले ही प्राप्त होओ, क्योंकि इसके पूर्व मरकर जो जीव देवोमे उत्पन्न होता है उसके संज्वलन लोभकी उदय समयसे लेकर अन्तरकालके पूर्व तककी या अन्तरकालके बिना ही प्रथम स्थिति पूर्ववत् बनी रहती है अतः ऐसे जीवको देवोमें उत्पन्न करानेपर संज्वलन लोभकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता। तथा शेष तीन संज्वलनोंकी अपेक्षा भी जघन्य स्वामित्व पूर्वोक्त प्रकारसे भले ही प्राप्त हो जाओ, क्योंकि इनकी अपेक्षा भी जघन्य स्वामित्व अन्य प्रकारसे नहीं बन सकता है। उदाहरणार्थ एक सूक्ष्मसाम्यराय संयत जीव मरकर देव हुआ और उसके देव होनेके प्रथम समयमे मायासंज्वलनका उदय है तो इसमें लोभसंज्वलनके निषेक स्तिवृत्तसंक्रमण द्वारा संक्रमित होंगे जिससे मायासंज्वलनकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व नहीं बन सकेगा। इसीप्रकार मान और क्रोधसंज्वलनके सम्बन्धमे जानना चाहिये। इसलिये यद्यपि संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे जघन्य स्वामित्व बन जाता है पर शेष कषायोंकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे जघन्य स्वामित्व नहीं बनता, क्योंकि यदि अनिष्टवृत्तिकरण गुणस्थानका जीव उनका अन्तर करके मरता और देवोमे उत्पन्न होता है तो उसके उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा उदयावलिमें कम परमाणु पाये जाते हैं, इसलिये सूत्रमे उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा आठ कषायोंका जघन्य स्वामित्व कहना ठीक नहीं। इसप्रकार पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन नोकषायोंका जघन्य स्वामित्व भी उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि जो जीव उपशाम-श्रेणिसे उतरकर और अनिष्टवृत्तिकरणमें पहुँचकर इनका अपकर्षण करनेके एक समय पहले मरकर देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इनका अपकर्षण करता है उसके उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा उदयावलिमे कम परमाणु प्राप्त होते हैं, इसलिये इनका जघन्य स्वामित्व भी अनिष्टवृत्त-चर देवके ही होता है उपशान्तकषायचर देवके नहीं। उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा अनिष्टवृत्तिचर देवके प्रथम समयमे अपकर्षणसे उदयावलिमे कम परमाणु संक्लेशकी अधिकतासे प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि जिसके संक्लेशकी अधिकता होती है उसके अपकर्षण कम परमाणुओंका होता है और जिसके विद्युद्धिकी अधिकता होती है उसके अपकर्षण अधिक परमाणुओंका

❀ तस्सेव आवलियउवववणस्स जहणयमुदयादो भीष्णट्टिदियं ।

§ ५५२. तस्सेव उवसंतकसायचरदेवस्स उप्पत्तिपढमसमयप्पहुडि आवलिय-
मेतकालं वोलादिय समवद्वियस्स जहणयमुदयादो होइ । कुदो पढमसमयउवववणं
परिहरिय एत्थ पयदजहणसामितं दिज्जइ त्ति णासंक्कणिज्जं, तत्थतणपढमणिसेयादो
एदस्स विवक्खियणिसेयस्स समऊणावलियमेतगोबुच्छविसेसेहि हीणत्तदंसणादो । ण
च एत्थ वि समऊणावलियमेतकालमसंखेज्जलोयपडिभाएणोदीरिददन्वं तत्थासंतमत्थि

होता है । अतः उपशान्तकपायचर देवके विशुद्धिकी अधिकता होती है अतः इसके अधिक
परमाणुओंका अपकर्षण होगा । तथा अनिष्टुत्तिचर देवके संक्लेशकी अधिकता होती है अतः
इसके कम परमाणुओंका अपकर्षण होगा, इसलिये आठ कषाय आदि उक्त प्रकृतियोंका स्वामित्व
उपशान्तकपायचर देवको न देकर अनिष्टुत्तिचर देवको देना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य
है । टीकामे इस शंकाका समाधान करते हुए जो यह बतलाया गया है कि उपशमश्रेणिये
कहींसे भी मर कर जो देव होता है उसके एकसे परिणाम होते हैं इस विवक्षासे यह सूत्र प्रवृत्त
हुआ है और यहाँ पर उपशमश्रेणिमें स्थान भेदसे जो हीनाधिक परिणाम पाये जाते हैं उनकी
विवक्षा नहीं की गई है सो इस समाधानका आशय यह है कि चूर्णिसूत्रकारने यद्यपि उपशान्तचर
देवके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व बतलाया है पर वह अनिष्टुत्तिचर देवके भी सम्यक्
प्रकारसे वन जाता है फिर भी चूर्णिसूत्रकारने एक साथ सब प्रकृतियोंके स्वामित्वके
प्रतिपादनके लिहाजसे वैसा किया है ।

एक मत यह पाया जाता है कि नरकगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्रोधका, तिर्यच-
गतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मायाका मनुष्यगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मानका
और देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें लोभका उदय रहता है । इस नियमके आधारसे
शंकाकारका कहना है कि इस हिसाबसे देवगतिके प्रथम समयमें केवल लोभका जघन्य स्वामित्व
प्राप्त हो सकता है अन्यका नहीं, क्योंकि जिस जीवने उपशमश्रेणिये बारह कषायोंका अन्तर
कर दिया है उसके देवोंमें उत्पन्न होनेपर प्रथम समयमें अपकर्षण होकर लोभका ही उदय
समयसे निक्षेप होगा अन्यका नहीं । अतः जब वहाँ अन्य प्रकृतियोंका उदयावलिमें निक्षेप
ही सम्भव नहीं तब उनका जघन्य स्वामित्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? इस शंकाका जो
समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि देव पर्यायके प्रथम समयमें केवल लोभके
उदयका ही नियम नहीं है अतः वहाँ उक्त सभी कषायोंका जघन्य स्वामित्व वन जाता है ।

* उसी देवको जब उत्पन्न हुए एक आवलि काल हो जाता है तब वह
उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५२. वही उपशान्तकपायचर देव जब उत्पत्तिकालसे लेकर एक आवलिकाल चित्ताकर
स्थित होता है तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।
यदि ऐसी आशंका की जाय कि प्रथम समयमें उत्पन्न हुए देवको छोड़कर यहाँ उत्पन्न होनेसे
एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान क्यों किया जा रहा है सो ऐसी
आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम समयवर्ती जीवके जो निषेक होता है उससे यह
विवक्षित निषेक एक समयक्रम आवलिप्रमाण गोपुच्छविशेषोंसे हीन देखा जाता है । यदि कहा
जाय कि एक समय कम आवलिप्रमाण काल तक असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार
उद्दीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य जो कि प्रथम समयमें नहीं है यहाँ पर पाया जाता है सो ऐसा

ति पञ्चवट्टेयं, एदम्हादो चेव सुत्तादो ततो एदस्स थोवभावसिद्धीदो ।

❀ अर्थात्ताणुबंधीणं जहण्णयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५५३. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❀ सुहृमणिओएसु कम्मट्टिदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लभिदाउओ चत्तारि वारे कसाए उवसामेयूण ततो अर्थात्ताणुबंधी विसंजोएऊण संजोइदो तदो वेछावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण तदो मिच्छत्तं गदो तस्स पढमसमयमिच्छाहट्टिस्स जहण्णयं तिण्हं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५५४. खविदकम्मंसियपच्छायदभमिदवेछावट्टिसागरोवपढमसमयमिच्छा-

निश्चय करना ठीक नहीं है, क्यो इसी सूत्रसे प्रथम समयवर्ती द्रव्यकी अपेक्षा यह विवक्षित द्रव्य कम सिद्ध होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर उपशान्तकपायचर देवके उत्पन्न होनेके समयसे लेकर एक आवलिकालके अन्तमें जघन्य स्वामित्व वतलाया है, देवपर्यायमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्यो नहीं वतलाया इसका उत्तर यह है कि उदय समयसे लेकर एक आवलिकाल तक निषेकोकी जो रचना होती है वह उत्तरोत्तर चयहीन क्रमसे होती है अतः प्रथम समयमे जो द्रव्य प्राप्त होता है उससे आवलिके अन्तिम समयमें प्राप्त होनेवाला द्रव्य एक समय कम एक आवलि-प्रमाण चर्यासे हीन होता है यही कारण है कि विवक्षित जघन्य स्वामित्व देव पर्यायमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे न देकर प्रथम समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके अन्तिम समयमें दिया है । यद्यपि यह आवलिप्रमाण कालका अन्तिम समय जब तक उदय समयको प्राप्त होता है तब तक इससे प्रति समय उदीरणको प्राप्त होनेवाले द्रव्यका संचय होता रहता है तो भी वह सब मिलकर उक्त सूत्रके अभिप्रायानुसार प्रथम समयवर्ती द्रव्यसे न्यून होता है, इसलिये विवक्षित जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमे नहीं दिया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀ अनन्तानुबन्धियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५३. यह पृच्छामुत्तं सुगम है ।

❀ कोई एक जीव है जो सूहृमनिगोदियोंमें कर्मस्थितिप्रमाणकाल तक रहा तदनन्तर अनेक वार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके चार वार कपायोंका उपशम किया । फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ । फिर दो छयासठ सागरप्रमाण कालतक सम्पत्त्वका पाळन करके मिथ्यात्वमें गया । वह प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि अपकर्षण आदि, तीनकी अपेक्षा भीनस्थितवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५४. जो क्षपित कर्माशब्धिसे आकर और दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण

इद्विस्स पयदजडणसामित्तं होइ त्ति सुत्तथसंगहो । किमद्वयेसो सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विट्ठिं हिंढाविदो ? ण, कम्मद्विट्ठिमेत्तकालं तत्यावट्ठणेण विणा जहणसंचयाणुव-
वत्तीदो । अदो चेय संपुण्णा एसा सुहुमणिगोदेसु समाणेयव्वा । सुत्ते पल्लिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागेणूणियं कम्मद्विट्ठिमच्छिदो त्ति अपरूवणादो । तत्थ य संसरमाणस्स
वावारविसेसो द्वावासयपडिबद्धो पुवं परूविदो त्ति ण पुणो परूविज्जदि गंयगउरव-
भएण । तदो कम्मद्विट्ठिविहोभूदपल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तकालवभंतरे संजमासंजमं
संजमं च बहुसो लभिदाउओ । एत्थतण 'च' सहेण अयुत्तसमुच्चयट्ठेण सम्मत्ताणंताणु-
वंधिविसंजोयणकंडयाणमंतंभावो वत्तव्वो । बहुसो बहुवारं लभिदाउओ लद्धवंतओ ।
संजमासंजमादीणमसइं लंभो ण णिप्पओजणो, गुणसेट्ठिणिज्जराए बहुद्ववगालण-
फलत्तादो । तत्थेव अवांतरवावारविसेसपरूवणद्वमेदं वुत्तं । चत्तारि वारे कसाए
उवसाभियूण तदो अणंताणुवंधी विमंजोएऊण संजोइदो त्ति । बहुआ कसाउवसामण-
वारा किण्ण होंति ? ण, एयजीवस्स चत्तारि वारे मोत्तूण उवसमसेट्ठिआरोहणा-
संभवादो । कसायुवसामणवाराणं व संजमासंजम संजम-सम्मत्त-अणंताणुवंधिविसंजोयण-

करके मिथ्यादृष्टि हुआ है उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका सार है ।

शंका—इसे कर्मस्थितिप्रमाण काल तक सूक्ष्मनिर्गोदियोंमें क्यों भ्रमाया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कर्मस्थितिप्रमाण कालतक वहाँ रहे बिना जघन्य संचय नहीं बन सकता है । और इसीलिये पूरी कर्मस्थितिप्रमाण कालको सूक्ष्मनिर्गोदियोंमें विताना चाहिये, क्योंकि सूत्रमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कालतक रहा ऐसा सूचित भी नहीं किया है ।

कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर परिभ्रमण करते हुए जो छह आवश्यकसम्बन्धी व्यापार विशेष होता है उसका पहले कथन कर आये हैं, इसलिये ग्रन्थके बड़े जानेके भयसे उनका यहाँ पुनः कथन नहीं किया जाता है । तदनन्तर कर्मस्थितिके बाहर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके भीतर बहुत बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त किया । यहाँ सूत्रमें जो 'च' शब्द है वह अनुक्त विषयका समुच्चय करनेके लिये आया है जिससे सत्यक्त्वके काण्डकोके अन्तर्भाविका और विसंयोजनासम्बन्धी काण्डकोके अन्तर्भाविका कथन कर लेना चाहिये । इस प्रकार इन सबको बहुत बार प्राप्त करता हुआ । इन सबका अनेक बार प्राप्त करना निष्प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इसका फल गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा बहुत द्रव्यका गला देना है । या वहाँ पर अचान्तपर व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये यह कहा है । फिर चार बार कषायोंका उपशम करके फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ ।

शंका—कषायोंके उपशमानेके बार चारसे अधिक बहुत क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक जीव चार बार ही उपशमश्रेणि पर आरोहण कर सकता है, इससे और अधिक बार उपशमश्रेणि पर आरोहण करना सम्भव नहीं है ।

शंका—जैसे कषायोंके उपशमानेके वारोंका स्पष्ट निर्देश किया है वैसे ही संयमासंयम,

परियद्वणवारारण एत्तियमेत्ता त्ति पमाणपरूवणा किण्ण कया ? ण, सच्चुकस्सा ण एत्थ होंति, किंतु तप्पाओग्गा चेवे त्ति जाणावणहमेत्तियमेत्ता त्ति अपरूवणादो । कुदो सच्चुकस्सवारारणमसंभवो ? ण, तथा संते णिष्वाणगमणं मोत्तूण वेच्चावट्ठिसागरोवममेत्तकालं संसारे परिब्भमणाभावादो । ण चेसा सच्चा खविदकिरिया विसंजोइज्जमाणाणमणंताणुबंधीणं णिरत्थिया, सेसकसायदच्चस्स थोवयरीकरणेण फलोवलंभादो । णेदं पयदाणुवजोगी, अणंताणुबंधी विसंजोएएण पुणो वि अंतोमुहुत्तेण संजुज्जंतस्स अधापवत्तसंक्रमेण पडिच्चिज्जमाणसेसकसायदच्चाणमप्पदरीभूदाणमुवजोगित्तदंसणादो । एवमणंताणुबंधी विसंजोइय अंतोमुहुत्तसंजुत्तो अधापवत्तसंक्रमेण पडिच्चिज्जमाणससकसायदच्चाणमप्पदरीभूदाणमुवजोगित्तदंसणादो । एवमणंताणुबंधी विसंजोइय अंतोमुहुत्तसंजुत्तो अधापवत्तभागहारोवट्ठिदिवडुगुणहाणिमेत्तेइं दियसमयपबद्धद्वं सेसकसाएहितो पडिच्चिद्धं सर्गतोभाविदअंतोमुहुत्तमेत्तणवकबंधं धेतूण तदो वेच्चावट्ठिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण मिच्छत्तं गओ । किमइमेत्तो सम्मत्तत्तंभेण वेच्चावट्ठि-

सयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इनके परिवर्तनवार इतने होते हैं इस प्रकार इनके प्रमाणका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन संयमासंयमादिके सर्वोत्कृष्ट वार नहीं होते, किन्तु तत्प्रायोग्य होते हैं इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये इतने होते हैं यह कथन नहीं किया ।

शंका—यहाँ सर्वोत्कृष्ट वार क्यों सम्भव नहीं हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट वारोके मान लेनेपर निर्वाण गमनके सिधा दो छयासठ सागर कालतक संसारमें परिभ्रमण करना नहीं बन सकता है, इसलिये यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट वार सम्भव नहीं है ।

यदि कहा जाय कि विसंयोजनाको प्राप्त होनेवाली अनन्तानुबन्धियोंकी यह सब क्षपणा सम्बन्धी क्रिया निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि शेष कषायोंके द्रव्यका परिमाण अल्प कर देना यही इसका फल है । यदि कहा जाय कि शेष कषायोंका द्रव्य अल्प होता है तो होओ पर इसका प्रकृतमें क्या उपयोग है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके अन्तर्मुहूर्तमें पुनः इससे संयुक्त होने पर अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा शेष कषायोंका अल्प द्रव्य विच्छिन्न होकर इसमें प्राप्त होता है, इसलिये शेष कषायोंके द्रव्यके अल्प होनेकी उपयोगिता है । इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके और अन्तर्मुहूर्तमें उससे संयुक्त होकर अल्प हुए शेष कषायोंके द्रव्यके अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा उनसे विच्छिन्न होकर इसमें प्राप्त होने पर शेष कषायोंके द्रव्यके अल्प होनेकी उपयोगिता देखी जाती है । इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके जब पुनः अन्तर्मुहूर्तमें इससे संयुक्त होता है तब अधःप्रवृत्तभागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानि प्रमाण एकैन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवृद्ध द्रव्य शेष कषायोंसे विभक्त होकर इसमें प्राप्त होता है तथा अन्तर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्वमें रहनेके कारण अन्तर्मुहूर्त प्रमाण नवकसमयप्रवृद्ध प्राप्त होते हैं । इस प्रकार अनन्तानुबन्धीके इतने द्रव्यको प्राप्त करके और तदनन्तर दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके यह जीव मिथ्यात्वमें जाता है ।

सागरोवमाणि भमाडिदो ? ण, सम्मत्तमाहप्पेण वंधविरहियाणमणंताणुवंधीणमाएण विणा वयमुवगच्छंताणमइज्जहणणगोबुच्छविहाणट्ठं तहा भमाडणादो । पुणो मिच्छत्तं किं णीदो ? ण, अण्णहा एत्थुद्दुसे दंसणमोहक्खवणमाढवेंतस्स पयदजहण्णसामित्त-विघादप्पसंगादो । तस्स पढमसमयमिच्छाइट्ठिस्स जहण्णयं तिण्णं पि ओकड्डणादो म्नीणट्ठिदियं होइ । एत्थ सिस्सो भणइ—मिच्छाइट्ठिपढमसमए अणंताणुवंधीणं सोदएण आवलियमेत्तट्ठिदीओ सामित्तविसईकयायो होंति । सम्माइट्ठिचरिमसमए पुण तेसिमुदयाभावेण त्थिबुक्कसंक्रमणादो समयूणावलियमेत्तट्ठिदीओ लभंति, तदो तत्थेव जहण्णसामित्तं दाहामो लाहदंसणादो ति ? ण एस दोसो, एत्थ वि अणंताणुवंधिकोहादीणमण्णदरस्स जहण्णभावे इच्छिज्जमाणे तस्साणुदयं कादूण परोदएणेव सामित्तविहाणे समयूणावलियमेत्ताएां चेव गोबुच्छाणमुबलंभादो । तदो तप्परिहारेणेत्थेव सामित्तं ट्ठिण्णं, गोबुच्छविसेसं पडुच्च विसेसोवलद्धीदो । जइ एवमुदयावलियमावाहं वा आवलिपूणं वोत्ताविय उच्चरिः जहण्णसामित्तं दाहामो ?

शंका—आगे सम्यक्त्व प्राप्त कराकर दो छयासठ सागरप्रमाण काल तक क्यों भ्रमण कराया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यक्त्वके माहात्म्यसे बन्धन न होनेके कारण आथके बिना व्ययको प्राप्त होनेवाली अनन्तानुबन्धियोंकी गोपुच्छाओंको अत्यन्त जघन्य करनेके लिये इस प्रकार भ्रमण कराया गया है ।

शंका—इस जीवको पुनः मिथ्यात्वमे क्यों ले जाया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि इसे पुनः मिथ्यात्वमे नहीं ले जाया गया होता तो वह दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ कर देता जिससे इसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विघात प्राप्त हो जाता ।

शंका—प्रथम समयवर्ती वह मिथ्यादृष्टि अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा म्नीन स्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है इस प्रकार यह जो कहा है सो इस विषयमें शिष्यका कहना है कि मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमे अनन्तानुबन्धियोंका उदय होनेके कारण एक आवलि-प्रमाण स्थितियों स्वामित्वके विषयरूपसे प्राप्त होती हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमे तो अनन्तानुबन्धियोंका उदय नहीं होनेके कारण और उदय स्थितिका स्तित्वक संक्रमणद्वारा संक्रमण हो जानेसे एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियों प्राप्त होती हैं, इसलिये सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें ही प्रकृत स्वामित्वके देनेमें अधिक लाभ है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमे भी अनन्तानुबन्धिसम्बन्धी क्रोधादिकमेसे जिसका जघन्य स्वामित्व इच्छित हो उसका अनुदय कराके परोदयसे ही स्वामित्वका कथन करने पर एक समय कम एक आवलिप्रमाण ही गोपुच्छाए पाई जाती हैं, इसलिये सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयको छोड़कर मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमे ही स्वामित्वका विधान किया है, क्योंकि गोपुच्छविशेषकी अपेक्षा विशेषकी उपलब्धि होती है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उदयावलिको धिताकर या एक आवलि कम आवाधा कालको

तयतणगोबुच्छाणमेचो चडिदङ्गाणमेचवित्तेसेहि हीणत्तेण लाहदंसणादो । ण एत्थ णवकबंधासंका कायव्वा, आवाहादो उवरि तस्सावट्ठाणादो ति ? णेदं धवदे, कुदो ? उदयावत्तियवाहिरे मिच्छाइद्विपहमसमयप्पहुडि वज्जभाणाणमणंताशुर्वीणमुवरि समद्विदीए सैसकसायदव्वरस अधापवत्तेण संक्रमोवलंभादो बंधावत्तियमेत्तंकाळं बोलाविय सगणवकबंधरस चिराणसंतेण सह ओकड्विय समयविरोहेणावाहाव्वंभंतरे णिक्खित्तस्सोवलंभादो च । तम्हा अधापवत्तसंक्रमेण पडिच्छिददव्वे उदयावत्तियवाहिरद्विदे संते जहणसामित्तं दिज्जइ ति समंजसमेदं सुत्तं ।

§ ५५५. तदो सुत्तस्स समुदायत्थो एवं चत्तव्वो—खच्चिदकम्मंसियत्तव्वखणेण कम्मद्विदिं समयविरोहेण परिममिय पुणो तसभावेण संजमासंजमसंजमसम्मात्ताणं ताणुबंधिविसंजोयणकंडयाणि तप्पाओग्गपमाणाणि व्हूणि लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसाभिय पुणो वि एइंदिएसु पत्तिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तंकात्तव्वंभंतरे उवसामयसमयपवद्धे णिगमात्तिय ततो णिप्पिडिय असणिणपंचिदिएसु अंतोमुहुत्तं बोलाविय आउअवंधवसेण देवेसुप्पत्तिय अंतोमुहुत्तेण छप्पज्जत्तीओ समाणिय उवसमसम्भत्तं

बिताकर ऊपरका स्थितियोंमें जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये, क्योंकि वहाँ की गोबुच्छाए यहाँसे जितना स्थान ऊपर जाकर वे प्राप्त हुई हैं उतने विशेषसे हीन हैं, अतः वहाँ जघन्य स्वामित्वका विधान करनेमें लाभ दिखाई देता है । और वहाँ नवकवन्धका प्राप्त होनेकी भी आशाका नहीं है, क्योंकि नवकवन्धका अवस्थान आबाधाके ऊपर पाया जाता है ?

समाधान—परन्तु यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि एक तो उदयावलिसे बाहर मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयसे लेकर बँधनेवाले अनन्तानुबन्धियोंके ऊपर समान स्थितिमें शेष कषायोंके द्रव्यका अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा संक्रमण पाया जाता है और दूसरे बन्धावलिप्रमाण कालको बिताकर अपने नवकवन्धका प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके साथ अपकवण होकर आगममें बतलाई गई विधिके अनुसार आबाधाके भीतर निचेप देखा जाता है, इसलिये उदयावलिसे बिताकर या एक आवलि कम आबाधाकालको बिताकर ऊपरकी स्थितियोंमें प्रवृत्त जघन्य स्वामित्वका विधान करना उचित नहीं है ।

इसलिये अधःप्रवृत्त संक्रमणके द्वारा बिच्छिन्न हुए द्रव्यके उदयावलिसे बाहर स्थित रहने हुए जघन्य स्वामित्वका विधान किया गया है इसलिये यह पूरा ठीक है ।

§ ५५५. इतने निष्कर्षके बाद इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ इस प्रकार कहना चाहिये—जैसी आगममें विधि बतलाई है तदनुसार कोई एक जीव क्षपितकर्माशकी विधिसे कर्मस्थितिप्रमाण काल तक परिभ्रमण करता रहा । फिर त्रस हाँकर तत्प्रायोग्य बहुत बार संयमासंयम, संयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनासम्बन्धी कण्डकोंको करके चार बार कषायोंका उपशम किया । फिर दूसरी बार भी एकेन्द्रियोंमें जाकर पत्थके असंख्यातवत् भागप्रमाण कालके भीतर उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंको गलाकर और वहाँसे निकलकर अस्ती वृत्तेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ अन्तर्मुहूर्त रहकर आयुबन्ध हो जानेसे देवोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्तमें छह पर्यायियोंको पूरा करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर उपशम-

पवित्रजिय उवसमपुम्पत्तकालम्भन्तरे चेय अणंताणुव'धिचउवकं विसंजोइय पुणो वि परिणामवमेण अंतोमुहुत्तेण संजोइय पुव्वसुक्कड्ढिदसेसकसायदव्वमधापवत्तसंक्रमेण पडिच्छिय अथद्विदिगलणेण विज्झादसंक्रमेण च तग्गालणद्वं वेळावट्ठीओ समत्त-मणुपालिय मिच्छत्तं गदपढमसमए वट्टं तओ जो जीवो तस्स तेसिसुक्कण्णादितिहं पि जहणयं भीणद्विदियं होइ त्ति ।

❁ तस्सेव आवलियसमयमिच्छाइद्विस्स जहणयसुदयादो भीण-द्विदियं ।

§ ५५६. तस्सेव खविदकम्मांसियपच्चायदभमिदवेळावट्ठिसागरोवममिच्छा-इद्विस्स पढमसमयमिच्छाइद्विआदिकमेण आवलियसमयमिच्छाइद्विभावेणावट्ठियस्स अहिकयकम्माणं जहणयसुदयादो भीणद्विदियं होइ त्ति सुत्तथो । एत्थ पढमसमय-मिच्छाइद्विपरिहारेणावलियचरिमसमए जहणसामित्तविहाणे कारणं पुव्वं परुविदं । उदयावलियवाहिरे जहणसामित्तं किण्ण दिण्णमिदि चे ? ण, समद्विदिसंक्रमपडिच्छिद-दव्वस्स उदयं पइ समाणस्स तत्थ बहुत्तुवत्तांभादो ।

सन्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके फिर भी परिणामोकी परवशताके कारण अन्तर्मुहूर्तमे उससे संयुक्त हुआ । फिर पहले उत्कर्षणको प्राप्त हुए शेष कथायोके द्रव्यको अथःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा प्राप्त करके उसे अथःस्थितिगलनाके द्वारा और विध्यात्त संक्रमणके द्वारा गलानेके लिये दो द्ययासठ सागर काल तक सम्प्रदत्वका पालन किया । फिर मिध्यात्वमे जाकर जब यह जीव उसके प्रथम समयमे विद्यमान होता है तब वह अनन्तानु-बन्धियोंके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

❁ एक आवलि काल तक मिध्यात्वके साथ रहा हुआ वही जीव उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५६. जो क्षुपित कर्मांशकी विधिसे आकर दो द्ययासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके मिध्यादृष्टि हुआ है और जिसे मिध्यादृष्टिके प्रथम समयसे लेकर मिध्यात्वके साथ रहते हुए एक आवलि-काल हुआ है ऐसा वही मिध्यादृष्टि जीव अधिकृत कर्मोंके उदयकी अपेक्षा मीन स्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका अर्थ है । यहाँ पर प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टिको छोड़कर एक आवलिके अन्तिम समयमे जघन्य स्वामित्वके कथन करनेका कारण पहले वह आये हैं ।

शंका—उदयावलिके बाहर जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उदयावलिके बाहर समान स्थितिमे स्थित द्रव्यका संक्रमण हो जानेसे उसकी अपेक्षा उदयमे अधिक द्रव्यकी प्राप्ति हो जाती है, इसलिये उदयावलिके बाहर जघन्य स्वामित्व नहीं दिया ।

विशेषार्थ—यहो उदयकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धियोंके मीनस्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी बतलाया है । यद्यपि इसका स्वामी भी वही होता है जो क्षुपितकर्मांशकी

❀ एषु संघवेदस्स जहणणघमोकड्डुणादितियहं पि भीणट्टिदियं कस्स ?
§ ५५७. सुगमं ।

❀ अभवसिद्धियपाओग्गेण जहणणएण कम्मएण तिपल्लिदोवमिएसु उववण्णो । तदो अंतोमुहुत्तसेसे सम्मत्तं लद्धं, वेज्जावट्टिसागरोवभाणि सम्मत्तमणुपालिदं, संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुच्चकोडिसाउओ मणुस्सो जादो । तदो देसूण-पुच्चकोडिसंजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे परिणामपचएण असंजमं गदो । ताव असंजदो जाव गुणसेही षिग्गलिदा त्ति । तदो संजमं पडिवज्जियूण अंतोमुहुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति तरस्स पढमसमयसंजमं पडिवणस्स जहणणयं तिण्हं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५५८. एदस्स सामित्तमुत्तस्स अत्थविचरणं कस्सामो । तं जहां—जो जीवो

विधिसे आकर और दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ है पर यह स्वामित्व मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें न देकर एक आवलिके अन्तिम समयमें देना चाहिये, क्योंकि तब उद्यमे अनन्तानुबन्धीके सबसे कम कर्मपरमाणु पाये जाते हैं । इस पर किसी शंकाकारका कहना है कि स्थितिके अनुसार उत्तरोत्तर एक एक चयकी हानि होती जाती है, अतः उद्यावलिके बाहरके निषेकके उद्यमे प्राप्त होने पर और भी कम द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिये यह जघन्य स्वामित्व उद्यावलिकी अन्तिम स्थितिमें न देकर उद्यावलिके बाहरकी स्थितिमें देना चाहिये । पर यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि मिध्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका बन्ध होता है, इसलिये इसमें अन्य सजातीय प्रकृतियोंका संक्रमण होकर उद्यावलिके बाहरका द्रव्य बढ़ जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है ।

* नपुंसकवेदके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-परमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५७. यह सूत्र सुगम है ।

* कोई एक जीव अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ तीन पन्चोपमकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाने पर सम्यक्त्वको प्राप्त करके दो छयासठ सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन किया । फिर बहुत बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त हुआ । फिर चार बार कषायोंका उपशम करके अन्तिम भवमें एक पूर्व कोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । फिर कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक संयमका पालन करके जब अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तब परिणामवश असंयमको प्राप्त हुआ और गुणश्रेणिके गलने तक असंयमके साथ रहा । फिर संयमको प्राप्त होकर जो अन्तर्मुहूर्तमें कर्मक्षय करेगा वह प्रथम समयवर्ती संयमी जीव तीनोंकी अपेक्षा भीन स्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५८. अब इस स्वामित्व सूत्रके अर्थका खुलासा करते हैं । यह इस प्रकार है—जो जीव

अभवसिद्धियपात्रोग्णेण जहण्णएण कम्मेण सह गदो तिपल्लिदोवमिएसु उववण्णो ति एत्थ पदसंबंधो । किमट्ठमेसो तिपल्लिदोवमिएसुप्पाइदो चे ? ण, णवुंसयवेदबंध-विरहिएसु सुहत्तिलेस्सिएसु पज्जत्तकाखे तव्वबंधोच्छेदं काऊणाएण विणा अथद्विदीए परपयडिसंक्रमेण च थोवयरगोबुच्छाओ गालिय अइजहण्णीकयणिरुद्धगोबुच्छाहणट्ठं तत्थुप्पायणादो । तदो चेय तेण गालिदतिपल्लिदोवममेत्तणवुंसयवेदणिसेएण सगाउए अंतोमुहुत्तसेसे सम्मतं लद्धं वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालिदमिदि सुत्तावयवो सुसंबद्धो । सम्मतपाहम्मणेण बंधविरहियस्स णवुंसयवेदस्स तत्थ वेद्धावट्टिसागरोवम-पमाणयूलगोबुच्छाओ गालिय अइसण्हगोबुच्छाहिं जहण्णसामित्तविहाणट्ठं तहा भमाडणस्स सहत्तत्तदंसणादो । एत्थेव विसेसंतरपरुवणट्ठं संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो ति सुत्तावयवस्स अवयारो । ण बहुवारं संजमासंजमादित्तंभो णिरत्थओ, गुणसेट्ठिणिज्जराए णवुंसयवेदपयदणिसेयाणं णिज्जरणेण तस्स सहत्तत्तदंसणादो । किमेसो वेद्धावट्टिसागरोवमाणमव्वंभंतरे चेय असइं संजमासंजम-अणंताणुबंधिविसंजोयण-परियट्ठणवारे करेइ आहो तत्तो पुव्वमेवे ति पुच्छिदे तत्तो पुव्वमेव अभवसिद्धिय-

अभव्योके योग्य जघन्य कर्मके साथ गया और तीन पत्यकी आयुवालोमे उत्पन्न हुआ इस प्रकार यहाँ पदोका सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—इस जीवको तीन पत्यकी आयुवालोमे कथो उत्पन्न कराया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक तो वहाँ नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता दूसरे शुभ तीन लेश्याएँ पाई जाती हैं इसलिये वहाँ पर्याप्त कालमें नपुंसकवेदकी बन्ध व्युच्छित्ति कराकर आथके चिना अधःस्थितिके द्वारा और परप्रकृति संक्रमणके द्वारा स्तोक्ततर गोपुच्छाओको गलाकर विवक्षित कर्मके अति जघन्य गोपुच्छा प्राप्त करनेके लिये इस जीवको तीन पत्यकी आयुवालोमे उत्पन्न कराया है ।

तदन्तर तीन पत्य प्रमाण नपुंसकवेदके निपेकोको गलाकर जब आयुमे अन्तर्मुहूर्त शेष रहता है तब सम्यक्त्वको ग्रहण कर उसने दो छथासठ सागर काल तक उसका पालन किया । इस प्रकार सूत्रके पद सुसंबद्ध हैं । फिर सम्यक्त्वके प्रभावसे वहाँ बन्धरहित नपुंसकवेदके दो छथासठ सागरप्रमाण स्थूल गोपुच्छाओको गलाकर अतिसूक्ष्म गोपुच्छाओके द्वारा जघन्य स्वामित्वको प्राप्त करनेके लिये इस प्रकारके परिभ्रमण करानेमे लाभ देखा जाता है । तथा इसीमे विरोप अन्तरका कथन करनेके लिये 'संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त हुआ' सूत्रके इस हिस्सेकी रचना हुई है । संयमासंयम आदिका बहुत बार प्राप्त करना निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि गुणधेणिनिर्जराके द्वारा नपुंसकवेदके प्रकृत निपेकोकी निर्जरा हो जानेसे उसकी सफलता देखी जाती है ।

शंका—क्या यह दो छथासठ सागर कालके भीतर ही अनेक बार संयमासंयम और अनन्तानुबन्धीकी द्विसंयोजनाके परिवर्तन वारोको करता है या इससे पहले ही ?

समाधान—दो छथासठ सागर कालको प्राप्त होनेके पूर्व ही जब यह जीव अभव्योके

पाओग्गजहणसंतकम्मणागतूण तसेमुत्पज्जिय तिपलिदोवमिणमुत्पज्जमाणो तम्मि संधीए पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागमेत्तगुणसेदिणिज्जराकालवन्तरे सेसकम्माणं च संजमासंजमादिकंढयाणि थोवूणाणि कादूण पुणो तत्थ जाणि परिसेसिदाणि ताणि वेच्चावट्टिसानरोवमवन्तरे कत्थ वि कत्थ वि चिक्खित्तसरूवेण करेदि त्ति एसो एत्थ परिणिच्छओ, मुत्तस्सेदस्स अंतदीवयत्तादो ।

§ ५५६. अत्रैवान्तरव्यापारविशेषप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रावयवः—चत्वारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोटिआउओ मणुस्सो जादो इदि । पलिदोवमा-संखेज्जदि भागमेत्तसंजमासंजमादिकंढयाणमट्टसंजमकंढयाणं च अंतरालेसु समयविरोहेण चत्वारि कसाउवसामणवारे गुणसेदिणिज्जराविणाभावित्तेण पयदोवजोगी अणुपालिय चरिमदेहहरो दीहाउओ मणुसो जादो त्ति बुत्तं होइ । ण पुव्वकोडाउए उप्पादो गिरत्थओ, गुणसेदिणिज्जराविणाभाविदीहसंजमद्धाए पयदोवजोगित्तादो त्ति तस्स सहलत्तपदंसणट्टमुवरिमो मुत्तावयवो—तदो देसूणपुव्वकोटिसंजममणुपालियूणे त्ति । एत्थ देसूणपमाणमट्टवस्साणि अंतोसुहुत्तवभहियाणि । एवं देसूणपुव्वकोटिसंजम-गुणसेदिणिज्जरं काऊणावट्टिदस्स आसण्णे सामित्तसमए वावारविसेसपटुप्पायणट्ट-भंतोसुहुत्तसेसे परिणामपच्चएण असंजमं गदो त्ति उत्तं ।

§ ५६०. एत्थुद्देशे असंजमगमणे फलं परूवेइ—ताव असंजदो जाव गुणसेटी

योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ आकर और त्रसोमे उत्पन्न होकर तीन पल्यकी आयुवालोमे उत्पन्न होनेकी स्थितिमे होता है तब इस मध्यकालमे पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण गुणश्रेणिनिर्जरा कालके भीतर शेष कर्मोंके समान कुछ कम संयमासंयमादि काण्डकोंको करके फिर वहाँ जो कर्म शेष बचते हैं उन्हें दो छथासठ सागर कालके भीतर कहीं कहीं झुटित (चित्तित) रूपसे करता है इस प्रकार यहाँ यह निश्चय करना चाहिये, क्योंकि यह सूत्र अन्तदीपक है ।

§ ५५९. अब यहाँ पर अबान्तर व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये सूत्रका अगला हिस्सा आया है कि चार वार कपायोंका उपशाम करके अन्तिम भवमें पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । इसका आशय यह है कि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण संयमासंयम आदि काण्डकोंके और आठ संयम काण्डकोंके अन्तरालमे आगममें जो विधि बतलाई है उस विधिसे गुणश्रेणिनिर्जराका अविनाभावी होनेसे प्रकृतमे उपयोगी चार कपायोंके उपशामन वारोंको करके बड़ी आयुवाला चरमशरीरी मनुष्य हुआ । यदि कहा जाय कि एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्यमे उत्पन्न कराना उच्यर्थ है सो भी बात नहीं है, क्योंकि संयमकालका वडापन गुणश्रेणि निर्जराका अविनाभावी होनेसे प्रकृतमे उसका उपयोग है, इसलिये इसकी सफलता दिखलानेके लिये सूत्रके आगेका 'तदो देसूणपुव्वकोटिसंजममणुपालियूण' यह हिस्सा रचा गया है । यहाँपर देशोन्नका प्रमाण अन्तमुहूर्त अधिक आठ वर्ष है । इस प्रकार कुछ कम पूर्वकोटि कालतक संयमगुणश्रेणिनिर्जराको करके स्थित हुए जीवके विवक्षित स्वामित्व समयके समापमे प्रा जानेपर व्यापारविशेषको बतलानेके लिये 'जो अन्तमुहूर्त कालके शेष रहनेपर परिणामोक्ती परवशानाके कारण असंयमको प्राप्त हुआ' यह कहा है ।

§ ५६०. अब यहाँ असंयमको प्राप्त होनेका प्रयोजन कहते हैं—यह जीव तबतक अमंयत

णिग्गलिदा त्ति । जाव संजदेण कदा गुणसेढी णिरवसेसं गलिदा ताव असंजदो होऊणच्छिदो त्ति वुत्तं होइ । ण चेदं णिरत्थयं, गुणसेढिगोबुच्छाओ असंखेज्ज-पंचिदियसमयपवद्धवमाणाओ गालिय अइसण्हगोबुच्छाणं सामित्तविसईकरणेण फलोव-लंभादो । एवमसंजदभावेण गुणसेढिं णिग्गालिय पुणो केत्तिएण वावारेण जहण्ण-सामित्त पडिवज्जइ त्ति । एत्थुत्तरमाह—तदो संजमं पडिवज्जियूण इच्चाइणा । तदो असंजमादो संजमं पडिवज्जिय सव्वणिहद्धेणंतोमुहुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति अवद्धिदस्स तस्स पढमसमयसंजमं पडिवण्णस्स जहण्णयमोकङ्कणादित्तिण्हं पि भीणट्ठिदियं होइ त्ति सुत्तथसंबंधो । संजदविदियादिसमएसु किमट्ठं सामित्तं ण दिज्जदे ? ण, संजमगुणपाहम्मणेण पुणो वि उदयावलिद्यवाहिरे णिक्खित्ताए गुणसेढीए उदयावलिद्यवभंतरप्पवेसे जहण्णत्ताणुववत्तीदो । तम्हा एत्तिएण पयत्तेण सण्हीकय-समयूणावलिद्यमेत्तगोबुच्छाओ घेत्तूण संजदपढमसमए पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति सुत्तथसमुच्चयो । एत्थ सिस्सो भणदि—एदम्हादो समयूणावलिद्यमेत्तगोबुच्छदव्वादो जहण्णयमण्णमोकङ्कणादिभीणट्ठिदियं पेच्छामो । तं कथमिदि भणिदे एसो चेव

रहता है जब तक गुणश्रेणि निर्जाय होती है । जब तक संयतके द्वारा की गई गुणश्रेणि पूरी गलती है तब तक यह जीव असंयत होकर रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यदि कहा जाय कि यह सब कथन करना निरर्थक है सो भी वात नहीं है, क्योंकि पञ्चेन्द्रियोके असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण गुणश्रेणिगोबुच्छाओंको गलाकर प्रकृत स्वामित्वकी विषयभूत अतिसूक्ष्म गोबुच्छाओंके करने रूपसे इसका फल पाया जाता है । इस प्रकार असंयतरूप भावके द्वारा गुणश्रेणिको गला कर फिर फितली प्रवृत्ति करके जघन्य स्वामित्वको प्राप्त होता है ? आगे यही वतलानेके लिये 'तदो संजमं पडिवज्जियूण' इत्यादि कहा है । आशय यह है कि फिर असंयमसे संयमको प्राप्त हुआ । इस बार संयमको तब प्राप्त करना चाहिए जब और सब विधिके साथ कर्मश्रयको अन्तर्मुहूर्तमें करनेकी स्थितिमें आ जाय । इस प्रकार संयमको प्राप्त होकर जो उसके प्रथम समयमें स्थित है वह अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले जघन्य नपुंसकवेद-सम्बन्धी कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका आशय है ।

शंका—संयत होनेसे लेकर दूसरे आदि समयोंमें यह जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संयमगुणकी प्रधानतासे फिर भी उदयावलिके बाहर जो गुणश्रेणिकी रचना हुई है उसके उदयावलिके भीतर प्रवेश करने पर जघन्यपना नहीं बन सकता है ।

इसलिये इतने प्रयत्नसे सूक्ष्म की गई एक समय कम एक आवलिप्रमाण गोबुच्छाओंको लेकर संयतके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है ।

शंका—यहाँ कोई शिष्य कहता है कि यह जो एक समय कम एक आवलिप्रमाण गोबुच्छा ऋच्य है इससे हम अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाला अन्य जघन्य ऋच्य देयते हैं वह कैसे ऐसा पूछने पर वह बोलता है कि क्षिपितकर्मश्रयकी विधिते भ्रमण करके

खविदकम्मंसियलक्खणेण भमिदजीवो पुव्वकोडिसंजमगुणसेद्विणिज्जरं करिय अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति उवसमसेद्विमारुढो अंतरकिरियापरिसमचीए गालिदसमयूणावलिओ कालगदो वेमाणिओ देवो जादो । सो च देवेसुप्पणपढमसमयम्मि पुरिसवेदमोकड्डियुणुदयादिणिवखेवं करेइ, उदयाभावेण ओकड्डिज्जमाणगुंसयवेदादिपयडीणमुदयावलियवाहिरे णिवखेवं करेइ । एवमुदयावलियवाहिरे गोबुच्छायारेण णिसित्तणुंसयवेदस्स जाये विदियसमयदेवस्स एयगोबुच्छमेत्तमुदयावलियवभंतरं पविसइ ताथे तत्थ णुंसयवेदस्स ओकड्डणादितिण्हं पि जहण्णभीणद्विदियं होइ । पुव्विज्जलजहण्णसामित्तविसईकयसमयूणावलियमेत्तणिसेएहिंतो एदस्स एयणिसेयमेत्तस्स थोवयरत्तदंसणादो त्ति ? णेदं .घडदे, पुव्विज्जलजहण्णदव्वादो एदस्स असंखेज्जगुणत्तुवत्तांभादो । तं जहा—इमस्स देवस्स संखेज्जसागरोवमपमाणालद्विदिमेत्तो सम्मत्तकालो अज्ज वि अत्थि । संपहि एत्तियमेत्तणिसेए गालिय अपच्छिमे मणुस्सभवे अव्विदो पुव्विज्जलजहण्णदव्वसामिओ । एदस्स पुण असंखेज्जगुणहाणिमेत्तगोबुच्छाओ णाज्ज वि गलंति, तेण समयूणावलियमेत्तणिसेयदव्वादो एदमेयद्विदिव्वमसंखेज्जगुणं होइ, संखेज्जसागरोवमभंतरणाणागुणहाणिसलागाणमणोणणव्वभत्थरासीए समयूणावलिओवद्विदाए गुणगारसरुवेण दंसणादो । तम्हा सुत्तुत्तमेव

आया हुआ यही जीव एक पूर्वकोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिकी निर्जरा करके जब जीवनमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तब उपशमश्रेणि पर चढ़ा और अन्तर क्रियाको समाप्त करके तथा नपुंसकवेदकी एक समय कम एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिको गलाकर मरा और वैमानिक देव हो गया । और वह देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें पुरुषवेदका अपकर्षण करके उसका उदय समयसे लेकर निक्षेप करता है तथा उदय न होनेसे अपकर्षणको प्राप्त हुई नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंका उदयावलिके बाहर निक्षेप करता है । इस प्रकार उदयावलिके बाहर गोपुच्छाके आकाररूपसे जो नपुंसकवेदका द्रव्य निक्षिप्त होता है उसमेंसे जब द्वितीय समयवर्ती देवके एक गोपुच्छाप्रमाण द्रव्य उदयावलिके भीतर प्रवेश करता है तब वहाँ अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा नपुंसकवेदका जघन्य भीनस्थितिक द्रव्य प्राप्त होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त जघन्य स्वामित्वके विषयभूत एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोसे यह एक निषेकप्रमाण द्रव्य अल्प देखा जाता है ?

समाधान—यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यसे यह द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है । खुलासा इस प्रकार है—इस देवके संख्यात सागर आयुप्रमाण सम्यक्त्व काल अभी भी शेष है । अब इतने निषेकोको गलाकर अन्तिम मनुष्यभवेमें उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यका स्वामी होता है । परन्तु इस द्रव्यकी असंख्यात गुणहानिप्रमाण गोपुच्छाएँ अभी भी गली नहीं हैं, इसलिये एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोके द्रव्यसे यह एक स्थितिगत द्रव्य असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि यहाँ संख्यात सागरके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्त्योन्त्याभ्यस्त राशिको एक समय कम एक आवलिसे भाजित करने पर जो लब्ध आता है उतना गुणकार देखा जाता है । इसलिये सूत्रमें कहा हुआ ही स्वामित्व

सामिचं गिरवज्जमिदि सिद्धं ।

❁ इत्थिवेदस्स वि जह्यणयाणि तिण्णि वि भीष्णद्धिद्वियाणि एदस्स चेव तिपलिदोवमिपस्सु एो उववणयस्स कायव्वाणि ।

निर्दोष है यह वात सिद्ध हुई ।

विशेषार्थ— यहाँ अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा नपुंसकवेदके भीनस्थितवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है। इसके लिये सूत्रमें जो विधि बतलाई है वह सब क्षपित-कर्मशकी विधि है, इसलिये इसका यहाँ विशेष खुलासा नहीं किया जाता है। टीकामे उसका खुलासा किया ही है। किन्तु कुछ बातें यहाँ ज्ञातव्य हैं, इसलिये उन पर प्रकाश डाला जाता है। प्रथम बात तो यह है कि सूत्रमे पहले दो ज्ञ्यासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण कराके फिर संयमासंयम आदि काण्डकोके करनेका निर्देश किया है, इसलिये यह प्रश्न हुआ कि ये संयमासंयमादि काण्डकोमे परिभ्रमण करनेके वार दो ज्ञ्यासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके पहले होते हैं या बादमें होते हैं? इस शंकाका जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि ये दो ज्ञ्यासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण करनेके पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय ये होते हैं वह काल इसके पहले ही प्राप्त होता है। पहले जघन्य प्रदेशसत्कर्मका निर्देश करते हुए भी संयमासंयमादिकके काण्डकोको कराके ही दो ज्ञ्यासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ भ्रमण कराया गया है। इससे भी उक्त बातकी ही पुष्टि होती है, इसलिये यहाँ सूत्रमे जो व्यतिक्रमसे निर्देश किया है वह कोई खास अर्थ नहीं रखता ऐसा यहाँ समझना चाहिये। दूसरी बात यह है कि सूत्रमे जो यह निर्देश किया है कि ऐसा जीव पूर्वोक्त विधिसे आकर जब अन्तमे संयमी होता है तब संयमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमे प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये। इस पर शंकाकारका यह कहना है कि यदि प्रथम समयमे जघन्य स्वामित्व न देकर द्वितीयादि समयोंमे जघन्य स्वामित्व दिया जाता है तो इससे विशेष लाभ है। वह यह कि प्रथम समयमे एक समय कम एक आवलिप्रमाण निपेकोंमे त्रितना द्रव्य होता है द्वितीयादि समयोंमे वह और कम हो जायगा, क्योंकि आगे आगेके निपेकोंमे एक एक चयघाट द्रव्य देखा जाता है। इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि संयमको प्राप्त होते ही प्रथम समयसे यह जीव गुणश्रेणिकी रचना करने लगता है। अतः नपुंसकवेद अनुदयरूप प्रकृति है अतः इसकी गुणश्रेणि रचना उदयावलिके बाहरके निपेकोंमे होगी। अब जब यह जीव दूसरे समयमे जाता है तब इसके उदयावलिके भीतरका प्रथम निपेक स्तित्तुक संक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतिरूप परिणाम जानेसे उदयावलिके बाहरका एक निपेक उदयावलिके प्रविष्ट हो जाता है। अतः उदयावलिके प्रविष्ट हुए इस निपेकमे प्रथम समयमे अपकर्षित हुआ गुणश्रेणि द्रव्य भी आ मिला है अतः दूसरे समयमे एक समय कम एक आवलिप्रमाण निपेकोका जो द्रव्य है वह प्रथम समयमे प्राप्त हुए एक समय कम एक प्रावलिप्रमाण निपेकोके द्रव्यसे अधिक हो जाता है, अतः द्वितीयादि समयोंमे जघन्य स्वामित्वका विधान न करके प्रथम समयमे ही किया है।

* अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितवाले जघन्य द्रव्यका भी स्वामी यही जीव है। किन्तु इसे तीन पर्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न नहीं कराना चाहिये।

§ ५६१. एदस्स चेषाणंतरपरुविदसामियस्स इत्थिवेदसंबंधीणि तिण्णि वि पयदजहण्णभीण्हिदियाणि वत्तव्वाणि । णवरि तिपल्लिदोवमिएसु अणुववण्णस्स कायव्वाणि । कुदो ? तत्थ णवुंसयवेदस्सेव इत्थिवेदस्स वंधवोच्छेदाभावेण तत्थुप्पायणे फलाणुवल्लभादो ।

❀ णवुंसयवेदस्स जहण्णयमुदयादो भीण्हिदियं कस्स ?

§ ५६२. सुगमं ।

❀ सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिदिमणुपालियूण तसेसु आगदो । संजमा-
संजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गअो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता
तदो एइंदिए गदो । पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिदो ताव जाव
उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो ।
पुव्वकोडी देसूणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो । दसवस्स-
सहस्सिएसु देवेषु उववण्णो । अंतोमुहुत्तमुववण्णेण सम्मत्तं लद्धमंतोमुहुत्ता-
वसेसे जीविदव्वए त्ति मिच्छत्तं गदो । तदो विकट्ठिदाओ ट्ठिदीओ
तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्वाए एइंदिएसुववण्णो । तत्थ वि

§ ५६१ यह जो अनन्तर जघन्य स्वामी कह आये हैं उसके ही स्त्रीवेदसम्बन्धी तीनों प्रकृत जघन्य भूनिस्थितिक द्रव्य कहना चाहिये । किन्तु तीन पत्न्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न नहीं हुए जीवके यह सब विधि बतलानी चाहिये, क्योंकि तीन पत्न्यकी आयुवालोंमें जैसे नपुंसकवेदकी बन्धव्युच्छित्ति पाई जाती है वैसे स्त्रीवेदकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं पाई जाती, इसलिये वहाँ उत्पन्न करानेमें कोई लाभ नहीं है ।

* नपुंसकवेदके उदयसे भूनिस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ५६२ यह सूत्र सुगम है ।

* जो जीव सूक्ष्म निगोदियोंमें कर्मस्थिति प्रमाणकाल तक रहकर त्रसोंमें आया है । फिर जिसने अनेक वार संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वको करके चार वार कृपायोंका उपशम किया है । फिर एकेन्द्रियोंमें जाकर उपशामकसम्बन्धी समयप्रवर्द्धोंके गलनेमें लगनेवाले पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक वहाँ रहा । फिर मनुष्योंमें आकर और कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमका पालन करते हुए जब अन्तर्गृहृत काल शेष बचा तब मिथ्यात्वमें गया । फिर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होनेके अन्तर्गृहृत वाद सम्यक्त्वको प्राप्त किया तथा जब आयुमें अन्तर्गृहृत वाकी बचा तब मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । और वहाँ सम्यक्त्वकी अपेक्षा स्थितियोंको बढ़ाकर तत्प्रायोग्य सबसे जघन्य मिथ्यात्वका काल शेष रहनेपर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर वहाँ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ वह

तप्पाओग्गउक्कस्सयं खंकिसेलं गदो तरस्स पढमस्समयएइंदियस्स जहणणय-
सुदयादो भीणट्ठिदियं ।

§ ५६३. एत्थ सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिदिमणुपालियूगे त्ति वुत्ते सुहुमवणप्फदि-
काइएसु जो जीवो सन्वावासयविसुद्धो संतो कम्मट्ठिदिमणुपालियूगागदो त्ति घेत्तव्वं,
अण्णा खविदकम्मंसियत्तविरोहादो । एवमभवसिद्धियपाओग्गजहणणसंतकम्मं काऊण
तसेसु आगदो । ण च तसपज्जायपरिणामो सुहुमणिगोदजोगादो असंखेज्जगुणजोगो
वि संतो णिप्फलो त्ति जाणावणट्ठं संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गदो
इच्चादी भणिट्ठं । संजमासंजमादिगुणसेट्ठिणिज्जराए पडिसमयमसंखेज्जपंचिंदियसमय-
पवद्धपडिवद्धाए एइंदियसंचयस्स गालणेण फलोवलंभादो । ण च एत्थतणसंचयस्स
जोगवहुत्तमासंकाणज्जं, तस्स वारं पडि संखेज्जावलिमयेत्तवयादो असंखेज्ज-
गुणहीणतणेण पाहणियाभावादो पुणो वि तस्स एइंदिएसु पडिदोवमासंखेज्जदि-
भागमेत्तकालेण गालणादो च । तदेवाह—तदो एइंदिए गदो इत्यादी । एत्थ जदि वि
उवसामओ णडुंसयवेदं ण वंधइ, तो वि पुरिसवेदादीणं तत्थ वंधसंभवादो तेसि
णवकवंधस्स गालणट्ठमेसो एइंदिए पवेसिदो । ण तेसि कम्मसाणमुवसामयसमय-

प्रथम समयवर्ती एकेन्द्रिय जीव उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका
स्वामी है ।

§ ५६३ यहाँ सूत्रमें जो 'सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिदिमणुपालियूए' कहा है सो इसका
आशय यह है कि सब 'आवश्यकसे विशुद्ध होता हुआ जो जीव सूक्ष्म वनस्पतिकान्तिकोमे कर्म
स्थितिप्रमाण काल तक रह कर बाहर आया है । अन्यथा उसे क्षुपितकर्मांश माननेमे विरोध
आता है । इस प्रकार यह अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करके त्रसोमे उत्पन्न हुआ । यहि कहा
जाय कि सूक्ष्म निगोदियोके योगसे त्रसपर्यायमे प्राप्त होनेवाला योग असंख्यातगुणा होता है,
इसलिये त्रसपर्यायका प्राप्त कराना निष्फल है सो यह बात भी नहीं है । वम इसी बातका ज्ञान
करानेके लिये सूत्रमे 'संजमासजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गदो' इत्यादि सूत्र वचन कहा है । प्रत्येक
समयमें पंचेन्द्रियोंके असंख्यात समयप्रचद्वोंसे सम्बन्ध रखनेवाली संयमार्याम आदि सम्बन्धी
गुणश्रेणिनिर्यारके द्वारा एकेन्द्रिय पर्यायमे हुए संचयको गला देता है । इस प्रकार त्रसपर्यायमे
उत्पन्न होनेकी यह सफजता है । यदि कहा जाय कि इस त्रस पर्यायमे संचय होता है वह योगकी
घृतायतके कारण बहुत होता है सो ऐसी आशंका करनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो
प्रत्येक वार संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रचद्वोंका उदय होता है उमरे वह असंख्यातगुणा
एव होता है, इसलिये प्रक्रममे उसकी प्रधानता नहीं है । दूसरे फिरसे एकेन्द्रियोंमे जाकर प्रत्येक
'असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा उसे गला देता है । इसकार इसी बातके वतलानेके लिये
सूत्रमे 'तदो एइंदिए गदो' इत्यादि वाक्य कइ है । यहाँ पर यद्यपि उनशामक जीव नपुंसकवेदका
न्य नहीं करता है तो भी पुंसवेदादिकका वहाँ वन्ध सम्भय होनेमे इनके नयकवन्धके
गालन करनेके लिये इसे एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न करया है । यदि कहा जाय कि वे कर्मपरमाणु उप-

पवद्धेसु गलिदेसु णवुंसयवेदस्स फलाभावो' ति आसंकणिज्जं, तेसिमगालणे वज्झ-
माणवेदिज्जमाणणवुंसयवेदपयडीए उवरि परपयडिसंकमत्थिवुक्कसंकमदंभवस्स वहुत्त-
प्पसंगादो। तदो तप्परिहरणद्वमद्ववस्सव्भंतरणवुंसयवेदसंचयगालणद्व' च तत्थ पवेसो
पयदोवजोगि ति सिद्धं।

§ ५६४. अंतदीवयं चेवेदमुवसामयसमयपवद्धाणिग्गालणवयणं, तेण संजदा-
संजदादिसमयपवद्धाणिग्गालणद्वमेसो बहुसो गुणसेदिणिज्जिराकालव्भंतरे सुहुमेइंदिएसु
पवेसणिज्जो। एत्थ पुण सुत्तावयवे णिरवयवपरुविदावयवभावत्थे एवं पदसंबंधो
कायव्वो—तदो पच्छा एइंदिए गदो संतो ताव अच्चिदो जाव उवसामयसमयपवद्धा
गालिदा ति। केत्थियकालं ? पखिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं, अण्णहा उवसामयसमय-
पवद्धाणं णिग्गालणाणुववत्तीदो।

§ ५६५. एवं कम्मं हदसमुप्पत्तियं काऊण तत्थतणसंचयगालणद्व' तदो पुणो
मणुस्सेसु आगदो ति वुत्तं। तत्थागदस्स वावारविसेसपदुप्पायणद्वमाह—पुण्वकोडी
देसुणं संजयमणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो। संजमणुणसेदिणिज्जिराए तं
मणुसभवं सहत्तं काऊण सव्वजहण्णंतोमुहुत्तसेसे आउए देवगदिपाओगे मिच्छत्तं गदो

शामकके समयप्रबद्धोंके साथ ही गल जाते हैं, इसलिये इससे नपुंसकवेदको कोई लाभ नहीं है सो
ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंके नहीं गलने पर बंधनेवाली
नपुंसकवेद प्रकृतिमें परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा और उदयको प्राप्त हुई नपुंसकवेद प्रकृतिमें स्तितुक
संक्रमणके द्वारा बहुत द्रव्यका प्रसंग प्राप्त होता है। इसलिये दोषका परिहार करनेके लिये और
आठ वर्षके भीतर नपुंसकवेदका जो संचय हुआ है उसे गतानेके लिये एकेन्द्रियोंमें प्रवेश करना
प्रकृतमें उपयोगी है यह सिद्ध हुआ।

§ ५६४ सूत्रमें 'उवसामयसमयपवद्धा णिग्गालिदा' यह जो वचन दिया है वह अन्त-
दीपक है, इसलिये इससे यह ज्ञात होता है कि संयतारसंयत आदिके समयप्रबद्धोंको गलानेके लिये
भी इस जीवको बहुत बार गुणश्रेणिनिर्जरा कालके भीतर सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें प्रवेश करना
चाहिये। किन्तु यहाँ पर सूत्रके इस हिस्सेके सब अवयवोंका भावार्थ कहने पर पदोका सम्बन्ध
इस प्रकार करना चाहिये—इसके बाद उपशामकके समयप्रबद्ध गलने तक यह जीव एकेन्द्रियोंमें
रहा। वहाँ कितने काललक रहा। यह बतलानेके लिए 'पत्त्यके असंख्यातवं भागप्रमाण कालतक
रहा' यह कहा है। अन्यथा उपशामकके समयप्रबद्ध नहीं गल सकते हैं।

§ ५६५ इस प्रकार कर्मको हतस्सुत्पत्तिक करके एकेन्द्रियोंमें हुए संचयको गलानेके लिये
'तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो' यह सूत्रवचन कहा है। फिर मनुष्योंमें आकर जो व्यापार विशेष
होता है उसका कथन करनेके लिये 'पुण्वकोडी देसुणं संजमणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं
गदो' सूत्र वचन कहा है। संजमणुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा उस मनुष्य भवको सफल करके
जब सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहता है तब देवगतिके योग्य आयुका बन्ध करके
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

त्ति उत्तं होइ । आमरणंतं गुणसेदिणिज्जरमकराविय किमद्वमेसो मिच्छतं णीदो ? ण, अण्णहा दसवस्ससहस्सिएसु देवेसु उव्वज्जावेदुमसकियत्तादो । तत्थुप्पायणं च सव्वल्लहु ईदििएसुप्पाइय सामित्तविहाणद्वमवगतच्चं । जइ एवं संजदो चेव अंतो-मुहुत्तसेसाउओ मिच्छत्तवसेण ईदििएसुप्पाएयच्चो । दसवस्ससहस्सियदेवेसुप्पायण-मणत्थयं, दसवस्ससहस्सअभंतरसंचयस्स तत्थ संभवेण फलाणुवत्तंभादो । ण अंतो-मुहुत्तमुववण्णेण सम्मतं लद्धमिच्छेदेण सुतावयवेण तस्स परिहारो, त्थिवुक्कसंकमवसेण तत्थतणपुरिसवेदसंचयस्स दुप्पडिसेहादो त्ति ? एत्थ परिहारो बुच्चदे—ण ताव एसो संजदो मिच्छत्तं णेदूण ईदििएसुप्पाइहुं सकिज्जइ, तत्थुप्पज्जमाणस्स तस्स तिव्व-संकिलेसेण पुव्वगुणसेदिणिज्जराए योवयरत्तप्पसंगादो । ण एत्थ त्ति तहा पसंगो, देवगइपाओगमिच्छत्तद्धादो ईदििएपाओगमिच्छत्तद्धाए संकिलेसावूरणकालस्स च संखेज्जागुणतेण एत्थतणहाणीदो बहुतरहाणीए तत्थुवत्तंभादो । ण एत्थ देवेसु संचओ

शंका—मरणपर्यन्त गुणश्रेणिनिर्जरा न कराके इसे मिथ्यात्वमे क्यों ले गये है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें ले जाये बिना दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न कराना अशक्य होता, इसलिये अन्तमें इसे मिथ्यात्वमें ले गये हैं । अतिशीघ्र एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराके प्रकृत स्वामित्वका विधान करनेके लिये ही दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न कराया गया है यहाँ ऐसा जानना चाहिये ।

शंका—यदि ऐसा है तो संयतको ही अन्तर्मुहूर्त आयुके शेष रहने पर मिथ्यात्वमें ले जाकर और उसके कारण एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये । दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न कराना अनर्थक है, क्योंकि देवोंमें उत्पन्न करानेसे दस हजार वर्षके भीतर जो संचय प्राप्त होता है वह उसके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराने पर यहाँ पाया जाता है, इसलिये देवोंमें उत्पन्न करानेसे कोई लाभ नहीं है । यदि कइ जाय कि इससे आगे सूत्रमें जो 'अंतो-मुहुत्तमुववण्णेण सम्मतलद्ध' इत्यादिक कहा है सो इस वचनसे उक्त शंकाका परिहार हो जाता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देवपर्यायमें जो पुरुषवेदका संचय होता है एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर वह संचय स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा नपुंसकवेदमें प्राप्त होने लगनेके कारण उसका निषेध करना कठिन है ?

समाधान—अब उक्त शंकाका परिहार करते हैं—इस संयतको मिथ्यात्वमें ले जाकर एकेन्द्रियोंमें तो उत्पन्न कराना शक्य नहीं है, क्योंकि जो संयत मिथ्यात्वमें जाकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाला है उसके तीव्र संक्लेश पाया जानेके कारण पूर्व गुणश्रेणिनिर्जरा बहुत ही कम प्राप्त होती है ।

यदि कहा जाय कि जो संयत मिथ्यात्वमें जाकर देव होनेवाला है उसके भी तीव्र संक्लेशके कारण पूर्व गुणश्रेणिनिर्जरा अति स्वरूप प्राप्त होती है सो यह बात नहीं है, क्योंकि देवगतिके योग्य मिथ्यात्वके कालसे एकेन्द्रियोंके योग्य जो मिथ्यात्वका काल है वह संख्यातरुणा है और उसके योग्य संक्लेशको प्राप्त करनेमें भी जो काल लगता है वह भी संख्यातरुणा है, इसलिये एकेन्द्रियोंके मिथ्यात्वमें गुणश्रेणिनिर्जराकी जितनी हानि होती है उसमें देवगतिके मिथ्यात्वमें बहुत हानि पाई जाती है । यदि कहा जाय कि यहाँ देवोंमें अधिक संचय होता है, इसलिये उक्त शेष तो

अहिओ ति उचदोसो वि, तस्स संखेज्जावलियमेत्तसमयपवद्धपयाणस्स एयसमयगुण-
सेट्ठिणिज्जराए असंखेज्जदिभागत्तेण पाहण्णिगयाभावादो । एदेणेव सेसगईसु वि उप्पा-
यणासंका पटिसिद्धा, तत्थुप्पत्तिपाओग्गमिच्छत्तद्धाए बहुत्तदंसणादो । किमट्ठमेसो
दसवस्ससहस्सिएसु सम्मत्तं गेण्हविओ ? ण, ओकङ्कणावहुत्तेण अहियारट्ठिदीए
सण्हीकरणट्ठं तहाकरणादो । मिच्छादिट्ठिभिं वि एत्थासंती ओकङ्कणा वहुई अत्थि, तदो
उहयत्थ वि सरिसमेदं फलमिदि णासंकणिज्जं, तत्थ ओकङ्कणादो सम्माइडिओकङ्कणाए
विसोहिपरत्तंताए बहुवयरत्तदंसणादो । तम्हा सुहासियमेदंत्तोसुहुत्तमुववण्णेण तेण
सम्भत्तं लद्धमिदि । एवमधट्ठिदीए णिज्जरं काऊण अंतोसुहुत्तावसेसं जीविदव्वए चि
मिच्छत्तं गदो, एइंदिएसुप्पत्तीए अण्णहाणुववत्तीदो मिच्छत्तमेसो णीदो । तत्थ उप्पादो
किमट्ठमिच्छिज्जदे चे ? ण, एइंदियोववादिणो देवस्स तप्पच्छायदपढमसमए एइंदियस्स
च संकिलेसवसेण उकङ्कणावहुत्तमोक्कङ्कणोदीरण्णं च थोवत्तमिच्छिय तहाब्भुवगमादो ।

बना ही रहता है अर्थात् मिथ्यात्वमे ले जाकर एकेन्द्रियोमे उत्पन्न करानेसे जो दोष प्राप्त होता है वह दोष यहाँ भी बना रहता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक देवके जो संख्यात आबलिप्रमाण समयप्रबद्धोका संचय होता है वह एक समयमें होनेवाली गुणश्रेणि निर्जराके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है । इसीसे शेष गतियोंमें भी उत्पन्न करानेकी आशंकाका निषेध हो जाता है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न करानेके योग्य मिथ्यात्वका काल बहुत देखा जाता है ।

शंका—इसे दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें ले जाकर सम्यक्त्व किसलिये ग्रहण कराया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अधिक अपकर्षणाके द्वारा अधिकृत स्थितिके सुद्धम' करानेके लिये वैसा कराया गया है ।

शंका—जो अपकर्षण यहाँ सम्यग्दृष्टिके नहीं होता वह मिथ्यादृष्टिके भी बहुत देखा जाता है इसलिये विवक्षित लाभ तो दोनों जगह ही समान है, फिर इसे सम्यग्दृष्टि करानेसे क्या लाभ है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके जो अपकर्षण होता है वह विशुद्धिके निमित्तसे होता है इसलिये वह मिथ्यादृष्टिके होनेवाले अपकर्षणसे बहुत देखा जाता है ।

इसलिये सूत्रमें जो 'अंतोसुहुत्तमुववण्णेण तेण सम्भत्तं लद्धं' यह कहा है सो उचित ही कहा है । इस प्रकार उक्त जीव अधःस्थितिकी निर्जरा करता हुआ जब जीवनमे अन्तसुद्धतं काल शेष रह जाय तब मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, क्योंकि अन्यथा एकेन्द्रियोंमें उत्पत्ति नहीं बन सकनेके कारण इसे मिथ्यात्वमे ले गये हैं ।

शंका—ऐसे जीवका अन्तमे एकेन्द्रियोंमें उत्पाद् किसलिये स्वीकार किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो देव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें और जो एकेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें संक्लेशके कारण उत्कर्षण बहुत होता है और अपकर्षण तथा उद्दीरणा

एदस्स चेव जाणावणहमिदमाह—तदो विकट्टिदाओ द्विदीओ ति । सव्वेसिं कम्माणं द्विदीओ मिच्छत्तसहगदत्तिवपरसंक्खित्तिसवसेण सम्मादिद्विवंधादो वियट्टिदाओ विदूरमक्खिविय पवद्धाओ संतद्विदीओ च णिच्छद्विदीए सह वट्टमाणाओ दूरयरसुक्खिय णिविन्वत्ताओ ति वुत्तं होइ । तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए एत्थ सव्वरहस्सग्गहणेण ओयजहण्णमिच्छत्तकालस्स गहणं पसज्जइ ति तप्पडिसेहहं तप्पाओग्गवित्सेमणं कट्ठं । एडंदिपुप्पत्तिप्पाओग्गसव्वजहण्णमिच्छत्तकालेणो ति भणिदं होइ । एवमेत्तिण्ण कालेण उदङ्गुणाए उदस्सद्विद्विवंधाविणाभाविणीए चावटो पयदगोचुच्छं सण्डीकरिय एडंदिपुप्प उन्नवणो, अण्णहा अइजहण्णणुंसयवेदोदयासंभवादो । एत्थुहेसे वि पयदोवजांमिपयत्तवित्सेमपहुप्पायणहमाह—तत्थ वि तप्पाओग्गउदस्सयं संक्खित्तमं गदो ति । तत्थ वि उदस्सयसंक्खित्तं किमिदि णीदो ? उदीरणावहुत्तणिरायरणहं ।

५६६. एवमेत्तिण्ण लक्खणोणोवल्खित्थयस्स तस्स पहमसमयएइंदियस्स णहुंसयवेदमंवंशी जहण्णयमुत्थादो भीणद्विदियं होइ । एत्थ विदियसमयप्पहुडि उव्वरि गोनुच्छवित्सेसहाणिवसेण जहण्णसामित्तं गण्णहो ति भणिदे ण तद्वा वेप्पइ,

कम हांती है उसलिये ऐना स्वीकार किया गया है ।

उस प्रकार उनी यानके जतानेके लिये 'तदो विकट्टिदाओ द्विदीओ' यह सूत्रवचन कहा है । मिथ्यात्वके नान प्राप्त हुए प्रति तीव्र संकलेशरूप परिणामोके कारण सब कर्मों की स्थितियोंको मन्यन्दिष्टिके बन्धसे बड़ाकर अर्थान् बहुत दूर निकषे चरके बाँधा और विचलित स्थितिके नाथ जो मत्कर्मकी स्थितिया विनामान हैं उन्हें बहुत दूर उत्कर्षित करके निश्चिन्त किया यह उक्त सूत्रवचनका तात्पर्य है । तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए' इस सूत्रवचनमें जो 'सव्वरहस्स' पदका प्रहण किया है सो उसमें 'ओग्ग जघन्य मिथ्यात्वके कालका प्रहण प्राप्त होना है, उनलिये उनका निषेध करनेके लिये 'तप्पाओग्ग' विशेषण दिया । इससे यहाँ एकेन्द्रियोंमें उत्पत्तिके योग्य सबसे जघन्य काल विवक्षित है यह तात्पर्य निकलता है । इस प्रकार इतने कालके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिवन्धके प्रविनाभावी उत्कर्षणमें लगा हुआ उक्त जीव प्रकृत गोपुच्छाओं मूहम करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ, अन्यथा अत्यन्त जघन्य नपुंसकवेदका उदय नहीं बन सकता है । उस प्रकार एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर भी उक्त जीव प्रकृतमें उपयोगी पड़नेवाले जिस प्रयत्नविशेषको धरता है उसका कथन करनेके लिये 'तत्थ वि तप्पाओग्गउदस्सयं संक्खित्तं गदो' यह सूत्रवचन कहा है ।

ज्ञाना—एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर भी इस जीवको उत्कृष्ट संक्लेश क्यो प्राप्त कराया गया ?

समाधान—जिससे इसमें बहुत उदीरणा न हो सके, इसलिये इसे उत्कृष्ट संक्लेश प्राप्त कराया गया है ।

§ ५६६. इस प्रकार इतने लक्षणोंसे उपलक्षित प्रथम रामयवर्ती वह एकेन्द्रिय जीव नपुंसकवेदके उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी होता है । यहाँ पर कितने ही लोग दूसरे समयसे लेकर ऊपर गोपुच्छविशेषकी हानि होनेके कारण जघन्य स्वामित्वको प्रहण

विदियादिसमएसु संकिलेससव्वहाणिदंसणादो । तम्हा एत्थेव सामित्तं णिरवज्जमिदि सिद्धं ।

❊ इत्थिवेदस्स जहणण्यमुदयादो भीण्हिदियं ?

§ ५६७. कस्से त्ति अहियारे संबंधो कायच्चो, अप्पणा सुत्तयस्स असंपुण्णत्त-
प्यसंगादो । सेसं सुगमं ।

❊ एसो चेव णवुंसयवेदस्स पुव्वं परूविदो जाधे अपच्छिम्ममणुस्स-
भवग्गहणं पुव्वकोडी देसूणं संजममणुपालियूणं अंतोसुहुत्तसेसे भिच्छत्तं
गओ । तदो वेमाणियदेवीसु उववणो अंतोसुहुत्तमुचवणो उक्कस्ससंकिलेसं
गदो । तदो विकड्ढिदाओ ष्ठीदीओ उक्कड्ढिदा कम्मंसा जाधे तदो अंतोसुहुत्त-
मुक्कस्सइत्थिवेदस्स ष्ठीदिं बंधियूणं पडिभग्गो जादो । आवलियपडिभग्गाए
तिस्से देवीए इत्थिवेदस्स उदयादो जहणण्यं भीण्हिदियं ।

करनेके लिये कहते हैं परन्तु तत्त्वतः वैसा ग्रहण करना शक्य नहीं है, क्योंकि दूसरे आदि समयोंमें पूरा संक्लेश न रहकर उसकी हानि देखी जाती है, इसलिये निर्दोष रीतिसे जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमें ही प्राप्त होता है यह बात सिद्ध होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर उदयकी अपेक्षा नपुंसकवेदके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व किस प्रकारके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होता है इसका विशेष खुलासा टीकामें किया ही है । उसका आशय इतना ही है कि उक्त क्रमसे जो जीव आकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके नपुंसकवेदका द्रव्य उत्तरोत्तर घटता चला जाता है और इस प्रकार अन्तमें एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर प्रथम समयमें नपुंसकवेदका उदयगत सबसे जघन्य द्रव्य प्राप्त हो जाता है ।

❊ उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ५६७. इस सूत्रमें 'कस्स' इस पदका अधिकार होनेसे सम्बन्ध कर लेना चाहिये, अन्यथा सूत्रका अर्थ असंपूर्ण रहेगा । शेष कथन सुगम है ।

❊ नपुंसकवेदकी अपेक्षा पहले जो जीव विवक्षित था वही जब अन्तिम मनुष्य भवको ग्रहण करके और कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमका पालन करके अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहने पर मिथ्यात्वमें गया । फिर वैमानिक देवियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त काल बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ जिससे उसने वहाँ सम्भव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । और जब यह क्रिया की तभी प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंका उत्कर्षण किया । फिर उस समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके उत्कृष्ट संक्लेशसे निवृत्त हुआ । इस प्रकार निवृत्त हुए उस देवीको जब एक आवलि काल हो गया तब वह उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ५६८. एदस्स सामित्तमुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो—एसो चेद जीवो णवुंसयवेदस्स सामित्तेण पुच्चपरुविदो समणंतरपरुविदासेसलक्खणोवलक्खिओ जाये सामित्तकालं पेविखयूण अपच्छिद्धं मणुस्सभवग्गहणं देसूणपुच्चकोटिपमाणं पुच्चविहाणेण गुणसेट्ठिणिज्जिराविणाभाविसंजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे सगाउए मिच्चत्तं गदो । एत्थ सच्चत्थ वि पुच्चपरुवणादो णत्थि णाणत्तं । णवरि किमट्ठमेसो मिच्चत्तं णीदो त्ति पुच्छिद्धे इत्थिवेदएमुग्पायणट्ठमिदि वत्तन्वं, अण्णाहा तत्थुप्पत्तीए असंभवादो । ण तत्थुप्पादो णिरत्थओ, पयदसामित्तस्स सोदएण विणा विहाणाणुववत्तीदो । तमेवाह— तदो वेमाणियदेवीगु उववणो त्ति । सेसगइपरिहारेण देवगदीए चे उप्पायणं गुणसेट्ठि- लाहरक्खणट्ठं अण्णागइपाओगमिच्चत्तद्धाए बहुत्तेण तस्स विणासप्पसंगादो । अपज्जत्त- द्धाए च धोवीकरणट्ठं, अण्णाहा तत्थ बहुदव्वसंचयावत्तीदो । भवणादिहेट्ठिमदेवीसु उप्पाइय गेण्हामो, त्रिसैसाभावादो त्ति णासंकणिज्जं, तत्थुप्पज्जमाणजीवस्स पुच्चमेव एत्तो तिच्चसंक्खित्तेसावूरणेण गुणसेट्ठिणिज्जिरालाहवहुत्तभावावत्तीदो । तत्र तथोत्पन्नस्य

§ ५६८. अब इस स्वामित्वविषयक सूत्रके अर्थका खुलासा करते हैं—जिस जीवका पहले नपुंसकवेदके स्वामित्वरूपसे कथन कर आये हैं समनन्तर पूर्वमे कहे गये सब लक्षणोसे युक्त वही जीव जब स्वामित्वकालकी अपेक्षा अन्तिम मनुष्यभवको ग्रहण करके और पूर्व विधिके अनुसार गुणश्रेणिजिज्ञाके अधिनाभावा संयमका कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक पालन करके अपनी आयुमे अन्तर्मुहूर्त वाघी रदने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । यहाँ सभी जगह नपुंसकवेद-सम्बन्धी पूरे प्ररूपणासे कोई भेद नहीं है ।

शंका—ज्म जीवका मिथ्यात्वमे किसलिये ले गये हैं ?

समाधान—तीवैदियोंमे उत्पन्न करानेके लिये इसे मिथ्यात्वमे ले गये हैं, अन्यथा इसकी उत्पत्ति त्वियोंमे नहीं हो सकती ।

यदि कहा जाय कि इस जीवको मिथ्यात्वमे उत्पन्न कराना निरर्थक है सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि स्वोदयके बिना प्रकृत स्वामित्वका विधान करना नहीं बनता है और स्त्रीवेदका उदय तब हो सकता है जब इसे मिथ्यात्वमे ले जाया जाय, इसलिये इसे मिथ्यात्वमे उत्पन्न कराया है । इसी बातको बतलानेके लिये 'तदो वेमाणियदेवीसु उववणो' यह कहा है । इसे देवगतिमे ही क्यों उत्पन्न कराया है इस प्रश्नका उत्तर देने के लिये आचार्य कहते हैं कि गुण-श्रेणिजन्य लाभकी रक्षा करनेके लिये शेष गतियोंको छोड़कर देवगतिमे ही उत्पन्न कराया है, क्योंकि अन्य गतिके योग्य मिथ्यात्वका काल बहुत होनेसे वहाँ गुणश्रेणिजन्य लाभका विनाश प्राप्त होता है । दूसरे अर्थपरिणत कालको कम करनेके लिये भी देवोमे उत्पन्न कराया है, अन्यथा वहाँ बहुत द्रव्यका संचय प्राप्त होता है । यदि कहा जाय कि भवनवासिनी आदि देवियोंमे उत्पन्न कएके जघन्य स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है सो ऐसी आशंका करनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेवाले ऐसे जीवके पहलेसे ही तीव्र संक्लेश पाया जाता है, इसलिये इसके गुणश्रेणिजन्य बहुत लाभ नहीं बन सकता है । अतः भवनवासिनी देवियोंमे उत्पन्न न कराके वैमानिक देवियोंमे उत्पन्न कराया

तस्य व्यापारविशेषप्रतिपादनार्थमाह—अंतोमुहुत्तद्भ्रमुववण्णो इत्यादि । अत्रान्तर्मुहुत्त-
मपर्याप्तकाले संक्लेशोत्कर्षस्यासम्भवात्पर्याप्तकालविषयः संक्लेशोत्कर्षः प्ररूपितः ।
तथा परिणतः किंप्रयोजनमित्याशंक्याह—तदो इत्यादि । तदो तम्हा संक्लेशादो
हेउभूदादो विगड्ढिदाओ सच्चोसिं कम्मार्णं द्विदीओ अंतोकोडाकोडिमेत्तद्विदिवंधादो
वि दूरमुक्कड्डियं दीहावाहाए पवद्धाओ ति भणिदं होइ । जाधे एवमुक्कस्सओ संक्लेशो
आवूरिदो ताधे चैव उक्कड्डणाकमेण चिराणसंतकम्मपदेसा बज्झमाणणवकबंधुक्कस्स-
द्विदीए उवरि उक्कड्डियं णिक्खित्ता, द्विदिवंधस्सेव उक्कड्डणाए वि तदण्णयवदिरेयाणु-
विहाणत्तादो । ण च उक्कड्डणाबहुत्ताविणाभावी उक्कस्साबाहापडिवद्धो उक्कस्सओ
द्विदिवंधो णिरत्थओ, णिरुद्धद्विदिपदेसाणमुक्कड्डणाए विणा सण्हीभावाणुप्पत्तीदो ।
एसो सच्चो वि वावारविसेसो अहियारद्विदिमावाहाग्भंतरे पवेसियं संक्लेशपरिणद-
पढमसमए परुविदो । तदो प्पहुडि अंतोमुहुत्तद्भ्रमुक्कस्समित्थिवेदस्स द्विदिं वंधियूण
पडिभग्गा जादा ति ।

§ ५६६. एत्थतणउक्कस्ससद्दो अंतोमुहुत्तद्वाए द्विदीए च विसेसणभावेण
संबंधेयच्चो । तेण सच्चोक्कस्समंतोमुहुत्तकालं संक्लेशमावूरियं पण्णारससागरोवमकोडा-
कोडिमेत्तमित्थिवेदस्सुक्कस्सद्विदिं वंधियूण एत्थियं कालमुक्कड्डणाए पयदण्णिसेयं जहण्णी-

हे । इस प्रकार जो जीव वैमानिक देवियोंमें उत्पन्न हुआ है उसके व्यापारविशेषका कथन करनेके
लिये 'अंतोमुहुत्तद्भ्रमुववण्णो' इत्यादि कहा है । यहाँ अपर्याप्त कालके भीतर अन्तर्मुहुत्त तक
संक्लेशका उत्कर्ष नहीं हो सकता, इसलिये पर्याप्त कालविषयक संक्लेशका उत्कर्ष कहा है । इस
प्रकार संक्लेशरूपसे परिणत करानेका क्या प्रयोजन है ऐसी आशंका होने पर 'तदो' इत्यादि
कहा है । आशय यह है कि इस संक्लेशके कारण सब कर्मों की स्थितियोंको बढ़ाया अर्थात् जिन
कर्मोंका स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण हो रहा था उनका बड़े आबाधाके साथ बहुत
अधिक स्थितिको बढ़ाकर बन्ध किया । और जब इस प्रकारका उत्कृष्ट संक्लेश हुआ तब उत्कर्षणके
क्रमानुसार प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंको बंधनेवाले नवकवन्धकी उत्कृष्ट स्थितिके
ऊपर उत्कर्षित करके निक्षिप्त किया, क्योंकि स्थितिवन्धके समान उत्कर्षणका भी संक्लेशके
साथ अन्वय-व्यतिरेकसम्बन्ध पाया जाता है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमे बहुत उत्कर्षणका
अविनाभावी और उत्कृष्ट आबाधासे सम्बन्ध रखनेवाला उत्कृष्ट स्थितिवन्ध निरर्थक है सो यह
वात भी नहीं है, क्योंकि विवक्षित स्थितिके कर्मपरमाणु उत्कर्षणके विना सुद्ध नहीं हो सकते,
इसलिये बहुत उत्कर्षण और उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दोनों सार्थक हैं । अधिकृत स्थितिको आबाधाके
भीतर प्रवेश कराके संक्लेशसे परिणत होनेके प्रथम समयमे इस सब व्यापारविशेषका कथन
किया है । फिर यहाँसे लेकर अन्तर्मुहुत्त काल तक स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कराके फिर
उसे उत्कृष्ट संक्लेशसे निवृत्त कराया है ।

§ ५६६. यहाँ सूत्रमें जो उत्कृष्ट शब्द आया है सो उसका अन्तर्मुहुत्त काल और स्थिति
इन दोनोंके साथ विशेषणरूपसे सम्बन्ध करना चाहिये । इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि
सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहुत्त काल तक संक्लेशको बढ़ाकर उसके द्वारा पन्द्रह कोडाकोड़ी सागरप्रमाण
स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करके और इतने ही काल तक उत्कर्षण द्वारा प्रकृत निषेकको जयन्त

करिय संकिलेसादो पडिभग्ना जादा ति येत्तव्वं, अंतोयुहुत्तादो, उवरि उक्कस्स-
द्विद्विंशथाओग्गुक्कस्ससंकिलेसेगानवट्टाणाभावादो । किमत्थेव पडिभगपढमसमय-
जहणमत्तामित्तं दिज्जइ ? न, इत्याह—आवलियपडिभग्गाए तिस्से देवीए इत्यादि ।
तदित्थिणिसेयस्स पयनेण जहणगीकयत्तादो एत्तो तस्स समयूगावलियपेत्तगोबुच्छ-
दिसंसाणं हाणिदंतणादो च । जइ वि एत्थ ओकट्टुणाए संबधो तो वि उदयावलिय-
चादिरे चेत घांक्रट्टिदपदेसग्गस्स णिकखेवो ति भावत्थो । णासंखेज्जलोगपडिभागियं
दव्वमासंक्रणिज्जं, तस्स टांगुणहाणिपडिभागियगोबुच्छदिसेसादो असंखेज्जगुणहीणस्स
पाहणियाभावादो ।

करके संतरेगमे विदुक्त ए ना, ज्योकि उत्कृष्ट संकलेशका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। उसके बाद
कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य उत्कृष्ट संकलेशके साथ रहना नहीं बन सकता है। क्या यहाँ
हैं प्रतिभन होने के प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व दिया गया है। नहीं, उन प्रकार उनी बातके
बनवानेके लिये 'आवलियपडिभग्गाए तिस्से देवीए' इत्यादि कहा है। प्रतिभन होनेके समयसे
लेकर एक आवलियप्रमाण कालके अन्तमें जघन्य स्वामित्व देनेका कारण यह है कि वहाँका
निषेध प्रथमसे जघन्य दिया गया है। दूसरे प्रतिभन होनेके समयके निषेधसे उसमें एक समय
जब एक आवलियप्रमाण गोबुच्छादिशेषोंकी प्राप्ति देवी जाती है। क्योंकि यहाँ अपकर्षणकी
सम्भावना है तो भी अपपरप्रेषणके प्राप्त हुए अन्तपरमाणुओंका निषेध अधिकतर उद्यावलिके
बाहर ही होता है जो हमारा भावार्थ है। यदि कहा जाय कि प्रथमसे जीवेद उद्यावली प्रकृति होनेसे
अपकर्षणके प्राप्त हुए द्रव्यमें अन्तर्गत लोकाका भाग देने पर जो लव्य ध्रावे उतना द्रव्य तो
उन प्रकृतिके उद्यावलिके भीतर ही प्राप्त होता है, सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है,
क्योंकि वा गुणप्रति अर्थान् निषेधकारक भाग देनेसे जो गोबुच्छादिशेष प्राप्त होता है उससे
उक्त अपपरपिण द्रव्य अन्तर्गतगुण्य हीन होता है, इसलिये उसकी प्रकृतमे प्रवानता नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँ पर उद्यावली अपेक्षा जीवेदके, भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी
बननाया है सो और सब विधि तो नपुंसकवेदके स्वामित्वके समान है किन्तु अन्तमे मनुष्यभयके
बाद प्रक्रिया बदल जाती है। नपुंसकवेदके प्रकरणमें जैसे उस जीवको मनुष्यमें पैदा करानेके
बाद फिर इन हजार वर्षकी आयुवाले देवोमें ले गये और फिर वहाँसे एकत्रियोमें ले गये वैसे
यहाँ न करने इस जीवको मनुष्य भयके बाद देवियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये। फिर अन्तर्मुहूर्तके
बाद जीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध और उत्तरप्रेष कराना चाहिये। फिर अन्तर्मुहूर्तमें उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धसे निवृत्त होने पर एक आवलिय कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये।
इस प्रकारके अन्तमें टीकाके एक शंका उठाई गई है जिसका भाव यह है कि उत्कृष्ट संकलेशसे
निवृत्त होनेके प्रथम समयमें प्रस्तुत जघन्य स्वामित्व न कहकर जो उस समयसे लेकर एक
आवलिके अन्तमें जघन्य स्वामित्व कहा है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रति समय
जो उपरितन स्थितिमें न्याय द्रव्यका अपकर्षण होता है उसके कारण एक आवलिके अन्तमें
समयमें स्थित द्रव्यका प्रमाण प्रथम समयमें स्थित द्रव्यके प्रमाणसे अधिक हो जाता है ?
इस शंकाका समाधान दो प्रकारसे किया गया है। समाधानमें पहली बात तो यह बतलाई
गई है कि अपकर्षित द्रव्यका निषेध उद्यावलिके न होकर उद्यावलिके बाहर होता है, इसलिये
उद्यावलिके अन्तमें समयमें स्थित द्रव्यका प्रमाण प्रथम समयमें स्थित द्रव्यके प्रमाणसे

❀ अरदि-सोगाणमोकड्डुणादिदिगभीणदिदियं जहणणयं कस्स ?

§ ५७०. सुगमं ।

❀ एहंदिद्यकम्मेण जहणणण तसेसु आगदो । संजमासंजमं संजमं च बहुसो लङ्गण तिणिण वारे कसाए उवसामेयूण एहंदिए गदो । तत्थ पत्तिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छियूण जाव उवसामयसमयबद्धा गलंति तदो मणस्सेसु आगदो । तत्थ पुच्चकोडी देसूणं संजममणुपालियूण कसाए उवसामेयूण उवसंतकसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोवमिओ जादो । जाये चेय हस्स-रईओ ओकड्डिदाओ उदयादिणिक्खित्ताओ अरदि-सोगा ओकड्डित्ता

अधिक नहीं हो सकता । पर इस उत्तर पर यह शंका होती है कि यह नियम तो अनुदयवाली प्रकृतियोंके सम्बन्धमें है उदयवाली प्रकृतियोंके सम्बन्धमें नहीं, क्योंकि उदयवाली प्रकृतियोंमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उदय समयसे प्राप्त होता है, इसलिये पूर्वोक्त शंकासे मूल शंकाका निराकरण न होकर वह पूर्ववत् खड़ी रहती है, इसलिये इस अन्तर्वर्ती शंकाको ध्यानमें रखकर समाधानमें दूसरी बात यह कही गई है कि इस प्रकार अपकर्षण होकर जिस द्रव्यका उदयावलिमें निक्षेप होता है वह द्रव्य एक गोपुच्छविशेषके असंख्यातवत् भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिये उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है । असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त होता है उतने अपकर्षित द्रव्यका उदयावलिके अन्दर निक्षेप होता है । यह तो अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण है । तथा दो गुणहानि आयामका भाग देनेपर गोपुच्छविशेष अर्थात् वयका प्रमाण प्राप्त होता है । सर्वत्र एक गुणहानिका काल पत्त्यके असंख्यातवत् भागप्रमाण है । इससे स्पष्ट है कि एक गोपुच्छविशेषसे उदयावलिमें प्राप्त होनेवाले अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये वह यहाँ प्रधान नहीं है । यही कारण है कि उत्कृष्ट संक्लेशसे निवृत्त होनेके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व न कहकर एक आवलिकालके अन्तिम समयमें कहा है ।

* अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ५७०. यह सूत्र सुगम है ।

* जो जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । फिर संयमासंयम और संयमको अनेक बार प्राप्त करके और तीन बार कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उपशामकके समयप्रवर्द्धोंके गलनेमें लगनेवाले पत्त्यके असंख्यातवत् भागप्रमाण कालतक रहा । फिर आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक संयमका पालन करके और कषायोंको उपशमा कर उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त हुआ । फिर मरकर तेतीस सागरकी आयुवाला देव हुआ । और जब देव हुआ तब हास्य और रतिका अपकर्षण करके उनका उदय समयसे निक्षेप किया तथा अरति और शोकका अपकर्षण करके उनका

उदयावलिवाहिरे णिक्खित्ता । से काले दुसमयदेवस्स एया द्विदी अरह-
सोगाणमुदयावलियं पविट्ठा ताथे अरदि-सोगाणं जहणणयं ति एहं पि
भीणद्विदिथं ।

‡ ५७१. एत्थ एइंदियकम्मेण जहण्णणे त्ति उत्ते अभवसिद्धिय-
पाओरगजहण्णसंतकम्मस्स गहणं कायव्वं, दोण्हमेदेसिं भेदाभावो । सेसावयवा
वहुसो पत्तविदत्तादो मुगमा । णवरि तिण्णिवारे कसाए उवसाभेयूणे त्ति वयणं
चउत्थकसायुवसाणवारस्स विसेत्तियपस्वणहं । चउत्थवारे कसाए उवसाभेयूण
उवसंतकमाओ कालगदो देवां तेत्तीससागरोवमिओ जादो त्ति भणंतस्साहिप्पाओ
उवसमसेदीए कालगदो अहमिददेवमु च उप्पज्जइ, अण्णत्थुकस्समुकलेस्साए
असंभवादो त्ति । हंदि जाए लेस्साए परिणदो कालं करेइ त्तिस्से जत्थ संभवो,
त्तथेव णियमेणुप्पज्जइ, ण लेस्संतरविसडंकेए विसए त्ति । कुदो एस णियमो ?
सदाइदो । ताथे चेव तत्थुप्पण्णपढमसमए हस्स-रदीओ ओकट्टिदाओ उदयादि-
णिक्खित्ताओ त्ति एदेण देवमुप्पण्णपढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालं हस्स-रदीणं

उदयावलि के बाहर निक्षेप किया । तदनन्तर इस देवके दूसरे समयमें स्थित होनेपर
अरति और शोककी एक स्थिति जब उदयावलिमें प्रवेश करती है तब यह जीव
अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका
स्वामी है ।

‡ ५७१. यदा सूत्रमें 'जो एइंदियकम्मेण जहण्णण' कहा है सो इससे अभव्योके योग्य
जघन्य सत्कर्मका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्म और अभव्योके
योग्य जघन्य मत्कर्म इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है, दोनोंका एक ही अर्थ है । सूत्रके शेष
अवयवोंका अनेक बार प्ररूपण किया है, उसलिये वे सुगम हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि
चौथी बार कर्मायके उपशमानके सम्बन्धसे विशेष वक्तव्य होनेसे सूत्रमें 'तिण्णिवारे कसाए
उवसाभेयूण' यह वचन कहा है । फिर कुछ आगे चलकर सूत्रमें 'चउत्थवारे कसाए उवसाभेयूण
उवरंतकलाओ कालगदो देवां तेत्तीससागरोवमिओ जादो' जो यह कहा है सो ऐसा कहनेका
यह अभिप्राय है कि उपशमभ्रंणमें मरकर यह अहमिन्द्र देवोमें उत्पन्न होता है, क्योंकि अन्यत्र
उल्लेख शुक्ललेख्याकी प्राप्ति असम्भव है । यह निश्चित है कि मरते समय पाई जानेवाली
लेख्या जहाँ सम्भव होती है मरकर जीव नियमसे वहाँ उत्पन्न होता है । किन्तु दूसरी लेख्याके
विषयभूत स्थानमें नहीं उत्पन्न होता ।

शंका—यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—स्वभावसे ।

फिर इसके आगे सूत्रमें जो 'ताथे चेव तत्थुप्पण्णपढमसमए हस्स-रदीओ ओकट्टिदाओ
उदयादिणिक्खित्ताओ' यह कहा है सो इससे यह ज्ञापित किया है कि देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम
समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालतक नियमसे हास्य और रतिका ही उदय होता है । तथा फिर

चेय णियमेणुदयो ति जाणाविदं । अरदि-सोगा ओकड्डित्ता उदयावलियवाहिरे णिक्खित्ता ति एदेण वि दोण्हमेदेसिमुदयस्स तत्थच्चंताभावो सूचिदो, अण्णहा उदयावलियवाहिरे णिक्खेवणियमाभावेण असंखेजलोगपडिभागेणुदयावलियब्भंतरे णिसित्तदब्बं घेत्तूण हस्स-रईणं व जहण्णसामित्तं होज्ज ।

§ ५७२. एवमुदयाभावेणुदयावलियवाहिरे ओकड्डिय एयगोबुच्छायारेण णिक्खित्ताणमरइ-सोगाणं से काले दुसमयदेवस्स एया द्विदी उदयावलयं पविहा, हेहा एगसमयस्स गलणादो । ताथे तेसिं जहण्णयमोक्कड्डणादितिण्हं भि ऋणीणद्विदियं होइ, आवलियपविह्वेयणिसेयस्स ततो ऋणीणद्विदियत्तेण गहणादो । एत्थुवरि सामित्ता-संकाए णत्थि संभवो, तत्थ समयं पडि णिसेयबुद्धिं मोत्तूण जहण्णभावानुभवत्तीदो । एत्थ के वि आइरिया अत्थसंबंधमत्तं वमाणा भणंति—जहा अंतरकदपहवसमयप्पहुडि समयुगावलियमेत्तद्धाणं गंतूण रइ-सोयाणं पढमद्विदिं गालिय कालं करिय देवसु-

सूत्रमें 'ओकड्डित्ता उदयावलयवाहिरे णिक्खित्ता' जो यह कहा है सो इस वचनके द्वारा यह सूचित किया है कि इन दोनोंका उदय वहां अत्यन्त असम्भव है । यदि ऐसा न माना जाय तो उदयावलिके बाहर ही इनके द्रव्यके निक्षेपका नियम न रहनेसे असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदयावलिके भीतर निक्षिप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा हास्य और रतिके समान इनका भी जघन्य स्वामित्व हो जाता । यतः हास्य और रतिके समान इनका जघन्य स्वामित्व नहीं बतलाया, इससे ज्ञात होता है कि देवोंमें उत्पन्न होनेपर अन्तर्मुहूर्त कालतक अरति और शोकका उदय न होकर नियमसे हास्य और रतिका ही उदय होता है ।

§ ५७२. इस प्रकार उदय न होनेसे अपकर्षित करके एक गोपुच्छाके आकाररूपसे उदयावलिके बाहर निक्षिप्त हुए अरति और शोककी एक स्थिति तदनन्तर द्वितीय समयवर्ती देवके उदयावलिके प्रविष्ट होती है, क्योंकि देवके प्रथम समयसे द्वितीय समयवर्ती हो जानेके कारण उदयावलिके नीचे एक समय गल गया है । तब अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी होता है, क्योंकि यहाँ पर उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुआ एक निषेक अपकर्षणादिकी अपेक्षा भीनस्थितिरूपसे ग्रहण किया गया है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमें ऊपर अर्थात् देवपर्यायके तृतीय आदि समयोंमें प्रकृत स्वामित्व सम्भव है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक समयमें एक एक निषेककी वृद्धि होती रहती है, इसलिये जघन्यपना नहीं बन सकता है । आशय यह है कि जैसे प्रकृत अहमिन्द्रके द्वितीय समयमें अरति और शोकका उदयावलिके भीतर एक निषेक था वह स्थिति अगले समयोंमें नहीं रहती है । किन्तु तीसरे समयमें उदयावलिके दो निषेक हो जाते हैं, चौथे समयमें तीन निषेक हो जाते हैं । इस प्रकार उदयावलिके उत्तरोत्तर निषेकोंकी वृद्धि होनेसे दूसरे समयके सिवा अन्यत्र प्रकृत जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त होता ।

शंका—प्रकरणवशा कितने ही आचार्य यहाँ पर इस प्रकार कथन करते हैं कि जैसे अन्तर करनेके बाद प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थान जाने पर रति और शोककी प्रथम स्थितिको गलानेके बाद मरकर देवोंमें उत्पन्न कराने पर लाभ दिखाई

पुष्पणचिदे लाहो दीसइ । तं कथं ? एत्थेव कालं काऊण देवेमुपुष्पणपढमसमए अंतरदीह-
पमाणं बहुअं होइ दीहमंतरं च पूरेमाणेण गोबुञ्जाओ सण्हीकरिय संखुअंभंति, अंतर-
द्विदीसु विहज्जिय तदावूरणहमोक्खिददव्वस्स पदणादो । तम्हा एवं णिसिंचिया-
वद्विद्विदियसमए देवस्स उदयावल्लियअंतरपविट्ठेयणित्थेयदव्वमोक्खणादित्तिणं पि
जहणणभूमीणद्विदियं होइ । उयसंतकसाओ पुण कालं काऊण जइ तत्पुष्पइज्जइ तो
अंतरदीहपमाणं थोवं होइ, हेहदो चैव बहुअस्स कालस्स गालणादो । थोवे वांतरि
पूरिज्जमाणे अंतरणित्थेगा थोवा होऊण चिद्वंति, पुव्वुत्तदव्वस्स एत्थेव संकुट्टिय
पदणादो त्ति । तदममंजसं, कुदो ? अंतरायामाणुसारोणोक्खिददव्ववादो तत्पूरणहं
पदेसगगगहणोवएसादो । तं जहा—दीहयमंतरं पूरेमाणेणंतरअंतरणिसिंचमाणदव्ववादो
संखेज्जभागहीणदव्वं घेत्तूण थोवयरंतरपूरओ तत्थ णित्थेयविरयणं करेइ । कुदो एवं
णव्वदे ? विद्वियद्विद्विपदमणित्थेएण सह एयगोबुञ्जणहाणुववत्तीदो ।

देवा ए देसे ही प्रद्वनमें करना चाहिये । उक्त प्रकारसे भरकर देवोंमें उत्पन्न करनेसे क्या लाभ है
ऐसी प्राणियों होने पर प्रकाशर करता है कि जो जीव इसी स्थान पर भरकर देवोंमें उत्पन्न होता
है उनके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अन्तरका प्रमाण बहुत अधिक पाया जाता है । और उस
हीमें अन्तरमें द्रव्यका निक्षेप करते हुए गोबुञ्जाओंको सूक्ष्म करके उनका निक्षेप किया जाता है,
क्योंकि अन्तरको पूरा करनेके लिये जो अपकर्षित द्रव्य प्राप्त होता है उसका अन्तरकी स्थितियोंमें
विभाग होकर पतन होता है । यतः यहाँ पर अन्तरकाल बड़ा है अतः प्रत्येक निषेकमें कम द्रव्य
प्राप्त हुआ । उसलिये उस प्रकारसे निक्षेप करके जो देव दूसरे समयमें स्थित हैं उसके उदयावलिके
भीतर प्रविष्ट हुआ एक निषेक द्रव्य अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य भूमीस्थितिरूप होता
है ? किन्तु उपशान्तकपाल जीव भरकर यदि यहाँ उत्पन्न होता है तो इसके अन्तरकालका प्रमाण
कम प्राप्त होता है, क्योंकि उनके यहाँ उत्पन्न होनेसे पूर्व ही अन्तरका बहुतसा काल व्यतीत हो
चुका है । यतः उस देवको थोड़े ही अन्तरको पूरा करना है इसलिये इसके अन्तरसम्यन्धी निषेक
थोड़े होनेसे स्थूल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो द्रव्य पहले बड़े अन्तरके भीतर विभक्त होकर प्राप्त
हुआ था वह सबका सब यहाँ इस थोड़ेसे ही अन्तरमें संकुचित होकर पतनको प्राप्त हुआ है ?

समाधान—यह सब कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा उपदेश पाया जाता है कि जैसा
अन्तरायाम होता है उसीके अनुसार उसको पूरा करनेके लिये अपकर्षित द्रव्यके कर्मपरमाणु
होते हैं । तुलासा उस प्रकार है—यड़े अन्तरको पूरा करनेवाला जीव अन्तरायाममें जितने
द्रव्यका निक्षेप करता है थोड़े अन्तरको पूरा करनेवाला जीव उसके संख्यातवर्ग भाग द्रव्यको लेकर
यहाँ निषेकरचना करता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—अन्यथा द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकके साथ एक गोपुच्छा नहीं बन
सकती, इससे ज्ञात होता है कि अन्तरायामके अनुसार ही उसको भरनेके लिये अपकर्षित द्रव्य
प्राप्त होता है ।

त्रिशोपार्थ—ऐसा सामान्य नियम है कि देवगतिमें उत्पन्न होने पर प्रथम समयसे
लेकर अन्तर्मुहूर्त तक अरति और शोकका उदय नहीं होता, इसलिये अपकर्षण आदि तीनोंकी
४५

❀ अरइ-सोगाणं जहणणयमुदयादो भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५७३. सुगमं ।

❀ एइंदियकम्मणेण जहणणएण तसेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसायमुवसामिदा । तदो एइंदिए गदो । तत्थ पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिदो जाव उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुव्वकोडी देसुणं संजम-मणुपालियूण अपडिबदिदेण सम्मतोण वेमाणिएसु देवेषु उववणो । अंतो-सुहुत्तसुववणो उक्कस्ससंकिलेसं गदो । अंतोसुहुत्तसुक्कस्सट्ठिदिं बंधियूण पडिभग्गो जादो तस्स आवलियपडिभग्गस्स भय-दुगुंछाणं वेदयमाणस्स

अपेक्षा इन दो प्रकृतियोंके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व जो क्षपितकर्मांश विधिसे आकर देवोमें उत्पन्न हुआ है उसके कहा है । उसमें भी प्रकृत जघन्य स्वामित्वके लिये ऐसा स्थल चुना गया है जहाँ इन दोनों प्रकृतियोंका केवल एक एक निषेक ही उदयावलिके भीतर प्राप्त हो । यह तभी हो सकता है जब उपशमश्रेणिमें अन्तरकरण करनेके बाद अन्तरकालमें स्थित इस जीवको देवोमें उत्पन्न कराया जाय । यद्यपि यह अवस्था अन्तरकरणके बादसे लेकर नौवें, दसवें या ग्यारहवें किसी भी गुणस्थानसे मरकर देवोमें उत्पन्न हुए जीवके हो सकती है पर यहाँ उपशान्तमोह गुणस्थानसे मरकर जो जीव देवोमें उत्पन्न होता है उसके बतलाते हैं, क्योंकि तब अरति और शोकका केवल एक निषेक ही उदयावलिमें पाया जाता है । कुछ आचार्य अन्तर-करणके बाद प्रथम स्थितिके समाप्त हो जाने पर जो जीव मरकर देवोमें उत्पन्न होता है उसके दूसरे समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व बतलाते हैं पर वैसा कथन करनेमें कोई विशेष लाभ नहीं है, अतः उक्त स्वामित्व ही ठीक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । शेष कथन सुगम होनेसे यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है ।

* उदयकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ५७३. यह सूत्र सुगम है ।

* कोई एक जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ बहुतबार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके और चार बार कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उपशामकके समय-प्रबद्धोंके गलनेवाले पन्थके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहा । फिर आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक संयमका पालन कर उससे च्युत हुए बिना सम्यक्त्वके साथ वैमानिक देवोंमें उत्पन्न हुआ । फिर उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त कालतक उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके उससे निवृत्त हुआ । इस प्रकार निवृत्त हुए इसको जब एक आवलि काल हो जाता है तब भय और जुगुप्साका भी वेदन करता

अरदि-सोगाणं जहएणयमुदयादो भीणट्टिदियं ।

§ ५७४. एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थपरुवणा नुगमा । णवरि अपडिवदिदेण सम्मत्तेण० एवं भणिदे तत्थ पुव्वकोटि संजमगुणसेट्ठिमणुपालिय तदवसाणे मिच्छत्तमगंतूण सो संजदो अपडिवददेणेव तेण सम्मत्तेण कप्पवासियदेवेसुववण्णो ति भणिदं होइ । किमट्टमेसो णवुंसय-इत्थिवेदसामिओ च्व मिच्छत्तं ण णीदो ति ? ण, तत्थ मिच्छत्तं गच्छमाणस्स गुणसेट्ठिणिज्जरालाहस्स असंपुण्णत्तप्पसंगादो गुणसेट्ठिणिज्जराए संपुण्णत्तविहाणट्टं दंसणमोहणीयं खविच तत्थुप्पाइज्जमाणत्तादो च ण मिच्छत्तमेसो णदं मकिज्जे । अंतोमुहुत्तउववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गओ ति भणिदे इट्ठि पज्जतीट्ठि पज्जत्तयदो होऊणुक्कस्ससंकिलेसेण आवूरिदो ति वुत्तं होइ । संकिलेसा-चूरणे पयोजणमाह—अंतोमुहुत्तमुक्कस्सट्ठिदि वंधियूणं ति । उक्कस्ससंकिलेसाणुक्कस्सट्ठिदिमरदि-सोगाणं वंयमाणो णिरुद्धट्ठिदिमावाहापविट्ठत्तादो आयविरहियमुक्कट्ठणाए सण्हीकरिय पुणो उक्कस्ससंकिलेमक्खएण पडिभग्गो जादो ति संवंधो कायव्वो । एत्थावलियपडिभग्गस्स सामित्तविहाणे पुव्वपरुव्विदं कारणं, तस्सेव विसेसणंतर-माह—भय-दुगुंछाणं वेदयमाणस्से ति, अण्णहा पयदणिसेयस्सुवरि भय-दुगुंछगोउच्छाणं

हुआ वह जीव उदयकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी है ।

§ ५७४. उम सूत्रके सब पदोंका कथन सुगम है । किन्तु सूत्रमें जो 'अपडिवदिदेण सम्मत्तेण' इत्यादि कहा है नों इसका वह अभिप्राय है कि मनुष्य पर्यायमें कुछ कम एक पूर्व-कोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिका पालन करके उसके अन्तमें मिथ्यात्वमें न जाकर वह संयत संयमसे न्युत हुए बिना ही सम्यक्त्वके साथ कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ ।

शंका—जैसे नपुंसकवैद और स्त्रीवैदके स्वामीको मिथ्यात्वमें ले गये हैं वैसे ही इसे मिथ्यात्वमें क्यों नहीं ले गये हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें ले जाने पर गुणश्रेणिनिर्जराका पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता है । दूसरे पूरी गुणश्रेणिनिर्जराके प्राप्त करनेके लिये दर्शनमोहनीयकी क्षणका करके इसे वहाँ उत्पन्न कराया है, इसलिये इसे मिथ्यात्वमें ले जाना शक्य नहीं है ।

सूत्रमें जो 'अंतोमुहुत्तउववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गओ' यह कहा है सो इसका यह अभिप्राय है कि वह पर्यायियोंसे पर्याप्त होकर उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ । उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त होनेका प्रयोजन बतलानेके लिये सूत्रमें 'अंतोमुहुत्तमुक्कस्सट्ठिदि वंधियूणं' यह कहा है । इसका प्रकृतमें ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि उत्कृष्ट संकलेशसे अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिको बंधनेवाला यह जीव आवाधाके भीतर प्रविष्ट होनेके कारण आर्यसे रहित विवक्षित स्थितिको उत्कर्षणके द्वारा सूच्य करके फिर उत्कृष्ट संकलेशका चय हो जानेसे उससे निवृत्त हुआ । यहाँ निवृत्त होने पर एक आवलिके अन्तमें जो स्वाभित्त्वका विधान किया है सो इसका कारण तो पहले कह आये हैं किन्तु यहाँ पर उसका दूसरा विशेषण बतलानेके लिये सूत्रमें 'भयदुगुंछाणं वेदयमाणस्स' यह कहा है । यदि यहाँ इन दो प्रकृतियोंका वेदक नहीं बतलाया

त्थिवुक्कसंकमेण जहणत्ताणुववत्तीदो ।

❀ एवमोघेण सव्वमोहणीयपयडीणं जहणमोक्कडुणादिभीणदिय-
सामित्तं परूविदं ।

§ ५७५. एतो एदेण सूचिदासेसपरूवणा चोइसपग्गणापडिवद्धा अजहण-
सामित्तपरूवणाए समयविरोहेणाणुमग्गियन्वा ।

तदो सामित्ताणियोगहारं समत्तं ।

❀ अप्पाबहुअं ।

§ ५७६. अहियारसंभालणमुत्तमेदं ।

❀ सव्वत्थोवं मिच्छुत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियं ।

§ ५७७. कुदो ? एदस्स चेव उदयणित्सेयस्स एकलग्गीभूदसंजदासंजद-संजद-
गुणसेदिसीसयस्स गुणिदकम्मसियपयडिगोवुच्चसहगदस्स गहणादो ।

❀ उक्कस्सयाणि ओक्कडुणादो उक्कडुणादो संकमणादो च भीण-

जाता तो प्रकृत निषेकके ऊपर भय और जुगुप्साके गोपुच्छोका स्तिवुक संक्रमण होते रहनेसे
जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त हो सकता था ।

विशेषार्थ—उक्त कथनका सार यह है कि जो क्षपितकर्माशाला जीव पूर्वकोटिकी
आयुवाला मनुष्य होकर संयमका पालन करे और अन्तमें देव होकर पर्याप्त हो जानेपर उत्कृष्ट
संकलेशको प्राप्त हो । फिर अन्तमुहूर्त तक अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता
हुआ विवक्षित निषेकको सूक्ष्म करनेके लिये उत्कर्षण करे । फिर जब वह उत्कृष्ट संकलेशसे
च्युत होकर तबसे एक आवलि कालके अन्तमें स्थित होता है और भय तथा जुगुप्साके उदयसे
भी युक्त रहता है तब उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है ।

* इस प्रकार ओघसे अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा मोहनीयकी सब प्रकृतियों-
के भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कहा ।

§ ५७५. आगे इससे सूचित होनेवाली चौदह मार्गणासम्बन्धी समस्त प्ररूपणा अजघन्य
स्वामित्वसम्बन्धी प्ररूपणाके साथ आगमके अनुसार जान लेनी चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

❀ अब अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ५७६. अधिकारकी सम्हाल करनेके लिये यह सूत्र आया है ।

❀ मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५७७. क्योंकि यहाँ मिथ्यात्वका ऐसा उदय निषेक लिया गया है जो गुणितकर्माशकी
प्रकृतिगोपुच्छाके साथ संयतासंयत और संयतके युगपत् प्राप्त हुए गुणभ्रेणिसीर्षरूप है ।

❀ मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले

द्विदियाणि तिणिण वि तुल्लाणिण अस्खेज्जगुणाणि ।

§ ५७८. किं कारणं ? समयूणावलियमेत्तदंसणमोहक्खवणगुणसेट्ठिगोबुच्छ-
पमाणत्तादो । एत्थ गुणगारपमाणं तप्पाओग्गपल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तं । कुदो ?
संजमासंजम-मंजमगुणसेट्ठीदित्तो दंसणमोहक्खवणगुणसेट्ठीए अस्खेज्जगुणत्तदंसणादो ।

⊗ एवं सम्मामिच्छत-पण्णारसकसाय-ल्लुण्णोकसायाणं ।

§ ५८६. जहा मिच्छत्तस्म चउण्हं पदाणं थोववहुत्तगवेसणा कया एवमेदेसिं
पि कम्माणमुक्कम्मप्पावहुअपरिकवा कायव्वा, विसेमाभावादो ।

⊗ सम्मत्तस्स सव्वत्थोवमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ५८०. चरिमसमयअवत्थीणदंसणमोहणीयसव्वपच्छिमगुणसेट्ठिसीसयस्स
गहणादो ।

⊗ सेसाणि तिणिण चि भीणद्विदियाणि उक्कस्सयाणि तुल्लाणि
विसेसादियाणि ।

§ ५८१. कुदो तत्तो एदेमि विसेसादियत्तं ? ण, समयूणावलियमेत्तदुच्चरिमादि-
गुणसेट्ठिव्वन्म तदमंग्वेज्जदिभागस्स तन्थ पवेसुवत्तंभादो ।

उत्कृष्ट द्रव्य ये तीनों परस्पर तुल्य होते हुए भी उससे असंग्यातगुणे हैं ।

§ ५८२. उनका क्या कारण ? क्योंकि वह एक समय कम एक आबलिप्रमाण दर्शनमोह-
की जपणसम्बन्धी गुणश्रेणियोंका प्रमाण है । वही गुणकारका प्रमाण तत्रायोग्य पत्यका
अनन्त्यातर्वा भाग लेना चाहिये, क्योंकि संयमासंयम और संयमकी गुणश्रेणियोंसे दर्शनमोहकी
जपणसम्बन्धी गुणश्रेणि अनन्त्यातर्वा देनी जाती है ।

* इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कपाय और छह नोकपायोंकी अपेक्षा
अल्पबहुत्व है ।

§ ५८९. जैसे मिथ्यात्वके चार पदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया वैसे ही उक्त कर्मोंके
भी उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका विचार करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

* सम्यक्त्वका उद्यकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५९०. क्योंकि जितने दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षपणा नहीं की है, उसके अन्तिम समयमें
जो सबसे अन्तिम गुणश्रेणियाँपैका द्रव्य विद्यमान रहता है उसका यहाँ ग्रहण किया गया है ।

* सम्यक्त्वके शेष तीनों ही भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट द्रव्य परस्पर तुल्य होते
हुए भी उससे विशेष अधिक हैं ।

§ ५९१. शंका—उससे ये विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि द्विचरम समयसे लेकर एक समय कम एक आबलिप्रमाण
द्रव्यका यहाँ प्रवेश पाया जाता है जो कि पूर्वोक्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिये
इसे विशेष अधिक कहा है ।

❀ एवं लोभसंजल्लण-तिगिणवेदान् ।

§ ५८२. जहा सम्मत्तस्स अप्पावहुअं परुविदमेवं लोभकसाय-संजल्लण-तिवेदाणमणूणाहियं परुवेयव्वं, विसेसाभावादो । एवमुक्कस्सप्पावहुअमोघेण समत्तं । एत्थादेसपरुवणा च जाणिय कायव्वा । तदो उक्कस्सयं समत्तं ।

❀ एत्तो जहण्णघं भ्मीणट्टिदियं ।

§ ५८३. एत्तो उवरि जहण्णभ्मीणट्टिदियस्स अप्पावहुअं भणिस्सामो ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❀ मिच्छत्तस्स सन्वत्थोवं जहण्णघसुदयादो भ्मीणट्टिदियं ।

§ ५८४. कुदो ? सासणपच्छायदपढमसमयमिच्छादिट्टिणो ओदारियावलिय-मेत्तसण्हयाणं गोबुच्छाणं चरिमणिसेयस्स पयदजहण्णसामित्तविसईकयस्स गहणादो ।

❀ सेसापि तिगिण वि भ्मीणट्टिदियाणि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ५८५. कुदो ? संपुण्णावलियमेत्ताणमुदीरणागोबुच्छाणमिह गहणादो । को गुणगारो ? आवल्लिया सादिरेया । सेसं सुगमं । एदेणेव गयत्थाणमपपणं करेइ—

❀ इसी प्रकार लोभसंज्वलन और तीन वेदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व है ।

§ ५८२. जिस प्रकार सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार लोभसंज्वलन और तीन वेदोंका न्यूनाधिकताके बिना अल्पबहुत्व कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विरोधता नहीं है । इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । यहाँ आदेश प्ररूपणको जानकर उसका कथन करना चाहिये । तब जाकर उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त होता है ।

❀ इससे आगे जघन्य भ्मीनस्थितिके द्रव्यका अल्पबहुत्व बतलाते हैं ।

§ ५८३. अब इस उत्कृष्ट अल्पबहुत्वके बाद भ्मीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका अल्पबहुत्व कहते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है ।

❀ मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा भ्मीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५८४. क्योंकि सासादन गुणस्थानसे पीछे लौटकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके जो उदयावलि संज्ञावाला गोपुच्छाएँ हैं उनमेसे यहाँ पर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत अन्तिम निषेक लिया गया है ।

❀ मिथ्यात्वके शेष तीनों ही भ्मीनस्थितिवाले द्रव्य परस्परमें तुल्य होते हुए भी उससे असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५८५. क्योंकि यहाँ पर सम्पूर्ण आवलिप्रमाण उदीरणा गोपुच्छाओंका ग्रहण किया गया है ।

शंका — गुणकारका क्या प्रमाण है ?

समाधान — साधिक एक आवलि गुणकारका प्रमाण है ।

शेष कथन सुगम है । अब इसीसे जिन प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व ज्ञात हो जाता है उसका प्रमुखतासे निर्देश करते हैं—

इति जहा मिच्छत्तस्स जहणणयमप्पाचहुअं तत्ता जेसिं कम्मंसाण-
मुदीरणोदयो अत्थि तेसिं पि जहणणयमप्पाचहुअं ।

५८६. जहा मिच्छत्तस्स पत्ताणि पदाणि अस्मिन्मृग जहणणयावहुअं
पस्सिदं नत्ता मेमाणं पि उदीरणोदयानां कर्माणं षेडयामिदि सुवत्थमंगरो ।

० अर्णानाणुवंचि-रन्धि-णवुंसयवेद अरह-सोगा त्ति एदे अह कम्मसे
मोत्तणु सेसाणमुदीरणोदयो ।

५८७. एत्थ उदीरणण वेन उदयो उदीरणोदयो ति मानाणो सुतावयो,
अण्णण अर्णानाणुवंचिसादीयं पस्सिज्जणाणुरवनीदी । जेसिं कम्मंसाणमुदयावन्दिक्कभंतरे
संनरुणेण अचंचनममंताण कम्मपग्माणुणं परिणापदिनेतेणामंजेज्जदोणपदिभागे-
णोदीरिटाणमणुवदो नेगिमुदीरणोदयो ति एतो एत्थ भावन्थो । ण चाणंताणुवंचि-
सादीयमोवंचिदो उदीरणोदयो संबवद, नत्थ नत्थणालोभादी । नदो सुवत्तपयदी-जो अह
मोणुण मम्मस-मग्माभिन्त-न-वारनरुमाय पुस्सिमेद-र-प-रदि-भय-दुग्गाणमुदीरणण
चो मुद्धाण पत्तजहणणमामिनाणं मिच्छत्तमेर अण्णवत्तप्रपग्माणुणं वनयामिदि मिद्धं ।

० जेसिं ण उदीरणोदयो तेसिं पि सो वेय आलायो सप्पाचहुअरुस
जहणणयस्स ।

१. जैसे मिथ्यात्वका जगत्त्व अन्वयवस्तु है वैसे ही भिन कर्मोंका उदीरणोदय
होता है उनका भी जगत्त्व अन्वयवस्तु जानना चाहिये ।

§ ५८६. जैसे मिथ्यात्वका चार कर्मोंकी अपेक्षा जगत्त्व अन्वयवस्तु पदा है वैसे
उदीरणोदयको दोष कर्मोंका भी जगत्त्व अन्वयवस्तु जानना चाहिये यह इस सूत्रका
समुदायार्थ है ।

२. अनन्तानुबन्धी, रसिपेद, नष्टुंमकनेद, अस्ति और शोक इन आठ कर्मोंको
दोषकर दोष कर्म उदीरणोदयरूप है ।

§ ५८७. यहाँ पर उदीरण ही उदयकथने विवक्षित है इसलिये उदीरणोदय यह सूत्रपर
अवधारण कर्तव्य है । अन्वयका अनन्तानुबन्धी आदि का विशेष नहीं किया जा सकता है । अन्तर
कर देनेके कारण उदयकथनेके भीतर जिन कर्मोंका उदयकथन विवक्षित नहीं पाये जाते हैं,
परिणामियदोषके कारण अन्वयगत लोकप्रमाण प्रतिभासके अनुसार उदीरणको प्राप्त हुए उनका
अनुभव करना उदीरणोदय है यह इसका अभिप्राय है । अन्तःसुबन्धी आदिका उदय प्रकार
उदीरणोदय सम्भव नहीं है, क्योंकि इन प्रवृत्तियोंका उदीरणोदय नहीं पाया जाता है । इसलिये
सूत्रोक्त आठ प्रवृत्तियोंके सिवा जो अन्यत्त्व, रागविभ्रान्ता, चारु कथाय, पुस्तपेद, हास्य,
रति, भय और जुगुप्सा प्रवृत्तियाँ हैं उनकी मुक्त उदीरण होने पर ही जगत्त्व स्वाभित्त प्राप्त होता
है इसलिये उनका अन्वयवस्तु न्यूनाधिक्यके बिना मिथ्यात्वके समान उदयका चाहिये यह बात
निश्च हूँ ।

* तथा भिनका उदीरणोदय नहीं होता उनका भी जगत्त्व अन्वयवस्तुविषयक
आन्वय उसी प्रकार है ।

§ ५८८. पुव्वुत्तासेसपयडीणमुदीरणोदङ्गलाणं जो जहणणप्पावहुआलावो सो चैव उदीरणोदयविरहिदपयडीणं पि कायन्वो, विसैसाभावादो । होड गामाणंताणु-वंधीणमेसो अप्पावहुआलावो, सामित्ताणुसारित्तादो । ण वुण इत्थि-णलुंसयवेदाणं, तत्थ सामित्ताणुसरणे तिण्हं पि जहणणभीणणट्टिदियादो उदयादो जहणणभीणणट्टिदियस्स असंखेज्जगुणत्तदंसणादो । ण एस दोसो, तहाणब्भुवगमादो । तहा चैव उवरि पक्खंतरस्स परुविस्समाणादो । किंतु तिउक्कसंकममविवक्खिय समूहेणैव उदयादो वि जहणणभीणणट्टिदियस्स वेद्धावट्टिसागरोवमाणि भमाडिय सामित्तं दायव्वमिदि एदेणा-हिप्पाएण पयट्टमेदं । एदम्मि णए अवल्लंविज्जमाणे उदयादो जहणणभीणणट्टिदियं पेक्खियुण सेसाणं समयूणावल्लियगुणयारदंसणादो ।

§ ५८८. उदीरणोदयवाली पूर्वोक्त सब प्रकृतियोंका जो जघन्य अल्पबहुत्व कहा है, उदीरणोदयसे रहित प्रकृतियोंका भी उसी प्रकार अल्पबहुत्व समझना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

शंका—अपने स्वामित्वके अनुसार होनेसे अनन्तानुबन्धियोंका यह अल्पबहुत्ववालाप रहा आवे, परन्तु स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका यह अल्पबहुत्व नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वहाँ पर स्वामित्वका अनुसरण करने पर जो अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिक जघन्य द्रव्य है उससे उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिक जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्यों वैसा स्वीकार नहीं किया है । पदान्तर रूपसे आगे इसी बातका कथन भी करेंगे । किन्तु स्तितुक् संक्रमणकी विवक्षा न करके समूहरूपसे ही उदयकी अपेक्षा भी जघन्य भीनस्थितिवाले द्रव्यका स्वामित्व दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण कराके देना चाहिये इस प्रकार इस अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । इस मयका अवलम्बन करने पर उदयकी अपेक्षा जघन्य भीनस्थितिवाले द्रव्यको देखते हुए शेष भीनस्थितिवाले द्रव्योंका गुणकार एक समय कम एक आवलिप्रमाण देखा जाता है ।

विशेषार्थ—जो उपशमसम्यग्दृष्टि छह आवलि कालके शेष रहने पर सासादनमें जाता है और फिर वहाँसे मिथ्यात्वमें जाता है उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और एक आवलि कालके अन्तमें उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य होता है । यतः अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा जो भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह उदयावलिके निषेक प्रमाण होता है और उदयकी अपेक्षा जो भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह उदयावलिके अन्तम निषेक प्रमाण होता है, इसलिये यहाँ उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा प्राप्त हुआ भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा वतलाया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कपाय, पुरुषवेद, धास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंका चारोकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य भी इसी प्रकार उदीरणोदयके होने पर ही प्राप्त होता है, इसलिये इनका अल्पबहुत्व भी पूर्वोक्त प्रकारसे प्राप्त हो जाता है । अब यहाँ शेष आठ प्रकृतियों से इनमेंसे चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियों तो ऐसी हैं जिनका उक्त चारोकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व अपने उदयकालमें ही प्राप्त होता है, इसलिये उनका भी अल्पबहुत्व उक्त प्रकारसे वन जाता है । शेष चारमें भी अरति और शोक ऐसी

❁ अहवा इत्थिवेद-णबुंसयवेदाणं जहणयाणि ओकडुणादीणि तिएण वि भीणद्विदियाणि तुल्लाणि थोवाणि ।

§ ५६२. जहाकमेण वेद्धावद्विसागरोवम-तिपल्लिदोवमन्महियवेद्धावद्विसागरो-वमाणि भमाडिय सामित्तविहाणादो ।

❁ उदयादो जहणयणं भीणद्विदियमसंखेज्जगुणं ।

§ ५६३. पुणुत्तकालमगालिय सामित्तविहाणादो । तं पि कुदो ? त्थिवुकसंक्रम-वहुत्तभयादो ।

❁ अरइ-सोगाणं जहणयाणि तिएण वि भीणद्विदियाणि तुल्लाणि थोवाणि ।

§ ५६४. उवसंतकसायचरविदियसमयदेवस्स उदयावलियपविट्ठएयणिसेयस्स सन्वपयत्तेण जहणणीकयस्स गहणादो ।

❁ जहणयणमुदयादो भीणद्विदियं विसेसाहियं ।

इस प्रकार इन सब प्रकृतियोंका अभिप्रायान्तरकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन करके अब स्वामित्वके अनुसार स्तित्वकसंक्रमणको प्रधान करके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* अथवा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीन-स्थितिवाले जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं ।

§ ५६२. क्योंकि क्रमसे स्त्रीवेदकी अपेक्षा दो छथासठ सागर काल तक और नपुंसक-वेदकी अपेक्षा तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागर काल तक भ्रमण कराके इन दोनों वेदोंके स्वामित्वका विधान किया गया है ।

* उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उससे असंख्यातरुणा है ।

§ ५६३. क्योंकि पूर्वोक्त कालको न गलाकर स्वामित्वका विधान किया गया है ।

शंका—ऐसा क्यों किया गया ।

समाधान—स्तित्वकसंक्रमणके बहुत द्रव्यके प्राप्त होनेके भयसे ऐसा किया गया है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य

क्रमसे दो छथासठ सागर पूर्व और तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागर पूर्व प्राप्त होता है और अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उक्त काल बाद प्राप्त होता है, इसलिये अपकर्षण आदिकी अपेक्षा प्राप्त हुए भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे उदयकी अपेक्षा प्राप्त हुआ भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातरुणा बतलाया है ।

* अरति और शोकके अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं ।

§ ५६४. क्योंकि जो उपशान्तकषायचर देव दूसरे समयमें स्थित है उसके उदयावलिमें प्रविष्ट हुए और सब प्रयत्नसे जघन्य किये गये एक निपेक्षका यहाँ पर प्रहण किया गया है ।

* उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उससे विशेष अधिक है ।

जहण्णपदेसुदीरणा थोवा, उदयो असंखेज्जगुणो, बंधो असंखेज्जगुणो, संकमो असंखेज्जगुणो, संतकम्मं असंखेज्जगुणमिदि । एत्थ जहण्णबंधो त्ति उत्ते एगेईदियसमयपवद्धमेत्तं गहिदं । जहण्णसंकमो त्ति उत्ते एगमेईदियसमयपवद्धं इविय पुणो घोळमाणजहण्णजोगेण वद्धपंचिदियसमयपवद्धमिच्छामो त्ति जोगगुणगारमेदस्स गुणगारत्तेण ठविय पुणो वि एदस्स हेद्दा अथापवत्तभागहारं ठविय ओवट्टिदे जहण्णसंकमद्वमागच्छइ । जइ एत्थ जोगगुणगारो थोत्रो होज्ज तो जहण्णसंकमद्वस्सुवरि जहण्णबंधो असंखेज्जगुणो जाएज्ज । ण च एवं, बंधस्सुवरि संकमो असंखेज्जगुणो त्ति पडिदत्तादो । तम्हा जोगगुणगारो अथापवत्तभागहारादो असंखेज्जगुणो त्ति सिद्धं ? कम्मट्टिदिणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेज्जगुणाओ । कुदो ? किंचूणपल्लिदोवमद्धछेदणयपमाणत्तादो । एदस्स कारणस्स गिरुत्तीकरणमिदं । तं जहा—दिवडुगुणहाणि ठविय जोगगुणगारेण गुणिदे पल्लिदो० असंखे०भागमेत्तो चेव रासी उप्पज्जइ । पुणो एत्थ जोगगुणगारमवणिय तं चेव गुणिज्जमाणं दिवडुगुणहाणिपमाणं ठविय जइ णाणागुणहाणिसलागाहि गुणिज्जइ तो दिवडुकम्मट्टिदिमेत्तो रासी उप्पज्जदि त्ति । एदेण जाणिज्जे जहा जोगगुणगारादो कम्मट्टिदिणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेज्जगुणाओ त्ति । पल्लिदोवमस्स छेदणया विसेसा । केत्तियमेत्तो विसेसो ? पल्लिदोवमवग्गसलागछेदणयमेत्तो । कुदो एदं परिच्छिज्जदे ? परमशुरूवपसादो ।

दीरणा थोड़ी है । उससे उदय असंख्यातगुणा है । उससे बन्ध असंख्यातगुणा है । उससे संक्रम असंख्यातगुणा है और उससे सत्कर्म असंख्यातगुणा है । यहाँ जर्चन्य बन्ध ऐसा कहनेपर उससे एकेन्द्रियके समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्यका ग्रहण किया है । जघन्य संक्रम ऐसा कहनेपर इस प्रकारसे प्राप्त हुए संक्रम द्रव्यका ग्रहण किया है । यथा—एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करो । फिर घोलमान जघन्य योगके द्वारा बाँधे गये पञ्चन्द्रिय समयप्रबद्धको लाना चाहते हैं, इसलिये इसके गुणकाररूपसे योग गुणकारको स्थापित करो । फिर इसके नीचे अधःप्रवृत्तभागहारको स्थापित करके भाग देनेपर जघन्य संक्रमद्रव्य आता है । यदि यहाँ योगगुणकार अधःप्रवृत्तभागहारसे अल्प होता तो जघन्य संक्रमद्रव्यसे जघन्य बन्ध असंख्यातगुणा हो जाता । पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सूत्रमे बन्धसे संक्रम असंख्यातगुणा बतलाया है, इसलिये अधःप्रवृत्तभागहारसे योगगुणकार असंख्यागुणा है यह सिद्ध हुआ । योगगुणकारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशालाकाएँ असंख्यातगुणी हैं, क्योंकि वे कुछ कम पत्त्यके अर्धच्छेदप्रमाण हैं । इस कारणका खुलासा इस प्रकार है—डेढ़ गुणहानिको रखकर योगगुणकारसे गुणित करनेपर पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ही लब्ध राशि आती है । फिर यहाँ योगगुणकारको अलग करके और गुण्यमान उसी डेढ़ गुणहानिप्रमाण राशिको स्थापित करके यदि नानागुणहानिशालाकाओसे गुणा किया जाता है तो डेढ़गुणी कर्मस्थितिप्रमाण राशि उत्पन्न होती है । इससे ज्ञात होता है कि योगगुणकारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशालाकाएँ असंख्यागुणी हैं । कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशालाकाओसे पत्त्यके अर्धच्छेद विशेष अधिक हैं ।

शंका—कितने अधिक हैं ?

समाधान—पत्त्यकी वर्गशालाकाओके जितने अर्धच्छेद हो उतने अधिक हैं ।

पत्तिद्रोवमपदमवग्गमूलं असंखेज्जगुणं । सुगममेत्थ कारणं । एगपदेसगुणहाणिट्ठाणंतर-
मसंखेज्जगुणं । कारणं णाणागुणहाणिसत्तागादि कम्मट्ठिदीए ओवट्ठिदाए असंखेज्जाणि
पत्तिद्रोवमपदमवग्गमूलाणि आगच्छंति त्ति । दिवहुगुणहाणिट्ठाणंतरं विसेसाहियं ।
के० विसेसो ? दुभागमेत्तेण । णिसेयभागहारो विसेसो । के० मेत्तेण ? तिभागमेत्तेण ।
अण्णोणवत्थगसी असंखे०गुणो । एत्थ कारणं सुगमं । पत्तिद्रोवमसंखेज्जगुणं ।
सुगमं । विष्भादमंकमभागहारो अगंखेज्जगुणो । किं कारणं ? अंगुलस्स असंखे०-
भागपमाणत्तादो । उव्वेल्लणभागहारो असंखेज्जगुणो । दोण्हमेत्तिसिमंगुलस्सासंखे०-
भागपमाणत्तावित्सेसे वि पदेमसंकमष्पावहुअमुत्तादो एदस्सासंखेज्जगुणमवग्गममदे ।
अणुभागवग्गणाणं णाणापदेसगुणहाणिमत्तागाओ अणंतगुणाओ । किं कारणं ?
अभवमिद्धिपहितो अणंतगुणं सिद्धाणमणंतभागपमाणत्तादो । एगपदेसगुणहाणि-

शंका—चउ किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम गुरुओंके उपदेशमे जाना जाता है ।

पत्यके अर्थच्छेदोंसे पत्यना प्रथम वर्गमूल असंख्यातगुणा है । उसका कारण सुगम है ।
इससे एकरप्रदेशगुणानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है, क्योंकि कर्मस्वित्तिये नानागुणाट्टानि-
शलाका प्राक्क भाग देनेपर पत्यके असंख्यात प्रथमवर्गमूल प्राप्त होते हैं । एकरप्रदेशगुणाहानि-
स्थानान्तरसे डेहगुणाट्टानिस्थानान्तर विशेष अधिक है ।

शंका—किनना अधिक है ?

समाधान—दूसरा भाग अधिक है ।

डेहगुणाहानिस्थानान्तरसे निपेकभागहार विशेष अधिक है ।

शंका—किनना अधिक है ?

समाधान—तीसरा भाग अधिक है ।

निपेकभागहारसे अन्यान्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है । उसका कारण सुगम है ।
इससे पत्य असंख्यातगुणा है । इसका भी कारण सुगम है । इससे विध्यातसंकमभागहार
असंख्यातगुणा है ।

शंका—इसके असंख्यातगुण होनेका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि विध्यातसंकमभागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है,
इसलिये इसे पत्यसे असंख्यातगुणा बतलाया है ।

विध्यातसंकमभागहारसे उद्वेलनभागहार असंख्यातगुणा है । वयपि ये दोनों ही भागहार
अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तो भी प्रदेशसंकमअल्पवहुत्वविषयक सूत्रसे ज्ञात होता
है कि विध्यातसंकमभागहारसे उद्वेलनभागहार असंख्यातगुणा है । उद्वेलनभागहारसे अनुभाग
वर्गोष्पाओंकी नानाप्रदेशगुणाहानिशलाकाएँ अनन्तगुणी हैं, क्योंकि ये अशब्दोंसे अनन्तगुणी
और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इससे एकरप्रदेशगुणाहानिस्थानान्तर अनन्तगुणा है ।

डाणंतरमणंतगुणं । दिवद्वृगुणहाणिडाणंतरं विसेसाहियं । णिसेयभागहारो विसेसो ।
अण्णोण्णभत्थरासी अणंतगुणो त्ति ।

एवमप्पावहुए समत्ते भ्नीणमभ्नीणं ति पदं समत्तं होदि ।

द्विदियं ति चूलिया

भदं सम्महंसणणाणचरित्ताणममलसाराणं ।

जिणवरवयणमहोवहिगढभसमब्भूयरयणाणं ॥

सुहुमयतिहुवणसिहरद्विदियंतियसिद्धवंदियं वीरं ।

इणमो पणमिय सिरसा वोच्छं ठिदियं ति अहियारं ॥१॥

❀ ठिदियं ति जं पदं तस्स विहासा ।

§ ५६७. एतो उवरि ठिदियं ति जं पदं मूलगाहाए चरिमावयवभूदं वा सहेण सूचिदासेसविसेसपरुवणं तस्स विहासा अहिकीरदि त्ति मुत्तत्थसंबंधो । तत्थ किं ठिदियं णाम ? द्विदीओ गच्छइ त्ति द्विदियं पदेसगं द्विदिपत्तयमिदि उवं होदि ।

इससे द्वयर्धगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । इससे निपेकभागहार विशेष अधिक है । इससे अन्योन्याभ्यस्तराशि अनन्तगुणी है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हो जानेपर गाथामे आये हुए

‘भ्नीणमभ्नीणं’ इस पदकी व्याख्या समाप्त होती है ।

स्थितिग चूलिका

जैसे महोदधिके गर्भसे उत्तमोत्तम रत्न निकलते हैं उसी प्रकार जो जिनेन्द्रदेवके वचनरूपी महोदधिसे निकले हैं और जो संसारके सब निर्मूल पदार्थोंमें सारभूत हैं ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप तीनों रत्नोंकी सदा जय हो ॥ १ ॥

सुखमय और तीन लोकके अग्र भागमे स्थित सिद्धरूपसे वन्दनीय ऐसे इन वीर जिनको भक्तकसे प्रणाम करके स्थितिग नामक अधिकारका कथन करता हूँ ॥ २ ॥

❀ गाथामें जो ‘द्विदियं’ पद है उसका विशेष व्याख्यान करते हैं ।

§ ५७. इसके आगे अर्थात् मूल गाथामें आये हुए ‘भ्नीणमभ्नीणं’ पदकी व्याख्याके बाद मूल गाथाके अन्तिम चरणमे जो ‘द्विदियं’ पद है और जिसके अन्तमें आये हुए ‘वा’ पदसे सांगोपांग सब प्ररूपणाका सूचन होता है, अब उसके विशेष व्याख्यानका अधिकार है यह इस सूत्रका तात्पर्यार्थ है ।

शंका—‘द्विदियं’ इस पदका क्या अर्थ है ?

समाधान—‘द्विदियं’ का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ स्थितिग अर्थात् स्थितिको प्राप्त हुए कर्मपरमाणु होता है ।

तदो उक्कस्सद्विदिपत्तयादीणं सरूवविसेसजाणावणट्ठं पदेसविहतीए चूलियासरूवेण एसो अहियारो समोइण्णो त्ति वेत्तन्वो । संपहि एत्थ संबवंताणमणियोगद्वाराणं परूवणट्ठमुत्तरमुत्तं भणइ—

❊ तत्थ तिरिणं अणियोगद्वाराणि । तं जहा—समुक्तिणा सामित्त-
मप्पावहुअं च ।

§ ५६८, तत्थ डिदियं ति एदस्स बीजपदस्स अत्यविहासाए कीरमाणाए तिण्णिण अणियोगद्वाराणि णादन्वाणि भवंति । काणि ताणि त्ति सिस्साभिप्पायं तं जहा त्ति आसंकिंय तेसिं णामणिहेसो कीरदे समुक्तिणा इच्चाइणा । तत्थ समुक्तिणा णाम उक्कस्सद्विदिपत्तयादीणमत्थित्तमेत्तपरूवणा । तत्थ समुक्तिदाणं संबंधविसेस-परिक्खा सामित्तं णाम । तेसिं चेव थोववहुत्तपरिक्खा अप्पावहुअमिदि भण्णदे । एवमेत्थ तिण्णिण अणियोगद्वाराणि हंति त्ति परूविय संपहि तेहि पयदस्साणुगमं कुणमाणो जहा उदेसो तथा णिहेसो त्ति णायादो समुक्कतणाणुगममेव ताव विहासिदु-कामो इदमाह—

❊ समुक्तिणाए अत्थि उक्कस्सद्विदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तयं अधा-
णिसेयद्विदिपत्तयं उदयद्विदिपत्तयं च ।

§ ५६९. सव्वेसिं कम्माणमेदाणि चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि अत्थि त्ति

इसलिये उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिकके विशेष स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये प्रदेशविभक्तिके चूलिकारूपसे यह अधिकार आया है यह तात्पर्य यहाँ लेना चाहिये । अब यहाँ पर जो अधिकार सम्भव हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस प्रकरणमें तीन अनुयोगद्वार हैं । यथा—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ।

§ ५६८. यहाँ पर अर्थात् 'द्विदियं' इस बीजपदके अर्थका विवरण करते समय तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । वे तीन अनुयोगद्वार कौन कौन हैं इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायको 'तं जहा' पदद्वारा प्रकट करके समुत्कीर्तना इत्यादि पदोंद्वारा उनका नामनिर्देश किया है । इनमेंसे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंके अस्तित्वमात्रका कथन करना समुत्कीर्तना है । समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारमें जिनका निर्देश किया है उनके सम्बन्धविशेषकी परीक्षा करना स्वामित्व है और उन्हींके अल्पबहुत्वकी परीक्षा करना अल्पबहुत्व कहलाता है । इस प्रकार इस प्रकरणमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं इसका कथन करके अब उनके द्वारा प्रकृत विषयका अनुशीलन करते हुए 'उदयके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायके अनुसार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारका ही विवरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, अधःनिषेक-स्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं ।

§ ५९९. सब कर्मोंके ये चार स्थितिप्राप्त होते हैं यह इसका तात्पर्य है । इस प्रकार इस

समुक्त्तिदं होइ । एवमेदेसिमुक्त्तसादिद्विदिपत्तयाणमत्थित्तमेत्तमेदेण सुत्तेण समुक्त्तिय संपहि तेसिं चैव सरूवविसए णिण्णयजणणट्ठमट्ठपदं परूवेमाणो उक्त्तसद्विदिपत्तययेव ताव पुच्छामुत्तेण पत्तावसरं करेइ—

❀ उक्त्तससयद्विदिपत्तयं णाम किं ।

§ ६००. उक्त्तसद्विदिपत्तयसरूवविसेसावहारणपरमेदं पुच्छामुत्तं । संपहि एदिस्से पुच्छाप उत्तरमाह—

❀ जं कम्मं बंधसमयादो कम्मद्विदीए उदए दीसइ तमुक्त्तसस-
द्विदिपत्तयं ।

§ ६०१. एतदुक्तं भवति—जं कम्मपदेसगं बंधसमयादो प्पहुडि कम्मद्विदिमेत्त-
कालमच्छियूण सगकम्मद्विदिचरिमसमए उदए दीसइ तमुक्त्तसद्विदिपत्तयमिदि भण्णदे,
अग्गद्विदीए वट्ठमाणत्तादो ति । णाणासमयपवद्धे अस्सियूण किण्ण घेप्पदे ? ण,
तेसिमकमेण अग्गद्विदिपत्तयत्तासंभवादो । बंधसमए चैव किण्ण घेप्पदे ? ण, चउण्हं
पि द्विदिपत्तयाणमुदयं पेक्खियूण गहणादो । तत्थ वि ण चरिमणिसेयपरमाण्णयं
चैव सुद्धाणमुक्त्तसद्विदिपत्तयसण्णा, किंतु पढमणिसेयादिपदेसाणं पि तत्थुक्त्तद्विदाण-

सूत्र द्वारा इन उत्कृष्ट आदि स्थितिप्राप्त कर्मपरमाणुओंका अस्तित्वमात्र बतलाकर अब उनके स्वरूपके विषयमें विशेष निर्णय करनेके लिये अर्थपदका कथन करते हुए पृच्छासूत्र द्वारा सर्व-
प्रथम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके निर्देशकी ही सूचना करते हैं—

* उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ।

§ ६००. उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके स्वरूप विशेषका निश्चय करानेवाला यह पृच्छासूत्र है ।
अब इस पृच्छाका उत्तर कहते हैं—

* जो कर्म बन्धसमयसे लेकर कर्मस्थितिके अन्तमें उदयमें दिखाई देता है
वह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त है ।

§ ६०१. इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि जो कर्मपरमाणु बन्ध समयसे लेकर कर्मस्थिति-
प्राप्त कालतक रहकर अपनी कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें उदयमें दिखाई देता है वह उत्कृष्ट
स्थितिप्राप्त कर्म कहलाता है, क्योंकि वह अग्रस्थितिमें विद्यमान रहता है ।

शंका—यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्म नाना समयप्रवद्धोंकी अपेक्षा क्यो नहीं लिया
जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नाना समयप्रवद्धोंका एक साथ अग्रस्थितिको प्राप्त होना
सम्भव नहीं है ।

शंका—उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तका बन्ध समयमें ही क्यो नहीं ग्रहण किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चारो ही स्थिति प्राप्त कर्मोंका उदयकी अपेक्षा ग्रहण
किया है ।

उसमें भी केवल अन्तिम निषेकके परमाणुओंकी यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा नहीं है

मेसा सण्णा ति घेतव्वं, अण्णहा उक्कस्सयसमयपवद्धस्स अगग्घिदीए जत्तियं णिसित्तं तत्तियमुक्कस्सेणे ति भणिसस्साणपरुवणाए सह विरोहपसंगादो । ण च चरिमणिसैयस्सेव अण्णणाहियस्स जहाणिसित्तसरूवेणोदयसंभवो, ओकद्धिय विणासियत्तादो । तम्हा एयसमयपवद्धणाणाणिसैयावल्लंभणेण पयदद्विदिपत्तयमवद्विदिमिदि सिद्धं ।

किन्तु प्रथम निषेक आदिके जिन परमाणुओंका उत्कर्षण होकर वहाँ निक्षेप हो गया है उनकी भी यही संज्ञा है ऐसा अर्थ यहाँपर लेना चाहिये। यदि यह अर्थ न लिया जाय तो 'एक समयप्रबद्धकी अग्रस्थितिमें जितना द्रव्य निक्षिप्त होता है उतना द्रव्य उत्कृष्ट रूपसे अग्रस्थितिप्राप्त है' यह जो सूत्र आगे कहा जायगा उसके साथ विरोध प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि न्यूनाधिकताके बिना अन्तिम निषेकका ही बन्धके समय जैसा उसमे कर्मपरमाणुओंका निक्षेप हुआ है उसी रूपसे उदय होना सम्भव है सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण होकर उसका विनाश देखा जाता है। इस लिये एक समयप्रबद्धके नाना निषेकोंके अवलम्बनसे ही प्रकृत स्थितिप्राप्त अवस्थित है यह बात सिद्ध होती है।

विशेषार्थ—प्रदेशसत्कर्मका विचार करते हुए उत्कृष्टादिकके भेदसे उनका बहुमुखी विचार किया। उसके बाद यह भी बतलाया कि सत्तामे स्थित इन कर्मोंमेसे कौन कर्मपरमाणु अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयके योग्य है और कौन कर्मपरमाणु इनके अयोग्य हैं। किन्तु अब तक यह नहीं बतलाया था जि इन सत्तामे स्थित कर्मपरमाणुओंके उदयकी अपेक्षा कितने भेद हो सकते हैं? क्या जिन कर्मोंका जिस रूपसे बन्ध हाता है उसी रूपमें वे उदयमे आते हैं या उनमें हेर फेर भी सम्भव है। यदि हेर फेर सम्भव है तो उदयकी अपेक्षा उसके कितने प्रकार हो सकते हैं? प्रस्तुत प्रकरणमें इसी बातका विस्तारसे विचार किया गया है। यहाँ ऐसे प्रकार चार बतलाये हैं—उत्कृष्टस्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त। इनमेंसे प्रत्येकका खुलासा चूर्णिसूत्रकाने स्वयं किया है, इसलिये यहाँ हम सबके विषयमें निर्देश नहीं कर रहे हैं। प्रकृतमे उत्कृष्टस्थितिप्राप्त विचारणीय है। चूर्णिसूत्रमें इस सम्बन्धमे इतना ही कहा है कि बन्धसमयसे लेकर कर्मस्थितिके अन्तिम समयमे जो उदयमे दिखाई देता है वह उत्कृष्टस्थितिप्राप्त कर्म है। इस परसे अनेक शंकाएँ पैदा होती हैं? कि क्या उस अग्रस्थितिमे नाना समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणु लिये जा सकते हैं यह पहली शंका है। इसका समाधान नकारात्मक ही होगा, क्योंकि नाना समयप्रबद्धोंकी अग्रस्थिति एक समयमे नहीं प्राप्त हो सकती। दूसरी शंका यह पैदा होती है कि बन्धके समय ही उत्कृष्टस्थितिप्राप्त यह संज्ञा न देकर जब वह अग्रस्थिति उदयगत होती है तभी उत्कृष्टस्थितिप्राप्त यह संज्ञा क्यों दी गई है? इसका समाधान यह है कि ये संज्ञाएँ उदयकी अपेक्षासे ही व्यवहृत हुई हैं, इसलिये जब अग्रस्थिति उदयगत होती है तभी उत्कृष्टस्थितिप्राप्त इस संज्ञाका व्यवहार होता है। तीसरी शंका यह है कि बन्धके समय जिन कर्मपरमाणुओंमे उत्कृष्ट स्थिति पड़ती है वे ही केवल उत्कृष्ट स्थितिके उदयगत होनेपर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं या उत्कर्षण द्वारा उसी समयप्रबद्धकी अन्य स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंके भी उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त करके उत्कृष्ट स्थितिके उदयगत होनेपर इवे कर्मपरमाणु भी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं? इसका समाधान यह है कि अग्रस्थितिमे बन्धके समय जितने भी कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं अपनी स्थितिके अन्त समय तक वे वैसे ही नहीं बने रहते हैं। यदि स्थितिकाण्डकघात और संक्रमणकी चर्चाको छोड़ दिया जाय, क्योंकि वह चर्चा इस प्रकरणमें उपयोगी नहीं है तो भी बहुतसे कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण

❁ णिसेयट्टिदिपत्तयं णाम किं ?

§ ६०२. सव्वं पि पदेसग्गं णिसेयट्टिदिपत्तयमेव, णिसेयट्टिदिपत्तयस्स कम्म-त्ताणुववत्तीदो । तदो किण्णाम तं णिसेयट्टिदिपत्तयं जं त्तिसेसेणापुव्वं परुविज्जदि ति ? एवंविहासंकासूचयमेदं पुच्छावक्कं । संपहि एदिस्से आसंकाए णिरायरण्हं तस्स सरुव्वसुत्तरसुत्तेण परुवेइ—

❁ जं कम्मं जिस्से ट्टिदीए णिसित्तं ओकड्ढिदं वा उक्कड्ढिदं वा तिस्से चेव ट्टिदीए उदए दिस्सइ तं णिसेयट्टिदिपत्तयं ।

§ ६०३. एवमुक्तं भवति—जं कम्मं बंधसमए जिस्से ट्टिदीए णिसित्तमोक्कड्ढिदं वा उक्कड्ढिदं वा संतं पुणो वि तिस्से चेव ट्टिदीए होऊण उदयकाले दीसइ तं णिसेय-ट्टिदिपत्तयमिदि । एदं च णाणासमयपबद्धप्पयमेयणिसेयमवल्लविय पयट्टमिदि घेतव्वं । कथमेत्थमोक्कड्ढिदमुक्कड्ढिदं वा पदेसग्गमुदयसमए तिस्से चेव ट्टिदीए दिस्सइ ति

हो जाता है और नीचेकी स्थितिमें स्थित बहुतसे कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होकर वे अग्र-स्थितिमें भी पहुँच जाते हैं । तात्पर्य यह है कि बन्धके समय निषेककी जैसी रचना हुई रहती है उसके अपने उदयको प्राप्त होने तक उसमें बहुत हेरफेर हो जाता है । इससे ज्ञात होता है कि एक समयप्रवृत्तके नानानिषेकसम्बन्धी जितने कर्मपरमाणु अग्रस्थितिमें प्राप्त रहते हैं उनका उदय होने पर वे सब उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं । चूर्णिसूत्रमें आगे जो उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्मके स्वाभित्वका निर्देश करनेवाला सूत्र है उससे भी इसी बातकी पुष्टि होती है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्म किसे कहते हैं इसका विचार किया ।

❁ निषेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ?

§ ६०२. जितना भी कर्म है वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त ही होता है, क्योंकि जो निषेक स्थितिको प्राप्त नहीं होता वह कर्म ही नहीं हो सकता, इसलिये वह निषेकस्थितिप्राप्त कौनसा कर्म है जिसका विशेष रूपसे यहाँ नये सिरेसे वर्णन किया जा रहा है । इस तरह इस प्रकारकी आशंकाको सूचित करनेवाला यह पृच्छासूत्र है । अब इस आशंकाका निराकरण करनेके लिये उसका स्वरूप अगले सूत्र द्वारा कहते हैं—

❁ जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है अपकर्षित होकर या उत्कर्षित होकर उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थिति-प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०३. इस सूत्रका यह आशय है कि बन्धके समय जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है अपकर्षित होकर या उत्कर्षित होकर फिर भी उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो वह कर्म निषेकस्थितिप्राप्त कहलाता है । यह सूत्र नाना समयप्रवृत्तोंसे सम्बन्ध रखनेवाले एक निषेककी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—प्रकृतमे जिन कर्मोंका अपकर्षण और उत्कर्षण हुआ है वे कर्म उदय समयमें उसी स्थितिमें कैसे दिखाई देते हैं ?

णासंक्रण्जं, पुणो वि उक्कड्डुणोकड्डुणाहि तहाभावाविरोहादो । ण सव्वेसिं णिसेय-
द्विदिपत्तयत्तादो एदस्स विसेसियपरुवणा णिरत्थिया त्ति पुव्विन्त्तासंका वि, तेसिमेत्तो
विसेसणादो ।

❀ अध्याणिसेयद्विदिपत्तयं णाम किं ?

§ ६०४. किमेदमुक्कस्सद्विदिपत्तयं व एयसमयपवद्धपडिवद्धमाहो णाणासमय-
पवद्धणिवंधणिसेयद्विदिपत्तयं व, को वा तत्तो एदस्स लक्खणविसेसो त्ति ? एवं
विहाहिप्पाएण पयट्टमेदं पुच्छामुत्तं ।

❀ जं कम्मं जिस्से द्विदीए णिसित्तं अपोकड्डिदं अणुक्कड्डिदं तिस्से चेव
द्विदीए उदए दिस्सइ तमघाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६०५. एतदुक्तं भवति—जइ वि एद णाणासमयपवद्धावत्तंवि तो वि

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जिन कर्मों का अपकर्षण हुआ था उनका उत्कर्षण होकर और जिन कर्मों का उत्कर्षण हुआ था उनका अपकर्षण होकर उदय समयमें फिरसे उसी स्थितिमें दिखाई देना विरोधको प्राप्त नहीं होता है ।

यदि कहा जाय कि सभी कर्म निषेकस्थितिप्राप्त होते हैं, इसलिये इसका विशेष रूपसे कथन करना निरर्थक है सो ऐसी आशंकाङ्कना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उनमें विशेषता आ जाती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर निषेकस्थितिप्राप्त कर्मसे क्या अभिप्राय है इसका खुलासा किया गया है । यद्यपि निषेकरचनाके बाहर कोई भी कर्म नहीं होता है पर प्रकृतमें यह अर्थ इष्ट है कि बन्धके समय जो कर्म जिस निषेकमें प्राप्त हुआ हो उदयके समय भी वह कर्म यदि उसी निषेकमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थितिप्राप्त है । जैसे उक्कट स्थितिप्राप्तमें अग्रस्थितिकी मुख्यता रही निषेककी नहीं वैसे ही यहाँ किसी भी स्थितिकी मुख्यता न होकर निषेककी मुख्यता है । यही कारण है कि प्रकृतमें नाना समयप्रवद्धसम्बन्धी एक निषेकका ग्रहण किया है इस एक निषेकमें विविध समयप्रवद्धोंके विविध स्थितिवाले कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह इसका तात्पर्य है । यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए कि अपकर्षण और उत्कर्षण होकर जो कर्म विवक्षित निषेकसे नीचेकी और ऊपरकी स्थितिमें निक्षिप्त हो गये हैं, पुनः उत्कर्षण और अपकर्षण होकर यदि वे उसी विवक्षित निषेकमें आकर उदय समयमें उसी निषेकमें दिखाई देते हैं तो उनका भी यहाँ ग्रहण हो जाता है ।

❀ यथानिषेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ।

§ ६०४. क्या यह उक्कट स्थितिप्राप्त कर्मके समान एक समयप्रवद्धसम्बन्धी है या निषेक-
स्थितिप्राप्तके समान नाना समयप्रवद्ध सम्बन्धी है ? उनसे इसके लक्षणमें क्या विशेषता है इस तरह इस प्रकारके अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है ।

❀ जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है अपकर्षण और उत्कर्षणके विना यदि वह कर्म उदयके समय उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो यह यथानिषेकस्थिति-
प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०५. इस सूत्रका यह अभिप्राय है—यद्यपि इसका नाना समयप्रवद्धोंसे सम्बन्ध है

पुत्रिवल्लादो एदस्स महंतो विसेसो । कुदो ? जं कम्मं जिस्से द्विदीए वंधसमए णिसित्तमणोक्कड्ढिदमुक्कड्ढिदं जहा णिसित्तं तथावट्ठिदं संतं तिससे चैव द्विदीए कम्मोदएण विपच्चिहिदि तमघाणिसेयट्ठिदिपत्तयमिदि गहणादो । पुत्रिवल्लं पुण ओक्कड्ढुक्कड्ढणवसेण जत्थ तत्थ वावच्चित्तसरूवेणावट्ठिदं संगल्लिदसरूवेण तम्मि चैव द्विदीए उदयमागच्छंतं गहिदमिदि । कथं जहाणिसेयस्स अघाणिसेयवएसो त्ति ण पच्चवट्ठेयं, 'वच्चंति कगतदयवा लोवं अत्थं वहंति तत्थ सरा' इदि यकारस्स लोवं काऊण णिहेसादो । जहाणिसेयसरूवेणावट्ठिदस्स ट्ठिदिक्खएणोदयमागच्छंतस्स णाणासमयपवद्धसंबंध-पदेसपुंजस्स अत्थाणुगओ पयदववएसो त्ति भणिदं होइ ।

❀ उदयट्ठिदिपत्तयं णाम किं ?

§ ६०६. पुत्रिवल्लाणि सन्वाणि चैव उदयं पेक्खियूण भणिदाणि तम्हा ण तत्तो एदस्स भेदो त्ति एवंविहासंकाए पयट्ठमेदं पुच्छासुत्तं । संपाहं एदिस्से आसंकाए णिरायरणट्ठमिदमाह—

तो भी निपेकस्थितिप्राप्तसे इसमे बड़ा अन्तर है, क्योंकि बन्धके समय जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है, अपकर्षण और उत्कर्षणके बिना जिस प्रकार निक्षिप्त हुआ है उसी प्रकार रहते हुए यदि कर्मोदयके समय उसी स्थितिमें वह फल देता है तो वह यथानिपेकस्थितिप्राप्त कर्म है ऐसा यहाँ ग्रहण किया है । परन्तु पहला जो निपेकस्थितिप्राप्त कर्म है सो वहाँ अपकर्षण और उत्कर्षणके वशसे यत्र तत्र कहीं भी निक्षिप्त होकर कर्म अवस्थित रहता है परन्तु गलते समय उसी स्थितिमें वह कर्म उदयको प्राप्त होता है, यह अर्थ लिया गया है ।

आंका—यथानिपिक्त कर्मकी यथानिपेक यह संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि—'क, ग, त, द, य और व इनका लोप होने पर स्वर उनके अर्थकी पूर्ति करते हैं ।' व्याकरणके इस नियमके अनुसार 'य' का लोप करके उक्त प्रकारसे निर्देश किया है । नाना समयप्रवद्धसम्बन्धी जो प्रदेशपुंज बन्धके समय जिस प्रकारसे निक्षिप्त हुआ है उसी प्रकारसे अवस्थित रहकर स्थितिका क्षय होने पर उदयमें आता है उसकी यह सार्थक संज्ञा है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

विशेषार्थ—निपेकस्थितिप्राप्तसे इसमें इतना ही अन्तर है कि वहाँ तो जिनका अपकर्षण उत्कर्षण होकर अन्यत्र निक्षेप हुआ है, अपकर्षण उत्कर्षण होकर वे परमाणु यदि पुनः उसी स्थितिमें प्राप्त होकर उदयमें आते हैं तो उनका ग्रहण होता है परन्तु यथानिपेकस्थितिप्राप्तसे उन्हें परमाणुओका ग्रहण होता है जो तदवस्थ रहकर अन्तमें उदयमें आते हैं । इसके सिवा इन दोनोंमें और कोई अन्तर नहीं है ।

❀ उदयस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ?

§ ६०६. पूर्वोक्त सभी स्थितिप्राप्त कर्म उदयकी अपेक्षा ही कहे हैं, इसलिये उनसे इसमें कोई भेद नहीं रहता इस प्रकारकी आशंकाके होने पर यह पुच्छासूत्र प्रवृत्त हुआ है । अब इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❖ जं कम्मसुवए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सइ तसुदयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ६०७. एदस्स भावत्थो—ण ताव अग्गट्ठिदिपत्तयम्मि एदस्स अंतवभावो, द्विदिविसेसनेयसमयपवद्धं च पेक्खियूण तस्स परुवियत्तादो । एत्थ त्हाविहणियमाभावादो । ण णिसेय-जहाणिसेयट्ठिदिपत्तएसु वि, तेसिं पि वंधसमयणिसेय-पडिबद्धत्तादो । तदो जं कम्मं जत्थ वा तत्थ वा द्विदीए होदूण अविसेसेण उदय-मागच्छदि तसुदयट्ठिदिपत्तयमिदि घेतव्वं ।

❖ एदमट्ठपदं ।

§ ६०८. उक्कस्सट्ठिदिपत्तयादीणं चउणहं पि अत्थविसयणिणयणियबंध-मेदमट्ठपदं सन्वेसिं कम्माणं साहारणभावेण परुविदमवहारेयव्वं । पुणो वि विसेसिय.चउणहमेदेसिं परुवणट्ठमुत्तरमुत्तं भणइ—

❖ एत्तो एक्केट्ठिदिपत्तयं चउन्विहसुक्कस्समणुक्कस्सं जहणण-मजहणणं च ।

§ ६०९. एत्तो अट्ठपदपरुवणाणंतरमेक्केट्ठिदिपत्तयं चउन्विहं होइ उक्कस्सादि-भेएण । एत्थ एक्केट्ठिदिपत्तयग्गहणं पादेक्कं चउणहं चउहि अहिसंबंधणट्ठमेक्केक्कस्स वा मिच्छत्तादिपयडिदिविसेसस्स चउन्विहं पि ट्ठिदिपत्तयं पादेक्कमुक्कस्साइभेएण

* जो कर्म उदयके समय यत्र तत्र कहीं भी दिखाई देता है वह उदयस्थिति प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०७. इस सूत्रका भावार्थ यह है कि अग्रस्थिति प्राप्तमे तो इसका अन्तर्भाव होता नहीं, क्योंकि वह स्थितिविशेष और एक समयप्रवृत्तकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है । किन्तु इसमे उस प्रकारका कोई नियम नहीं पाया जाता । निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त कर्मोंमें भी इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी बन्धे समयके निषेकोसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिये जो कर्म जहाँ कहीं भी स्थितिमे रहकर अन्य किसी प्रकारकी विशेषताके बिना उदयको प्राप्त होता है वह उदयस्थितिप्राप्त कर्म है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

* यह अर्थपद है ।

§ ६०८. उल्लुट्ठ स्थितिप्राप्त आदि चारोका भी अर्थविषयक निर्णय करनेके सम्बन्धमे यह अर्थपद आया है जो साधारणभावसे सब कर्मोंका कहा गया जानना चाहिये । अब फिर भी इन चारोके विषयमे विशेष बातके कथन करनेके लिये आरोगका सूत्र कहते हैं—

* एक एक स्थितिप्राप्तके चार चार भेद हैं—उल्लुट्ठ, अनुत्तुकुट्ठ, जघन्य और अजघन्य ।

§ ६०९ अब इस अर्थपदके कथन करनेके बाद उल्लुट्ठ आदिके भेदसे एक एक स्थितिप्राप्त चार-चार प्रकारका है यह बतलाते हैं । यहाँ सूत्रमे प्रत्येक स्थितिप्राप्तका चार चारसे सम्बन्ध बतलानेके लिये 'एक्केट्ठिदिपत्तयं, पदका ग्रहण किया है । अथवा मिथ्यात्व आदिके एक एक

चउच्चिहं होइ त्ति पेतव्वं । तदो सव्वेसिं कम्मणं पुध पुध गिरुंभणं काउण चउण्हं
द्विदिपत्तयाणमुक्कस्सादिपदविसेसिदाणमोघादेसेहि परूवणा कायव्वा । एवं कदे
समुक्कित्तणाणियोगद्वारं समत्तं ।

❀ सामित्तं ।

§ ६१०. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ६११. सुगममेदं पुच्छावक्कं । एवं सामित्तविसयाए पुच्छाए तस्सेव
परिकरभावेण अग्गद्विदिपत्तयवियप्पपरूवणद्वयुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ अग्गद्विदिपत्तयमेक्को वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एगुत्तरियाए
वड्डीए जाव ताव उक्कसयं समयपवद्धस्स अग्गद्विदीए जत्तियं णिसित्तं
तत्तियसुक्कस्सेण अग्गद्विदिपत्तयं ।

§ ६१२. अग्गद्विदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्ते पुच्छिदे तमपरूविय तव्वियप्प-
परूवणा किमहं कीरदे ? ण, उक्कस्सदव्वपमाणे अपणवगए तव्विसयसामित्तस्स
सुहेणावगंतुमसक्कियत्तादां । अहवा उक्कस्ससामित्तपरूवणाए अणुक्कस्ससामित्तं पि

प्रकृतिविशेषके चारो ही स्थितिप्राप्त प्रत्येक उत्कृष्ट आदिके भेदसे चार चार प्रकारके होते हैं यह
अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये । इसलिये सभी कर्मोंको अलग अलग विवक्षित करके उत्कृष्ट आदि
पदोसे युक्त चारों ही स्थितिप्राप्तोंका ओघ और आदेशकी अपेक्षा कथन करना चाहिये ।
इस प्रकार करने पर समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार समाप्त होता है ।

* अब स्वामित्वका अधिकार है ।

§ ६१०. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्व कर्मकी अपेक्षा उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त कर्मका स्वामी कौन है ?

§ ६११. यह पृच्छावाक्य सरल है । इस प्रकार स्वामित्वविषयक पृच्छाके होने पर उसीके
परिकररूपसे अग्रस्थितिप्राप्तके भेदोका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* एक कर्मपरमाणु अग्रस्थितिप्राप्त होता है, दो कर्मपरमाणु अग्रस्थिति-
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक कर्मपरमाणुके बढ़ाने पर एक समय-
प्रबद्धकी अग्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ट द्रव्य निक्षिप्त होता है उत्कृष्ट रूपसे उतना
द्रव्य अग्रस्थितिप्राप्त होता है ।

§ ६१२. शंका—पूछा तो अग्रस्थितिप्राप्त कर्मके उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयमें गया था
पर उसका कथन न करके यहाँ उसके भेदोका कथन किसलिये किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्यके प्रमाणके अन्तवगत रहने पर तद्विषयक
स्वामित्वका सुखपूर्वक ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये यहाँ उसके भेदोका कथन किया गया है ।

अथवा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते समय अनुत्कृष्ट स्वामित्वका भी कथन करना

परुवेयव्वं, अण्णहा एक्केवकं द्विदिपत्तयं चउव्विहमिदि परुवणाए विहलत्तप्पसंगादो । तं च उक्कस्सादो परमाणुणादिकमेणावद्धिदं गिरंतरसरुवेण जाव एओ परमाणु ति एदस्स जाणावणद्धमेसा परुवणा ति सुसंबद्धमेदं ।

§ ६१३. संपहि एवं परुविदसंसंधस्सेदस्स सुत्तस्सत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा—कम्मद्विदिपढमसमए जं वद्धं मिच्छत्तपदेसगं तं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडि-मेत्तकम्मद्विदीए असंखेज्जे भागे अच्चिय पुणो पत्तिदोवमासंखेज्जदिभागपमाणसुक्कस्स-णिल्लेवणकालमत्थि ति सुद्धं होऊण गच्छइ । तत्तो उवरिमाणंतरसमए वि सुद्धं होऊण गच्छइ । एवं गिरंतरं गंतूण जाव कम्मद्विदिचरिमसमए वि सुद्धं होदूण तस्स गमणं संभवइ । पुणो तमेवं णिल्लेविज्जमाणं कम्मद्विदीए पुण्णाए एक्को वि परमाणु होयूणावद्दाणं ल्हइ । किं कारणमिदि भणिदे णिरुद्धसमयपवद्धस्स एगेण वि परमाणुणा विणा जइ कम्मद्विदिचरिमसमओ सुण्णो होऊण लभइ तो गलिदसेसेग-परमाणुणा सहियत्तं सुद्धु ल्हामो ति णत्थि एत्थ संदेहो । एवं दो वि परमाणु लभति । एदेण कारणेण अगद्विदिपत्तयमेक्को वा दो वा पदेसा ति सुत्ते उत्तं । एवमेगादि-एगुत्तरियाए वड्डीए ताव एवं णेदव्वं जाव समयपवद्धस्स अगद्विदीए जत्तियसुक्कस्सयं पदेसगं तं णिसित्तं ति ।

§ ६१४. एत्थ समयपवद्धस्से ति भणिदे सण्णिपंचिदियपज्जत्तएण उक्कस्स-

चाहिये, अन्यथा एक एक स्थिति प्राप्तको जो चार चार प्रकारका बतलाया है सो उस कथनको विफलताका प्रसंग प्राप्त होता है । और वह अनुत्कृष्ट उत्कृष्टमेसे निरन्तर एक एक परमाणुके घटाने पर एक परमाणुके प्राप्त होने तक होता है, इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये यह प्ररूपणा की है, इसलिये यह कथन सुसम्बद्ध है ।

§ ६१३. इस प्रकार इस सूत्रके सम्बन्धका कथन करके अब उसके अर्थका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—कर्मस्थितिके प्रथम समयमें मिथ्यात्वका जो द्रव्य बंधा है वह सत्तर कोडाकोडी सागरप्रमाण कर्मस्थितिके असख्यात बहुभाग तक रहता है फिर पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उत्कृष्ट निलेपन कालके भीतर उसका अभाव हो जाता है । या उससे एक समय और जाने पर उसका अभाव होता है । इस प्रकार निरन्तर एक एक समयके जाने पर कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें भी अभाव होकर उसका गमन सम्भव है । यद्यपि वह इस प्रकार अभावको प्राप्त होता है तो भी कभी कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें एक परमाणु भी शेष रहता है । कारण यह है कि विवक्षित समयप्रवद्धके एक परमाणुके विना भी यदि कर्मस्थितिका अन्तिम समय शून्यरूपसे प्राप्त हो सकता है तो इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अन्य सब परमाणुओंकी गलाकर गेप वच्चे एक परमाणुके साथ भी कर्मस्थितिका वह अन्तिम समय प्राप्त किया जा सकता है । इसी प्रकार कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें दो परमाणु भी प्राप्त होते हैं । इसी कारणसे सूत्रमें 'अगद्विदिपत्तयं एक्को वा दो वा पदेसा' यह वचन कहा है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणुको बढ़ाते हुए अग्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ट द्रव्य निक्षिप्त होता है उसके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये ।

§ ६१४. यहाँ सूत्रमें जो 'समयपवद्धस्स' यह पद दिया है सो उससे संक्षी पञ्चेन्द्रिय

जोगिणा वद्धेयसमयपवद्धस्स गहणं कायच्चं, अण्णहा अग्गद्धिदीए उक्कस्सणिसेयाणुव-
वत्तीदो । तत्तियमुक्कस्सेण अग्गद्धिदिपचयं जत्तियं तमणंतरपरुत्तिदं । चरिमणिसेय-
उक्कस्सपदेसग्गमेयसमयपवद्धणिवद्धं तत्तियमेत्तमुक्कस्सग्गेण अग्गद्धिदिपत्तयं होइ त्ति
एसो एत्थ मुत्तत्थसंगहो । ण चेदमेत्तियं जहाणिसेयसरूवेण लब्भइ, ओक्कड्डिय
कम्मद्धिदिअब्भंतरे विणासियत्तादो । किं तु उक्कड्डणाए कम्मद्धिदिचरिमसमए धरिद-
पदेसग्गमेत्तियं होइ त्ति गहेयच्चं । तम्हा एयसमयपवद्धणाणाणिसेए उक्कड्डिय
धरिदपदेसग्गमेत्तियमुदयगयमुक्कस्सयमग्गद्धिदिपत्तयं होइ त्ति सिद्धं ।

§ ६१५. एवं णिहाल्लिदपमाणस्सेदस्स अणुक्कस्सवियप्पेहि सह सामित्तविहाणट्ट-
सुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ तं पुण अण्णदरस्स होज्ज ।

पर्याप्तके द्वारा उत्कृष्ट योगसे बाँधे गये एक समयप्रवद्धका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा
अग्रस्थितिमें उत्कृष्ट निषेक नहीं प्राप्त हो सकते हैं । उत्कृष्टरूपसे अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य उतना
ही होता है जितनेका अनन्तर कथन कर आये हैं । एक समयप्रवद्धके अन्तिम निषेकमें
जितना उत्कृष्ट द्रव्य होता है उतना उत्कृष्टरूपसे अग्रस्थितिप्राप्त होता है यह यहाँ इस सूत्रका
समुदायरूप अर्थ है । जिस रूपसे इसका अग्रस्थितिमें निक्षेप होता है उसी रूपसे वह उतना
पाया जाता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण होकर कर्मस्थितिके भीतर ही
उसका विनाश देखा जाता है । किन्तु उत्कर्षणके द्वारा कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें उतना
द्रव्य पाया जा सकता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि
एक समयप्रवद्धके नानानिषेकोका उत्कर्षण होकर उदयगत उतना द्रव्य ही जाता है जो
अग्रस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यके बराबर होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार
करते समय यह वतलाया गया है कि उदयके समय अग्रस्थितिमें कमसे कम कितना और
अधिकसे अधिक कितना द्रव्य प्राप्त होता है । स्थितिकाण्डकघात आदिके द्वारा
अग्रस्थितिका सर्वथा अभाव हो जाय यह दूसरी बात है पर यदि उसका अभाव नहीं होता
तो यह सम्भव है कि एक परमाणुको छोड़कर उसके और सब द्रव्यका अपकर्षण होकर विनाश
हो जाय । यह भी सम्भव है कि दो परमाणुओंके सिवा और सब द्रव्यका अपकर्षण होकर
विनाश हो जाय । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणुको बढ़ाते हुए अग्रस्थितिमें एक समय-
प्रवद्धका जितना द्रव्य प्राप्त होता है उतना प्राप्त होने तक यह द्रव्य पाया जा सकता है । पर
सबका सब वन्धके समय अग्रस्थितिमें जैसा प्राप्त हुआ था वैसा ही अपने उदय कालके
प्राप्त होनेतक नहीं बना रहता है, किन्तु इसमेंसे बहुतेसे द्रव्यका अपकर्षण आदि भी हो जाता
है, इसलिये यह घट तो जाता है तो भी उन्हींका पुनः या अन्य निषेकोके द्रव्यका उत्कर्षण
करके वह उतना अवश्य किया जा सकता है यह इसका भाव है ।

§ ६१५. इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके प्रमाणका विचार करके अब अतुत्कृष्ट
विकल्पोंके साथ इसके स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ उस उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कोई भी जीव होता है ।

§ ६१६. तं पुण पुवं पुच्छाए विसईकयमुक्कस्सट्टिदिपत्तयं सगंतोभाविदा-
गंताणुक्कस्सत्रियप्पमण्णदरस्स जीवस्स संबंधी होइ, विरोहाभावादो । णवरि खविद-
कम्मंसियं षोत्तण उक्कस्ससामितं वत्तवं, तत्थुक्कस्साभावादो ।

❀ अधाणिसेयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ?

§ ६१७. एत्थ मिच्छतग्गहणमणुवट्टे । तेसं सुगमं ।

❀ तस्स ताव संदरिसणा ।

§ ६१८. तस्स जहाणिसेयट्टिदिपत्तयस्स सामित्तरूपवणट्ठं ताव उवसंदरिसणा
एत्थुवजोगी संबंधद्धपरूवणा कीरइ ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❀ उदयादो जहण्यण्यमावाहामेत्तमोसक्कियूण जो समयपबद्धो तस्स
एत्थि अधाणिसेयट्टिदिपत्तयं ।

§ ६१९. जहाणिसेयसामित्तसमयादो जहण्णावाहामेत्तं हेइदो ओसक्कियुण वद्धो
जो समयपबद्धो तस्स णिरुद्धद्विदीए णत्थि जहाणिसेयट्टिदिपत्तयं पदेसग्गमिदिं
वुत्तं होइ । कुदो तस्स तत्थ णत्थितं ? तत्तो अणंतरोवरिमट्टिदिमादिं काऊणुवरि

§ ६१६. जिसका विषय पहले बतला आये हैं और जिसमें अनन्त अनुच्छिन्न विकल्प
गमित हैं उस उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तका कोई भी जीव स्वामी हो सकता है, क्योंकि ऐसा माननेमें
कोई विरोध नहीं आता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्षपितकर्मांश जीवको छोड़कर
अन्यके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये, क्यों कि जो क्षपितकर्मांश जीव है उसके उत्कृष्ट
विकल्प सम्भव नहीं है।

विशेषार्थ—एक क्षपितकर्मांश जीवको छोड़कर अन्य सब जीवोंके बन्धके समयमें
अप्रस्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त हुआ था उद्यके समय उत्कर्षणके सम्बन्धसे उतना द्रव्य
पाया जा सकता है, इसलिये उत्कृष्ट अप्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी किसां भी जीवको बतलाया है।

* उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी कौन है ?

§ ६१७. इस सूत्रमें 'मिथ्यात्व' पदको अनुवृत्ति होती है। शेष कथन सुगम है।

* अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं।

§ ६१८. अब उस यथानिषेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करनेके लिए उपसंदर्शना
अर्थानु प्रकृतमें उपयोगी सम्बन्धित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है।

* उद्य समयसे जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान नीचे जाकर जो समयपबद्ध
बंधता है उसका विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है।

§ ६१९. यथानिषेकके स्वामित्वसमयसे जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान नीचे (पीछे) जाकर
जोऽसमयप्रबद्ध बंधा है उसका विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है यह इस
सूत्रका तात्पर्य है।

शंका—उसका वहाँ अस्तित्व क्यों नहीं है ?

समाधान—क्योंकि प्रकृत स्वामित्वके समयसे जो अनन्तरवर्ती उपरिम स्थिति है

पयदसमयपबद्धस्स णिसेयदंसणादो । एदं च अवत्थुवियप्पाणमंतदीवयभावेण परूविदं, तेण जहण्णावाहमेत्ता चेव जहाणिसेयस्स अवत्थुवियप्पा परूवेयव्वा ।

❀ समयुत्तराए आवाहाए एवदिमचरिमसमयपबद्धस्स अधाणिसेओ अत्थि ।

§ ६२०. कुदो ? आवाहामेतमइच्छाविय पयदसमयपबद्धस्स णिरूद्धिदीए णिसेयदंसणादो । एत्थ जहण्णग्गहणेणाणुवट्टमाणेण आवाहा विसेसियव्वा ।

❀ तत्तो पाए जाव असंखेज्जाणि पल्लिदोवमवग्गमूलाणि तावदिमसमयपबद्धस्स अधाणिसेओ णियमा अत्थि ।

§ ६२१. तत्तो समयुत्तरजहण्णावाहमेत्तमोसक्किदूण बद्धसमयपबद्धादो प्पहुडि हेट्ठिमसेसासेससमयपबद्धाणं जहाणिसेओ णिरूद्धिदीए णियमा अत्थि जाव असंखेज्जाणि पल्लिदोवमपढमवग्गमूलाणि. हेट्ठो ओसरियूण बद्धसमयपबद्धस्स जहाणिसेओ

उससे लेकर ऊपरकी स्थितियोंमें प्रकृत समयप्रबद्धके निषेक देखे जाते हैं। अवस्तुविकल्पके अन्तदीपकरूपसे इस विकल्पका कथन किया है। इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके जघन्य आवाधाप्रमाण अवस्तुविकल्पोंका कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—आवाधा कालके भीतर निषेकरचना नहीं होती है ऐसा नियम है और यहाँ पर यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको उदय समयमें प्राप्त करना है। किन्तु यह तभी हो सकता है जब जघन्य आवाधाके सब समय गल जावें। इसलिए यहाँ पर जघन्य आवाधाके भीतर किसी भी समयमें वँधे हुए यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके अस्तित्वका विवक्षित स्वामित्व समयमें निषेध किया है। सूत्रमें अन्तदीपक रूपसे मात्र अन्तिम विकल्पका निर्देश किया है, इसलिए उससे आवाधा कालके भीतर बन्धको प्राप्त होनेवाले उन सब यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका विवक्षित स्वामित्व समयमें प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

* आवाधाके एक समय अधिक होने पर उस अन्तिम समयप्रबद्धका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें है ।

§ ६२०. क्योंकि आवाधाप्रमाण कालको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके प्रकृत समय-प्रबद्धका निषेक विवक्षित स्थितिमें देखा जाता है। इस सूत्रमें जघन्य पदके ग्रहण द्वारा उसकी अनुवृत्ति करके उससे आवाधाको विशेषित करना चाहिये।

* फिर वहाँसे लेकर पदके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण पीछेके कालके भीतर जितने समयप्रबद्ध बँधते हैं उनका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें नियमसे है ।

§ ६२१. उससे अर्थात् एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयप्रबद्ध बँधता है उससे लेकर पदके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण स्थान नीचे जाकर वँधे हुए समयप्रबद्धके यथानिषेक तकके पीछेके बाकी सब समयप्रबद्धोंका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें नियमसे है ।

त्ति । हेट्टिमासेसकम्महिदिअब्भंतरसंचिदसव्वदव्वस्स जहाणिसेओ अहियारिद्विदीए
 किण्ण लब्भइ त्ति भणिदे ण, ओकङ्कुक्कण्णहि तस्स णिल्लेवणसंभवेण णिरंतरत्थित्त-
 णियमाभावादो । तं जहा—एयसमयम्मि बद्धकम्मपोग्गलदव्वं णिच्छएणासंखेज्ज-
 पल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तणिसेएसु णिरंतरमवट्ठाणं लहइ । पुणो तदुवरिमगोबुच्छ-
 प्पहुडि ओकङ्कुक्कण्णवसेण एयपरमाणुणा विणा सुद्धा होऊण गच्छइ । एवं
 णिल्लेविदे अहियारगोबुच्छार उवरि तदित्थसमयपबद्धणिसेओ जहाणिसेयणिसेय-
 सरूवेण ण लब्भइ, तेण असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलपमाणवेदयकालरसेव गहणं
 कयं । अदो चेय णियमा अत्थि त्ति परुविदं, अणियमेण हेट्टिमाणं पि सांतरसरूवेण
 संभवविरोहाभावादो । किनेसो अथाणिसेयसंचयकालो बहुओ आहो एयगुणहाणि-
 ट्ठाणंतरमिदि ? एसो कालो असंखेज्जगुणो, एत्थासंखेज्जगुणहाणीणमुवलंभादो ।
 तम्हा एत्तियमेत्तकालब्भंतरसंचओ अप्पहाणीकयहेट्टिमसमयपबद्धो णिरुद्धिद्विदीए
 जहाणिसेयसरूवेण णियमा अत्थि त्ति सिद्धं ।

शंका—पीछेकी सब कर्मस्थितियोंके भीतर संचित हुए द्रव्यका यथानिषेक अधिकृत
 स्थितिमें क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा उक्त द्रव्यका अभाव सम्भव है,
 इसलिये उसका निरन्तर अस्तित्व पाये जानेका कोई नियम नहीं है । खुलासा इस प्रकार है—
 एक समयमें जो पुद्गल द्रव्य वैधता है उसका नियमसे पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण
 निषेकोमें निरन्तर अवस्थान पाया जाता है । फिर इससे उपरिम गोपुच्छासे लेकर एक
 परमाणुके बिना शेष सब द्रव्यका अपकर्षण-उत्कर्षणके कारण अभाव हो जाता है । इस प्रकार
 उसका अभाव हो जाने पर अधिकृत गोपुच्छामे वहाँके समयप्रबद्धका निषेक यथानिषेकरूपसे
 नहीं पाया जाता है, इसलिये यहाँ पर पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण वेदकालका
 ही ग्रहण किया है । और इसीलिये सूत्रमें 'णियमा अत्थि' यह कहा है, क्योंकि अनियमसे
 पीछेके समयप्रबद्धके कर्मपरमाणुओंका भी यहाँ सान्तररूपसे सद्भाव माननेमें कोई विरोध
 नहीं आता ।

शंका—क्या यह यथानिषेकका संचय काल बहुत है या एक गुणहानिस्थानान्तर-
 प्रमाण है ?

समाधान—यह काल एक गुणहानिस्थानान्तरके कालसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि
 यहाँ असंख्यात गुणहानियाँ पाई जाती हैं ।

इसलिये इतने कालके भीतर जो संचय होता है वह विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकरूपसे
 नियमसे है यह बात सिद्ध हुई । किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इसमें इस कालसे
 पीछेके समयप्रबद्धके द्रव्यको गौण कर दिया है ; अर्थात् उस द्रव्यका यहाँ पाया जाना यद्यपि
 सम्भव तो है पर नियम नहीं, इसलिये उसकी विवक्षा नहीं की है ।

विशेषार्थ—प्रत्येक कर्म वैधनेके बाद वेदकाल तक तो नियमसे पाया जाता है । उसके
 बाद उसके पाये जानेका कोई नियम नहीं है । वेदकाल पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण होता

§ ६२२. एवमेदं परूविय संपहि एदस्सेव उकस्सअधाणिसेयसंचयस्स पमाण-
गवेसणद्वमुवरिमो सुत्तपबंधो—

❀ एकस्स समयपबद्धस्स एकस्से दिदीए जो उक्कस्सओ
अधाणिसेओ तत्तो केवडिगुणं उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ५२३. गिरुद्धिदीदो समयुत्तरजहण्णाबाहमेत्तमोसक्कियूणावद्विदो जो
समयपबद्धो उक्कस्सजोगेण बद्धो तस्स एयस्स समयपबद्धस्स एकस्से जहण्णावाहा-
बाहिरद्विदीए जो उक्कस्सओ अधाणिसेओ तत्तो केवडिगुणं पल्लिदोवमासंखेज्जदि-
भागमेत्तसगुक्कस्ससंचयका ऋभंतरगलिदावसिद्वणाणासमयपबद्धप्पयसुक्कस्सयमधाणिसेय-
द्विदिपत्तयं ? किं संखेज्जगुणमाहो असंखेज्जगुणमिदि पुच्छिदं होइ । एवं पुच्छिदे
एवदिगुणमिदि परूविससमाणो तस्सेव ताव गुणयारस्स पमाणपरूवणद्वमवहार-
कालप्पावहुअं णिदरिसणसरूवेण भणदि—

❀ तस्स णिदरिसणं ।

§ ६२४. तस्स गुणयारस्स सरूवपदंसणद्वं णिदरिसणं भणिस्सामो त्ति
वुत्तं होइ ।

❀ जहा ।

है जिसे पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण बतलाया है । इसीलिये यहाँ पर विवक्षित
स्थितिसे वेदककालके भीतरके यथानिषेकोंका सद्भाव नियमसे बतलाया है ।

§ ६२२. इस प्रकार इसका कथन करके यथानिषेकेके इसी उत्कृष्ट प्रमाणका विचार
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* एक समयप्रबद्धकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिषेक है उससे यह उत्कृष्ट
यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना गुणा है ?

§ ६२३. विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान पीछे
जाकर उत्कृष्ट योगसे बाँधा गया जो समयप्रबद्ध अवस्थित है उस एक समयप्रबद्धकी जघन्य
आबाधाके बाहरकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिषेक प्राप्त होता है उससे पल्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण अपने उत्कृष्ट संचयकालके भीतर गलाकर शेष वचा हुआ नाना समयप्रबद्ध-
सम्बन्धी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना गुणा होता है ? क्या संख्यातगुणा होता है
या असंख्यातगुणा होता है, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह बात पृथगी गई है । इस प्रकार पृथने
पर इतना गुणा होता है यह बतलानेकी इच्छासे सर्व प्रथम उसी गुणकारके प्रमाणका कथन
करनेके लिये पहले उदाहरणरूपमें अवहारकालका अस्पवहुत्व कहते हैं—

* उसका उदाहरण देते हैं ।

§ ६२४. अब उसके अर्थात् गुणकारके स्वरूपको दिखलानेके लिए उदाहरण कहेंगे यह
उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* यथा—

§ ६२५. तं जहा त्ति आसंकावयणमेदं ।

❀ ओकडु कडुणाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो ।

§ ६२६. एयसमयम्मि जं पदेसग्गमोकडुदि उकडुदि वा तस्स पदेसग्गस्स आगमणहेदुभूदो जो अवहारकालो सो थोवयरो त्ति भणिदं होदि ।

❀ अधापवत्तसंक्रमेण कम्मस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो ।

§ ६२७. जइ वि एत्थ मिच्छत्तस्स अधापवत्तसंक्रमो णत्थि तो वि ओकडु-कडुणभागहारस्स पमाणपरिच्छेदकरणद्वमेदस्स तत्तो असंखेज्जगुणत्तं परुविदं । एदम्हादो थोवयरीभूदो ओकडुकडुणभागहारो एत्थ गुणयारो होदि त्ति । अथवा सोलसकसाय-णवणोकसायाणमेयसमयम्मि बद्धमेयद्विदिणिसिचपदेसग्गमावलिमत्त-काले बोलीणे पुणो उवरिमसमपप्पहुडि ओकडुकडुणाए विणासं गच्छइ । परपयडि-संक्रमेण वि तत्थोकडुकडुणाए विणासिज्जमाणदंवं पहाणं, परपयडिसंक्रमेण त्रिणासिज्जमाणदंवंपप्पहाणमिदि जाणावणद्वमेदमवहारकालप्पावहुगं भणिदं, अण्णहा तदवगमोवायाभावो ।

❀ ओकडुकडुणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ६२५. यह 'तद्यथा' इस प्रकार आशंकावचन है ।

* अपकर्षण-उत्कर्षण द्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह सबसे थोड़ा है ।

§ ६२६. एक समयमे जो कर्म अपकर्षित होता है या उत्कर्षित होता है उस कर्मको प्राप्त करनेके लिये जो अवहारकाल है वह सबसे थोड़ा है यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

* उससे अथःप्रवृत्तसंक्रमणद्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह असंख्यातगुणा है ।

§ ६२७. यद्यपि यहाँ मिथ्यात्वका अथःप्रवृत्तसंक्रम नहीं होता है तो भी अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणका निर्णय करनेके लिये इसे उससे असंख्यातगुणा बतलाया है । इस भागहारसे अल्परूप जो अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार है वह यहाँ गुणकार होता है । अथवा सोलह ऋपाय और नौ नोऋपायोसे एक समयमे वैधा हुआ जो द्रव्य एक स्थितिमे निश्चित हुआ है वह एक आवलि कालके व्यतीत होने पर उपरिम समयसे लेकर अपकर्षण-उत्कर्षण द्वारा विनाशको प्राप्त होता है । यहाँ परप्रकृतिसंक्रमणकी अपेक्षा अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा विनाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य ही प्रधान है किन्तु परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा विनाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य प्रधान नहीं है इस प्रकार इस बातको जतानेके लिये यह अवहारकालविषयक अल्पवहुत्व कहा है, अन्यथा उसका ज्ञान नहीं हो सकता है ।

* अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह पल्पके असंख्यातवै भागप्रमाण है ।

§ ६२८. जो पुर्व्वं थोवभावेण परुविदो ओकडुकडुणाए कम्मस्स अवहारकालो सो पमाणेण पल्लिदोवसस्स असंखेज्जदिभागो होइ । कथमेदं परिच्छिज्जदे ? एदम्हादो चेव मुत्तादो । संपहि एवमवहारिदपमाणस्स ओकडुकडुणभागहारस्स पयदगुणगारत्त-विहाणद्वयुत्तरमुत्तं—

✽ एवदिगुणमेकस्स समयपवद्धस्स एकस्सिस्से द्विदीए उक्कस्सयादो जहाणिसेयादो उक्कस्ससयमथाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६२९. जावदिओ एसो ओकडुकडुणाए कम्मस्स अवहारकालो एवदिगुणं णिरुद्धद्विदीदो समयुत्तरजट्टणावाहमेत्तमोसकियुण वद्धसमयपवद्धपदमणिसेय-पडिवद्धादो उक्कस्सयादो अथाणिसेयादो ओषुकस्ससयमथाणिसेयद्विदिपत्तयं सगसंचय-कालम्भंतरसंचयं होइ ति भणिदं होदि ।

§ ६३०. संपहि एदेण सुत्तेण परुविदो कडुकडुणभागहारमेत्तगुणगारसाहणद्व-मिमा ताव परुवणा कीरदे ; तं जहा—उक्कस्ससयसाभित्तसमयादो हेहदो समयुत्तर-

§ ६२८. जो पहले अल्परूपसे कर्मका अकर्षण-उत्कर्षणअवहारकाल कहा है वह पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

इस प्रकार अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणका निश्चय करके अब उसका प्रकृत गुणकाररूपसे विधान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ एक समयपवद्धकी एक स्थितिमें प्राप्त उत्कृष्ट यथानियेकसे उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्त द्रव्य इतना गुणा है ।

§ ६२९. अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा कर्मका यह अवहारकाल जितना है, विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयपवद्ध वैधा है उसके प्रथम नियेकसम्बन्धी उत्कृष्ट यथानियेकसे ओष उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अपने संचयकालके भीतर संचय रूप होता हुआ उत्तना गुणा है यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

विशेषार्थ—यहाँ विवक्षित स्थितिमें यथानियेकस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य कितना होता है इसका प्रमाण वतलाया है । यह तो पहले ही वतला आये हैं कि इसमें कितने कालके भीतर संचित हुए यथानियेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका ग्रहण किया गया है । अब उस संचयको प्राप्त करनेके लिये यह करना चाहिये कि विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयपवद्ध वैधा हो उसके प्रथम नियेकमें जितना उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्त द्रव्य हो उसे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणा कर देना चाहिये । सो ऐसा करनेसे विवक्षित स्थितिमें उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । वह उक्त कथनका तात्पर्य है । यहाँ प्रकरणसे कुछ अवहार कालोका अल्पवहुत्व भी वतलाया है सो वह अपकर्षण-उत्कर्षण अवहारकालका प्रमाण प्राप्त करनेके लिये ही वतलाया है ऐसा समझना चाहिये ।

§ ६३०. इस सूत्र द्वारा जो अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण गुणकार कहा है सो उसका सिद्धिके लिये अब यह प्ररूपणा करते हैं । यह इस प्रकार है—उत्कृष्ट स्वामित्वके समयसे नीचे

जहण्णावाहाए द्वाइदूण जं वद्धकम्मं तं दिवहुगुणहाणीए खंडेयूणेयखंडमहियार-
गोपुच्छाए उवरि संखुहदि । संपहि एदं वंधावलियादिवकंतमोकहु कहुणभागहारेण
खंडिय तत्थेयखंडं हेद्दा उवरिं च संखुहिय णासेइ । पुणो विदियसमयस्मि सेसदन्व-
मोकहु कहुणभागहारेण खंडेयूणेयखंडमेत्तं विणासेइ । णवरि पढमसमयस्मि त्रिणासिद-
खंडादो विदियसमयविणासिदखंडं त्रिसेसहीणं होइ । केत्तियमेत्तेण ? पढमसमयस्मि
विणासिददन्वं ओकहु कहुणभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । एवं तदियसमए वि
विणासेदि । एत्थ वि अणंतरत्रिणासिददन्वादो त्रिसेसहीणपमाणं पुवं व वत्तवं ।
एवं चेव चउत्थसमयप्पहुडि गच्छइ जाव समयुणदोआवलियुणजहण्णावाहमेत्तकालो
त्ति । किं कारणं समयुणदोआवलियाओ ण लब्भंति त्ति भणिदे समयुत्तरजहण्णा-
वाहाए द्वाइदूण वद्धं जं कम्मं तमावाहापढमसमयप्पहुडि समयुणावलियमेत्तकालं
वोलाविय ओकहु कहुणसरूवेण मासेहुं पारभदि । पुणो ताव ओकहु कहुणाए वावारो
जाव अहियारदिदी उदयावलियं चरिमसमअपविद्दा त्ति । उदयावलियभंतरपविद्दाए
पुण गत्थि ओकहुणा उक्कहुणा वा । तेण कारणेणेदं सयत्तमुदयावलियं पुत्तिवल्-

एक समय अधिक जघन्य आवाधाको स्थापित करके वहाँ जो कर्म बंधा हो उसमे डेह-
गुणहानिका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो वह अधिकारप्राप्त गोपुच्छामे
निक्षिप्त होता है । फिर बंधावलिके वाद् इस द्रव्यको अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे भाजित करके
जो एक भाग प्राप्त होता है उसका नीचे-ऊँचे निक्षेप करके नाश कर देता है । फिर शेष द्रव्यमें
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त होता है उसका दूसरे समयमें
नाश करता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयमें द्रव्यके जितने हिस्सेका नाश हांता
है उससे दूसरे समयमें नाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य विशेषहीन होता है ।

शंका—कितना कम होता है ?

समाधान—प्रथम समयमे विनाशको प्राप्त होनेवाले द्रव्यमे अपकर्षण-उत्कर्षण भाग-
हारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना कम होता है ।

इसी प्रकार तीसरे समयमे भी द्रव्यका नाश करता है । यहाँ पर भी पूर्व समयमें विनाशको
प्राप्त हुए द्रव्यसे विशेष हीनका प्रमाण पहलेके समान जानना चाहिये । इसी प्रकार चौथे समयसे
लेकर एक समय कम दो आवलियोसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण कालके प्राप्त होने तक यह
जीव उत्तरोत्तर प्रत्येक समयमे द्रव्यका नाश करता जाता है ।

शंका—यहाँ एक समय कम दो आवलियों क्यों नहीं प्राप्त होती हैं ?

समाधान—एक समय अधिक जघन्य आवाधा कालको स्थापित करके उस समय जो
कर्म बंधता है उसे आवाधाके प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलि कालके वाद्
अपकर्षण-उत्कर्षणरूपसे ग्रहण करता है । फिर यह अपकर्षण-उत्कर्षणका व्यापार तब तक चालू
रहता है जब तक अधिकृत स्थिति उदयावलिके अन्तिम समयमे प्रवेश नहीं करती । उदयावलिके
भीतर प्रवेश करने पर तो अपकर्षण और उत्कर्षण ये दोनों ही नहीं होते । इस कारणसे इस पूरी

समयूणवंधावलिं च एकदो मेलाविय एदाहि समयूणदोआवळियाहि परिहीणजहण्णा-
वाहामेत्तो तदिदियणिसेयस्स ओकड्डुक्कड्डुणकालो होइ ति भणिदं ।

§ ६३१. संपहि एदमेत्तियकालणद्वद्वमिच्छिय सयलेयसमयपवद्धं ठविय
एदस्स हेठा दिवड्डुगुणहाणिपदुप्पणमोकड्डुक्कड्डुणभागहारं समयूणदोआवळियूण-
जहण्णावाहाए ओवट्टिय विसेसाहियं काऊण भागहारभावेण, द्विदे गट्टासेसद्व-
मागच्छइ । पुणो गट्टसेसमधाणिसेयद्वमिच्छामो त्ति एयसमयपवद्धं ठवेयूण सादिरेय-
दिवड्डुगुणहाणिमेत्तभागहारे ठविदे णासिदसेसद्वमागच्छइ । एदं च पढमणिसेओ त्ति
मणेण संकप्पिय पुध द्वेयव्वं । एगसमयुत्तरजहण्णावाहाए टाइदूण वद्धसमयपवद्धस्स
जहाणिसेयपमाणपरूवणा गदा ।

§ ६३२. दुसमयुत्तरजहण्णावाहाए टाइदूण वद्धसमयपवद्धस्स वि एदं वेव
परूवणा कायव्वा । णवरि पढमणिसेयमोकड्डुक्कड्डुणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडेण
विदियणिसेओ हीणो होइ, एयवारमोकड्डुक्कड्डुणाए पत्ताहियघादत्तादो । एदं च
विसेसहीणदव्वं पुच्चिल्लदव्वस्स पासे विदियणिसेओ त्ति पुध ठवेयव्वं । एवं
त्तिसमयुत्तरावाहावद्धसमयपवद्धपहुडि हेठा ओदारिदूण एगेगणिसेयं पुच्चभागहारेण
विसेसहीणं काऊण णेदव्वं जाव ओकड्डुक्कड्डुणभागहारमेत्तद्धाणे त्ति । एदं वेव

उदयावलिको और पूर्वोक्त एक समय कम बन्धवलिको एकत्रित करने पर इन एक समय कम
दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण वहॉके निषेकका अपकर्षण-उत्कर्षणकाल होता है
यह कहा है ।

§ ६३१. अब इतने कालके भीतर नष्ट हुए इस द्रव्यके लानेकी इच्छासे पूरे एक समय-
प्रबद्धको स्थापित करके इसके नीचे डेढ़ गुणहानिसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारमे एक
समय कम दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आवाधाका भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे विशेषा-
धिक करके भागहाररूपसे स्थापित करने पर नष्ट हुए पूरे द्रव्यका प्रमाण आता है । फिर नष्ट
होनेसे जो यथानिषेक द्रव्य बाकी बचा है उसे लानेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करके
और उसके नीचे साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारके स्थापित करने पर नाश होनेसे बाकी
बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आता है । यहाँ यह जो बाकी बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आया है इसे
मनसे प्रथम निषेक मानकर अलगसे स्थापित करे । इस प्रकार एक समय अधिक जघन्य
आवाधाको स्थापित करके बचे हुए समयप्रबद्धमें जो यथानिषेकका प्रमाण प्राप्त होता है उसका
कथन समाप्त हुआ ।

§ ६३२. दो समय अधिक जघन्य आवाधाको स्थापित करके बंधे हुए समयप्रबद्धका
भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम निषेकमे अपकर्षण-
उत्कर्षणभागहारका भाग देनेसे वहाँ जो एक भाग प्राप्त हो दूसरा निषेक उतना हीन होता है,
क्योंकि यहाँ अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारका एकबार अधिक भाग दिया गया है । इस विशेष हीन
द्रव्यको पूर्वोक्त द्रव्यके पासमें दूसरा निषेक मानकर पृथक् स्थापित करना चाहिये । इसी प्रकार
तीन समय अधिक आवाधाको स्थापित कर बद्धसमयप्रबद्धसे लेकर पीछे जाकर एक-एक
निषेकको पूर्वोक्त भागहार द्वारा एक-एक भाग कम करके अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण स्थानके

एयगुणहाणिअद्दाणपमाणमिदि धूलसरुवेण गहेयव्वं ।

§ ६३३. पुणो विदियगुणहाणिप्पहुडि हेट्ठदो बहुगं भ्नीयमाणं गच्छइ जाव अथाणित्सेयकालपढमसमओ ति । एत्थ सव्वत्थ वि गुणहाणिअद्दाणमणंतरपरुविद-मवद्धिदसरुवेण घेत्तव्वं । णित्सेयभागहारो पुण दुगुणोक्कड्डुकुडुणभागहारमेत्तो । एत्थ पुण एरिसीओ असंखेज्जाओ गुणहाणीओ अत्थि, अथाणित्सेयसंचयकालस्स असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गधूलपमाणत्तादो । तदो अथाणित्सेयकालपढमसमयस्मि वद्धसमयपवद्धदव्वमेत्थ चरिमणित्सेओ ति घेत्तव्वं ।

§ ६३४. संपहि एदमसंखेज्जगुणहाणिदव्वं सव्वं समयुत्तरावाहाए ठाइदूण वद्धसमयपवद्धकस्सपढमणित्सेयपमाणेण समकरणं काउण जोइदे दिवडुोक्कड्डुकुडुण-

भागहारमेत्तो गुणगारो उत्पज्जइ । सो च एसो

१
१
२

 । एसो च' सुत्तुत्तुगुणयारादो

अद्दाहिओ जादो ति एदं भोत्तूण पयारंतरेण गुणगारपरुव्वणमणुवत्तइस्सामो । तं जहा—समउत्तरजहण्णावाहाए ठाइदूण वद्धसमयपवद्धसव्वुकस्सजहाणित्सेयप्पहुडि हेट्ठा वित्सेसहीणं वित्सेसहीणं होऊण गच्छमाणमोक्कड्डुकुडुणभागहारदुभागमेत्तद्दाणं

प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये और यही एक गुणहानिस्थानका प्रमाण है ऐसा स्थूलरूपसे ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३३. फिर दूसरी गुणाहानिसे लेकर यथानिषेकके कालके प्रथम समयके प्राप्त होने तक नीचे बहुतसा द्रव्य क्षयको प्राप्त हो जाता है । यहाँ सर्वत्र गुणहानिअध्वानको पूर्वमे कहे गये गुणहानिअध्वानके समान अवस्थितरूपसे ग्रहण करना चाहिये । निषेकभागहार तो अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे दूना है । परन्तु यहाँ पर ऐसी असंख्यात गुणहानियाँ होती हैं, क्योंकि यथानिषेकका संचयकाल पत्त्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, इसलिये यथानिषेकके कालके प्रथम समयमे जो समयप्रवद्धका द्रव्य वधता है उसे यहाँ अन्तिम निषेकरूपसे ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३४. अब इस असंख्यात गुणहानिप्रमाण समस्त द्रव्यको एक समय अधिक आवाधाको स्थापित करके उस समय वेंधे हुए समयप्रवद्धके उत्कृष्ट प्रथम निषेकके प्रमाणरूपसे समीकरण करके देखने पर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे डेढ़ गुणा गुणकार उत्पन्न होता है । वह यह १½ है । और यह सूत्रोक्त गुणकारसे अर्धभागप्रमाण अधिक हो गया है, इसलिए इसे छोड़कर प्रकारान्तरसे गुणकारका कथन बतलाते हैं । वह इस प्रकार है—एक समय अधिक जघन्य आवाधाको स्थापित करके जो समयप्रवद्ध वेंधता है उसके सबसे उत्कृष्ट यथानिषेकसे लेकर पीछेके निषेक एक एक चय कम होते जाते हैं । और इस प्रकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका

१. ता० प्रतौ 'एसो

१
२
३

 । एसो च' इति पाठः ।

गंतूणेगसमयपबद्धपडिबद्धकस्सजहाणिसेयद्धपमाणं चेद्वदि । एदं चेव एयगुणहाणि-
पमाणमिदि घेतव्वं । एवमुवरि वि सव्वत्थोकड्डुक्कड्डुणभागहारं णिसेयभागहारं
काऊण णेदव्वं जाव जहाणिसेयकालपढमसमओ ति । पुणो पुव्वं व सव्वदव्वे
पढमणिसेयपमाणेण कदे ओकड्डुक्कड्डुणभागहारस्स तिण्णिचउव्वभागमेता पढमणिसेया
होंति । एत्थ वि गुणगारो सुत्तुत्तपमाणे ण जादो तम्हा सुत्तुत्तगुणगारुपायणद्वमेत्थो-
कड्डुक्कड्डुणभागहारस्स वेतिभागमेत्तं गुणहाणिअद्धाणमिदि घेतव्वं ।

§ ६३५. संपहि एदस्स गुणहाणिअद्धाणस्स साहणद्वमिमा परूवणा कीरदे ।
तं जहा—जहाणिसेयपढमगुणहाणिपढमणिसेयपहुडि हेद्दा जहाकमं जहाणिसेय-
गोपुच्छपंती रचेयव्वा जाव ओकड्डुक्कड्डुणभागहारवेतिभागमेत्तद्धाणमोयरिय द्विदगोवुच्छा
त्ति । एदं चेव एयगुणहाणिद्वानंतरं । एवं विरचिदपढमगुणहाणिदव्वे णिसेयं पडि
चरिमगोवुच्छपमाणं मोत्तूण सेसमहियदव्वं घेतूण पुध द्ववेयव्वं । एवं ठविदअहियदव्व-
पमाणगवेसणं कस्सामो । तत्थ ताव चरिमणिसेयादो अणतरोवरिमगोवुच्छा
एयपक्खेवमेत्तेण अहिया होइ । तस्स पमाणं केत्तिरं ? जहण्णणिसेयस्स संखेज्जदि-
भागमेत्तं । तस्स को पडिभागो ? रूवूणोकड्डुक्कड्डुणभागहारो ? तं पि कुदो ? एकवार-

जितना प्रमाण है उससे अर्धभागप्रमाण स्थान जाकर एक समयप्रबद्धसे प्रतिबद्ध उक्त
यथानिषेकका प्रमाण आधा प्राप्त होता है । और यही एक गुणहानिका प्रमाण है ऐसा यहाँ
ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार आगे भी सर्वत्र अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको निषेकभागहार
करके यथानिषेक कालके प्रथम समयके प्राप्त होनेतक ले जाना चाहिये । फिर पहलेके समान
सब द्रव्यको प्रथम निषेकके प्रमाणरूपसे करनेपर अपकर्षण उत्कर्षणभागहारके तीन बटे चार
भागप्रमाण प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं । यहाँ पर भी गुणकार सूत्रमें कहे गये गुणकारके बराबर
नहीं हुआ है, इसलिये सूत्रमें कहे गये गुणकारको उत्पन्न करनेके लिये यहाँ पर अपकर्षण-
उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण गुणहानिअध्वान है ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३५. अब इस गुणहानिअध्वानकी सिद्धिके लिये यह प्ररूपणा करते हैं । वह इस
प्रकार है—यथानिषेककी प्रथम गुणहानिके प्रथम समयसे लेकर नीचे अपकर्षण-उत्कर्षण
भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाकर जो गोपुच्छा स्थित है उसके प्राप्त होने तक
क्रमसे यथानिषेक गोपुच्छाओंकी पैक्तिकी रचना करना चाहिये और यही एक गुणहानि-
स्थानान्तरका प्रमाण है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके द्रव्यको स्थापित करके उसके प्रत्येक
निषेकमेसे अन्तिम गोपुच्छाके प्रमाणके सिवा शेष अधिक द्रव्यको एकत्रित करके अलग
रख दे । इस प्रकार अलग रखे गये अधिक द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं । यहाँ पर अन्तिम
निषेकका जितना प्रमाण है उससे अनन्तर उपरिम गोपुच्छाका प्रमाण एक प्रत्येपमात्र
अधिक है ।

शंका—उसका प्रमाण कितना है ?

समाधान—जघन्य निषेकके संख्यातवें भागप्रमाण है ।

शंका—उसका प्रतिभाग क्या है ?

पत्ताहियघादत्तादो । रूवूणत्तमेथाणवेक्खिय संपुण्णोकड्डुकड्डुणभागहारमेत्तो पक्खेव-
पडिभागो धेत्तव्वो । एवं चरिमणिसेयादो दुचरिमणिसेयस्स विसैसो परूविदो ।

§ ६३६. संपहि दुचरिमादो तिचरिमस्स अहियदव्वपमाणाणुगमं कस्सामो ।
तं जहा—दुचरिमणिसेयं दोपडिरासीओ कारूण तत्थेयमोकड्डुकड्डुणभागहारेण खंडिय
पडिरासीकरासीए उवरि पक्खित्ते तिचरिमणिसेओ उप्पज्जइ त्ति एत्थ चरिमणिसेयादो
अहियदव्वपमाणं दो पक्खेवा एओ च पक्खेवपक्खेवो होइ । एदं पि पुव्वं व
पडिरासिय तत्थेयमोकड्डुकड्डुणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडं तत्थेव पक्खित्ते
चउचरिमणिसेओ उप्पज्जइ त्ति तत्थ वि जहणणदव्वादो अहियपमाणं तिण्णिण पक्खेवा
तिण्णिण चेव पक्खेवपक्खेवा अण्णेणो च तप्पक्खेवो ल्ळभइ । तहा पंचचरिमे वि
पुव्वविहाणेण चत्तारि पक्खेवा छ पक्खेवपक्खेवा चत्तारि च तप्पक्खेवा अण्णेणा
च चुण्णी होइ । पुणो तत्तो उवरिमे वि पंच पक्खेवा दस पक्खेवपक्खेवा तत्तियमेत्ता
चेव तप्पक्खेवा पंच चुण्णीओ अवरेगा च चुण्णाचुण्णी अहियसरूवेण ल्ळभंति ।
एवं जत्तियमद्धानुमुचरिं चदिय विसैसगवेसणा कीरइ चरिमणिसेयादो तत्थ तत्थ
रूवूणचडिदद्धानुमेत्ता पक्खेवा दुखूणचडिदद्धानुसंकलणमेत्ता च पक्खेवपक्खेवा

समाधान—एक कम अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार है ।

शंका—ऐसा क्यों है ?

समाधान—क्योंकि वह एक बार अधिक घातसे प्राप्त हुआ है ।

यद्यपि ऐसा है तो भी एक कमकी विवक्षा न करके यहाँ पर प्रक्षेपका प्रतिभाग सम्पूर्णा
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण लेना चाहिये । इस प्रकार चरम निषेकसे द्विचरम निषेकसे
विशेषका कथन किया ।

§ ६३६. अब द्विचरम निषेकसे त्रिचरम निषेकमे जो अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका
विचार करते हैं । वह इस प्रकार है—द्विचरम निषेककी दो प्रति राशियाँ स्थापित करो । फिर
उनमेसे एकमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग दो । भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे अलग
स्थापित की गई दूसरी राशिमें मिला देने पर त्रिचरम निषेक उत्पन्न होता है, अतः उस त्रिचरम
निषेकमेचरम निषेकसे अधिक द्रव्यका प्रमाण दो प्रक्षेप और एक प्रक्षेपप्रक्षेप है । अब इस त्रिचरम-
निषेककी भी पूर्ववत् प्रतिराशि करो । फिर उनमेंसे एकमे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग
दो । भाग देनेसे जो एक भाग लब्ध आवे उसे अलग स्थापित की गई उसी राशिमें मिला देनेपर
चतुश्चरम निषेक उत्पन्न होता है, अतः उस निषेकमे भी जघन्य द्रव्यसे जो अधिक द्रव्य है उसका
प्रमाण तीन प्रक्षेप, तीन प्रक्षेप-प्रक्षेप और एक तत्प्रक्षेप प्राप्त होता है । इसी प्रकार पाँचवें चरम-
निषेकमे भी पूर्व विधिसे अधिक द्रव्यका प्रमाण चार प्रक्षेप, छह प्रक्षेप-प्रक्षेप, चार तत्प्रक्षेप
और एक चूर्णि होता है । फिर इससे ऊपरके निषेकमें भी पाँच प्रक्षेप, दस प्रक्षेप-प्रक्षेप, उतने
ही अर्थात् दस ही तत्प्रक्षेप, पाँच चूर्णि और एक चूर्णिचूर्णि अधिक द्रव्य रूपसे उपलब्ध होते हैं ।
इस प्रकार जितना अध्वान ऊपर जाकर अधिक द्रव्यका विचार करते हैं अन्तिम निषेकसे वहाँ
एक कम ऊपर गये हुए अध्वान प्रमाण प्रक्षेप, दो कम ऊपर गये हुए अध्वानके संकलनप्रमाण

तिरूवूणचडिदद्धानसंकलणासंकलणामेत्ता च तप्पक्खेत्ता उप्पाएयच्चा, तेसि चेव पहाणत्तादो ।

§ ६३७. संपहि पढमणिसेयमस्सियूण चरिमणिसेयादो विसेसपमाणपरिकत्ता कीरदे । तत्थ ताव रूवूणोकड्डुकड्डुणभागहारवेतिभागमेत्ता पक्खेत्ता लब्धति । ते च एदे

६२
६३

 । संपहि एत्थ जइ ओकड्डुकड्डुणभागहारतिभागमेत्ता पक्खेत्ता अत्थि तो एदं

चरिमणिसेयपमाणं पावइ । तदो तेसिमुप्पायणविहिं वत्तइस्सामो । चडिदद्धानसंकलण-

मेत्ता पक्खेवपक्खेत्ता वि एत्थत्थि ति

०६२।६१२
६६।३३।२

 एवमेदे आणिय पक्खेवपमाणेण

कदे ओकड्डुकड्डुणभागहारवेणवभागमेत्ता पक्खेत्ता हँति

०	६	२
	६	६

 । एत्थ जइ

ओकड्डुकड्डुणभागहारस्स णवभागमेत्ता पक्खेत्ता हँति तो एदे तस्स तिभागमेत्ता पक्खेत्ता जायंति । ते पुण तिरूवूणोकड्डुकड्डुणभागहारवेतिभागसंकलणासंकलणमेत्तत्पक्खेवे

आदिं कादूण सेसखंडे अवलंविद्य आणेयच्चा । पुणो ते आणिय पुच्चिन्नोक्कड्डुकड्डुण-
भागहारवेणवभागमेत्तयक्खेत्ताणसुवरि पक्खिविय लद्धकिंचूणत्ततिभागमेत्ते पक्खेवे
घेत्तूण पुच्चपरुविदोक्कड्डुकड्डुणभागहारवेतिभागमेत्तपक्खेत्ताणसुवरि पक्खित्ते जहण्ण-
णिसेयपमाणं पढमणिसेयमस्सियूण अहियदच्चं होइ । एदं च मूलद्वेषेण सह

प्रक्षेपप्रक्षेप, तीन कम ऊपर गये हुए अध्वानके संकलनासंकलनप्रमाण तत्प्रक्षेप उत्पन्न करने चाहिये, क्योंकि यहाँ उनकी ही प्रधानता है ।

§ ६३७. अब प्रथम निषेकमें अन्तिम निषेकसे जितना अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका विचार करते हैं । यहाँ एक अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होते हैं । वे ये हैं—

६२
६३

 । अब यहाँ पर यदि अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके तीसरे भागप्रमाण

प्रक्षेप प्राप्त होते हैं तो यह अन्तिम निषेकके प्रमाणको प्राप्त होता है, इसलिये उनके उत्पन्न करनेकी विधि बतलाते हैं—जितना अध्वान आगे गये हैं उनके संकलनमात्र प्रक्षेपप्रक्षेप भी यहाँ पर हैं इसलिये

०	६२	६२
६६	३३	३२

 इस प्रकार इन्हें लाकर प्रक्षेपके प्रमाणसे करने पर अपकर्षण-

उत्कर्षण भागहारके दो बटे नौ भागप्रमाण प्रक्षेप होते हैं

०	६२
६६	६६

 । यहाँ पर यद्यपि अपकर्षण-

उत्कर्षण भागहारके नौ भागप्रमाण प्रक्षेप होते हैं तो ये उसके त्रिभागमात्र प्रक्षेप हों जाते हैं । परन्तु वे तीन रूप कम अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागके संकलनासंकलनप्रमाण तत्प्रक्षेपोंसे लेकर शेष खण्डोंका अवलम्बन करके ले आने चाहिए । पुनः उन्हें लाकर पूर्वोक्त अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे नौ भागप्रमाण प्रक्षेपोंके ऊपर प्रक्षेप करके लब्ध हुए उसके कुछ कम त्रिभागमात्र प्रक्षेपोंको ग्रहण करके पहले कहे गये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण प्रक्षेपोंके ऊपर प्रक्षेप करनेपर प्रथम निषेकके आश्रयसे जघन्य निषेकप्रमाण अधिक

अहिकयणिसेयादो दुगुणमेतं जादमिदि सिद्धं ओकड्डु कड्डुणभागहारवेतिभागाणं गुणहाणिद्वाणंतरत्तं । एचियमेत्ते गुणहाणिअद्धाने संते सिद्धो सुत्तपरुविदो गुणगारो, सव्वदब्बे पढमणिसेयपमाणेण समकरणे कदे सम्पुप्पणदिवड्डुगुणहाणिगुणयारस्स संपुणोक्कड्डु कड्डुणभागहारपमाणत्तदंसणादो ।

§ ६३८. एवमेत्तिपण पबंधेण उक्कस्सअधाणिसेयद्विदिपत्तयस्स पमाणं जाणाविय संपहि तदुक्कस्ससामित्तपरुवणद्वसुत्तरसुत्तपबंधो—

❖ इदायिसुक्कस्सयअधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ६३६. एवं गिदरिसणपरुवणाए सव्वमवहारिदसखुवसुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्से ति पुव्वपुच्छाए अणुसंधाणसुत्तमेदं ।

❖ सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स जत्तियमधाणिसेयद्विदिपत्तयसुक्कस्सयं तत्तो बिसेसुत्तरकालसुवचणो जो णेरइओ तस्स जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६४०. एदस्स सुत्तस्सत्यो बुचदे—तसुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स होइ ति पदसंबंधो । सेसगईजीवपरिहारेण सत्तमपुढविणेरइयस्सेव सामित्तं किमदं कीरदे ? ण, सेसगईसु संकिलेसविसोहीहि णिज्जरावहुत्तं पेविखय

द्रव्य होता है । किन्तु यह मूल द्रव्यके साथ अधिकृत नियेकसे दूना हो गया है, इसलिय अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागोका गुणहानिस्थानान्तर सिद्ध हुआ । इतने मात्र गुणहानिअध्वानके रहते हुए सूत्रमे कहा गया गुणकार सिद्ध हुआ, क्योंकि सब द्रव्यके प्रथम नियेकके प्रमाणसे समीकरण करने पर उत्पन्न हुआ डेढ़ गुणहानिप्रमाण गुणकार सम्पूर्ण अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणरूपसे देखा जाता है ।

§ ६३८. इस प्रकार इतने कथनके द्वारा उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्तका प्रमाण जताकर अब उसके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रोकी रचना बतलाते हैं—

❖ अब उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्तका स्वामी कौन है ?

§ ६३९. इस प्रकार उदाहरणके कथन द्वारा जिसके पूरे स्वरूपका निश्चय कर लिया है और जिसके उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयमे पहले पृच्छा कर आये हैं अब उसी उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका अनुसन्धान करनेके लिये यह सूत्र आया है—

❖ सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्तका जितना फाल है उससे विशेष अधिक कालके साथ जो नारकी उत्पन्न हुआ है वह उस यथानियेकके जघन्य कालके अन्तमें उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्तका स्वामी है ।

§ ६४०. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—वह उत्कृष्ट यथानियेकस्थितिप्राप्त द्रव्य सातवीं पृथिवीके नारकीके होता है ऐसा यहाँ पदोका सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—श्रेय गतिके जीवोको छोड़कर सातवीं पृथिवीके नारकीको ही स्वामी क्यों बतलाया है ?

तहाविहाणादो । तं जहा—सेसगदीसु विसोहिकाले बहुअमोकडिय हेहा संछुहइ । संकिलेसेण वि बहुअमुकडियूणवरि संछुहइ ति दोहि मि पयारेहिं अहियारगोवुच्छाप बहुदन्ववओ होइ । सत्तमपुढविणेरइयम्मि पुण एयंतेण संकिलेसो चेव तेणेयपयारेणेव तत्थ णिज्जरा होइ ति सेसपरिहारेण तस्सेव गहणं कदं । अथवा सत्तमपुढविणेरइयस्स संकिलेसवहुलस्स णिकाचणादिकरणेहि बहुअं दन्वमधाणिसेयट्टिदिपत्तयसरूवेण लभइ, ण सेसगईसु ति एदेणाहिप्पाएण तत्थेव सामित्तं दिण्णं ।

§ ६४१. संपहि तस्सेव विसेसलक्खणपरूवणद्वमुत्तरमुत्तावयवकळावो—एत्थ जत्तियमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयमिदि उत्ते पुवं परूविदासंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलपमाणुक्कस्सजहाणिसेयसंचयकालमेत्तमिदि धेत्तव्वं । तं कुदो परिच्छिज्जदे ? तत्तो विसेसुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ ति मुत्तावयवादो । एत्थ विसेसुत्तरपमाणमपज्जत्तकालेण सह गदजहण्णावाहमेत्तमिदि गहेयव्वं, आवाहाब्भंतरे जहाणिसेयसंभवाभावादो अपज्जत्तकाले वि जोगवहुत्ताभावेण सव्वुक्कस्सपदेससंचयाणुववतीदो । तस्स जहण्णेण इदि वुत्ते तस्स तारिसस्स णेरइयस्स जहण्णेण अंतोमुहुत्तेणम्भहिय-

समाधान—नहीं, क्योंकि शेष गतियोंमें संक्लेश और विशुद्धिके कारण बहुत निर्जप होती है, इसलिये उसे देखते हुए ऐसा विधान किया है । खुजाखा इस प्रकार है—शेष गतियोंमें विशुद्धिके समय बहुत द्रव्यका अपकर्षण होकर उसका नीचेकी स्थितियोंमें निक्षेप होता है और संक्लेशके कारण बहुत द्रव्यका उत्कर्षण होकर उसका ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप होता है इस प्रकार वहाँ दोनों ही प्रकारोंसे अधिकृत गोपुच्छाके बहुत द्रव्यका न्यय हो जाता है । किन्तु सातवीं पृथिवीके नारकीके तो एकान्तरूपसे संक्लेश ही पाया जाता है, इसलिये वहाँ एक प्रकारसे ही निर्जप होती है, इसलिये शेष गतियोंका निराकरण करके केवल उसी गतिका ही ग्रहण किया है । अथवा सातवीं पृथिवीका नारकी संक्लेशबहुल होता है, इसलिये उसके निकाचना आदि करणोंके द्वारा यथानिषेकस्थितिप्राप्त रूपसे बहुत द्रव्य पाया जाता है, शेष गतियोंमें नहीं, इस प्रकार इस अभिप्रायसे भी वहाँ पर स्वामित्व दिया है ।

§ ६४१. अब उसीका विशेष लक्षण बतलानेके लिये सूत्रका शेष भाग आया है—यहाँ सूत्रमें जो 'जत्तियमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयं' यह कहा है सो उससे पहले कहे गये पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण उत्कृष्ट यथानिषेक संचयकालका ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रमें जो 'तत्तो विसेसुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ' यह वचन कहा है उससे जाना जाता है ।

यहाँ पर विशेषोत्तर कालका प्रमाण अपर्याप्त कालके साथ व्यतीत हुआ जघन्य आवाधा-प्रमाण काल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक तो आवाधाकालके भीतर यथानिषेकोंकी सम्भावना नहीं है और दूसरे अपर्याप्त कालमें भी बहुत योग न होनेके कारण सर्वोत्कृष्ट प्रदेश संचय नहीं बन सकता है । तथा सूत्रमें जो 'तस्स जहण्णेण' यह कहा है सो इसका यह आशय है कि जो

मुक्कस्सयमधाणिसेयकालं भवद्विदीए आदिम्मि काऊणुप्पज्जिय सव्वलहुं सव्वाओ पज्जत्तीओ समाणिय उक्कस्सयजहाणिसेयद्विदिपत्तयस्सादिं कादूण पुरदो भण्णमाण-सयविसुद्धीए सम्ममणुपालिदत्तकालस्स त्कालचरिमसययम्मि वट्टमाणयस्स उक्कस्सय-मधाणिसेयद्विदिपत्तयं होइ त्ति घेत्तव्वं । अहवा जत्तिएण कालेण उक्कस्सयमधा-णिसेयद्विदिपत्तयं होइ तस्स कालस्स संगहो कायव्वो । केत्तिएण च कालेण तस्स संचओ ? जहण्णएण अधाणिसेयकालेण । एतहुत्तं भवति—अधाणिसेयकालो जहण्णओ वि अत्थि उक्कस्सओ वि । तत्थुक्कस्सकालअभंतरे ओकड्डु कड्डुणाए बहु-दव्वविणासेण लाहादंसणादो जहण्णकालस्सेव संगहो कायव्वो त्ति । तदो तिरिक्खो वा मणुस्सो वा सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु उववज्जमाणो जहण्णावाहाजहण्णा-पज्जत्तद्धासमासमेत्तंतोमुहुत्तअभियं जहण्णयमधाणिसेयद्विदिपत्तयसंचयकालभवद्विदीए आदिम्मि काऊणुप्पज्जिय छप्पज्जत्तीओ समाणिय उक्कस्सअधाणिसेयद्विदिपत्तयसंचय-माढविय समयविरोहेण समाणित्तकालो जो णेरइओ तस्सुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदि-पत्तयं होइ त्ति सुत्तयसंगहो । जत्थ वा तत्थ वा णिरयाउअभंतरे संचयकालमपरुविय अंतोमुहुत्तववण्णणेरइयप्पहुडि संचयं कराविय सगसंचयकालचरिमसमए सामिंतं

नारकी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक उत्कृष्ट यथानिषेक कालको भवके प्रथम समयमे करके उत्पन्न हुआ है और जिसने अतिशीघ्र सब पर्याप्तियोंको समाप्त करके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तसे लेकर आगे कहीं जानेवाली अपनी विशुद्धिके द्वारा उस कालका भले प्रकारसे रक्षण किया है उस नारकीके उस कालके अन्तिम समयमे उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये । अथवा जितने कालके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य प्राप्त होता है उस कालका यहाँ संग्रह करना चाहिये ।

शंका—कितने कालके द्वारा उसका संचय होता है ?

समाधान—यथानिषेकके जघन्य काल द्वारा उसका संचय होता है । आशय यह है कि यथानिषेकका जघन्य काल भी है और उत्कृष्ट काल भी है । उससेसे उत्कृष्ट कालके भीतर अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा बहुत द्रव्यका विनाश हो जानेके कारण लाभ दिखाई नहीं देता है, इसलिये यहाँ जघन्य कालका ही संग्रह करना चाहिये ।

इसलिये जो तिर्यञ्च या मनुष्य सातवीं पृथिवीके नारकियोंमे उत्पन्न हो रहा है वह जघन्य आवाधा और जघन्य अपर्याप्त कालके जोड़रूप अन्तर्मुहूर्त कालसे अधिक यथानिषेकस्थिति-प्राप्तके जघन्य संचयकालको भवस्थितिके प्रथम समयमें प्राप्त करके उत्पन्न हुआ फिर छह पर्याप्तियोंको समाप्त करके और यथानिषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट संचयका आरम्भ करके जब आगममें बतलाई हुई विधिके अनुसार उक्त कालको समाप्त कर लेता है उस नारकीके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थिति प्राप्त द्रव्य होता है यह इस सूत्रका ससुदायार्थ है ।

शंका—नरकायुके भीतर जहाँ कहीं भी संचय कालका कथन न करके नारकीके उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त कालसे लेकर संचयका आरम्भ कराकर फिर अपने संचय कालके अन्तिम समयमे सूत्रकारने जो स्वामित्वका कथन किया है सो उनके ऐसा कहनेका क्या अभिप्राय है ।

भणंतस्स सुत्तयारस्स को अहिप्पाओ ? ण, उवरि संकिलेसविसोहीणं परावत्त-
णुवलंभादो ।

§ ६४२. पुणो वि पयदसामियस्स संचयकालवन्तरे आवासयविसेसपरुवणह-
सुत्तरो सुत्तकत्तावो—

❀ एदम्हि पुण काले सो षेरइओ तप्पाओग्गउक्कस्सयाणि
जोगट्ठाणाणि अभिक्खं गदो ।

समाधान—नहीं, क्योंकि इस काल के सिवा अन्यत्र संक्लेश और विशुद्धिका परावर्तन
नहीं बन सकता है, इसलिये और आगे जाकर ऐसा नहीं कहा है ।

विशेषार्थ—एक तो शेष गतियोंमें कमी संक्लेशकी और कमी विशुद्धताकी बहुलता
रहती है, इसलिये वहाँ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका संचय नहीं हो सकता और दूसरे
यथानिषेकके उत्कृष्ट संचयके लिये निकाचितकरणकी प्राप्ति आवश्यक है । जिसमें विवक्षित
कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीरणा ये कुछ भी सम्भव नहीं
हैं वह निकाचितकरण माना गया है । इस करणकी प्राप्तिके लिए बहुलतासे सक्लेशरूप
परिणामोंकी प्राप्ति आवश्यक है । यतः बहुतायतसे ये परिणाम अन्य गतियोंमें नहीं पाये जाते,
इसलिये भी वहाँ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका संचय नहीं हो सकता । यही कारण है कि
इसका उत्कृष्ट स्वामित्व नरकगतिमें बतलाया है । उसमें भी सातवें नरकके नारकीके जितना
अधिक संक्लेश सम्भव है उतना अन्यत्र सम्भव नहीं है, इसलिये यह उत्कृष्ट स्वामित्व सातवें
नरकके नारकीको दिया गया है । अब यह देखना है कि सातवें नरकमें भी यह उत्कृष्ट स्वामित्व
कब प्राप्त होता है । इस विषयमें चूर्णिसूत्रकारका कहना है कि कोई मनुष्य या तिर्यक ऐसे
समयमें नरकमें उत्पन्न हुआ जब उत्पन्न होनेके कुछ ही काल बाद यथानिषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट
संचयका प्रारम्भ होनेवाला है उसके उस कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें यह उत्कृष्ट
स्वामित्व प्राप्त होता है । यहाँ जां कुछ अधिक काल बतलाया है सो उससे नारकीके योग्य जघन्य
अपर्याप्तकाल और जघन्य आबाधाकाल लेना चाहिये । सातवें नरकमें उत्पन्न होनेके इतने
काल बाद यथानिषेकस्थितिप्राप्तका संचयकाल प्रारम्भ होता है और जब यह काल समाप्त होता
है तब अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । यह संचय काल पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूल
प्रमाण है यह तो पहले ही बतलाया जा चुका है । यद्यपि यह संचयकाल जघन्य और उत्कृष्टके
भेदसे आनेके प्रकारका है फिर भी यहाँ उत्कृष्ट कालका ग्रहण न करके जघन्य कालका ग्रहण किया
है, क्योंकि उत्कृष्ट कालके भीतर अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा बहुत अधिक द्रव्यके विनाश होनेका
भय है । सूत्रमें आये हुए 'जहणणेण' पदसे भी इसी बातका सूचन होता है । यद्यपि इस पदका
जघन्य आबाधा अर्थ करके भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि तब जघन्य आबाधासे
अधिक उत्कृष्ट संचय कालके अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह अर्थ फलित किया जा सकता
है । किन्तु इससे पूर्वोक्त अर्थ मुख्य प्रतीत होता है और यही कारण है कि इस पदके दो अर्थ करके
भी टीकामें पूर्वोक्त अर्थ पर जोर दिया है ।

§ ६४२. अब प्रकृत स्वामीके संचय कालके भीतर आवश्यक विशेषका कथन करनेके
लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ परन्तु इस संचय कालके भीतर वह नारकी तत्पायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको
निरन्तर प्राप्त हुआ ।

§ ६४३. एदम्मि पुण अधाणित्थेयसंचयकालम्भंतरे सो णेरइओ बहुसो बहुसो तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगट्टाणाणि परिणदो, तेहि विणा पयदुक्कस्ससंचयाणुप्पत्तीदो त्ति एदेण जोगावासयं परूविदं । एत्थ तप्पाओग्गवित्थेसयां समयाविरोहेण तहा परिणदो त्ति जाणावणहं । जाव संभवो ताव सच्चुक्कस्सजोगेणेव परिणमित्तं तस्सासंभवे तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगट्टाणि बहुसो गदो त्ति भणिदं होइ ।

❀ तप्पाओग्गुक्कस्सयाहि वड्डीहि वड्ढिदो ।

§ ६४४. संखेज्जगुणवड्ढि-असंखेज्जगुणवड्ढि-संखेज्जभागवड्ढिसण्णिणदाहि जोग-वड्ढिहि पदेसबंधउड्ढिअविणाभावीहि समयाविरोहेण वड्ढिदो । तासिमसंभवे पुण असंखेज्जभागवड्ढि ए वि वड्ढिदो त्ति वुत्तं होइ । णेदं पुण्वुत्तथपरूवणादो पुणरुत्तं, तस्सेव वित्थेसियुण परूवणादो । तम्हा एदेण वि जोगावासयं चैव वित्थेसिदमिदि धेत्तव्वं ।

❀ तित्थे द्विदीए णित्थेयस्स उक्कस्सपदं ।

§ ६४५. जहाणित्थेयकालम्भंतरे सव्वत्थोवजहणणावाहाए उक्कस्सजोगेण च जहणणयट्ठिदि बंधमाणो सामित्तद्विदीए उक्कस्सपदं काऊण णित्थिचइ त्ति भणिदं होइ, णित्थेयाणमण्णहा योवभावाणुवत्तीदो । संपहि एदेण विहाणेणाणुसारिदथोवूण-

§ ६४३. परन्तु इस यथानियेकके संचय कालके भीतर वह नारकी अनेक बार तद्योग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुए बिना प्रकृत उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा योगावश्यकका कथन किया गया है । यहाँ सूत्रमें तत्प्रायोग्य यह विशेषण आगमानुसार उस प्रकारसे परिणत हुआ यह वतलानेके लिये दिया है । जब तक सम्भव हो तब तक सर्वोत्कृष्ट योगसे ही परिणत रहे और जब सर्वोत्कृष्ट योग सम्भव न हो तब बहुत बार तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त होवे यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धियोंसे वृद्धिको प्राप्त हुआ ।

§ ६४४. प्रदेशवन्धवृद्धिकी अविनाभावी संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि इन तीन वृद्धियोंके द्वारा जो आगममें वतलाई गई विधिके अनुसार वृद्धिको प्राप्त हुआ है । परन्तु जब ये तीन वृद्धियाँ असम्भव हों तब वह असंख्यातभागवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होवे यह उक्त कथनका सार है । यदि कहा जाय कि पुनरुक्त अर्थका कथन करनेवाला होनेसे यह सूत्र पुनरुक्त है सो भी वात नहीं है, क्योंकि उसी पूर्वोक्त सूत्रके विशेषणरूपसे इस सूत्रका कथन किया है । इसलिये इस सूत्र द्वारा भी योगावश्यकोंकी विशेषता वतलाई गई है यह अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये ।

* उस स्थितिके नियेकके उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ ।

§ ६४५. यथानियेक कालके भीतर सबसे कम जबन्य आवाधा और उत्कृष्ट योगके द्वारा जबन्य स्थितिको बंधनेवाला वह जीव स्वामित्वविषयक स्थितिमें उत्कृष्टरूपसे कर्मपरमाणुओंको करके उनका निक्षेप करता है यह इस सूत्रका तात्पर्य है, अन्यथा अल्प नियेक नहीं प्राप्त हो

जहाणिसैयसंचयकालस्स पयदणेरइयस्स पच्चासण्णसामित्तुहेसे जोगावासयपडिवद्ध-
वावारविसेसपरूवणद्वमुत्तरो पबंधो—

❀ जा जहणिया आवाहा अंतोमुहुत्तुरा एवदिसमयअणुदियणा सा
द्विदी । तदो जोगहाणाणमुवरिल्लमद्धं गवो ।

§ ६४६. अंतोमुहुत्तुरा जा जहणयावाहा एवदिसमयअणुदिण्णा सा द्विदी
जा पुव्वणिरुद्धा सामित्तद्विदी । एत्थंतोमुहुत्तपमाणं जोगजवमज्झादो उवरि अच्चण-
कालमेत्तं । तदो जोगहाणाणमुवरिल्लमद्धं गवो जोगहाणाणमुवरिल्लभागं गंतूणंतोमुहुत्तमेत्त-
कालमच्चिद्धो त्ति भणिदं होइ । किमद्वमेसो जोगहाणाणमुवरिल्लमद्धं णीदो ? जोगबहुत्तेण
बहुदव्वसंचयकरणद्वं । जइ एवं, अंतोमुहुत्तं मोत्तूण सव्वकालं तत्थेव किण्ण
अच्चयाविदो ? ण, तत्तो अहियं कालं तत्थावहाणासंभवादो । जेणेदमंतदीवयं तेण
पुव्वं पि जाव संभवो ताव तत्थच्चिद्धो त्ति घेतव्वं । एत्थेव णिळीणो चरिमजीवणुण-
हाणिहाणंतरे आवलियाए असंखेज्जदिभागमच्चिद्धो त्ति अवंतरवावारविसेसो
परूवेयव्वो ।

सकते । अब इस विधिसे कुछ कम यथानिषेक संचयकालका अनुसरण करनेवाले प्रकृत नारकीके
स्वामित्वविषयक स्थानके समीपवर्ती होनेपर योगावश्यकसे सम्बन्ध रखनेवाला जो व्यापारविशेष
होता है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* अन्तमुहूर्त अधिक जो जघन्य आवाधा है इतने काल तक वह स्थिति
अनुदीर्ण रही । अनन्तर जो योगस्थानोंके उपरिम अद्धभागको प्राप्त हुआ ।

§ ६४६. अन्तमुहूर्त अधिक जो जघन्य आवाधा है इतने काल तक वह स्वामित्वस्थिति
अनुदीर्ण रहती है जिसका कथन पहले कर आये हैं । यहाँ अन्तमुहूर्तसे योगयवमध्यसे ऊपर
रहनेका जितना काल है वह काल लिया है । फिर सूत्रमे जो यह कहा है कि 'तदो जोगहाणाण-
मुवरिल्लमद्धं गवो' सो इसका यह आशय है कि इसके बाद योगस्थानोंके उपरिम भागको
प्राप्त होकर जो अन्तमुहूर्त काल तक रहा है ।

शंका—यह जीव योगस्थानोंके उपरिम भागको क्यों प्राप्त कराया गया है ?

समाधान—बहुत योगके द्वारा अधिक द्रव्यका संचय करनेके लिये यह जीव योग-
स्थानोंके उपरिम भागको प्राप्त कराया गया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्तमुहूर्त न रखकर पूरे काल तक वहीं इस जीवको क्यों
नहीं रखा गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इससे अधिक काल तक वहाँ रहना सम्भव नहीं है ।

यतः यह कथन अन्तदीपक है अतः इससे यह अर्थ भी लेना चाहिये कि पूर्वमें भी जब
तक सम्भव हो तब तक यह जीव वहाँ रहे । यहाँ जीवकी अन्तिम गुणहानिस्थानान्तरमें
आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण काल तक रहनेरूप जो अवान्तर व्यापारविशेष इसीमें गर्भित
है उसका कथन करना चाहिये ।

❀ दुसमयाहियआवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए एयसमयाहिय-
आवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगसुवचरणो ।

§ ६४७. एथ तिस्से द्विदीए इदि अणुवहृदे । तेणेवमहिसंबंधो कायव्वो—
तिस्से सामित्तद्विदीए दुसमयाहियजहण्णावाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए समयाहिय-
जहण्णावाहचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सजोगट्ठाणं पडिवण्णो त्ति । चरिम-
दुचरिम-तिचरिमसमयअणुदिण्णादिकमेणोरिय दुसमयाहिय-एयसमयाहियआवाहा-
चरिमसमयअणुदिण्णाए णिरुद्धद्विदीए सो णेरइओ उक्कस्सजोगट्ठाणेण परिणदो त्ति
भणिदं होइ । वे समए मोत्तूण वहुअं कालमुक्कस्सजोगेणेव किण्ण अच्चाविदो ? ण,
वेसमयपाओगस्स तस्स तहासंभवाभावादो ।

❀ तस्स उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६४८. तस्स तारिसस्स षेरइयस्स जाधे सा द्विदी उदयमागदा ताधे
उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं होइ त्ति उत्तं होइ ।

§ ६४९. संपहि एथ उवसंहारे भण्णमाणे तत्थ इमाणि तिण्णिण अणियोग-
द्वाराणि । तं जहा—संचयाणुगमो भागहारपमाणाणुगमो लद्धपमाणाणुगमो चेदि ।

* उस स्थितिके दो समय अधिक आवाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण होने पर और एक समय अधिक आवाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण होने पर उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ ।

§ ६४७. इस सूत्रमे 'तिस्से द्विदीए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । इससे ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि उस स्वाभित्वस्थितिके दो समय अधिक जघन्य आवाधाके अन्तिम समयमे अनुदीर्ण रहने पर और एक समय अधिक जघन्य आवाधाके अन्तिम समयमे अनुदीर्ण रहने पर जो उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ है । चरम समय, द्विचरम समय और त्रिचरम समयमें अनुदीर्ण रहने आदिके क्रमसे उत्तरकर दो समय अधिक और एक समय अधिक आवाधाके चरम समयमे विवक्षित स्थितिके अनुदीर्ण रहने पर वह नारकी उत्कृष्ट योगस्थानसे परिणत हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—दो समयको छोड़कर बहुत काल तक उत्कृष्ट योगके साथ ही क्यों नहीं रखा गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो योग दो समयके योग है उसका और अधिक काल तक रहना सम्भव नहीं है ।

* वह नारकी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६४८. इन पूर्वोक्त विशेषताओंसे युक्त जो नारकी है उसके जब वह स्थिति उदयको प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है यह इस सूत्रका आशय है ।

§ ६४९. अब यहाँ पर उपसंहारका कथन करते हैं । उसमे ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं । यथा—संचयानुगम, भागहारप्रमाणानुगम और लब्धप्रमाणानुगम । उनमेंसे सर्व प्रथम

तस्य संचयाणुगमेण जहाणित्सेयकालपढमसमयसंचिददव्वमहियारद्विदीए जहाणित्सेयसरूवेणत्थि । एवं णेदव्वं जाव चरिमसमयसंचओ त्ति । संचयाणुगमो गदो ।

§ ६५०; एत्तो भागहारपमाणाणुगमं वत्तइस्सामो । तं जहा—असंखेज्जपल्लिदेवमपढमवग्गमूलमेत्तं हेइदो ओसरिय द्विदपढमसमयपवद्धसंचयस्स भागहारे उप्पाइज्जमाणे समयपवद्धमेत्तं ठविय जहाणित्सेयसंचयकालभंतरणाणुणहाणिसत्तागाओ पल्लिदेवमपढमवग्गमूलद्वच्छेदणाहितो असंखेज्जगुणहीणाओ विरल्लिय दुगुणिय अण्णोण्ण-व्भासणिप्पणरारिससादिरेओ भागहारो ठवेयव्वो । एवं ठविदे एत्तियमेत्तगुणहाणीओ गालिय परिसेसिदमहियारगोवुच्छादो प्पहुडि अंतोकोडाकोद्विदव्वमागच्छइ । संपहि इमं सव्वदव्वमहियारगोवुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवहुगुणहाणिमेत्तं होइ त्ति दिवहुगुणहाणीओ वि भागहारत्तेण ठवेयव्वो । तदो अहियारगोवुच्छदव्वं णित्सेयसरूवेणागच्छइ । पुणो जहाणित्सेयद्विदिपचयमिच्छामो त्ति असंखेज्जा लोगा वि भागहारसरूवेणेदस्स ठवेयव्वो । तं जहा—पयदगोवुच्छदव्वं जहाणित्सेयकालपढमसमयप्पहुडि बंधावत्तियमेत्तकाले बोलीणे ओकहुक्कहुणभागहारेण खंदिदेयखंडमेत्तं हेइोवरि परसरूवेण गच्छइ । विदियसमए वि ओकहुक्कहुणभागहारपदिभागेण परसरूवेण

संचयानुगमकी अपेक्षा विचार करते हैं—यथानिषेक कालके प्रथम समयमें जो द्रव्य संचित होता है वह यथानिषेकरूपसे अधिकृत स्थितिमें है । इस प्रकार संचयकालके अन्तिम समय तक जानना चाहिये । आशय यह है कि संचय कालके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें यथानिषेकरूपसे संचित होनेवाला द्रव्य विवक्षित स्थितिमें पाया जाता है । इस प्रकार संचयानुगम समाप्त हुआ ।

§ ६५०. अब इससे आगे भागहारप्रमाणानुगमको बतलाते हैं । यथा—पस्यके अस्संख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण स्थान पीछे जाकर प्रथम समयमें प्राप्त हुए संचयका भागहार उत्पन्न करनेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करे । फिर उसका पस्यके प्रथम वर्गमूलके अर्थच्छेदोसे अस्संख्यातगुणी हीन यथानिषेक संचयकालके भीतर प्राप्त हुई जानना गुणहानिशलाकाओका मिरलन कर और दूनाकर परस्परमें गुणा करके उत्पन्न हुई राशिसे कुछ अधिक भागहार स्थापित करे । इस प्रकार स्थापित करने पर इतनी गुणहानियोंको गलानेके बाद अधिकृत गोपुच्छासे लेकर अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण शेष द्रव्य प्राप्त होता है । अब इस पूरे द्रव्यको अधिकृत गोपुच्छाके बराबर हिस्सा करके विभाजित करने पर वह डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिये डेढ़ गुणहानिको भी भागहाररूपसे स्थापित करे । तब जाकर अधिकृत गोपुच्छाका द्रव्य निषेकरूपसे प्राप्त होता है । अब यहाँ यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य लाना है इसलिये, इसका अस्संख्यात लोकप्रमाण भागहार और भी स्थापित करे । सुंलासा इस प्रकार है—यथानिषेककालके प्रथम समयसे लेकर बन्धावत्तिप्रमाण कालके व्यतीत होने पर प्रकृत गोपुच्छाके द्रव्यमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो उतना द्रव्य नीचे ऊपर अन्य गोपुच्छारूप हो जाता है । दूसरे समयमें भी अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना द्रव्य अन्य गोपुच्छारूप हो जाता है । इस

गच्छइ । एवमेगेखंडे गच्छमाणे पुत्रभागहारवेतिभागमेत्तद्धाणं गंतूण पयदणिसेयस्स अद्धमेत्तं चेदइ । पुणो वि एत्तियमद्धाणं गंतूण चउम्भागो चेदइ । एवमुवरि वि पोयव्वं जाव अहियारद्विदी उदयावलियम्भंतरे पविट्ठा ति । एवं होइ ति काऊणेत्यतण-
णाणागुणहाणिसलागाणं पमाणाणुगमं कस्सामो । तं कथं ? ओकड्डुक्कड्डुणभागहार-
वेतिभागमेत्तद्धाणं गंतूण जइ एया गुणहाणिसलागा लब्भइ तो असंखेज्जपल्लिदोवम-
पढमवग्गमूलपमाणं जहाणिसेयकालम्मि केत्तियाओ णाणागुणहाणिसलागाओ
लहामो ति तेरासियं काऊण जोइदे असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्ताओ
लब्भंति । पुणो इमाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णभासे कदे असंखेज्जा लोगा
उप्पज्जंति । तदो एत्तियं पि भागहारत्तेण समयपवद्धस्स हेददो उवेयव्वमिदि भणियं ।
पुणो एदे तिण्णि वि भागहारे अण्णोण्णपट्टुप्पण्णे करिय समयपवद्धम्मि भागे हिदे
आदिसमयपवद्धमस्सियुण अहियारद्विदीए जहाणिसेयसख्वेणावद्विदपदेसग्गमागच्छइ ।
तम्हा असंखेज्जलोगमेतो आदिसमयपवद्धस्स संचयस्स अवहारो ति घेतव्वं । संपहि
विदियसमयपवद्धसंचयस्स वि भागहारो एवं चेव वत्तव्वो । णवरि पढमसमयसंचय-
भागहारदो सो किंचूणो होइ । केत्तिण्णो ति भणिदे ओकड्डुक्कड्डुणभागहारेण
खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेण । एवं भागहारो थोवूणकमेण तदियसमयपवद्धसंचयप्पहुडि

प्रकार एक एक खण्डके अन्य गोपुच्छारूप होते हुए पूर्व भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थानके जाने पर प्रकृत निषेक अर्धभागप्रमाण शेष रहता है । फिर भी इतने ही स्थान जाने पर प्रकृत निषेक चतुर्थ भागप्रमाण शेष रहता है । इस प्रकार आगे भी अधिकृत स्थितिके उदयावलिमे प्रवेश होने तक जानना चाहिये । ऐसा होता है ऐसा समझकर यहाँकी नाना गुणहानिशलाकाओंके प्रमाणका विचार करते हैं । यथा—अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके यदि दो बटे तीन भाग प्रमाण स्थान जाने पर एक गुणहानिशलाका प्राप्त होती है तो पत्त्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण यथानिषेक कालमें कितनी नाना गुणहानिशलाकाएँ प्राप्त होगी इस प्रकार त्रैराशिक करने पर वे नाना गुणहानिशलाकाएँ पत्त्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण ही प्राप्त होती हैं । फिर इनका विरलन कर और दूना कर परस्परमे गुणा करने पर असंख्यात लोकप्रमाण राशि उत्पन्न होती है । इसीसे इसे भी भागहाररूपसे समयप्रवद्धके नीचे स्थापित करे यह कहा है । फिर इन तीनों ही भागहारोका परस्परमे गुणा करके जो प्राप्त हो उसका समयप्रवद्धमे भाग देने पर प्रथम समयप्रवद्धकी अपेक्षा अधिकृत स्थितिमे यथानिषेकरूपसे जो द्रव्य अवस्थित है उसका प्रमाण आता है, इसलिये प्रथम समयप्रवद्धके संचयका भागहार असंख्यात लोकप्रमाण ग्रहण करना चाहिये । दूसरे समयप्रवद्धके संचयका भी भागहार इसी प्रकार कहना चाहिये । किन्तु प्रथम समयसम्बन्धी संचयके भागहारसे वह कुछ कम होता है ।

शंका—कितना कम होता है ?

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त होता है उतना कम होता है ।

इस प्रकार भागहार उत्तरोत्तर कम होता हुआ तीसरे समयप्रवद्धके संचयसे लेकर

गंतूणोकडुकडुणभागहारवेतिभागमेत्तद्धाणे पुव्वभागहारस्स अद्धमेत्तो होइ । एवं जाणियूण णेद्व्वं जाव जहाणिसेयकालचरिमसमओ त्ति । णवरि चरिमसमयपबद्ध-संचयस्स भागहारो सादिरेयदिवडुगुणहाणिमेत्तो होइ ।

§ ६५१. संपहि लद्धपमाणानुगमं कस्सामो । तं जहा—चरिमसमयम्मि बंधियूण णिसित्तपमाणेण जहाणिसेयद्विदिपत्तयसव्वदव्वं कीरमाणमोकडुकडुण-भागहारमेत्तं होइ । तं कथं ? चरिमसमयप्पहुडि ओकडुकडुणभागहारवेतिभाग-मेत्तद्धाणं हेद्वदो ओदरिय वद्धसमयपबद्धदव्वपढमणिसेयस्स अद्धपमाणं चेद्वइ त्ति । तं चेव गुणहाणिट्ठाणंतंरं होइ । तेण पढमगुणहाणिदव्वं सव्वं चरिमसमयम्मि बंधियूण णिसित्तपढमणिसेयपमाणेण कीरमाणमोकडुकडुणभागहारवेतिभागणं तिण्णि-

चउव्वभागमेत्तपढमणिसेयपमाणं होइ । तं च संदिट्ठीए एदं $\begin{matrix} ० & ६ \\ १ & २ \end{matrix}$ । पुणो विदियादि-सेसगुणहाणिदव्वं पि तप्पमाणेण कीरमाणं तेत्तियं चेव होइ $\begin{matrix} ० & ६ \\ १ & २ \end{matrix}$ । संपहि दोण्हमेदेसिं एकदो मेलणे कदे ओकडुकडुणभागहारो चेव दिवडुगुणहाणिपमाणं होइ । पुणो एदेण दिवडुगुणहाणिमोकडुइय समयपबद्धे भागे हिदे जं लद्धं तत्तियमेत्तमुक्कस्स-सामित्तविसईकथं जहाणिसेयद्विदिपत्तयं होइ ।

अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाने पर वह पूर्व भागहारसे आधा रह जाता है । यथानिषेक कालके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इसी प्रकार जानकर उसका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्तिम समयप्रबद्धके संचयका भागहार साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण है ।

§ ६५१. अब लब्धप्रमाणका विचार करते हैं । यथा—अन्तिम समयमें बांधकर यथानिषेकस्थितिप्राप्त सब द्रव्यके निश्चित हुए द्रव्यके बराबर खण्ड करनेपर वे, अपकर्षण-उत्कर्षण-भागहारका जितना प्रमाण है, उतने प्राप्त होते हैं ।

प्रश्न—सो कैसे ?

समाधान—अन्तिम समयसे लेकर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भाग प्रमाण स्थान पीछे जाकर वंचे हुए समयप्रबद्धके द्रव्यका प्रथम निषेक आधा रह जाता है, इसलिये वही एक गुणहानिस्थानान्तर होता है, अतः प्रथम गुणहानिके सब द्रव्यको अन्तिम समयमें बांध कर निश्चित हुए प्रथम निषेकके बराबर बराबर खण्ड करनेपर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागका तीन बटे चार भागप्रमाण प्रथम निषेकोंका प्रमाण होता है । संदृष्टिकी अपेक्षा उसका प्रमाण $\frac{३}{४}$ का $\frac{३}{४}$ होता है । फिर दूसरी आदि शेष गुणहानियोंका द्रव्य भी तत्प्रमाण खण्ड करने पर उतना $\frac{३}{४}$ का $\frac{३}{४}$ ही होता है । अब इन दोनोंको एकत्रित करने पर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार ही डेढ़ गुणहानिप्रमाण होता है । फिर इससे डेढ़ गुणहानिको अपवर्तित करके समयप्रबद्धमे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना उत्कृष्ट स्वामित्त्वका विषयभूत यथानिषेकस्थिति-प्राप्त द्रव्य होता है ।

§ ६५२. एवमेत्तिएण पवंधेण उक्कस्सजहाणिसेयट्ठिदिपत्तयस्स सामित्तं परुविय संपहि पदेणेव गयत्थस्स णिसेयट्ठिदिपत्तयस्स वि सामित्तसमुप्पण्णहमुत्तरं सुत्तं भणइ—

❀ णिसेयट्ठिदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव ।

§ ६५३. गयत्थमेदं सुत्तं, पुव्विल्लादो अविस्सिट्ठपरुवणत्तादो । अदो चेव कममुल्लंघिय तस्सेव पुव्वं सामित्तविहाणं कयं, अण्णहा एदस्स जाणावणोवाया-भावादो । एत्थ पुण विसेसो—प्रमाणानुगमे कीरमाणे पुव्विल्लदन्वादो ओकङ्कु कहुणाए गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिददन्वमेत्तेणेदं विसेसाहियं होइ ति वत्तव्वं ।

§ ६५४. संपहि जहावसरपत्तमुक्कस्सयमुदयट्ठिदिपत्तयस्स सामित्तं परुवेमाणो पुच्छासुत्तमाह—

❀ उदयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ?

§ ६५५. एत्थ मिच्छत्तस्से ति अहियारसंबंधो । सेसं सुगमं ।

❀ गुणिट्ठकम्मंसिओ संजमासंजमगुणसेहिं संजमगुणसेहिं च काळण

§ ६५२. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करके अब यद्यपि निषेकस्थितिप्राप्त इसी प्रबन्धके द्वारा गतार्थ है तथापि उसके स्वामित्व को बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी भी वही है ।

§ ६५३. यह सूत्र अचगतप्राय है, क्योंकि पिछले सूत्रसे इसके कथनमे कोई विशेषता नहीं है । और इसीलिये क्रमका उल्लंघन करके पहले उसीके स्वामित्वका कथन किया है, अन्यथा इसके ज्ञान करानेका दूसरा कोई उपाय नहीं था । किन्तु प्रमाणानुगमके कथनमें यहां इतना विशेष और कहना चाहिये कि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य अन्यत्र प्राप्त होता है वह फिरसे वहाँ आ जाता है, इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके द्रव्यसे इसका द्रव्य इतना विशेष अधिक होता है ।

विशेषार्थ—यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जो संचयकाल और स्वामी पहले बतला आये हैं वही निषेकस्थितिप्राप्तका भी प्राप्त होता है, क्योंकि उत्कृष्ट संचय सातवें नरकमे उक्त प्रकारसे ही बन सकता है । तथापि यथानिषेकस्थितिप्राप्तसे इसका उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक हो जाता है । कारण यह है कि यथानिषेकस्थितिप्राप्तमें अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जितना द्रव्य कम हो जाता है वह यहां पुनः बढ़ जाता है ।

§ ६५४. अब यथावसर प्राप्त उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करनेकी इच्छासे पुच्छा सूत्र कहते हैं—

* उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६५५. इस सूत्रमें मिथ्यात्वप्रकृतिका अधिकार होनेसे 'मिच्छत्तस्स' इस पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशवाला जीव संयमासंयमगुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणिको

मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदिरणाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं ।

§ ६५६. एदस्स सुत्तस्सत्यपरुवणा उदयादो उक्कस्सभीणद्विदियसामित्त-सुत्तभंगो । एवं मिच्छत्तस्स चउण्हं पि द्विदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तं परुविय संपहि एदेण समाणसामियाणं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमप्पणं करेइ—

❀ एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पि ।

§ ६५७. जहा मिच्छत्तस्स चउण्हमगद्विदिपत्तयादीणं सामित्तविहाणं कदमेवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पि, यिसेसाभावादो । णवरि सम्मत्तस्स जहाणित्थेय-णित्थेय-द्विदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तं भण्णमाणे उव्वेत्तणकालादो जइ जहाणित्थेयकालो बहुओ होइ तो पुव्वमेव जहाणित्थेयस्सादिं करिय पुणो संचयं करेमाणो चेव उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय अंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण संचयं काळण. पुणो अविणद्वेदय-पाओगकालम्मि वेदयसम्मत्तगहणपदमसमए वट्टमाणो जो जीवो तस्स पदमसमय-वेदयसम्मादिद्विस्स तिसु वि जहाणित्थेयगोवुच्छासु उदयं पविस्समाणामु उक्कस्स-सामित्तं वत्तव्वं । अथ अधाणित्थेयसंचयकालादो उव्वेत्तणकालो बहुओ होज्ज तो पुव्वमेव पडिवण्णसम्मत्तो मिच्छत्तं गंतूण पुणो जहाणित्थेयद्विदिपत्तयस्सादिं काळण

करके मिथ्यात्वमें गया है उसके जब गुणश्रेणिकीर्ष उदयको प्राप्त हुए हैं तब वह मिथ्यात्वके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६५६. पहले उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रका जैसा विवेचन किया है उसीप्रकार इस सूत्रका भी विवेचन कर लेना चाहिये । इसप्रकार मिथ्यात्वके चारों ही स्थितिप्राप्तोंके स्वामित्वका कथन करके अब इससे जिनके स्वामी समान हैं ऐसे सम्यक्त्व और सम्यग्निमिथ्यात्वकी मुख्यतासे कथन करते हैं—

❀ इसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्निमिथ्यात्वके स्वामित्वका भी विधान करना चाहिये ।

§ ६५७. जिस प्रकार मिथ्यात्वके चारों अग्रस्थितिप्राप्त आदिके स्वामित्वका कथन किया है उसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्निमिथ्यात्वका भी करना चाहिये क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करने पर उद्वेगलनकालसे यदि यथानिषेकका काल बहुत होवे तो पहलेसे ही यथानिषेकका प्रारम्भ करके फिर संचय करता हुआ ही उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और अन्तर्मुहूर्त काल तक उसके साथ रहकर मिथ्यात्वमें जावे । और वहां संचय करके वेदक योग्य कालके नाश होनेके पहले ही वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करके उसके प्रथम समयमें जो जीव स्थित है उस प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यक्त्वके तीनों ही यथानिषेक गोपुच्छाओंके उदयमें प्रवेश करने पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । और यदि यथानिषेकके संचयकाल व उद्वेगलनाका काल बहुत होवे तो पहले से ही सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिथ्यात्वमें जावे । फिर यथानिषेकस्थितिप्राप्तका

संचयं करिय गहिदवेदगसम्मत्तपढमसमए तिण्हं पि गोबुच्छाणं पदेसग्गमेक्कलगीभूद-
 सुदयगदं धरिय द्विदो जीवो पयदुक्करससामिओ होइ ति वत्तव्वं । एत्थ पुण विसिद्धोव-
 एसमस्सियुण अण्णदरपवत्तपरिग्गहो कायव्वो; संपहियकाले तहाविहोवएसभावादो ।
 संपट्ठि इममथाणिसैयगोबुच्छमुदयावत्तियं पवेसिय पढमसमए चेव सम्मत्तं गेण्हावेमो
 जहण्णावाहमेत्तं वा सामित्तसमयादो हेद्वदो ओसारिय, उवरि संचयाभावादो ति
 भणिदे ण, सन्मत्तं पडिवज्जाविय पुणो उदयावत्तियं जहण्णावाहमेत्तकालं वा वोळाविय
 सामित्ते दिज्जमाणे जहाणिसैयद्विदिदव्वस्स वहुअस्स ओक्कडुणाए विणासपत्तंगादो ।
 किं कारणमुदयावत्तियवाहिरावट्ठिदावत्थाए ताव ओक्कडुणाए वहुदव्वविणासो
 सम्मत्ताहिमुहस्स होइ ति ण एत्थ संचओ । उदयावत्तियपचिट्ठपढमसमए चि
 सम्मत्तं गेण्हामाणो पुव्वमेवतोमुहुत्तमत्थि ति तदहियुहावत्थाए चेव विमुज्जंभतो वहुअं
 दव्वमोक्कडुणाए णासेइ ति ण तत्थ सम्मत्तं पडिवज्जाविदो । एवं सम्मामिच्छत्तस्स
 वि सामितं वत्तव्वं । णवरि पुव्वविहाणेण संचयं करिय सम्मामिच्छत्तं पडिवणपढम-
 समयसम्मामिच्छाइद्विस्स जहाणिसैयद्विदिपत्तयं णिसैयद्विदिपत्तयं च कायव्वं ।

आरम्भ करके संचय करे और इसप्रकार जब वह संचयकालके अन्तमें वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त
 करके उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहे तब उसके तीनों ही गोपुच्छाओका द्रव्य एकत्रित होकर
 उदयको प्राप्त होने पर प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ऐसा कथन करना चाहिये । परन्तु यहाँ
 विशिष्ट उपदेशको प्राप्त करके किसी एक पक्षको स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि वर्तमान कालमें
 ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता जिससे समुचित निर्णय किया जा सके ।

शंका—अब इस यथानिषेकगोपुच्छाको उदयावलिमें प्रवेश कराके उसके प्रथम समयमें
 ही सम्यक्त्वको ग्रहण करावे या स्वामित्व समयसे जघन्य अवाधाकालका जितना प्रमाण है
 उतना पीछे जाकर सम्यक्त्वको ग्रहण करावे, क्योंकि इसके ऊपर उत्कृष्ट संचयका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि सम्यक्त्वको प्राप्त कराके फिर उदयावलि या जघन्य
 अवाधाप्रमाण कालका वितारक उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तो अपकर्षणके द्वारा यथानिषेक-
 स्थितिप्राप्तके बहुत द्रव्यका अपकर्षणके द्वारा विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि उदयावलिमें बाहर
 अवस्थित रहते हुए सम्यक्त्वके अभिमुख होनेके कारण इसके अपकर्षणके द्वारा बहुत द्रव्यका
 विनाश देखा जाता है इसलिये यहाँ उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता । इसीप्रकार जो उदयावलिमें
 प्रवेश करनेके प्रथम समयमें भी सम्यक्त्वको ग्रहण करता है वह अन्तर्मुहूर्त काल पहले ही
 सम्यक्त्वके सन्मुखरूप अदत्थाके होनेपर विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ अपकर्षणद्वारा बहुत द्रव्यका
 नाश कर देता है, इसलिये वहाँ स्वामित्व नहीं प्राप्त कराया है । इसीप्रकार सम्यग्भिध्यात्वका
 भी स्वामित्व करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वविधिसे संचय करके जो
 सम्यग्भिध्यात्वको प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस सम्यग्भिध्यादृष्टिके यथानिषेकस्थितिप्राप्त
 और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य करना चाहिये ।

विशेषार्थ—मालूम होता है कि यथानिषेककाल और उद्वेलनाकाल इनमेंसे कौन छोटा
 है और कौन बड़ा इस विषयमें मतभेद रहा है । एक परम्पराके मतानुसार उद्वेलनाकालसे यथा-
 निषेककाल बड़ा है और दूसरी परम्पराके मतानुसार यथानिषेककालसे उद्वेलनाकाल बड़ा है ।

§ ६५८. संपहि उदयद्विदिपत्तयस्स सामित्तविसेसपरुवणद्वसुत्तरसुत्तं भणइ—

✽ एवदि उक्कस्सयसुदयद्विदिपत्तयसुक्कस्सयसुदयादो भ्नीणद्विदिय-
भंगो ।

§ ६५९. सम्मत्तस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वोदयं तं घेत्तूण
सम्माभिच्छत्तस्स वि उदिण्णसंजमासंजम-संजमगुणसेदिगोबुच्छसीसायाणि घेत्तूण
पटपसमयसम्माभिच्छाइद्विम्मि गुणित्तिरियपच्छायदम्मि सामित्तविहाणं पडि त्तवो
विसेसाभावादो ।

§ ६६०. एवमेदं परुविय संपहि मिच्छत्तसमाणसामियाणं सेसाणं पि

टीकामें बतलाया है कि इस समय ऐसा विशिष्ट उपदेश प्राप्त नहीं जिसके आधारसे यह निर्णय किया जा सके कि असुक मत सही है, अतः विशिष्ट उपदेश मिलने पर ही इस विषयका निर्णय करना चाहिये। तथापि यदि यथानिषेककाल बड़ा होवे तो उद्वेलनाका प्रारम्भ पीछेसे कराके उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये और यदि उद्वेलनाकाल बड़ा हो तो उद्वेलनाका प्रारम्भ होनेके बादसे यथानिषेकके संचयका प्रारम्भ कराके उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि ऐसा किये बिना उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर टीकामें एक विवाद यह भी उठाया गया है कि सम्यक्त्व प्राप्त करानेके कितने काल बाद उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाय? सिद्धान्त पक्ष सम्यक्त्व प्राप्त कराके उसके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व दिलानेका है पर शंकाकार यह स्वामित्व सम्यक्त्व प्राप्त करानेके बाद एक आबलिकाल या जघन्य आबाधाप्रमाण काल होने पर दिलाना चाहता है किन्तु विचार करने पर सिद्धान्त पक्ष ही समीचीन प्रतीत होता है जिसका विशेष खुलासा टीका में किया ही है। इसप्रकार सम्यक्त्वके यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार किया। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षासे भी विचार कर लेना चाहिए। किन्तु इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यग्मिध्यात्वका उदय वहीं पर पाया जाता है।

§ ६५८. अब उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वविशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका भंग उदयसे उत्कृष्ट भ्नीनस्थितिप्राप्त द्रव्यके समान है ।

§ ६५९ जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है उसके दर्शनमोहनीयका क्षय करनेके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका जो सर्वोदय होता है उसकी अपेक्षा गुणितक्रियावाले जीवके उदयस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया गया है। इसीप्रकार उदयको प्राप्त हुए संयमा-संयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिगोपुच्छशीर्षों की अपेक्षा सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें गुणितक्रियावाले जीवके सम्यग्मिध्यात्वके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया है इसलिये इन दोनों प्रकृतियोंकी अपेक्षा उदयसे भ्नीनस्थितिवाले द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वसे इसमें कोई भेद नहीं है।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके उदयसे भ्नीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामित्व पहले बतला आये हैं उसीप्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये।

§ ६६०. इसप्रकार उक्त स्वामित्वका कथन करके मिध्यात्वके समान स्वामीवाले शेष

समप्पणहमुत्तरो पर्वधो—

❁ अणंताणुबंधि-अहकसाय-छरणोकासायाणं मिच्छत्तभंगो ।

§ ६६१. जहा मिच्छत्तस्स सव्वेसिमुक्कस्सट्ठिदिपत्तयादीणं सामितपरुवणा कया तहा एदेसिं पि कम्मणं कायच्चा, विसेसाभावादो । संपहि एत्थ संभवविसेस-पदुप्पायणहमुत्तरमुत्तमाह—

❁ एवरि अहकसायाणमुक्कस्सयमुदयट्ठिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६६२. सुगमं ।

❁ संजमासंजम-संजम-दंसपमोहणीयक्खवचयणुणसेट्ठिसीसएसु त्ति एदाओ तिणिए वि गुणसेठीओ गुणिकम्मंसिएण कदाओ । एदाओ काऊण अविणहेसु असंजमं गओ । पत्तेसु उदयगुणसेट्ठिसीसएसु उक्कस्सयमुदय-ट्ठिदिपत्तयं ।

§ ६६३. अणंताणुबंधीणमणूणाहिओ मिच्छत्तभंगो त्ति ते मोत्तूण पच्चक्खाणा-पच्चक्खाणकसाएसुकस्ससामितविहाययमुत्तस्सेदस्स उदयादो उक्कस्सभीणट्ठिदिय-सामितमुत्तस्सेव अवयवसमुदायत्थपरुवणा कायच्चा । एयंताणुवट्ठिचरिमसमयसंजदा-संजद-संजदपरिणामेहि कदगुणसेट्ठिसीसयाणि दोण्णि वि एकदो काऊण पुणो वि

कर्मों का भी मुख्यरूपसे कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ अनन्तानुवन्धीचतुष्क, आठ कषाय और छह नोकषायोंका भंग मिध्यात्वके समान है ।

§ ६६१. जिसप्रकार मिध्यात्वके सभी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिकके स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार इन कर्मों का भी करना चाहिये, क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । अब यहाँ जो विशेषता सम्भव है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ किन्तु आठ कषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६६२. यह सूत्र सुगम है ।

❁ जो गुणितकर्मांशिक जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षणणा-सम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षे इन तीनों ही गुणश्रेणियोंको करके और इनका नाश किये बिना असंयमको प्राप्त हुआ है वह गुणश्रेणिशीर्षोंके उदयमें आनेपर उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६६३. अनन्तानुवन्धियोंका भंग न्यूनाधिकताके बिना मिध्यात्वके समान है, अतः उन्हें छोड़कर प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान करने-वाले इस सूत्रके अवयवार्थ और समुदायार्थकी प्ररूपणा उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वको कथन करनेवाले सूत्रके समान करना चाहिये । एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमें संयतासंयत और संयतरूप परिणामोंके द्वारा किये गये दोनों ही गुणश्रेणिशीर्षोंको मिलाकर

ताणमुवरि दंसणमोहकववयगुणसेढिसीसयं पक्खिविय कदकरणिज्जअधापवत्तसंजद-
भावेणंतोमुहुत्तं गुणसेढीओ आवूरिय से काले तिण्हं पि गुणसेढिसीसायाणमुदओ
होहदि ति कालं करिय देवेसुप्पणणपढमसमयअसंजदम्मि सत्तायाणम्मि चेव वा परिणाम-
पच्चएणासंजमं गदपढमसमयम्मि सामित्तविहाणं पडि दोण्हं विसेसाणुवत्तंभादो ।

§ ६६४. एवमटकसायाणमुदयद्विदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्तविसेसं सूचिय
संपहि छण्णोकसायाणं पयदुक्कस्ससामित्तविसेसपरुवणणदुत्तरोपकमो—

❀ छण्णोकसायाणमुक्कस्सपमुदयद्विपत्तयं कस्स ?

§ ६६५. सुगममेदमासंकासुत्तं ।

❀ चरिमत्तमयअणुव्वकरणे वट्टमाणयस्स ।

§ ६६६. एत्थ गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्से ति वक्कसेसो, अण्णहा उक्कस्स-
भावाणुववत्तीदो । सेसं सुगमं । एत्थेवांतरविसेसपरुवणणदुत्तरोपकामवयारो—

❀ हस्सरह-अरह-सोगाणं जइ कीरइ भयदुगुंछाणमवेदओ कायवो ।

फिर भी उनके ऊपर दर्शनमोहनीयकी क्षपणासम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षको प्रक्षिप्त करके फिर कृतकृत्य
श्रौर अधःप्रवृत्तसंयमरूप भावके द्वारा अन्तर्मुहूर्त कालतक गुणश्रेणियोंको पूरा करके तदनन्तर
समयमे तीनों ही गुणश्रेणिशीर्षका उदय होगा पर ऐसा न होकर पूर्व समयमे ही मरकर देवोमे
उत्पन्न हुआ उस अस्थित देवके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। या
स्वस्थानमे ही परिणामोंके निमित्तसे असयमको प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमे ही उत्कृष्ट
स्वामित्व होता है। इस प्रकार स्वामित्वकी अपेक्षा इन दोनोंमे कोई भेद नहीं है।

विश्लेषार्थ—अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानवरण इन आठ कषायोंके उदयस्थिति-
प्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी कौन है इसका प्रकृतमे विचार किया है सो यह पूरा वर्णन इन्हीं आठ
कषायोंके उदयसे भीतस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वसे मिलता जुलता है, इसलिये उसके
समान इसका विस्तार समझ लेना चाहिये।

§ ६६४. इसप्रकार आठ कषायोंके उदयस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वविशेषको सूचित
करके अब छह नोकषायोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वविशेषका कथन करनेके लिये आगेके
सूत्र कहते हैं—

* छह नोकषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६६५. यह आशंका सूत्र सुगम है।

* जो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह छह नोकषायोंके उत्कृष्ट
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है।

§ ६६६. यहाँ अपूर्वकरण गुणस्थानवाला जीव गुणितकमारा क्षपक हाता है अतः सूत्रमे
'गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्स' इतना वाक्य शेष है जो जोड़ लेना चाहिये, अन्यथा उत्कृष्ट भावकी
उत्पत्ति नहीं हो सकती। शेष कथन सुगम है। अब इस विषयमे अबान्तर विशेषका कथन
करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं—

* हास्य, रति, अरति और शोकका यदि उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे
भय और जुगुप्साका अवेदक करना चाहिए।

§ ६६७. सुगमं ।

❊ जइ भयस्स तदो दुशुंछाए अबेदओ कायव्वो । अथ दुशुंछाए तदो भयस्स अबेदओ कायव्वो ।

§ ६६८. सुगममेदं पि सुत्तं । एवं पुन्विह्वण्णाय विसेसपरुवणं समाणिय सेसकम्माणमुक्कस्ससामित्तविहाणह्वुत्तरो पवंधो—

❊ कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमगगट्टिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६६९. सुगमं ।

❊ उक्कस्सयमगगट्टिदिपत्तयं जहा पुरिमाणं कायव्वं ।

§ ६७०. जहां पुरिमाणं मिच्छत्तादिकम्माणमगगट्टिदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्तं परुविदं तथा कोहसंजलणस्स वि परुवेयव्वं, विसेसाभावदो । एवमेदस्स समप्पणं कादूण संपहि सेसाणं ट्टिदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तविहाणह्वुत्तरोपपरिमगंयाववारो—

❊ उक्कस्सयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६७१. सुगमं ।

❊ कसाए उवसामित्ता पड्विदिदूण पुणो अंतोमुहुत्तेण कसाया

§ ६६७. यह सूत्र सुगम है ।

* यदि भयका उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे जुगुप्साका अवेदक करना चाहिये । यदि जुगुप्साका उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे भयका अवेदक करना चाहिये ।

§ ६६८. यह सूत्र भी सुगम है । इस प्रकार पहले जिनके विशेष व्याख्यानकी सूचना की रही उनका विशेष कथन समाप्त करके अब शेष कर्मोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* क्रोध संज्वलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६६९. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्व आदिके समान क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्ति द्रव्यका स्वामी करना चाहिए ।

§ ६७०. जिस प्रकार मिथ्यात्व आदि कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार क्रोधसंज्वलनका भी कथन करना चाहिये, क्योंकि इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार इसका प्रमुखतासे कथन करके अब शेष स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका ग्रन्थ आया है—

* उत्कृष्ट यथानिपेक स्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६७१. यह सूत्र सुगम है ।

* जो जीव कथायोंका उपनाम करके उससे च्युत हुआ । फिर दूसरी बार

उवसामिदा विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिहा, तम्हि उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ६७२. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा—एक्केण जीवेण कसाए उवसामिता पडिवदिदूण पुणो अंतोमुहुत्तेण कसाया उवसामिदा । सो च जीवो संखेज्जंतोमुहुत्तम्भहियसोलसवस्सूणमधाणिसेयकालं पुव्वविहाणेण णेरएसु संचयं कादूण तदो उवट्ठिदो । दो-तिण्णिणभवग्गहणाणि तिरिक्खेसु गमिय मणुस्सेसु आगदो ति घेत्तव्वं, अण्णाहा उक्कस्ससंचयाणुप्पत्तीदो । विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिहा एवं भणिदे जम्मि उद्देसे सामित्तभवसंबंधि-विदियवारकसायउवसामणाए वावदस्स तप्पाओग्गजहणिया आवाहा पुण्णा सा द्विदी पुव्वमेव आदिहा विवक्खिया ति वुत्तं होइ ।

§ ६७३. एत्थ णेरइएसु चेव मिच्छत्तादिकम्माणं व पयदुक्कस्ससामित्तमदादूण उवसमसेट्ठिं चढाविय सामित्तविहाणे लाहपदंसणट्ठमिमा ताव परूवणा कीरदे । तं जहा—संखेज्जंतोमुहुत्तम्भहियसोलसवस्सेहि परिहीणं जहाणिसेयकालं पुव्वविहाणेण सत्तमपुढविणेरइएसु तदाउअचरिमभागे अधाणिसेयकालम्भंतरे संचयं करिय कालं काऊण दो-तिण्णिणभवग्गहणाणि तिरिक्खेसु गमिय मणुस्सेसुववज्जिय गम्भादिअट्ठ-वस्साणमंतोमुहुत्तम्भहियाणसुवरि संजमेण सह पडमसम्मत्तसुप्पाइय पुणो वेदयसम्मा-

अन्तमुहुत्तकालके द्वारा कषायका उपशम किया । इस प्रकार इस दूसरी उपशामनाके होनेपर अवाधा जहाँ पूर्ण होती है प्रकृतमें वह स्थिति विवक्षित है । उसके उदयको प्राप्त होनेपर उससे युक्त जीव उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६७२. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—एक जीव है जो कषायका उपशम करके उससे च्युत हुआ । फिर भी उसने अन्तमुहुत्त कालमें कषायका उपशम किया । वह जीव पहले संख्यात अन्तमुहुत्त अधिक सोलह वर्ष कम यथानिषेकके कालतक पूर्वविधिसे नारकियोमें सञ्चय करके वहाँसे निकला और दो तीन भव तिर्यञ्चोके लेकर मनुष्योंमें आया ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है । 'विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिहा' सूत्रमे जो यह कहा है सो इसका यह आशय है कि स्वामित्वसम्बन्धी भवमे दूसरी बार कषायकी उपशामनाके जिस स्थानमें रहते हुये तत्प्रायोग्य जघन्य आवाधा पूर्ण होती है वह स्थिति पूर्वमे ही विवक्षित थी ।

§ ६७३. अब प्रकृतमें नारकियोमें ही मिध्यात्व आदि कर्मोंके समान प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व न देकर जो उपशमश्रेणिपर चढ़ाकर स्वामित्वका विधान किया है सो इसमे लाभ है यह दिखलानेके लिये यह आगेकी प्ररूपणा करते हैं । यथा—कोई एक जीव है जिसने संख्यात अन्तमुहुत्त अधिक सोलह वर्षसे हीन यथानिषेकका जितना काल है उतने काल तक सातवीं पृथिवीका नारकी रहते हुए अपनी आयुके अन्तिम भागमे यथानिषेकके कालके भीतर पूर्वविधिसे यथानिषेकका संचय किया फिर मरा और तिर्यचोके दो तीन भव लेकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तमुहुत्त हो जानेपर संयमके साथ प्रथमोपशम

इदिभावेणंतोगुहुत्तमच्छिय पुणो वि सेदिसमारोहणद्वं दंसणमोहणीयमणंताणुवंधि-
विसंजोयणपुरस्सरमुवसामिय कसायाणमुवसामणद्वमथापवत्करणं पविद्वपदमसमए
वट्टमाणम्मि अहियारद्विदीए जहाणिसेयचिराणसंचयदव्वमेगसमयपवद्धस्स असंखेज्ज-
भागमेत्तं होइ ।

§ ६७४. तस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे एणं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय एदम्मि
ओकद्धुकहुणभागहारेणोवद्विदसादिरेयदिवद्वुगुणहाणीए भागे द्विदे तत्थतणचिराण-
संतकम्मसंचयदव्वमागच्छइ । एवंविहेण पुव्वसंचएणुवसमसेद्विमेत्तो वहुदव्वसंचय-
करणद्वं चट्टमाणो अथापवत्तपदमसमयम्मि तदणंतरहेद्विमद्विदिवंधयादो पल्लिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तमोसरिदूणंतोकोडाकोडिमेट्टद्विदिं वंधइ ।

§ ६७५. संपहियवंधमस्सियूण अहियारगोबुच्छाए उवरि णिसित्तदव्वे
इच्छिज्जमाणे एणं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स असंखेज्जभागवंधिय-
दिवद्वुभागहारं ठविदे पदमणिसेयादो संखेज्जावलियमेत्तद्धाणमुवरि चदियूणावद्विद-
अहियारद्विदीए णिसित्तदव्वमागच्छदि । एवं वंधमस्सियूण पयदगोबुच्छसंचयभाग-
हारो परुद्विदो । संपहि तत्थेव द्विदिपरिहाणिसंयूण लब्भमाणसंचयाणुगमं
वत्तइस्सामो । को द्विदिपरिहाणिसंचओ णाम ? उच्चदे—एयं द्विदिवंधं वंधिय पुणो

सम्यक्त्वको उत्पन्न किया । फिर वेदकसम्यक्त्वके साथ अन्तर्मुहूर्त तक रहकर श्रेणिपर चढ़नेके
लिये अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनाके साथ दर्शनमोहनीयका फिरसे उपशम किया । इस प्रकार
यह जीव जब कपायोका उपशम करनेके लिये उद्यत होता है तब इसके अधःकरणमें प्रवेश करके
उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुये विवक्षित स्थितिमें यथानिपेकका प्राचीन सत्कर्म एक
समयप्रवद्धका असंख्यातवर्षों भाग प्राप्त होता है ।

§ ६७४. अब इस द्रव्यको प्राप्त करनेके लिए भागहार क्या है यह वतलाते हैं—पंचेन्द्रिकके
एक समयप्रवद्धको स्थापित करे । फिर इसमें अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे भाजित साधिक डेह
गुणहानिका भाग देनेपर वहाँका प्राचीन सत्कर्मरूप संचयद्रव्य आता है । इस प्रकार यहाँ जो पूर्व
संचय प्राप्त हुआ है सो उससे बहुत द्रव्यका संचय करनेके लिये यह जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ता
हुआ अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें इसके अनन्तरवर्ती पूर्व समयमें जितना स्थितिवन्ध किया
रहा उससे पल्यके असंख्यातवर्षों भाग कम अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिवन्धको करता है ।

§ ६७५. अब इस समय वंधे हुए द्रव्यकी अपेक्षा अधिकृत गोपुच्छामें निक्षिप्त हुआ
द्रव्य लाना चाहते हैं, इसलिये पंचेन्द्रिकके एक समयप्रवद्धको स्थापित करके फिर इसका असं-
ख्यातवर्षों भाग अधिक डेह गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे । ऐसा करनेसे प्रथम निपेकसे
संख्यात आवलि ऊपर जाकर स्थित हुई अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य निक्षिप्त होता है उसका
प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार वन्धकी अपेक्षा प्रकृत गोपुच्छामें संचयको प्राप्त हुए द्रव्यके
भागहारका कथन किया । अब वहाँ पर स्थितिपरिहानिकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले संचयका विचार
करते हैं—

शंका—स्थितिपरिहानिसंचय किसे कहते हैं—

अंतोमुहुत्तेणणेगट्टिदिबंधं वंधमाणो अग्गट्टिदीदो हेहा पल्लिदोवमस्स संखे०भाग-
मेचमोसरियूण बंधइ । पुणो तं हीणट्टिदिपदेसग्गं सेसट्टिदीणमुवरि विहंजिय पदमाणं
ट्टिदिपरिहाणिसंचओ णाम । तस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय
एयस्स सयलंतोकोडाकोहीअब्भंतरणाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय विगं करिय
अण्णोण्णवभत्थरूवणीकदरासिम्मि परिहीणट्टिदिअब्भंतरणाणागुणहाणी विरलिय
विगं करिय अण्णोण्णवभासजणिदरूवणरासिणोवट्टदम्मि भागहारत्तेण ठविदे ट्टिदि-
परिहाणिदव्वभागच्छइ । पुणो तम्मि सादिरेयदिवहुगुणहाणीए भागे हिदे अहियार-
ट्टिदीए उवरि ट्टिदिपरिहाणीए पदिदव्वसंचओ आगच्छइ । संपहि एवंविहेसु तिसु
वि संचएसु ट्टिदिपरिहाणिसंचओ पहाणं, तस्सेव उवरि समयं पट्टि बट्टिदंसणादो ।

§ ६७६. एदं च ट्टिदिपरिहाणिकालभाविदव्वनधापवत्तकरणपडमसमयादो

समाधान—येसा जीव एक स्थितिवन्धको वॉधकर अन्तर्मुहूर्तवाद जब दूसरे स्थिति-
वन्धको वॉधता है तो वह दूसरा स्थितिवन्ध अप्रस्थितिसे पत्यका संख्यातवॉ भाग कम वॉधता है ।
अर्थात् पहला स्थितिवन्ध जितना होता था उससे यह पत्यका संख्यातवॉ भाग कम होता है । इस
प्रकार जितनी स्थिति कम जाती है उसके कर्मपरमाणु शेष स्थितियोमे विभक्त होकर प्राप्त होते हैं ।
वस इस प्रकार जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे ही स्थितिपरिहानिसंचय कहते हैं । अब इस द्रव्यको
प्राप्त करनेके लिये भागहार क्या है यह बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको भाव्यरूपसे
स्थापित करे । फिर पूरी अन्तःकोडाकोड़ीके भीतर जितनी नानागुणहानिशलाकार्यें प्राप्त हों
उनका विरलन करके दूना करे । फिर परस्परमें गुणा करके जो राशि उत्पन्न हो उनमेसे एक कम
करे । फिर इसमें परिहीन स्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानियोका विरलन करके और विरलित
राशिको दूना करके परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि आवे एक कम उसका भाग दे और इस
प्रकार जो राशि प्राप्त हो उसे पूर्वोक्त भाव्यराशिका भागहार करनेपर स्थितिपरिहानि द्रव्यका
प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसमें डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर अधिकृत स्थितिमें स्थितिपरि-
हानिसे द्रव्यका जितना संचय प्राप्त होता है उसका प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार यहाँ जो
तीन प्रकारके संचय प्राप्त हुए हैं उनमेसे स्थितिपरिहानिसे प्राप्त हुआ संचय प्रधान है, क्योंकि
आगे प्रत्येक समयमे उसीकी वृद्धि देखी जाती है ।

विशेषार्थ—बन्धकालके पूर्व समय तक अधिकृत स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त हुआ रहता
है वह प्राचीन सत्कर्म संचित द्रव्य है । बन्धकी अपेक्षा अधिकृत स्थितिमे जितना द्रव्य प्राप्त होता
है वह बन्धकी अपेक्षा निश्चित हुआ द्रव्य है । तथा स्थितिपरिहानिसे विवक्षित स्थितिमें प्रति समय
जो अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है वह स्थितिपरिहानिसंचित द्रव्य है । यद्यपि स्थितिपरिहानिसंचित
द्रव्य बन्धकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले द्रव्यमें ही आ जाता है किन्तु बन्धसे प्राप्त होनेवाले द्रव्यको
ध्रुव करके उत्तरोत्तर स्थितिपरिहानिसे जो अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है उसकी यहाँपर अलगसे
परिगणना की है । इतना ही नहीं किन्तु वह उत्तरोत्तर बढ़ता भी जाता है, इसलिये उसकी प्रधानता
भी मानी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इनमेसे किसका कितना प्रमाण है और वह किस
प्रकार प्राप्त होता है इसका विचार मूलमे किया ही है ।

§ ६७६. अब स्थितिपरिहानिके कालमे कितना द्रव्य प्राप्त होता है इसका विचार करते

तदणतरहेट्टिमसमयम्मि वद्धसमयपवद्धं सादिरेयदिवड्डुगुणहाणीए भागं घेतूण
 छद्धदव्वमेत्तं होदूण पुणो द्विदिपरिहाणीए लद्धअसंखेज्जभागमेत्तदव्वेण अहियं होइ ।
 इमं च तिससे अहियारद्विदीए ओकड्डुकड्डुणाहि गच्छमाणं पि दव्वं पेक्खियूण
 असंखेज्जभागवहियं होइ । तं कथं ? गच्छमाणदव्वस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदिय-
 समयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स ओकड्डुकड्डुणभागहारोवट्टिददिवड्डुगुणहाणिमेत्त-
 भागहारे ठविदे चिराणसंतचयदव्वभागच्छदि । पुणो एदस्स ओकड्डुकड्डुणभागहारे
 ठविदे सादिरेयदिवड्डुगुणहाणिसमयपवद्धस्स पयदगोबुच्छवयागमणट्ठं भागहारो
 जादो । पुव्वुत्तसंचओ पुण समयपवद्धं सादिरेयदिवड्डुगुणहाणीए खंडिय तत्थेयखंडं
 द्विदिपरिहीणदव्वं च दो वि घेतूण होइ, तेणेसो अणतरहेट्टिमसमयसंचयादो संपहिय-
 समयम्मि गच्छमाणदव्ववादो च असंखेज्जदिभागवहियो होइ ति सिद्धं । संपहिय-
 संचपण चिराणसंतकम्मसंचयदव्वं पेक्खियूण असंखेज्जभागवट्टी चेव होइ ।
 हुदो? ओकड्डुकड्डुणभागहारोवट्टिददिवड्डुगुणहाणिखंडिदेगसमयपवद्धमेत्तचिराणसंचयादो
 एदस्स वट्टमाणसमयसंचयस्स असंखेज्जगुणहीणत्तदंसणादो । एवमथापवत्तकरण-
 पढमसमयसंचयपरुचणा कदा । एत्तो अंतोमुहुत्तमेत्तकालं सव्वमेगमवट्टिदद्विदिं वंधइ ति

हैं—अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे उसके अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें वंधे हुए समयप्रवद्धमे
 साधिक डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर जितना लब्ध आवे उतना प्रहणकर वह लब्ध द्रव्यप्रमाण
 होकर पुनः स्थितिकी परिहानिसे प्राप्त हुए असंख्यात भागप्रमाण द्रव्यसे अधिक होता है । और
 यह द्रव्य उस अधिष्ठान स्थितिमें अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा
 असंख्यातवे भागप्रमाण अधिक होता है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—क्योंकि, जो द्रव्य व्ययको प्राप्त होता है उसको लानेके लिये भागहारके
 स्थापित करनेपर पंचेन्द्रियका एक समयप्रवद्ध स्थापित करे । फिर इसका अपकर्षण-उत्कर्षण भाग-
 हारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्राचीन संचित द्रव्य प्राप्त होता है ।
 फिर इस संचित द्रव्यके नीचे अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारको स्थापितकर भाग देनेपर प्रकृत गोपुच्छा-
 मंसे व्ययका प्रमाणला नेके लिये वह साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रवद्धका भागहार हो जाता
 है । परन्तु पूर्वाक्त संचय तो एक समयप्रवद्धको साधिक डेढ़ गुणहानिसे भाजित करनेपर बड़ा
 प्राप्त हुआ एक भाग और स्थितिपरिहीन द्रव्य इन दोनोंको मिलाकर होता है, इसलिए यह द्रव्य
 अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें संचयको प्राप्त हुए द्रव्यसे और वर्तमान कालमें व्ययको प्राप्त होनेवाले
 द्रव्यसे असंख्यातवे भाग अधिक होता है यह सिद्ध हुआ । किन्तु इस वर्तमान कालीन संचयमें
 प्राचीन संचय द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि डेढ़ गुणहानिमें अपकर्षण-
 उत्कर्षण भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उसका एक समयप्रवद्धमें भाग देनेपर
 प्राचीन संचय द्रव्य आता है । उससे यह वर्तमान समयका संचय असंख्यातगुणा हीन देखा जाता
 है । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो संचय होता है उसका कथन किया । अब इससे
 आगे एक अन्तर्मुहूर्त कालतक पूरी अवस्थित स्थितिका बन्ध होता है, इसलिये वहाँ अवस्थित संचय

अवट्टिदो संचओ होइ । णवरि गोपुच्छविसेसं पडि विसेसो अत्थि सो जाणियव्वो । तत्तो परं पळिदोवमस्स असंखे०भागपेत्तमोसरिय अण्णे द्विदिवंधे आढत्ते असंखेज्ज-भागवट्टीए विसरिसो संचओ समुप्पज्जइ । एत्थ वि पुव्वं व परूवणा कायव्वा । एवं जत्थ जत्थ द्विदिवंधोसरणं भविस्सदि तत्थ तत्थ सेसट्टिदिं द्विदिपरिहाणिं च जाणिदूण संचयपरूवणा कायव्वा । एवमणेण विहाणेण अधापवत्त-अपुव्वकरणाणिं वोलिय अणियट्टिअद्दाए संखेज्जे भागे च गंतूण जाव दूरावकिट्टिसण्णिदो द्विदिवंधो चेदइ ताव गच्छमाणदव्वं तदर्णंतरहेट्टिमसमयसंचयं च पेक्खियूण समयं पडि जो संचओ सो असंखेज्जभागवट्टीए चेव गच्छइ । तदो पळिदोवमस्स संखे०भागपेत्तदूरावकिट्टि-सण्णिदद्विदिवंधे अच्चिदे सेसस्स असंखेज्जा भागा हाइयूण असंखेज्जदिभागो वज्झइ । एवं बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवट्टी चेव होऊण गच्छइ जाव जहण-परिचासंखेज्जछेदणयमेत्तगुणहाणिपमाणो द्विदिवंधो जादो चि । तदित्थिद्विदिं बंध-माणस्स असंखेज्जभागवट्टीए पज्जवसाणं होइ । पुणो एयगुणहाणिं हाइयूण बंध-माणस्स गच्छमाणदव्वं तदर्णंतरहेट्टिमसमयसंचयं च पेक्खियूण संखेज्जभागवट्टीए आदी जादा । एदं च सेठीए संभवं पडुच्च भणिदं, अण्णहा सेससेसस्स असंखेज्जे भागे परिहाविय बंधमाणस्स तहाविहसंभवाशुवलंभादो । संपहि चिराणसंचयं पेक्खियूणासंखेज्जभागवट्टी चेव तस्सोकड्डुकडुणभागहारोवट्टिददिवट्टुगुणहाणि-

होता है । किन्तु गोपुच्छविशेषकी अपेक्षा विशेषता है सो जान लेनी चाहिये । फिर उससे आगे पल्यका असंख्यातवर्गों भाग कम अन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए असंख्यातभागवृद्धिसे विसदृश संचय उत्पन्न होता है । यहाँ भी पहलेके समान कथन कर लेना चाहिये । इस प्रकार जहाँ जहाँ स्थितिबन्धापसरण होगा वहाँ वहाँ शेष स्थिति और स्थितिपरिहानिको जानकर सञ्चयका कथन करना चाहिये । इस प्रकार इस विधिसे अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको विता कर अनिष्टति करणके कालमें संख्यात बहुभागप्रमाण स्थान जाकर दूरापकृष्टि संज्ञावाले स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक प्रति समयमें व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे और अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें हुए सञ्चयसे प्रत्येक समयमें होनेवाला सञ्चय असंख्यातभागवृद्धिको लिये हुए होता है । फिर पल्यके संख्यातवर्गों भागप्रमाण दूरापकृष्टिसंज्ञक स्थितिबंधके रहते हुए शेष स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका घात करके असंख्यातवर्गों भाग प्रमाण स्थितिका बन्ध होता है । सो इसप्रकारका बन्ध करनेवाले जीवके भी प्रति समय असंख्यातभागवृद्धि ही होती है और यह जघन्य परीतासंख्यातके जितने अपूर्वच्छेद हों उतने गुणहानिप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक होती रहती है । इस प्रकार यहाँ अन्तमें जो स्थिति प्राप्त हो उसका बन्ध करनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धिका पर्यवसान होता है । फिर एक गुणहानिका कम स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उस समय व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा और अन्तरवर्ती नीचेके समयमें हुए संचयकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । किन्तु यह सब श्रेणियों सम्भव है इस अपेक्षासे कहा है, अन्यथा उत्तरोत्तर जो स्थितिबन्ध शेष रहता है उसका असंख्यातवर्गों भाग कम होकर आगे आगे बन्ध होता है इस प्रकारकी सम्भावना नहीं उपलब्ध होती । यहाँ पुराने संचयकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि उसका प्रमाण एक समयप्रवृद्धमें अपकर्षण-उत्कर्षणसे भाजित डेढ़ गुणहानिका भाग

भजिदेयसमयपवद्धपमाणत्तदंसणादो । एवं रूवूण-दुरूवणादिकमेण जहण्णपरित्तासंखेज्ज-
 छेदणयमेत्तगुणहाणीसु परिहीयमाणान्नु संखेज्जभागवट्टीए गंतूण जत्थुदेसे एयगुण-
 हाणिआयामो द्विदिवंधो जादो तत्थुदेसे गच्छमाणदव्वं तदण्णतरहेट्ठिमसमयसंचयं च
 पेक्खियूण संपहियसंचओ दुगुणो जादो । चिराणसंचयं पेक्खियूण पुण तक्काले वि
 असंखेज्जभागवट्टी चेव । पुणो पढमगुणहाणिं तिण्णिण खंडाणि काऊण तत्थ हेट्ठिम-
 दोखंडाणि भोत्तूण उवरिममेयखंडं सेसगुणहाणीओ च ओसरिय वंधमाणेस्स तिगुणो
 संचओ जादो । तं जहा—पढमगुणहाणीए विसेसहाणिमजोइय सव्वणिसेया सरिसा
 त्ति आयामेण तिण्णिण खंडे काऊण तत्थेयखंडमवणिय पुत्र द्वेयेव्वं । पुणो विदियादि-
 गुणहाणिदव्वं पि तावदियं चेव द्दोदि त्ति तहेव तिण्णिण भागे काऊण तत्थ तिभागं
 घेतूण पुव्वमवणिय पुत्र द्विवदतिभागेण सह भेलाविदे ते वि वे-तिभागा जादा । एवमेदे
 तिण्णिण वे-तिभागा एकदो मेळिदा तिगुणत्तं सिद्धं । अथवा दुगुणं सादारेयमिदि
 वत्तव्वं । सुहुमट्ठिदीए णिहालिज्जमाये गुणहाणिअद्धमेत्तविसेसाणं हीणत्तदंसणादो ।
 एवमुवरि वि किंचूणत्तं जाणिय जोजेयव्वं । एवं गंतूण पढमगुणहाणिं रूवाहियजहण्ण-
 परित्तासंखेज्जमेत्तखंडाणि काऊण तत्थ हेट्ठिमदोखंडाणि भोत्तुणवरिसव्वखंडाणि
 सेसगुणहाणीओ च ओसरिय वंधमाणे गच्छमाणदव्वं तदण्णतरहेट्ठिमसंचयं च
 पेक्खियू असंखेज्जगुणवट्टीए आदी जादा । एत्तो प्पहुट्ठि उवरि सव्वत्थ असंखेज्ज-

देने पर जो लव्व आवे उतना देखा जाता है । इसप्रकार एक कम दो कम आदि के क्रमसे
 जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदप्रमाण गुणहानियोके हीन होनेतक संख्यातभागवृद्धिसे
 जाकर जहाँ एक गुणहानिश्रायामप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है वहाँ व्ययको प्राप्त हुआ
 द्रव्य और अनन्तर नीचेके समयमे संचित हुआ द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा वर्तमानकालीन
 संचय दूना हो जाता है । परन्तु पुराने सत्त्वकी अपेक्षा उस समय भी असंख्यातभागवृद्धि
 ही है । फिर प्रथम गुणहानिके तीन खण्ड करके उनमेसे नीचेके दो खण्ड छोड़कर
 ऊपरके एक खंड और शेष गुणहानियोको घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके तिगुना संचय हो
 जाता है । यथा—प्रथमगुणहानिमे जो उत्तरोत्तर निषेकोकी विशेष हानि होती गई है इसकी गिनती
 नहीं करके सब निषेक समान हैं ऐसा मानकर उनके समान तीन खण्ड करके उनमेसे एक
 खण्डको निकालकर अलग स्थापित कर दे । फिर द्वितीयादि गुणहानियोका द्रव्य भी उतना ही
 होता है इसलिये उसीप्रकार तीन भाग करके उनमेसे तीसरे भागको ग्रहण करके पुर्वमें निकालकर
 प्रथक् स्थापित किये गये तीसरे भागमे मिला देनेपर वे भी दो बटे तीन भागप्रमाण हो जाते हैं ।
 इसप्रकार इन दो बटे तीन भागको एकत्रित करनेपर तिगुने हो जाते हैं इसलिये इस समय तिगुना
 संचय होता है यह बात सिद्ध हुई । अथवा साधिक दुगुना संचय होता है ऐसा कहना चाहिये,
 क्योंकि सूक्ष्मदृष्टिसे अवलोकन करने पर गुणहानिके अर्धभागप्रमाण विशेषकी हानि देखी जाती
 है । इसीप्रकार आगे भी इज्ज कमको जानकर उसकी योजना करते जाना चाहिये । इस प्रकार
 नामे जाकर प्रथम गुणहानिके एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण खण्ड करके उनमेसे
 नीचेके दो खण्डोंके सिवा ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानियोको घटाकर बन्ध करने पर
 व्ययको प्राप्त हुआ द्रव्य और अनन्तर नीचेके समयमे सञ्चित हुआ द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा

गुणवट्टी चैव होऊण गच्छइ ति घेतव्वं ।

§ ६७७. संपहि चिराणसंचयं पेक्खियूणासंखेज्जभागवट्टीए अंतो कम्मि उद्देसे होइ ति भणिदे जहणपरित्तासंखेज्जेणोकडडुकड्डणभागहारं खंदेयूण लद्धपमाणेण पढमगुणहाणिं खंडिय तत्थ हेट्ठिमदोखंडाणि मोत्तणुवरिमासेसखंडाणि सेसगुणहाणीओ च हाइयूण वंधमाणस्स असंखेज्जभागवट्टीए चरिमवियणो होइ । तं कथमिदि भणिदे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स दिवड्डुगुणहाणिभागहारं हेट्ठदो ठविय उवरि जहणपरित्तासंखेज्जेणोवट्ठिदओकडडुकड्डणभागहारे गुणयारसरूवेण ठविदे संपहियसंचओ आगच्छइ । चिराणसंचए पुण इच्छिज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स ओकडडुकड्डणभागहारोवट्ठिददिवड्डुगुणहाणिभागहारो ठवेयव्वो । एवं कदे चिराणसंचओ अधापवत्तकरणपढमसमयपडिवद्धो आगच्छइ । तेणासंखेज्ज-भागवट्टी एत्थ परिसमप्पइ ति णत्थि संदेहो ।

§ ६७८. संखेज्जभागवट्टिपारंभो कत्थ होइ ति पुच्छिदे उक्कस्ससंखेज्जोवट्ठिद-ओकडडुकड्डणभागहारपमाणेण पढमगुणहाणिं खंडिय तत्थ हेट्ठिमदोखंडं मोत्तण उवरिम-सव्वखंडाणि सेसगुणहाणीओ च हाइयूण वंधमाणे संखेज्जभागवट्टीए आदी होइ । एत्थोवट्ठणं पुव्वं व काऊण सिस्साणं पवोहो कायव्वो । एत्तो प्पहुडि संखेज्ज-भागवट्टी चैव होऊण गच्छदि जाव ओकडडुकड्डणभागहारस्स एगुरूवं भागहारत्तण

असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । अब इससे आगे सर्वत्र असंख्यातगुणवृद्धिका ही क्रम चालू रहता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६७७. अब पुराने सञ्चयकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धिका अन्त किस स्थानमें होता है यह बतलाते हैं—जघन्य परीतासंख्यातसे अपकर्षण-उपकर्षण भागहारको भाजित करके जो लब्ध आवे उतने प्रथम गुणहानिके खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोको छोड़कर ऊपरके बाकीके सब खण्ड और शेष गुणहानियोको घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धिका अन्तिम विकल्प होता है । यह कैसे होता है अब इसी बातको बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करके नीचे इसके डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारको स्थापित करनेपर और ऊपर जघन्य परीतासंख्यातसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको गुणकाररूपपर स्थापित करनेसे वर्तमान-कालीन संचय प्राप्त होता है । किन्तु पुराने सञ्चयको लानेकी इच्छासे पंचेन्द्रियके एक समय-प्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका अपकर्षण-उत्कर्षणसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे । ऐसा करनेसे अधःप्रवृत्तकरणका प्रथम समयसम्बन्धी पुराना संचय प्राप्त होता है । अतः यहाँ असंख्यातभागवृद्धि समाप्त होती है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ।

§ ६७८. अब संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ कहाँपर होता है यह बतलाते हैं—प्रथम गुण-हानिके उत्कृष्ट संख्यातसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोको छोड़कर ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानियोको घटाकर बन्ध करनेपर संख्यात-भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । यहाँपर पहलेके समान अपवर्तन करके शिष्योको ज्ञान कराना चाहिये । अब इससे आगे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका एक अद्भुत भागहाररूपसे प्राप्त होनेतक

चेइइ ति । पुणो तक्काले पदमगुणहाणिमोकड्डुकड्डुणभागहारमेत्तखंडाणि काऊण तत्थ हेट्टिमदोखंडाणि मोत्तणुवरिमसव्वखंडेहि सह सेसासेसगुणहाणीओ परिहाविय वंधमाणे संखेज्जगुणवड्डीए आदी जादा । तदो ओक्कड्डुकड्डुणभागहारदुगुणमेत्तं पदमगुणहाणिं खंडिय तत्थ हेट्टिमदोखंडाणि मोत्तणु उवरिमासेसखंडेहि सह सेसगुणहाणीओ ओसरिय वंधमाणे चिराणसंचएण सह तिगुणं संचओ होइ । एवं तिगुणचउगुणादिकमेण गंतूणुकस्ससंखेज्जगुणोक्कड्डुकड्डुणभागहारमेत्ताणि पदमगुणहाणिखंडाणि काऊण तत्थ हेट्टिमदोखंडाणि परिवज्जिय उवरिमासेसखंडाणि सेसगुणहाणीओ च द्विदिपरिहाणिं करिय वंधमाणे असंखेज्जगुणवड्डीए आदी जादा । एत्तो पाए उवरि सव्वद्धा संखेज्जगुणवड्डीए चेव गच्छइ । एवं द्विदिवंधसहस्साणि वड्डीणि गंतूण तदो उवरिमसंचयं गहिदमिच्छिय ओवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो तम्मि असंखेज्जवस्सायामेण तक्कालियद्विदिवंधेण भागे हिदे एयगोलुच्छपमाणमागच्छइ । पुणो वि अंतोसुहुत्तकालं तं चेव द्विदि वंधं ति अंतोसुहुत्तेण तम्मि ओवट्टिदे समयपवद्धभागहारो होइ । एवमोवट्टिय इमो संचओ पुथ द्ववेयव्वो ।

§ ६७६. संपहि अण्णेणं द्विदिवंधं वंधमाणो तदर्णतरहेट्टिमबंधादो असंखेज्जगुणहीणं हेट्टदो ओसरइ । एत्थोवट्टणं पुव्वं व कायव्वं । णवरि पुच्चिल्लसंचयादो एस संचओ असंखेज्जगुणो होइ । इमं पि संचयदव्वं पुथ द्ववेयव्वं । एवमसंखेज्ज-

संख्यातभागवृद्धिका ही क्रम चालू रहता है । फिर उस समय प्रथम गुणहानिके अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्डोंके साथ वाकीकी सब गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । फिर प्रथम गुणहानिके अपकर्षण-उत्कर्षणसे दूने खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्डोंके साथ शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर पुराने सत्त्वके साथ तिगुना संचय होता है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके तिगुने और चौगुने आदिके क्रमसे आगे जाकर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे उत्कृष्ट संख्यातगुणो खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानिप्रमाण स्थितिको घटाकर बन्ध करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । अब इससे आगे सर्वदा संख्यातगुणवृद्धिका की क्रम चालू रहता है । इस प्रकार हजारो स्थितिखण्डोंको वितारकर इससे ऊपरके सञ्चयको लानेकी इच्छासे भारतके स्थापित करनेपर पंचेन्द्रियके एक समप्रवृद्धको स्थापित करके फिर उसमें तत्काल वैयनेशाले असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धका भाग देनेपर एक गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर भी अन्तर्मुहूर्तकाल तक उसी स्थितिका बन्ध होता है, इसलिये उसमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देनेपर जो लब्ध थावे वह समय-प्रवृद्धका भागहार होता है । इस प्रकार अपवर्तित करके इस सञ्चयको अलग स्थापित करना चाहिये ।

§ ६७६. अब एक अन्य स्थितिवन्धको बाँधता हुआ इसके अनन्तरवर्ती नीचेके बन्धसे असंख्यातगुणो हीन नीचे जाकर बाँधता है । यहाँपर भी पहलेके समान अपवर्तन करना चाहिये । किन्तु इतनी शिरोपता है कि पूर्वके संचयसे यह संचय असंख्यातगुणा होता है । इस सञ्चय द्रव्यको

वस्तायामाणि होऊण संखेज्जट्टिदिवंधसहस्ताणि गच्छंति जाव संखेज्जवस्सट्टिदिवंधो जादो त्ति । कम्मिह पुणो संखेज्जवस्सिअओ ट्टिदिवंधो होइ त्ति भणिदे अंतरकरण-समत्तिपढमसमए होइ ।

§ ६८०. संपहि एत्थतणसंचयं गहिदुमिच्छामो त्ति ओवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स संखेज्जावलियमेत्तं संपहियट्टिदिवंधायामं भागहारं ठविय भागे हिदे एयगोवुच्छमागच्छइ । एवमंतोमुहुत्तं चैव ट्टिदिं वंधइ त्ति अंतोमुहुत्तेण तम्मि भागहारे ओवट्टिदे समयपवद्धभागहारो संखेज्जरूवमेत्तो होइ । एदं पि दव्वं पुध ठवेयव्वं । पुणो अण्णेगं ट्टिदिवंधं वंधमाणो पुव्विल्लवंधादो संखेज्जगुणहीणो हेददो ओसरइ । एदस्स वि पुव्वओवट्टणं कायव्वं । णवरि पुव्विल्ल-संचयादो इमो संखेज्जगुणो । एसो वि पुध ठवेयव्वो । एवमेदेण कमेण संखेज्जगुणहीणो वंधो होऊण गच्छइ जाव वत्तीसवस्समेत्तो ट्टिदिवंधो जादो त्ति । सो कम्मिह होइ त्ति पुच्छिदे चरिमसमयपुरिसवेदवंधयम्मि होइ । तत्तो प्पहुडि ट्टिदिवंधो विसेसहीणो होऊण गच्छइ । एवं संखेज्जे ट्टिदिवंधे ओसारिय णेदव्वं जाव कोहसंजलणस्स संखेज्जंतोमुहुत्तंभहियअट्टवस्समेत्तट्टिदिवंधो त्ति । तत्तो उवरि संचयं ण ल्हामो । किं कारणं ? एत्तो उवरिमट्टिदिवंधागमहियारट्टिदीदो हेदो चैव पत्तिसंदसागो ।

भी पृथक् स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार संख्यात वर्षका स्थितिवन्ध प्राप्त होनेतक असंख्यात वर्षके आयामवाले संख्यात हजार स्थितिवन्ध होते हैं ।

शंका—संख्यात वर्षका स्थितिवन्ध किस स्थानमें होता है ?

समाधान—अन्तरकरणकी समाप्तिके वाद प्रथम समयमें होता है ।

§ ६८०. अब यहाँका संचय लाना दृष्ट है इसलिये इसके भागहारको बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके एक समयप्रवद्धको स्थापित करके फिर इसका वर्तमान स्थितिवन्धके आयामवाला संख्यात आवलिप्रमाण भागहार स्थापित करके भाग देने पर एक गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता है । इसप्रकार अन्तर्मुहूर्त तक ही स्थिति बाँधता है इसलिये इस भागहारमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देने पर समयप्रवद्धका भागहार संख्यात अंकप्रमाण प्राप्त होता है । इस द्रव्यको भी पृथक् स्थापित करे । फिर एक दूसरे स्थितिवन्धको बाँधता हुआ पूर्वोक्त बन्धसे संख्यातगुणा हीन नीचे जाकर बाँधता है । इसे भी पहलेके समान भाजित करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पिछले सञ्चयसे यह सञ्चय संख्यातगुणा होता है । इसे भी पृथक् स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार बत्तीस वर्षप्रमाण स्थितिवन्धके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर बन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है ।

शंका—बत्तीस वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध किस स्थानमें जाकर होता है ?

समाधान—पुरुषवेदके बन्धके अन्तिम समयमें होता है ।

इससे आगे स्थितिवन्ध उत्तरोत्तर विशेष हीन होता जाता है । इस प्रकार कोधसंज्वलनके संख्यात अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिवन्धके प्राप्त होने तक संख्यात स्थितिवन्ध दो लेते हैं । अब इससे आगे संचय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इससे ऊपरके स्थितिवन्ध अधिकृत

एवमुवरिं चद्विय अंतोमुहुत्तद्धमच्छ्रिय तदो अद्धान्खएण परिचदमाणसो सुहुमसांपराइयद्धं
 वोलिय अणियट्टिवसामगो जादो । संपहि एवमोदरमाणस्स कम्मि पदेसे
 अहियारट्टिदिसंचयं लहइ त्ति पुच्छिदे जम्हि उद्देसे चदमाणस्स संचयवोच्छेदो
 जादो तमुद्देसं थोवंतरेण ण पावेइ त्ति ओयरमाणस्स संखेज्जंतोमुहुत्तब्भहियअद्द-
 वस्समेत्तट्टिदिवंधो जायदे । ततो एपहुट्टि अहियारगोवुच्छा अथाणिसेयसंचयं लहइ ।
 एवं गेदव्वं जाव असंखेज्जवस्समेत्तो ट्टिदिवंधो जादो त्ति । किंविहो सो असंखेज्ज-
 वस्सिओ ट्टिदिवंधो त्ति भणिदे तप्पाओग्गसंखेज्जरूपाणि ओक्कड्डुकड्डुणभागहारं च
 अण्णोण्णगुणं करिय णिप्पाइदो जो रासी तत्तियमेत्तो जाव एद्दूरं ताव संचयं लहामो ।
 एत्तो उवरिं संचयं ण लहामो, ओक्कड्डुकड्डुणाहिं गच्छमाणदव्वस्स ट्टिदिपरिहाणि-
 संचयं पेक्खियूण वहुत्तुवल्लंभादो । एवमेत्तियमेत्तकालसंचयं काळण तदो अणियट्टि-
 अपुव्व-अधापवत्तकमेण हेट्ठा परिवदिय पुणो वि अंतोमुहुत्तेण कसायउवसामणाए
 अब्भट्टिदो । एदिस्से वि उवसमसेहीए संचयविही पुव्वं व पख्खेयव्वा । णवरि
 चदमाणस्स जाधे संखेज्जरूवगुणिदोक्कड्डुकड्डुणभागहारमेत्तट्टिदिवंधो जादो तदो
 पहुट्टि संचयं लहामो, हेट्ठा आयादो वयस्स वहुत्तोवल्लंभादो । सेसविहीए णत्थि

स्थितिसे नीचे ही प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ऊपर चढ़कर और अन्तर्मुहूर्त कालतक वहाँ रहकर
 फिर उपशान्तमोहका काल पूरा हो जानेके कारण वहाँसे गिरकर और सूक्ष्मसाम्परायिकके कालको
 विताकर अनिष्टचित्तपशामक हो जाता है ।

शंका— इसप्रकार उतरनेवाले इस जीवके विवक्षित स्थितिका सञ्चय किस स्थानमे प्राप्त
 होता है ?

समाधान— जिस स्थानमें चढ़नेवाले जीवके सञ्चयकी वृत्ति होती है उस
 स्थानको थोड़े अन्तरसे नहीं प्राप्त करता, इसलिए उतरनेवाले जीवके जब संख्यात अन्तर्मुहूर्त
 अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता है तब वहाँसे लेकर विवक्षित गोपुच्छा यथानियेक
 सञ्चयको प्राप्त होती है ।

इसप्रकार असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धके होने तक जानना चाहिये ।

शंका— वह असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध किस प्रकारका होता है ?

समाधान— तद्योग्य संख्यात अंकोको और अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको परस्परमे
 गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उतना इतने दूर जाने तक वह संचय प्राप्त होता है, इससे
 ऊपर सञ्चय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा व्ययको प्राप्त होनेवाला द्रव्य
 स्थितिपरिहाणिसे होनेवाले सञ्चयकी अपेक्षा बहुत पाया जाता है ।

इस प्रकार इतने कालतक सञ्चय करके फिर अनिष्टचित्करण, अपूर्वकरण और अध प्रकरणके
 जन्मसे नीचे गिरकर फिर भी अन्तर्मुहूर्त दाद कपायोका उपशाम करनेके लिए उद्यत हुआ । इसके भी
 उपशान्तमेखिने सञ्चयका क्रम पहलेके समान कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि चढ़ने-
 वाले जीवने जब संख्यात अद्देसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण स्थितिवन्ध होता है
 तब वहाँसे सञ्चय प्राप्त होता है, क्योंकि नीचे आयसे व्यय बहुत पाया जाता है । इसके अतिरिक्त

णाणत्तं । एवमुवरिं चडिय हेद्दा ओदरदूणंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तं गंतूण मणुस्सावच्चं वंधिय कमेण कालं काऊण मणुसेसुववणो अंतोमुहुत्तब्भहियअद्ववस्साणमुवरि सम्मत्तं संजमं च जुगवं पडिवज्जिय सव्वलहं कसायउवसामणाए अब्भुट्ठिदो । एत्थ वि संचयविही पुव्वं व परूवेयव्वा । णवरि चढमाणो जाव अप्पणो चरिमट्ठिदिवंधो ताव संचयं लहदि त्ति वत्तव्वं । ओदरमाणो वि चढमाणस्स जम्मि चत्तारिमासमेत्तो चरिमट्ठिदिवंधो जादो तमुद्देसमतोमुहुत्तेण पावेदि त्ति अढमासमेत्तट्ठिदिवंधमाढवेइ ताधे पुव्विज्जलचरिमट्ठिदिवंधसंचयस्स अद्धमेत्तसंचयमहियारट्ठिदी लहइ । एत्तो प्पहुट्ठि पुव्वविहाणेण संचयं करेमाणो हेद्दा ओयरिय अंतोमुहुत्तेण पुणो वि उवसमसेट्ठिमारूढो । एत्थ वि पुवं व संचयं कादूणोदरमाणस्स अणियट्ठिअद्दाए अब्भंतरे जाधे तप्पाओग्गसंखेज्जखुवणुणिदोकाडुक्कडुणभागहारमेत्तो ट्ठिदिवंधो जादो ताधे तदित्थट्ठिद्वि वंधमाणेण अहियारगोवुच्छाए उवरि पढमणिसेयं कादूणुवरि पदेसरयणा कदा । एदस्सुवरि असंखेज्जगुणमण्णेणं ट्ठिदिवंधं वंधमाणस्स संचयं ण लहामो, अहियारट्ठिदीए आवाहाब्भंतरे पवेसियत्तादो । एसो च अधाणिसेयउक्कस्ससंचओ पुव्वमुवसयसेट्ठि चढमाणस्सोदरमाणस्स वा तम्मि भवे आवाहाब्भंतरमपविसिय आगदो संपहि चेव पविट्ठो । कधमेदं परिच्छिज्जदे ? चढमाणोदरमाणअपुव्वकरण-अणियट्ठि-

शेष विधिमें कोई भेद नहीं है । इस प्रकार ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर अन्तर्मुहूर्तमें यह जीव मिथ्यात्वमें गया और मनुष्यायुको बंधकर क्रमसे मरा और मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्षके बाद सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त करके अतिशीघ्र कषायोका उपशम करनेके लिये उद्यत हुआ । यहाँपर भी सञ्चयविधिका कथन पहलेके समान करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि चढ़नेवाला जीव अपने अन्तिम स्थितिवन्धके प्राप्त होनेतक सञ्चय करता रहता है यहाँ इतना कथन करना चाहिए । उतरनेवाला जीव भी चढ़नेवाले जीवके जिस स्थानमें चार माह प्रमाण अन्तिम स्थितिवन्ध होता है उस स्थानको अन्तर्मुहूर्तमें प्राप्त करता है, इसलिये आठ माह प्रमाण स्थितिवन्धका आरम्भ करता है । उस समय पूर्वोक्त अन्तिम स्थितिवन्धके सञ्चयका आधा संचय विवक्षित स्थितिमें प्राप्त होता है । अब यहाँसे आगे पूर्वविधिसे सञ्चय करता हुआ नीचे उतरकर अन्तर्मुहूर्त वाद फिर भी उपशमश्रेणिपर चढ़ता है । यहाँपर भी पहलेके समान सञ्चय करके उतरनेवाले जीवके अनिष्टतिकरण कालके भीतर जब तद्योग्य संख्यात अङ्कोसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण स्थितिवन्ध होता है तब उस स्थितिको बंधनेवाला जीव अधिकृत गोपुच्छामें प्रथम निषेकका निक्षेप करके प्रदेशरचना करता है । फिर इसके ऊपर असंख्यातगुणे अन्य स्थितिवन्धको बंधनेवाले जीवके अधिकृत स्थितिमें सञ्चय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि तब विवक्षित स्थिति आवाधाकालके भीतर पाई जाती है । यह यथानिषेकका उत्कृष्ट संचय जो जीव पहले उपशमश्रेणिपर चढ़ा था और उतरा था उसके उसी भवमें आवाधाके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर प्राप्त हुआ था किन्तु अब प्रविष्ट हुआ है ।

शंका—यह किस प्रमाण से जाना ?

समाधान—चढ़ते समयके और उतरते समयके अपूर्वकरण, अनिष्टतिकरण, सूक्ष्म-

करण-सुहुयसांपराइय-उवसंतकसायकालसव्वसमासादो वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय पमत्ता-
पमत्तपरावत्तसहस्सवावारेणावट्टिदकालादो च मोहणीयस्स अणियट्टिजहण्णिणा आवाहा
संखेज्जगुणा, तस्सेव मोहणीयस्स अपुव्वकरणम्मि उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा,
अणियट्टिम्मि मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो च्चि उवसमसेदीए अप्पा-
वहुअं भणिहिदि । एदेण णव्वदि जहा चढमाणअपुव्वावाहादो अंतोमुहुत्तव्वमहियं
होऊण द्विदमहियारगोबुच्छं पुव्वं चढमाणोदरमाणामावाहाव्वंभंतरमपविसियुणागमणं
लहइ च्चि । एदं च सव्वं मणेणावहारिय विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्मि पुण्णा
मा द्विदी आदिट्ठा च्चि सुत्तयारेण परुविदं ।

§ ६८१. एत्थ विदियाए च्चि उत्ते विदियभवग्गहणसंबंधिणो दो वि कसाउव-
सामणवारा धेप्पंति, तेसिं ज्जाइदुवारेणेयत्तावत्तंवणादो सुत्तस्स अंतदीवयभावेण
पयट्टत्तादो वा । संपहि पुव्वं परुविदासंखेज्जवस्सट्टिदिवंधियस्स पढमणिसेयं लद्धूणा-
वाहाव्वंभंतरे पविसिय अणियट्टिअद्धाए संखेज्जे भागे अपुव्वकरणं च वोलेयुण पुणो
क्रमेण पमत्तापमत्तट्ठाणे अहियारगोबुच्छाए उदयमागच्छमाणे कोहसंजळणस्स
उक्कस्सयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयं होइ । एदं च हियए करिय तम्मि उक्कस्सयमधा-
णिसेयट्टिदिपत्तयमिदि वुत्तं । तम्मि द्विदिविसेसे उदयपत्ते पयदुक्कस्ससामित्तं होइ च्चि

साम्पराय और उपशान्तमोह इन सब कालोका जितना जोड़ हो उससे तथा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त
करके प्रमत्त और अप्रमत्तके हजारो परिवर्तनमे लगनेवाले अवस्थितकालसे मोहनीयकर्मकी
अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी जवन्य अवाधा संख्यातगुणी होती है । इससे उसी मोहनीयकी अपूर्वकरणमे
उत्कृष्ट अवाधा संख्यातगुणी होती है । इससे अनिवृत्तिकरणमे मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध
संख्यातगुणा होता है । इसप्रकार आगे चलकर उपशमश्रेणिमे अल्पवहुत्व कहेगे । इससे जाना जाता
है कि जो अधिकृत गोपुच्छा चढ़ते समय प्राप्त हुए अपूर्वकरणके अवाधाकालसे अन्तर्मुहूर्त अधिक
होकर स्थित है वह पूर्वमे जो उपशमश्रेणिपर चढ़ा और उतरा था उसके उस समय प्राप्त हुए
अवाधाकालके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर प्राप्त हीती है । इस सब व्यवस्थाको मनमे निश्चित
करके 'विदियाए उवसामणाए अवाहा जम्मि संपुण्णा सा द्विदी आदिट्ठा' ऐसा सूत्रकारने
कहा है ।

§ ६८१. यहाँ सूत्रमे जो 'विदियाए उवसामणाए' ऐसा कहा है सो इससे दूसरे भवसम्बन्धी
कपायोके उपशमानेके दोनो ही वार ग्रहण करने चाहिये, क्योंकि जातिकी अपेक्षा ये दोनो एक हैं,
उसलिये एक वचनरूपसे इनका कथन किया है । या यह सूत्र अन्तर्दीपकभावसे प्रवृत्त हुआ है,
उसलिये सूत्रमे एकवचनका निर्देश किया है । अब पहले जो असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध
का है उसके प्रथम निपेकको प्राप्त कराके और अवाधाके भीतर प्रवेश कराके अनिवृत्तिकरणके
संश्रुत भागोंको और अपूर्वकरणको वितार फिर क्रमसे जब अप्रमत्तसंयत और प्रमत्तसंयत
गुणस्थानमे अधिकृत गोपुच्छा उदयको प्राप्त होती है तब क्रोधसंज्वलनका यथानिपेकस्थिति-
प्राप्त द्रव्य उत्कृष्ट होता है । इसप्रकार इस बातको हृदयमे करके सूत्रमे 'तम्मि उक्कस्सयमधा-
णिसेयट्टिदिपत्तयं' यह वचन कहा है । उस स्थितिविशेषके उदयको प्राप्त होनेपर प्रकृत उत्कृष्ट

भावत्थो ।

§ ६८२. संपहि एत्थ लद्धपमाणानुगमे भण्णमाणे पढमवारं चढमाणेण लद्धं सव्वसंचयं ठविय पुणो चउहि ख्वेहि तम्हि गुणिदे एयसमयपवद्धस्स संखेज्जदि-
भागो आगच्छइ, सखेज्जवस्सियट्ठिदिवंधसंचयस्सेव पाहणियादो । एवं कोहसंजळणस्स पयदुक्कस्ससामित्तं परुविय संपहि एसो चेव णिसेयट्ठिदिपत्तयस्स वि
सामिओ होइ त्ति जाणावणद्वसुत्तरसुत्तमोइण्णं—

❀ णिसेयट्ठिदिपत्तयं च तम्हि चेव ।

§ ६८३. तम्हि चेव ट्ठिदिविसेसे पुव्वणिरुद्धे णिसेयट्ठिदिपत्तयं पि उक्कस्सं
होइ, दोण्हमेदेसिं ट्ठिदिपत्तयाणं सामित्तं पट्ठि विसेसादंसणादो । णवरि दव्वविसेसो
जाणेयव्वो, तत्तो पदस्स ओकड्डुक्कड्डुणाहि गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिददव्वमेत्तेणाहिय-
भावोवत्तंभादो ।

❀ उक्कस्सयमुदयट्ठिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६८४. सुगमं ।

स्वामित्व होता है यह इसका भावार्थ है ।

§ ६८२. अब यहाँ लब्धप्रमाणका विचार करते हैं—पहली बार उपशमश्रेणिपर चढ़ने
और उतरनेसे जो संचय प्राप्त हो उस सबको स्थापित करे । फिर उसे चारसे गुणा करनेपर एक
समयप्रबद्धका संख्यातवां भाग प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धका
प्राप्त हुआ संचय ही प्रधान है । इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके
अब यही निषेकस्थितिप्राप्तका भी स्वामी होता है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

❀ उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी वही स्वामी है ।

§ ६८३. जो स्थिति यथानिषेकके उत्कृष्ट स्वामित्वके समय विवक्षित थी उसी स्थिति-
विशेषमे निषेकस्थितिप्राप्त भी उत्कृष्ट होता है, क्योंकि इन दोनों ही स्थितिप्राप्तोंमे स्वामित्वकी
अपेक्षा कोई भेद नहीं देखा जाता । किन्तु द्रव्यविशेषको जान लेना चाहिये, क्योंकि यथानिषेक-
स्थितिमेसे अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य व्ययको प्राप्त हो जाता है वह इसमे पुनः जहाँका
तहाँ आ जाता है इसलिये यथानिषेककी अपेक्षा इसमें इतना द्रव्य अधिक पाया जाता है ।

विशेषार्थ—पिछले सूत्रमे यथानिषेकस्थितिप्राप्तका उत्कृष्ट स्वामी बतला आये हैं ।
उसीप्रकार निषेकस्थितिप्राप्तका भी उत्कृष्ट स्वामी जान लेना चाहिये, इसकी अपेक्षा इन दोनोंमे
कोई अन्तर नहीं है यह इस सूत्रका भाव है । किन्तु इतनी विशेषता है कि यथानिषेकस्थिति-
प्राप्तका जितना उत्कृष्ट द्रव्य होता है उससे निषेकस्थितिप्राप्तका उत्कृष्ट द्रव्य अधिक होता है,
क्योंकि यथानिषेकमे अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जिस द्रव्यकी हानि हो जाती है उसमें वह द्रव्य
पुनः जहाँका तहाँ आ जाता है ।

❀ उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६८४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ चरिमसमयकोहवेदयस्स ।

§ ६८५. एत्थ गुणिदकम्मंसियविसेसणं फलाभावादो ण कदं । कुदो फलाभावो चे ? कोहसंजलणपोराणपढमद्विदिं सव्वं गालिय पुणो किद्विदेगेण ओकड्डियुणंतरव्वंत्तरे गुणसेद्विआयारेण णिसित्तपढमद्विदीए समयाहियावळियचरिम-णिसेयं वेत्तूण पयदसामित्तविहाणे गुणिदकम्मंसियत्तकयफलविसेसाणुवत्तांभादो । खवगविसेसणमेत्थाणुत्तसिद्धमिदि ण कदं । एवं कोहसंजलणस्स सव्वेसिं द्विदिपत्तयाण-मुक्कस्ससामित्तं परुविय सेससंजलणाणं पि सव्वपदाणमेदेण सम्पणद्वमिदमाह—

❀ एवं माण-माया-लोहाणं ।

§ ६८६. जहा कोहसंजलणस्स चउण्हं द्विदिपत्तयाणं सामित्तविहाणं कय एवं माण-माया-लोहसंजलणाणं पि कायव्वं, विसेसाभावादो । णवरि जहाणिसेय-णिसेय-द्विदिपत्तयाणमुक्कस्सदव्वसंचओ कोहसंजलणस्स वंधे वोच्छिण्णे वि लब्भइ जाव सगव्वं वंधोच्छेदसमओ त्ति । अण्णं च लोभसंजलणस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं गुणिदकम्मंसियस्सेव होइ, एत्तिओ चेव विसेसो ।

❀ जो जीव अपने अन्तिम समयमें क्रोधका वेदन कर रहा है वह उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६८५. इस सूत्रमें विशेष फल न देखकर गुणितकर्मांश यह विशेषण नहीं दिया है ।

शंका—इस विशेषणका विशेष फल क्यों नहीं है ?

समाधान—यह जीव चापणके समय क्रोधसंज्वलनकी पुरानी प्रथम स्थितिको पूरीकी पूरी गजा देता है फिर कृष्टिका वेदन करते समय अन्तरकालके भीतर अपकर्षण द्वारा गुणश्रेणिरूपसे प्रथम स्थितिकी रचना करता है । तब एक समय अधिक एक आवलिके अन्तिम निषेककी अपेक्षा प्रकृत स्वामित्वका विधान किया जाता है, अतः इसमें गुणितकर्मांशकृत कोई विशेष फल नहीं पाया जाता है ।

सूत्रमें चापक विशेषणका विना कहे ही ग्रहण हो जाता है, इसलिये उसे सूत्रमें नहीं दिया है । इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके सभी स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके जेप संज्वलनोके सभी पदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व भी इसीके समान है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ इसी प्रकार मान, माया और लोभसंज्वलनके सब पदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ६८६. जिसप्रकार क्रोधसंज्वलनके चारों स्थितिप्राप्तोंके स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार मान, माया और लोभ संज्वलनोंका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इनके कथनमें कोई विगंभता नहीं है । किन्तु इतनी विवेकता है कि उक्त प्रकृतियोंकी अपेक्षा यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट द्रव्यका संक्षेप क्रोधसंज्वलनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जानेपर भी अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके समय तक होता रहता है । तथा दूसरी विवेकता यह है कि लोभ संज्वलनका उदयस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य गुणितकर्मांशके ही होता है । वस इतनी ही विवेकता है ।

❀ पुरिसवेदस्स चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कोहसंजलणभंगो ।

§ ६२७. पुरिसवेदस्स जहावसरपत्ताणि चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कस्से ति आसंक्रिय कोहसंजलणभंगो ति अप्पणा कया, विसेसाभावोदो । संपहि उदयद्विदिपत्तयसामित्तगयविसेसपदुप्पायणद्वमुत्तरमुत्तारंभो—

❀ एवरि उदयद्विदिपत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स गुणिदकम्मंसियस्स ।

§ ६२८. तत्थ चरिमसमयकोहवेदयस्स खवयस्स पयदुकस्ससामित्तं, एत्थ पुण चरिमसमयपुरिसवेदयस्स खवयस्से ति वत्तव्वं । अप्पणं च गुणिदकम्मंसियत्तं पि एत्थ विसेसो, तत्थ गुणिदकम्मंसियत्तस्साणुवजोगितादो । एत्थ पुण गुणिदकम्मंसियत्तमुवजोगी चेष, अप्पणहा पयडिगोबुच्छाए थूलभावाणुप्पत्तीदो ।

❀ इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं मिच्छुत्तभंगो ।

§ ६२९. सुगममेदम्पणासुत्तं ।

❀ उक्कस्सयअधाणिसेयद्विदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तयं च कस्स ?

§ ६३०. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

* पुरुषवेदके चारों ही स्थितिप्राप्त द्रव्योंका भंग क्रोधसंज्वलनके समान है ।

§ ६२७. अब पुरुषवेदके चारो ही स्थितिप्राप्तोंके स्वामित्वका कथन अवसर प्राप्त है, इसलिये उनका स्वामी कौन है ऐसी आशंका करके पुरुषवेदके चारों ही स्थितिप्राप्तोंका भङ्ग क्रोधसंज्वलनके समान है यह कहा है, क्योंकि क्रोधसंज्वलनके कथनसे इस कथनमें कोई विशेषता नहीं है। अब उदयस्थितिप्राप्त स्वामित्वसम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि जो गुणितकर्माशाला जीव पुरुषवेदका क्षय कर रहा है वह अपने अन्तिम समयमें उसके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी है ।

§ ६२८. क्रोधसंज्वलनका कथन करते समय क्षयक क्रोधवेदके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है किन्तु यहाँ पर क्षयक पुरुषवेदके अन्तिम समयमें यह उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह कहना चाहिये। दूसरे गुणितकर्माशाले जीवके इसका उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यहाँ इतनी विशेषता और है। क्रोधसंज्वलनके उदयप्राप्तको गुणितकर्माश होनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका उपयोग नहीं है किन्तु यहाँपर गुणितकर्माशपना उपयोगी ही है, अन्यथा प्रकृत गोपुच्छा स्थूल नहीं हो सकती ।

* स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ६२९. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

* उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६३०. यह पुच्छासूत्र सुगम है ।

❀ इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतो-
मुहुत्तस्संतो दो वारे कसाए उवसामिदा । जाथे विदियाए उवसामिणाए
जह्यणयस्स द्विदिवंधस्स पढमणिसेयद्विदी उदयं पत्ता ताथे अधाणिसेयादो
णिसेयादो च उक्कस्सयं द्विदिपत्तयं ।

§ ६६१. एत्थ इत्थिवेदसंजदेणे त्ति वयणं सोदएण सामित्तविहाणद्वं, परोदएण
पयदुक्कस्ससामित्तविहाणोवायाभावादो । तेणेत्थिवेदसंजदेणेत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिद-
कम्मंसिएण अंतोमुहुत्तस्संतो दो वारे कसाया उवसामिदा । एकवारं कसाए उवसामिय
पडिवदिय पुणो वि सव्वलहुं कसाया उवसामिदा त्ति उत्तं होइ । ण च पुरिसवेद-
पूरिदकम्मंसियत्तमेत्थाणुवजेगी, त्थिउक्कसंकमेणोवजोत्तिदंसणादो । ण णवुंसयवेद-
पूरियकम्मंसिएण अइप्पसंगो, असंखेज्जवस्साउएसु अधाणिसेयसंचयकालवभंतेरे तस्स
पूरणोवायाभावादो । सेसं जहा कोहसंजलणस्स भणिदं तहा वचव्वं । णवरि असंखेज्ज-
वस्साउअतिरिक्खेसु मणुस्सेसु वा संखेज्जंतोमुहुत्तवभहियसोलसवस्सेहि सादिरेय-
दसवस्ससहस्सपरिहीणमधाणिसेयसंचयकालमणुपालिय तत्थित्थि-पुरिसवेदे पूरेयुण
तदो दसवस्ससहस्सिएसुववज्जिय कमेण मणुस्सेसु आगदो त्ति वचव्वं । जहा कोह-
संजलणस्स उवसामयसंचयाणुगमो लद्धपमाणाणुगमो च कओ तहा एत्थ वि णिरवसेसो

❀ स्त्रीवेद और पुरुषवेदके कर्मांशको पूरण करनेवाला जो स्त्रीवेदके उदयवाला
संयत जीव अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार कपायोंका उपशम करता है और ऐसा करते
हुए जब उसके दूसरी उपशमनाके समय जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निपेकस्थिति
उदयको प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिपेक और निपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका
स्वामी है ।

§ ६६१. सूत्रमें 'इत्थिवेदसंजदेण' यह वचन स्वोदयसे स्वामित्वका कथन करनेके लिये
दिया है, क्योंकि परोदयसे प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। ऐसा जो स्त्रीवेदके
उदयवाला संयत जीव है वह स्त्रीवेद और पुरुषवेदके कर्मांशका पूरण करके अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर दो
बार कपायोंको उपशामता है। एक बार कपायोंका उपशम करके और उपशमश्रणीसे च्युत होकर
फिर भी अतिशोभ कपायोंका उपशम करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यदि कहा जाय कि
पुरुषवेदके कर्मांशका पूरण करना प्रकृतमें अनुपयोगी है सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि स्तिवु-
त्तरुमणके द्वारा उसकी उपयोगिता देखी जाती है। और ऐसा कथन करनेसे जिसने नपुंसकवेदके
कर्मांशका पूरण किया है उसके साथ अतिप्रसन्न भी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि असंख्यात वर्षकी
आयुवालोंमें यथानिपेक संचयकालके भीतर उसका पूरण करना नहीं बन सकता है। जेप कथन
क्रमसंख्यलनके समान करना चाहिये। किन्तु प्रकृतमें इतना विशेष कहना चाहिये कि असंख्यात
वर्षकी आयुवाले तिर्यक् और मनुष्योंमें संख्यात अन्तर्मुहूर्त और सोलह वर्ष अधिक दस हजार
वर्षमें न्यून यथानिपेक संचयकालका पालन करके तथा वहाँ स्त्रीवेद और पुरुषवेदका पूरण करके
फिर वहाँसे निकलकर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंने उत्पन्न होकर क्रमसे मनुष्य हुआ।
नोवसंखलनका जिस प्रकार उपशमकसन्ध्वी सब्बयका और लद्धप्रमाणका विचार किया है

कायव्यो ।

❀ उदयद्विदिपत्तयमुक्त्स्सयं कस्स ?

§ ६६२. इत्थिवेदस्से ति अहियारसंव'धो । सेसं सुगमं ।

❀ गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्स चरिमसमयइत्थिवेदयस्स तस्स उक्त्स्सयमुदयद्विदिपत्तयं ।

उसी प्रकार वह सबका सब विचार यहाँ भी करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ पर स्त्रीवेदके यथानिषेक स्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामीका विचार करते हुए जो यह बतलाया है कि पहले स्त्रीवेद और पुरुषवेदका पूरा करके स्त्रीवेदके उदयके साथ संयत होकर दो बार कपायोका उपशम करते हुए जब दूसरी बार उपशामनाके समय जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निषेकस्थिति उदयमें आती है तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है सो इसका आशय यह है कि सर्वप्रथम यह जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच या मनुष्योंमें उत्पन्न होवे । फिर वहाँ यथानिषेकका जितना संचयकाल है उसमेंसे संख्यात अन्तर्मुहूर्त और सोलह वर्ष अधिक एक हजार वर्षसे न्यून कालके शेष रहनेपर स्त्रीवेद और पुरुषवेदका संचय प्रारम्भ करे । और इस प्रकार वहाँकी आयु समाप्त करके दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होवे । फिर वहाँसे च्युत होकर मनुष्य होवे । फिर गर्भसे लेकर आठ वर्ष व्यतीत होनेपर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त करे । फिर द्वितीयोपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करके अतिशीघ्र उपशमश्रेणिपर आरोहण करे और वहाँसे च्युत होकर दूसरी बार पुनः उपशमश्रेणिपर आरोहण करे । फिर क्रमसे च्युत होकर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः मनुष्यायुका बन्ध करके दूसरी बार भी मनुष्य होवे और वहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे किया करे । इस प्रकार दूसरी बार उपशामना करनेवाले इस जीवके जब जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निषेकस्थिति उदयमें आती है तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । यहाँ स्त्रीवेदके संचयके साथ जो पुरुषवेदके सञ्चयका विधान किया है सो इसका फल यह है कि स्तिवुक संक्रमणके द्वारा पुरुषवेदका द्रव्य स्त्रीवेदमें मिल जानेसे स्त्रीवेदकी यथानिषेकस्थिति या निषेकस्थितिका उदयगत उत्कृष्ट संचय बन जाता है । यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार तो नपुंसकवेदका द्रव्य भी मिलता है पर प्रकृतमें उसका विधान क्यों नहीं किया सो इसका यह समाधान है कि स्त्रीवेदकी यथानिषेकस्थिति या निषेकस्थितिका उत्कृष्ट सञ्चयकाल असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें व्यतीत होता है और वहाँ नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, अतः ऐसे जीवके नपुंसकवेदका अधिक सञ्चय नहीं पाया जाता । यही कारण है कि प्रकृतमें इसका उल्लेख नहीं किया है । वैसे स्त्रीवेदका उदय रहते हुए इसका द्रव्य भी स्तिवुक संक्रमणके द्वारा स्त्रीवेदमें प्राप्त होता रहता है । पर उसकी परिगणना यथानिषेकस्थितिमें या निषेकस्थितिमें नहीं की जा सकती । शेष व्याख्यान संवलयन क्रोधके समान यहाँ भी जानना चाहिये ।

* उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी कौन है ।

§ ६६२. इस सूत्रमें अधिकारके अनुसार 'इत्थिवेदस्स' पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांश स्त्रीवेदी क्षपक जीव अपने उदयके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह स्त्रीवेदके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६६३. एत्य गुणिदकम्मंसियणिद्देसो तप्पडिवक्खकम्मंसियपडिसेहमुद्देण पयडिगोवुच्छाए धूलभावसंपायणफलो । खवयणिद्देसो अक्खवययुदासपओजणो; अण्णत्थ गुणसेदीए बहुत्ताभावादो । चरिमसमयइत्थिवेदयणिद्देसो तदण्णपरिहारदुवारेण गुणसेदिसीसयगहणद्दो । एवंविहस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ ।

❀ एवं णञ्जुंसयवेदस्स ।

§ ६६४. जहा इथिवेदस्स चउण्हमुक्कस्सद्विदिपत्तयाणं सामित्तपरूवणा कया एवं णञ्जुंसयवेदस्स वि कायव्वा, विसेसाभावादो ।

❀ णवरि णञ्जुंसयवेदोदयस्से त्ति भाण्णिदव्वाणि ।

§ ६६५. एत्य 'णवरि' सद्दो विसेसद्वसूचओ । को विसेसो ? णञ्जुंसयवेदस्से त्ति आलावो, अण्णहा पयदुक्कस्ससामित्तविहाणाणुववत्तीदो ।

एवमुक्कस्सद्विदिपत्तयसामित्तं समत्तं ।

❀ जहयणाणि द्विदिपत्तयाणि कायव्वाणि ।

§ ६६६. सुगममेदं पइज्जामुत्तं ।

§ ६६३. यहाँ सूत्रमे जो 'गुणिदकम्मंसिय' पदका निर्देश किया है सो यह इसके विपक्षी क्षपितकर्मांशके निषेधद्वारा प्रकृत गोपुच्छाकी स्थूलताको प्राप्त करनेके लिए किया है। 'खवय' इस पदका निर्देश अक्षपकका निराकरण करनेके लिए किया है, क्योंकि गुणश्रेणीके सिया अन्यत्र बहुत द्रव्य नहीं पाया जाता है। तथा सूत्रमे जो 'चरिमसमयइत्थिवेदय' इस पदका निर्देश किया है सो वह खीवेदसे भिन्न वेदके निषेधद्वारा गुणश्रेणिसीर्षके ग्रहण करनेके लिये किया है। इस तरह पूर्वोक्त विशेषणसे युक्त जो जीव है उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है।

❀ इसी प्रकार नपुंसकवेदका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिये ।

§ ६६४. जिस प्रकार खीवेदके चारों ही स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार नपुंसकवेदका भी कथन करना चाहिये, क्योंकि उससे इसके कथनमे कोई विशेषता नहीं है।

❀ किन्तु यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुंसकवेदके उदयवाले जीवके कहना चाहिये ।

§ ६६५. इस सूत्रमे जो 'णवरि' पद है वह भी विरोप अर्थका सूचक है ।

शंका—यह विरोपता क्या है ?

समाधान—यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुंसकवेदवालेके ही होता है यह विरोपता है जिसका नयन यहाँ करना चाहिये, अन्यथा प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता है ।

इसप्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ ।

❀ अब जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका कथन करते हैं ।

§ ६६६. यह प्रतिज्ञासूत्र सुगम है ।

❁ सञ्चकम्माणं पि अग्गट्ठिदियपत्तयं जहएणयमेओ पदेसो । तं पुण अणणदरस्स होज्ज ।

§ ६६७. कथमणंतपरमाणुसमण्णदस्स अग्गट्ठिदिण्णियेयस्स जहण्णेओ पदेसोव-
लंभइ ? ग, ओकडडुक्कडुणावसेण सुद्धं णिल्लेविज्जमाणस्स एयपरमाणुमेत्तावहाणे
विरोहाभावादो । तं पुण अण्णदरस्स होज्ज, विरोहाभावादो ।

§ ६६८. एवं सच्चैसि कम्माणमग्गट्ठिदिपत्तयजहण्णसामित्तमेकवारेण परुविय
संपहि सेसट्ठिदिपत्तयाणं जहण्णसामित्तविहाणद्वसुवरिभं पवंधामादवेइ ।

❁ मिच्छत्तस्स णिसेयट्ठिदिपत्तयसुदयट्ठिदिपत्तयं च जहएणयं कस्स ?

* सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य प्रमाण एक परमाणु है और
उसका स्वामी कोई भी जीव है ।

§ ६६७. शंका—जब कि अग्रस्थितिप्राप्त निषेक अनन्त परमाणुओंसे बनता है तब फिर
उसमें जघन्यरूपसे एक परमाणु कैसे पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके कारण उन सबका अभाव होकर एक
परमाणु मात्रका सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता है । और इसका स्वामी कोई भी जीव
हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका कथन युगपत्
क्रिया है सो इसका कारण यह है कि अपकर्षण और उत्कर्षणके कारण अग्रस्थितिमें एक परमाणु
रहकर जब वह उदयमें आता है तब यह जघन्य स्वामित्व होता है और यह स्थिति सभी कर्मोंमें
घटित हो सकती है, अतः सब कर्मोंके स्वामित्वको युगपत् कहनेमें कोई बाधा नहीं आती । यहाँ
यह शंका की जा सकती है कि अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण होता है यह तो ठीक है
पर उनका उत्कर्षण कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि बन्धके समय जिनकी जितनी
शक्तिस्थिति पाई जाती है उनका उतना ही उत्कर्षण हो सकता है । किन्तु अग्रस्थितिके कर्म
परमाणुओंमें जब एक समय मात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती है तब फिर उनका उत्कर्षण
होना सम्भव नहीं है । सो इस शंकाका यह समाधान है कि अग्रस्थितिके कर्म परमाणुओंका
अपकर्षण होकर पहले उनका नीचेकी स्थितिमें निक्षेप हो जाता है और फिर उत्कर्षण हो जाता
है, इस विवक्षासे अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण बन जाता है । इसी कारणसे यहाँ अग्र-
स्थितिके परमाणुओंके अपकर्षण और उत्कर्षणका विधान किया है । अथवा बन्धके समय जिन
कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं हुआ उनकी अग्रस्थितिका शक्तिस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता
है, इस अपेक्षासे भी यहाँपर उत्कर्षण घटित किया जा सकता है और इसीलिए यहाँपर
उत्कर्षणका विधान किया है ।

§ ६६८. इस प्रकार सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको एक साथ
कहकर अब शेष स्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेकी रचनाका
आरम्भ करते हैं—

* मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी
कौन है ?

§ ६६६. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स तप्पाओग्गुक्खस्स-
संकिलिद्वस्स तस्स जहणणयं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं च ।

§ ७००. उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स जहणणयं णिसेयद्विदि-
पत्तयं होइ त्ति एत्थ सुत्तथाहिसंबंधो । सो च उवसमसम्माइद्वी व्वसु आवलियासु
उवसमसम्मत्तदाए सेसासु आसाणं गंतूण मिच्छत्तं पडिवण्णो त्ति घेतत्तं, अप्णहा
उक्खस्ससंक्खिलेसाभावेणोदीरणाए जहणणत्ताणुववत्तीदो । सुत्ते असंतमेदं कथमुवल्लभदे ?
ण, तप्पाओग्गुक्खस्ससंकिलिद्वस्से त्ति विसेसणेण तदुवल्लदीदो । कथमेदस्स उवसम-
सम्माइद्विपच्छायदपढमसमयमिच्छाइद्विणा उवरिमद्विदीहितो ओकड्डियउदीरिददव्वस्स
णिसेयद्विदिपत्तयत्तं, कथं च ण भवे वंधसमयणिसेयमस्सियूण, तस्स पुव्वं
समुक्कित्तियत्तादो । ओकड्डुणाणिसेयं पि पेक्खियूण ण तस्स वि णिसेयद्विदिपत्तयत्तं
वोत्तुं जुत्तं, तहाब्भुवगमे गुणसेद्विसीसओदएण णिसेयद्विदिपत्तयस्स उक्खस्ससामित्त-
विहाणाइप्पसांगादो । तदो णेदं सामित्तविहाणं घडइ त्ति ? एत्थ परिहारो बुच्चदे—को

§ ६६६. यह पृच्छामसुत्र सुगम है ।

* जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संवलेवासे युक्त प्रथम
समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव है वह निपेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य
स्वामी है ।

§ ७००. उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव है वह
निपेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी होता है इस प्रकार यहाँ पर सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध
करना चाहिये । किन्तु वह उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलिप्रमाण
कालके शेष रहनेपर सासादनमें जाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये,
अन्यथा परिणामोंमें उत्कृष्ट संकलेशके नहीं प्राप्त होनेसे जघन्य उदीरणा नहीं बन सकती है ।

शंका—इसका निर्देश सूत्रमें तो किया नहीं है अतः यह अर्थ यहाँ कैसे लिया जा
सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सूत्रमें जो 'तप्पाओग्गुक्खस्ससंकिलिद्वस्स' यह विशेषण दिया
है सो इससे उक्त अर्थका ग्रहण हो जाता है ।

शंका—जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि है वह
जिस द्रव्यका ऊपरकी स्थितिसे अपकर्षण करके उदीरणा करता है वह द्रव्य निपेकस्थितिप्राप्त
कैसे हो सकता है और बन्धके समय निपेकमें जो द्रव्य प्राप्त होता है वह निपेकस्थितिप्राप्त कैसे
नहीं होता, क्योंकि पहले निपेकस्थितिप्राप्तका इसी रूपसे कथन किया है । यदि कहा जाय कि
'अपरपैणसम्यन्धो निपेकको अपेक्षासे उसे निपेकस्थितिप्राप्त कहा जायगा सो ऐसा कथन करना
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर गुणश्रेणियोंके उदयसे निपेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट
स्वामित्वका विधान करनेपर प्रतिप्रसंग दोष आता है, इसलिये यह जो उक्त प्रकारसे स्वामित्वका
व्यपन किया है वह नहीं बनता है ?

एवं भणइ ? उदीरणादव्वं सव्वमेव पयदजहण्णसामित्तविसईकयमिदि । किंतु तित्से चैव द्विदीए पुच्चमंतरद्दमुकीरमाणीए पदेसग्गमोकड्डियुणुवरिमद्विदीसु सभयाविरोहेण पक्खित्तमत्थित्तमेण्णिमोक्कड्डिय असंखेज्जोणपडिभागोणोदयम्मि पुणो वि तत्थेव णिसिंचमाणं पयदजहण्णसामित्तविसईकयमिदि भणामो । तदो णाणंतरुत्तदोसो त्ति ।

§ ७०१. संपहि एत्थ पयदसामित्तपडिग्गहिय दव्वपपाणाशुगमं वत्तइस्सामो । तं जहा—मिच्छत्तस्स अंतरब्भंतरद्विदअहियारद्विदीए अंतरकरणपारंभसमए णाणा-समयपवद्धपडिवद्धणित्सेए अस्सियुण तप्पाओग्गमेयसमयपवद्धमेत्तं पदेसग्गमत्थि तं पुण सव्वं णित्सेयद्विदिपत्तयं ण होइ, किंतु हेद्विमोचरिमद्विदीणमुक्कड्डुणोक्कड्डुणेहि तत्थ संगल्लिददव्वेण सह समयपवद्धपमाणं होइ । पुणो केत्थियमेत्तमंतरकरणपारंभे अहियार-द्विदीए णित्सेयद्विदिपत्तयमिदि पुच्छिदे तदसंखेज्जदिभागपमाणमिदि भणामो ।

समाधान—अब इस शंकाका परिहार करते हैं—प्रकृतमें ऐसा कौन कहता है कि जितना भी उदीरणाका द्रव्य है वह सभी प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषय है । किन्तु यहाँ हम ऐसा कहते हैं कि पहले अन्तर करनेके लिये उत्कीरणा करते समय उसी स्थितिके द्रव्यका उत्कर्षण करके ऊपरकी स्थितियोंमें यथाविधि निक्षेप किया गया था अब इस समय असंख्यात लोकका भाग देकर जितना लब्ध हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करके उदयगत उसी स्थितिमें फिरसे निक्षेप करनेपर वह प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषय होता है, इसलिये जो दोष पहले दे आये हैं वह यहाँ नहीं प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया है । जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आबलि कालके शेष रहनेपर सासादनमें जाता है और तदनन्तर मिथ्यात्वमें जाता है उसके प्रथम समयमें अपकर्षित होकर जो मिथ्यात्वका द्रव्य उदयमें आता है वह सबसे कम होता है, इसलिये उदयस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी यहाँ पर बतलाया है । इसी प्रकार निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी भी जान लेना चाहिये । किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि उस समय जितना भी द्रव्य उदयमें प्राप्त हुआ है वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त नहीं कहलाता । किन्तु उसी स्थितिसम्बन्धी जितना भी द्रव्य अपकर्षित हो करके वहाँ पाया जाता है वह निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कहलाता है । अतः यह भी जघन्य द्रव्य होता है, इसलिये निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व यहाँ र दिया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७०१. अब यहाँ पर प्रकृत स्वामित्वकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाणाका विचार करते हैं । जो स प्रकार है—अन्तरकरणाके प्रारम्भ समयमें अन्तरके भीतर जो विवक्षित स्थिति स्थित है उसमें मिथ्यात्वका नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाले निषेकोंकी अपेक्षा तत्प्रायास्य एक समयप्रबद्ध-माण द्रव्य पाया जाता है परन्तु वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त नहीं होता है । किन्तु नीचेकी थित्तियोका उत्कर्षण होकर और ऊपरकी स्थितियोका अपकर्षण होकर वहाँ जो द्रव्यका संकलन ता है उसके साथ वह एक समयप्रबद्धप्रमाण होता है ।

शंका—तो फिर अन्तरकरणाके प्रारम्भमें विवक्षित स्थितिमें निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना जा है ?

तस्सोवट्टणे ठविज्जपाणे तप्पाओग्गमेयसमपवद्धं ठविय पुणो जहाणित्सेयकाल्ळभंतरे-
संचयमिच्छामो त्ति तस्सोकड्डुकड्डुणभागहारोवट्टिददिवड्डुगुणहाणिभागहारे ठविदे
जहाणित्सेयसंचओ आगच्छइ । ओकड्डुणादीहि गंतूण पुणो वि एत्थेव पदिददव्वमेदस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तमिच्छिय तम्मि भागहारे किंचूणीकदे पयदणित्सेयदव्वमागच्छइ ।
असंखेज्जभागूणं चेवमंतरं करेमाणेणुकड्डिय अणुकीरमाणीसु द्विदीसु ठविददव्वं होइ ।
पुणो एदस्सोकड्डुकड्डुणभागहारे ठविदे पढमसमयमिच्छादिद्विणोकड्डिददव्वं पयद-
णित्सेयपडिवद्धमागच्छइ ।

१७०२. संपहि नप्पाओग्गुक्कस्ससंक्किलेसेणोदीरिददव्वमिच्छामो त्ति असंखेज्ज-
लोगभागहारमावलियाए गुणिदं ठवेऊणोकड्डिदे पयदजहण्णसामित्तपडिग्गहिंयं दव्व-
मागच्छइ । एत्थ मिच्छाइद्विदियादिसमएसु जहण्णसामित्तं दाहामो त्ति णासंक्कणिज्जं,
विदियादिसमएसु उदीरिज्जमाणवहुअदव्वपवेसेण जहण्णत्ताणुववत्तीदो । पढम-
समयम्मि ओकड्डियुण णित्तदव्वं विदियादिसमएसु उदयमागच्छमाणमत्थि चेव ।
तस्सुवरि पुणो वि पुव्वं तिस्से द्विदीए उक्कड्डिदपदेसग्गमुदयावलिणवभंतरे ओकड्डियुण

समाधान— विवक्षित स्थितिमें जितना द्रव्य है उसका असंख्यातवाँ भागप्रमाण द्रव्य
निपेकस्थितिप्राप्त होता है ऐसा हम कहते हैं ।

अब इसको प्राप्त करनेके लिये भागहार क्या है वह बतलाते हैं—एक समय-
प्रवद्धको स्थापित करे फिर यथानिपेक कालके भीतर सञ्चय लाना इष्ट है इसलिये उसका
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे, इससे यथा-
निपेकका सञ्चय आ जाता है । अन्कर्षणदिकके द्वारा व्ययको प्राप्त हुआ द्रव्य फिरसे इसीमें
अर्थान् यथानिपेदके द्रव्यमें सम्मिलित हो जाता है जो कि इसके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः
उसे अलग करनेकी इच्छाले प्रकृत भागहारको कुछ कम कर देनेपर प्रकृत निपेकका द्रव्य आ जाता
है । तात्पर्य यह है कि अन्तरको करते समय उत्कर्षण द्वारा अनुत्कीर्यमाण स्थितियोंमें जो द्रव्य
प्राप्त होता है वह पूर्वोक्त द्रव्यसे असंख्यातवें भागप्रमाण कम होता है । फिर इसका अपकर्षण-
उत्कर्षणप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके द्वारा प्रकृत निपेकसन्बन्धी
अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण होता है ।

१७०२. अब तत्रायोग्य उच्छ्रष्ट संक्लेशके द्वारा उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य लाना है,
इसलिये प्राचलिके असंख्यातवें भागसे गुणित असंख्यात लोकप्रमाण भागहारको स्थापित करके
जो द्रव्य प्राप्त हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वसे सन्बन्ध रखनेवाला
द्रव्य जाना है ।

शंका— यहाँ पर मिथ्यादृष्टिके द्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्व दिया जाना चाहिये ?

समाधान— ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि द्वितीयादि समयोंमें उदीरणाके
द्वारा वात द्रव्यका प्रवेश हो जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य द्रव्य नहीं प्राप्त हो सकता । आशय यह
है कि जिस द्रव्यका प्रथम जनने अपकर्षण होकर ऊपरकी स्थितियोंमें निपेक हुआ है वह तो
द्वितीयादि समयोंमें उद्यममें जाना हुआ देखा ही जाता है । किन्तु इसके अतिरिक्त उस स्थितिके
जिस द्रव्यका परते उत्कर्षण हुआ था उसका अपकर्षण होकर फिरसे उद्यमचलिके भीतर उस

संखुम्भइ । एवं च संखुम्भे एयसमयसंचयादो दुप्पहुडि समयसंचयो बहुओ होइ
त्ति ण तत्थ लाहो अत्थि, तदो ण तत्थ सामित्तं दाअं सक्किज्जइ त्ति भावत्यो । ण
गोबुच्छविसेसहाणिमस्सियूण पच्चवट्ठेयं, ततो विदियादिसमयसंचयस्स बहुत्तवञ्चव-
ग्गमादो । एवं चेव उदयट्ठिदिपत्तयस्स वि जहण्णसामित्तं वत्तव्वं । णवरि एदस्स
पमाणाणुगमे भण्णमाणे एयं समयपबब्बं ठविय पुणो एदस्स दिवहुण्णहाणिगुणयोरे
ठविदे विदियट्ठिसव्वदव्वभागच्छइ । पुणो ओकहुिदव्वमिच्छामो त्ति ओकहुिदकहुण-
भागहारो ठवेयव्वो । पुणो वि उदीरणादव्वमिच्छिय असंलेज्जा लोगा आवलिय-
पदुप्पण्णा भागहारसरूवेण ठवेयव्वा । एवं ठविदे पयदजहण्णसामित्तविसईकयदव्व-
भागच्छइ ।

§ ७०३. एत्थ सिस्सो भणइ—उदयावलियचरिमसमए मिच्छाइट्ठिमि
उदयादो जहण्णभीणट्ठिदियस्सेव पयदस्स वि जहण्णसामित्तं गेण्हामो, चडिदद्धान-
मेत्तगोबुच्छविसेसपरिहाणिवसेण तत्थेव जहण्णत्तदंसणादो । एवं णिसेयट्ठिदिपत्तयस्स
वि वत्तव्वं, अण्णहा पुच्चावरविरोहदोसप्पसंगादो त्ति ? ण एस दोसो, गोबुच्छ-
विसेसेहितो विदियादिसमयसंचिददव्ववहुचाहिप्पायावलंबणेणेदस्स पयइत्तादो । ण

स्थितिमें निचेप होता है । और इस प्रकार निक्षेप होनेपर एक समयके सञ्चयसे दो आदि समयोंका
सञ्चय बहुत होता है, इसलिये उसमें कोई लाभ नहीं है, अतः द्वितीयादि समयोंमें स्वामित्व
नहीं दिया जा सकता । यदि कहा जाय कि द्वितीयादि समयोंमें गोपुच्छविशेषकी हानि
देखी जाती है, इसलिए वहाँ जघन्य स्वामित्व बन जायगा सो ऐसा निश्चय करना भी
ठीक नहीं है, क्योंकि गोपुच्छविशेषका जितना प्रमाण है इससे द्वितीयादि समयोंका
सञ्चय बहुत स्वीकार किया है । प्रकृतमें जैसे निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामित्व कहा है
उसी प्रकार उदयस्थितिप्राप्तके जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये । किन्तु इसका
प्रमाण लानेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका डेढ़ गुणहानिप्रमाण
गुणकार स्थापित करनेपर द्वितीय स्थितिका सब द्रव्य आ जाता है । फिर अपकर्षित द्रव्य
लाना है, इसलिये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको स्थापित करना चाहिये । फिर भी उदीरणको
प्राप्त हुए द्रव्यके लानेकी इच्छासे एक आवलिसे गुणित असंख्यात लोकप्रमाण भागहार स्थापित
करना चाहिये । इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य आ
जाता है ।

§ ७०३. शंका—यहाँपर शिष्य कहता है कि जिसप्रकार उदयावलिके अन्तिम समयमें
मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वके उदयसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व होता है उसीप्रकार
प्रकृत उदयप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व भी उदयावलिके अन्तिम समयमें ही ग्रहण करना चाहिये,
क्योंकि उदयावलिका अन्तिम समय जितना ऊपर जाकर प्राप्त है वहाँ उतने गोपुच्छविशेषोंकी
हानि हो जानेसे उदयप्राप्त द्रव्यका जघन्यपना वहाँपर देखा जाता है । इसी प्रकार निषेकस्थितिप्राप्त
द्रव्यका भी जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये, अन्यथा पूर्वापर विरोध दोष प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि गोपुच्छविशेषोंकी अपेक्षा द्वितीयादि समयोंमें

पुन्वावरविरोहदोससंभवो वि, उवएसंतरपदंसणद्ध' तत्थ तहा परुवियत्तादो ।

§ ७०४. संपहि जहाणिसेयद्विदिपत्तयस्स जहण्णसामित्तं परुवेमाणो पुच्छाए अवसरं करेइ—

संचित होनेवाला द्रव्य बहुत होता है इस अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है और इससे पूर्वापर विरोध दोष प्राप्त होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उपदेशान्तरके दिखलानेके लिये वहाँपर उस प्रकारसे कथन किया है ।

विशेषार्थ—जिस समय जो द्रव्य उदयमे आता है वही उस समय उदयसे भीनस्थिति-वाला द्रव्य माना गया है, क्योंकि वह द्रव्य उदयप्राप्त होनेसे निजीर्ण हो जानेवाला है अतः उसमे पुनः उदयकी योग्यता नहीं पाई जाती । इस प्रकार विचार करनेपर उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य और उससे भीनस्थितिवाला द्रव्य ये दोनों एक ही ठहरते हैं । यों जव ये एक हैं तो इनका जघन्य और उत्कृष्ट स्वामित्व भी एक ही होना चाहिये । अर्थात् जो उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी होगा वही उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी होगा और जो उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी होगा वही उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी होगा । यद्यपि स्थिति ऐसी है तथापि मिथ्यात्वकी अपेक्षा इन दोनोंका जघन्य स्वामी एक नहीं बतलाया है । उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व बतलाते समय यह जघन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वकी प्राप्त करनेके समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समयमे दिया है किन्तु उदयस्थिति प्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व बतलाते समय यह जघन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वकी प्राप्त होनेके प्रथम समयमे दिया है । इसप्रकार देखते हैं कि इन दोनों कथनोम पूर्वापर विरोध है जो नहीं होना चाहिये था । टीकामे इस विरोधका जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि पूर्वोक्त कथन इस आशयसे किया गया है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समय तक एक समय कम उदयावलिके भीतर गोपुच्छ विशेषका जो द्रव्य संचित होता है उससे उस कालके भीतर अपकर्षण द्वारा संचित होनेवाला द्रव्य न्यून होता है । किन्तु यह कथन इस अभिप्रायसे किया गया है कि द्वितीयादि समयोंमे संचित होनेवाला द्रव्य गोपुच्छविशेषोंसे अधिक होता है, इसलिए उक्त दोनों कथनोंमे कोई विरोध नहीं है । इसप्रकार कौन कथन किस अभिप्रायसे किया गया है इसका पता भले ही लग जाता है तथापि इससे विरोधका परिहार नहीं होता है, क्योंकि आखिर यह प्रश्न तां बना ही रहता है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयके द्रव्य और वहाँसे जाकर उदयावलिके अन्तिम समयके द्रव्य इनमेंसे कौन कम है और कौन अधिक है ? इस शंकाका टीकामे जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि इस विषयमे दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं । एक सम्प्रदायके मतसे मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समयमे जो द्रव्य होता है वह न्यून होता है । और दूसरा सम्प्रदाय यह है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमे जो द्रव्य होता है वह न्यून होता है । चूर्णिसूत्रकारके सामने ये दोनों ही सम्प्रदाय रहे हैं, इसलिये उन्होंने एकका उल्लेख मिथ्यात्वके उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको बतलाते हुए कर दिया और दूसरेका उल्लेख वहाँ किया है । सररुमंप्राभृत और श्वेताम्बर मान्य कर्मप्रकृति व पंचसंम्रद ननमे प्रथम मतसा ही उल्लेख है । अर्थात् वहाँ मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उदया-वलिके अन्तिम समयमे ही जघन्य स्वामित्व बतलाया है ।

§ ७०४. "नव यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करते हुए पृच्छासूत्र करते हैं—

❀ मिच्छत्तस्स जहणणयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं कस्स ?

§ ७०५. सुगमं ।

❀ जो एइंदियट्ठिदिसंतकम्मणे जहणणएण तसेसु आगदो । अंतोसुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवएणो । वेळावट्ठिसागरोवभाणि सम्भत्तमणुपालियूण मिच्छत्तं गदो । तप्पाओगणउक्कसिया मिच्छत्तस्स जावदिया आबाहा तावदिमसमय मिच्छाट्ठिस्स तस्स जहणणयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ७०६. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे । तं जहा—जो एइंदियट्ठिदिसंतकम्मणे जहणणएणे त्ति उत्ते एइंदिएसु ट्ठिदिसंतकम्मं हदसमुप्पत्तियं काऊण पत्तिदोवमासंखेज्ज-भाणूणसागरोवममेत्तसव्वजहण्णेइंदियट्ठिदिसंतकम्मणेण सह गदो त्ति घेतव्वं । गुणिदकम्मंसियलक्खणेण तच्चिवरीयकम्मंसियलक्खणेण वा आगमणेण ण एत्थ पयोजणमत्थि । किंतु एइंदियसव्वजहणणट्ठिदिसंतकम्ममेवेत्थोवजोगी, तत्थतणपदेस-थोववहुत्तेण पओजणाभावादो त्ति भावत्थो । कुदो पओजणाभावो ? उवरि दूरद्धाणं गंतूण वेळावट्ठिसागरोवमावसाणे पयदसामित्तविहाणुहेसे हेट्ठिमसंचयस्स जहाणिसेय-सरूवेणासंभवादो । एइंदियट्ठिदिसंतकम्मं पुण तत्थुहेसे तदभावीकरणेण पयदोव-

* मिथ्यात्वके यथानिवेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७०५. यह सूत्र सुगम है ।

* एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर जिसने अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त किया है । फिर दो छ्थासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके जो मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है । फिर वहाँ तत्प्रायोग्य मिथ्यात्वकी जितनी उत्कृष्ट आवाधा हो उतने काल तक जो मिथ्यात्वके साथ रहा है वह मिथ्यात्वके यथानिवेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७०६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । जो इसप्रकार है—सूत्रमे जो 'जो एइंदियट्ठिदिसंतकम्मणेण जहणणएण' यह पद कहा है सो इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि एकेन्द्रियोंमे स्थितिसत्कर्मको हतसमुत्पत्तिक करके जो जीव एकेन्द्रियका सबसे जघन्य स्थितिसत्कर्म जो पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम एक सागर बतलाया है उसके साथ त्रसोमे उत्पन्न हुआ है । यहाँपर गुणितकर्मशांकी विधिसे या क्षपितकर्मशांकी विधिसे आनेसे कोई प्रयोजन नहीं है किन्तु एकेन्द्रियका सबसे जघन्य स्थितिसत्कर्म ही यहाँ उपयोगी है, क्योंकि ऐसे जीवके कर्म परमाणु थोड़े हैं या बहुत इससे प्रकृतमें प्रयोजन नहीं है यह उक्त कथनका भावार्थ है ।

शांकी—प्रकृतमे कर्मपरमाणुओंके अल्पबहुत्वसे क्यों प्रयोजन नहीं है ?

समाधान—क्योंकि ऊपर बहुत दूर जाकर दो छ्थासठ सागर कालके अन्तमें जहाँ प्रकृत स्वामित्वका विधान किया है वहाँ इतने तीचेके संचयका यथानिवेकरूपसे पाया जाना सम्भव नहीं है । किन्तु उस स्थानमे जाकर एकेन्द्रियके यथानिवेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका अभाव कर देनेसे

१ आ० प्रती एइंदियट्ठिदिपत्तयं इति पाठः ।

जोगी, अण्णहा अंतोकोडाकोहीमेत्तद्विदिसंतकम्मस्स वेळावट्टिसागरोवमाणमुवरि वि संभवेण जहण्णभावाणुवचचीदो । एइंदियजहण्णद्विदिसंतकम्मणेवे त्ति णावहारणमेत्थ कायव्वं, किंतु ततो समयुत्तरादिकमेण सादिरेयवेळावट्टिसागरोवमयेत्तद्विदिसंतकम्मे त्ति ताव एदेसिं पि द्विदिविप्पाणमेत्थ गहणे विरोहो णत्थि, वेळावट्टिसागरोवमाणि गालिय उवरि सामित्तविहाणादो । तदो उवलक्खणमेत्तमेदं ति धेत्तव्वं ।

§ ७०७. एवंविहेण द्विदिसंतकम्मेण तसेसु आगदो । अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो एवं भणिदे असण्णिपंचिदियपज्जत्तएसु जहण्णाउएसुववज्जिय सव्वलहुं पज्जत्तीओ समाणिय अंतोमुहुत्तेण देवाउअं वंधिय कमेण कालं कादूण देवेसुववज्जिय सव्वलहुं सव्वहाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो होदूण विस्संतो विसोहिमापूरिय सम्मत्तं पडिवण्णो त्ति भणिदं होइ । ण च सम्मत्तुप्पायणमेदं णिरत्थयं, सम्मत्तगुणपाहम्मेण मिच्छत्तस्स वंधवोच्छेदं कादूणंतोमुहुत्तमेत्तसमयपबद्धाणं गाल्लणेण फलोवलंभादो । एदस्सेव अत्थविसेसस्स पदंसणट्ठं वेळावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्त-मणुपालियूणे त्ति भणिदं । एवं वेळावट्टिसागरोवमाणि समयाविरोहेण सम्मत्तमणुपालिय तदवसाणे मिच्छत्तं गदो, अण्णहा पयदसामित्तविहाणोवायाभावादो । एवं मिच्छत्तं

एकेन्द्रियके योग्य स्थितिसत्कर्म ही प्रकृतमे उपयोगी है, अन्यथा अन्त कोडाकोहीप्रमाण स्थिति-सत्कर्मका दो छयासठ सागरके ऊपर भी सम्भव होनेसे जघन्यपना नहीं बन सकता है ।

एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ ही जो त्रसोमे उत्पन्न हुआ है ऐसा यहाँ अवधारण नहीं करना चाहिये । किन्तु एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ाते हुए साधिक द्वां छयासठ सागरप्रमाण स्थितिसत्कर्म तकके इन सब स्थितिविकल्पका भी यहाँपर ग्रहण करनेमे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दो छयासठ सागर कालके चले जानेके बाद तदनन्तर स्वामित्वका विधान किया गया है, इसलिये 'एइंदिय-जहण्णद्विदिसंतकम्मेण' यह पद उक्त कथनका उपनक्षयसात्र है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

§ ७०७. इसके आगे सूत्रमे 'इस प्रकारके स्थितिसत्कर्मके साथ त्रसोमे उत्पन्न होकर अन्तमुहुर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ' जो ऐसा कहा है सो इसका यह तात्पर्य है कि जघन्य आयुके साथ असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अतिशीघ्र पर्याप्तियोंको पूरा करके अन्तमुहुर्तमें देवायुका बन्ध किया और क्रमसे भरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अतिशीघ्र सब पर्याप्तियोंको पूरा किया । फिर विग्रामके बाद विशुद्धिको प्राप्त करके सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । यदि कहा जाय कि इस प्रकार सम्यक्त्वको उत्पन्न कराना निरर्थक है सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व गुणकी प्रधानतासे मिध्यात्वकी बन्धन्युच्छित्ति करके मिध्यात्वके अन्तमुहुर्तप्रमाण समयप्रबद्धोको गलाने रूप फल पाया जाता है । इस प्रकार इसी अर्थविशेषको दिखलानेके लिये सूत्रमे 'वे छावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण' यह कहा है । इस प्रकार दो छयासठ सागर काल तक यथाविधि सम्यक्त्वका पालन करके उसके अन्तमे मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । यदि इस जीवको अन्तमे मिध्यात्वमें न ले जाय तो प्रकृत स्वामित्वके विधान करनेका और कोई उपाय नहीं है, इसीसे इसे अन्तमे मिध्यात्वमें ले गये हैं । इस प्रकार मिध्यात्वको प्राप्त हुए इस जीवके

पडिवणणस्स सामित्तुहेसपहुण्पायणद्वसुवरिमो सुत्तावयवो—तप्पाओग्गुक्कस्सिय-
मिच्छत्तस्स जावदिया आवाहा इच्चादि ।

§ ७०८. एत्थ वेज्जावट्ठीणमंते उक्कस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्छत्तं गदस्स
पढमसमयमिच्छाइट्ठिस्स सामित्तमपरूविय पुणो वि अंतोमुहुत्तं गंतूण तप्पाओग्गु-
क्कस्सावाहाचरिमसमयमिच्छाइट्ठिम्मि कदमं लाहमुहिसिय जहण्णसामित्तविहाणं कीरइ
त्ति णासंक्कणिज्जं, तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गुक्कस्सट्ठिदि
बंधमाणेणावाहाअंभंतरावट्ठिदाहियारट्ठिदिपदेसाणमोक्कड्डुक्कहुणार्हिं जहण्णीकरणेण
लाहदंसणादो पढमसमयउदयगदगोवुच्छादो तप्पाओग्गुक्कस्सावाहचरिमसमयगोवुच्छस्स
चट्ठिदद्धानमेत्तगोवुच्छविसेसेहि परिहीणत्तदंसणादो च । ण एत्थ णवक्कबंधसंचयस्स
संभवो, आवाहावाहिरे तस्सावट्ठाणादो ।

स्वामित्वविषयक स्थानके दिखलानेके लिए 'तप्पाओग्गुक्कस्सियमिच्छत्तस्स जावदिया आवाहा'
इत्यादि आगेका शेष सूत्र आया है ।

७०८. यहाँ पर यदि कोई ऐसी आशंका करे कि दो छ्वासठ सागरके अन्तमें उत्कृष्ट
संक्लेशको पुरा करके मिध्यात्वको प्राप्त हुए प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके स्वामित्वका कथन न
करके फिर भी अन्तर्मुहूर्त जाकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अबाधाके अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके
जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया है सो इसमें क्या लाभ है सो उसकी ऐसी आशंका करना
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेसे दो लाभ दिखाई देते हैं । प्रथम तो यह कि तत्प्रायोग्य संक्लेशको
पुरा करके मिध्यात्वकी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाले जीवके अबाधाके भीतर प्राप्त
हुई अधिकृत स्थितिके कर्मपरमाणु अपकषण-उत्कर्षणके द्वारा जघन्य कर दिये जाते हैं और
दूसरे प्रथम समयमें उदयको प्राप्त हुई गोपुच्छासे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अबाधाके अन्तिम समयमें
जो गोपुच्छा है उसमें जितने स्थान ऊपर जाकर वह स्थित है उतने गोपुच्छविशेषोंकी हानि देखी
जाती है । इसप्रकार इन दो लाभोंको देखकर मिध्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका
विधान न करके उत्कृष्ट अबाधाके अन्तिम समयमें उसका विधान किया है । यदि कहा जाय कि
यहाँ नवकबन्धका सञ्चय हो जायगा सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि इसका अवस्थान अबाधाके
बाहर पाया जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिध्यात्वके यथानिवेकस्थितिप्राप्तके जघन्य स्वामित्वका निर्देश किया
है । इसकी प्रथम विशेषता यह बतलाई है कि सर्वप्रथम ऐसे जीवको एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न कराना चाहिये । टीकामें इस विशेषताका खुलासा करते हुए जो
कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि त्रसोमे उत्पन्न होनेवाला यह जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मवाला ही हो ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं है किन्तु इस कथनको उपलक्षण मानकर
इससे ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका मिध्यात्व स्थितिसत्कर्म एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मसे एक समय अधिक हो, दो समय अधिक हो । इस प्रकार उत्तरोत्तर स्थिति
बढ़ाते हुए जिसका स्थितिसत्कर्म साधिक दो छ्वासठ सागरप्रमाण हो वह जीव भी यहाँ
लिया जा सकता है । इसका कारण यह बतलाया है कि जब प्रकृत जघन्य स्वामित्व साधिक
दो छ्वासठ सागरके बाद ही प्राप्त होता है तो इतने स्थितिसत्कर्मवाले जीवको ग्रहण करनेमें कोई

§ ७०६. एत्थ संचयाणुगमे भग्गमाणे एदमभाणिसेयद्विदिपत्तयजहणणदव्वं केत्तियमेत्तकालसंचिदमिदि उत्ते अंतोमुहुत्तमेत्तकालसंचिदमिदि घेतव्वं । तं जहा—
 यावरकायादो णिग्गंतुण असण्णिणंविदि एसुववज्जिय अंतोमुहुत्तकालं सागरोवमसहस्समेत्तिं
 मिच्छत्तद्विदि वंधमाणो जहाणिसेयद्विदिसंचयं काऊण पुणो देवेसुववज्जिय तत्थ वि
 अपज्जत्तकालं सव्वमंतोकोडाकोडिमेत्तद्विदिव'धेण संचयं करिय पुणो वि जाव सम्मत्त-
 ग्गहणपाओगो होइ ताव संचयं करेइ त्ति । एवमंतोमुहुत्तसंचओ लब्भइ । उवरि
 सम्मत्तगुणमाहप्पेण मिच्छत्तस्स व'धवोच्छेदादो णत्थि संचओ । एदं च अंतोमुहुत्त-
 पमाणसमयपवद्धपडिवद्धदव्वं सम्मत्तेण वैज्जावट्टिसागरोवमाणि परिब्भममाणस्स
 संखेज्जावलिपयवद्धेदणयमेत्तगुणहाणीओ उवरिं च्चिदस्स संखेज्जावलिप-
 येत्तसमयपवद्धपमाणं णस्सियुणेगसमयपवद्धपमाणेणावचिहइ । पुणो एदं पि समय-

आपत्ति नहीं है, क्योंकि उक्त स्थानको प्राप्त होनेके पूर्व ही यह स्थितिसत्कर्म गल जायगा । इसके बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कराकर दो छथासठ सागर कालतक यथाविधि इस जीवको सम्यक्त्वके साथ रखा है सो इसके दो फायदे बतलाये हैं । प्रथम तो यह कि इसके मिथ्यात्वका न्यूनतन बन्ध नहीं होता और दूसरा यह कि यह जीव एकेन्द्रिय पर्यायके शेष रहे सञ्चयको तो गलाता ही है साथ ही साथ एकेन्द्रिय पर्यायके बाद त्रस पर्यायमे आनेपर जो सम्यक्त्वको प्राप्त करके पूर्वतक मिथ्यात्वका न्यूनतन बन्ध हुआ है उसे भी यथाशक्य निर्वाण करता है । इसके बाद इसे मिथ्यात्वमे ले जाकर मिथ्यात्वका वहाँके योग्य उत्कृष्ट बन्ध करावे और आवाधाके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व दे । मिथ्यात्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें यह जघन्य स्वामित्व न बतलाकर जो आवाधाके अन्तिम समयमें बतलाया है सो इसके दो कारण बतलाये हैं । प्रथम तो यह कि मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर जितने स्थान ऊपर जाकर आवाधाका अन्तिम समय प्राप्त होता है उतने चयोकी उसमे हानि देखी जाती है और दूसरा यह कि अपकर्षण उत्कर्षणके द्वारा भी उसका द्रव्य कम हो जाता है । इस प्रकार इन दो लाभोंको देखकर आवाधाके अन्तिम समयमें ही जघन्य स्वामित्व दिया है ।

§ ७०६. यहाँ पर सञ्चयानुगमका विचार करनेपर यह यथानिषेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्य कितने कालमे संचित होता है ऐसा पूछनेपर अन्तर्मुहूर्त कालमें सञ्चित होता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये । खुलासा इस प्रकार है—स्थायरकाय पर्यायसे निकलकर असंखी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कालतक एक हजार सागरप्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितिको वाँधता हुआ यथा-निषेकस्थितिका संचय करता है । फिर देवोंमें उत्पन्न होकर वहाँ भी अपर्याप्त कालतक अन्त-कोडाकोड़ीप्रमाण स्थितिबन्ध करके संचय करता है । फिर भी पर्याप्त होनेपर जबतक यह जीव सम्यक्त्व ग्रहणके योग्य होता है तबतक सञ्चय करता है । इसप्रकार अन्तर्मुहूर्त कालतक होनेवाला सञ्चय प्राप्त हो जाता है । इसके आगे सम्यक्त्वगुणकी प्रधानतासे मिथ्यात्वकी बन्धन्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिये सञ्चय नहीं प्राप्त होता । अब यह जो अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयप्रवद्धोका द्रव्य है सो इसमेसे सम्यक्त्वके साथ दो छथासठ सागर कालतक परिभ्रमण करनेवाले और संख्यात अङ्क अधिक एक आवलिके अर्धच्छेदप्रमाण गुणहानियाँ ऊपर चढ़े हुए जीवके संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोका नाश होकर एक समयप्रवद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहता है । फिर

पवद्धमेत्तसैसद्वमसंखेज्जाओ गुणहाणीओ गालिय पच्छा मिच्छत्तं गंतूणावाहाचरिम-
समए समयपवद्धस्स असंखेज्जभागमेत्तं होदूण जहाणिसेयसरूवेण जहण्णयं होदि त्ति ।

§ ७१०. एदस्स भागहारपमाणाणुगमं वचइस्सामो । तं जहा—एयं समय-
पवद्धं ठविय पुणो एदस्स' संखेज्जावलियगुणगारे ठविदे असण्णिणपंचिदिपसु देवेसु च
उववज्जिय अंतोमुहुत्तमेत्तकालं करिय संचयदव्वं होइ । पुणो एदस्स वेद्धावट्टिसागरोवम-
अभंतरणाणागुणहाणिं विरलिय विंगं करिय अण्णोण्णअभत्थरासिम्मि भागहारो
ठविदे गलिदावसेसद्वममागच्छइ । पुणो एदमहियारगोवुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवडु-
गुणहाणिमेत्तं होइ त्ति दिवडुगुणहाणिभागहारो ठविदे अहियारगोवुच्छपमागच्छइ ।
इमं वेद्धावट्टिसागरोवमकालं सव्वमोकड्डणाए णासेइ त्ति । पुणो वि ओकड्डुकड्डण-
भागहारवेत्तिभागायामेणुप्पाइदणाणागुणहाणिं विरलिय विंगं करिय अण्णोण्णअभास-
णिपपणासंखेज्जलोगमेत्तरासिम्मि भागहारसरूवेण द्विदे ओकड्डिदसेसं जहाणिसेय-
सरूवमहियारट्टिदिद्वममागच्छइ । एवमागच्छइ त्ति कट्टु वेद्धावट्टिसागरोवमणाणा-
गुणहाणिसल्लागाणमण्णोण्णअभत्थरासी दिवडुगुणहाणी असंखेज्जलोगा च अण्णोण्ण-
पट्टुप्पणा संखेज्जावलियोवट्टिदा समयपवद्धस्स भागहारो भागलद्धं च पयदजहण्ण-
सामित्तविसईकयं दव्वं होइ ।

यह जो एक समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहा है सो उसमेंसे भी असंख्यात गुणहानियोंको गलाकर
अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर आवाधाके अन्तिम-समयमें जो एक समयप्रबद्धका असंख्यातवों
भाग शेष रहता है वही यथानिषेक जघन्य द्रव्य है ऐसा यहाँ समझना चाहिये ।

§ ७१०. अब इसके भागहारके प्रमाणका विचार करते हैं । यथा—एक समयप्रबद्धको
स्थापित करके फिर इसके संख्यात आवलिप्रमाण गुणकारके स्थापित करनेपर असंखी पंचेन्द्रियों
और देवोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर जितने द्रव्यका संचय होता है उसका प्रमाण
आता है । फिर इसकी दो छ्वासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओंको विरलन करके
और दूना करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसे उक्त राशिके भागहाररूपसे स्थापित
करनेपर गलकर शेष बचे हुये द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसके अधिकृत गोपुच्छाके
बराबर हिस्से करनेपर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए डेढ़ गुणहानिको भागहार
स्थापित करनेपर अधिकृत गोपुच्छा प्राप्त होती है । दो छ्वासठ सागर कालतक अपकर्षणके द्वारा
इसका भी नाश होता रहता है, इसलिये फिर भी अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागके
भीतर जितनी नाना गुणहानियाँ प्राप्त हों उनका विरलन करके और दूना करके परस्पर गुणा
करनेसे उत्पन्न हुई असंख्यात लोकप्रमाण राशिको भागहाररूपसे स्थापित करनेपर अपकर्षण
होनेके बाद शेष बचा हुआ यथानिषेकरूप अधिकृत स्थितिका द्रव्य आता है । इस प्रकार अधिकृत
स्थितिका द्रव्य प्राप्त होता है ऐसा मानकर दो छ्वासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना
गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि डेढ़ गुणहानि और असंख्यात लोक इनको परस्पर
गुणा करके जो उत्पन्न हो उसमें संख्यात आवलियोंका भाग देनेपर जो लव्व आवे वह एक समय
प्रबद्धका भागहार होता है और इस भागहारका एक समयप्रबद्धमें भाग देनेपर जो लव्व आवे
उतना प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य होता है ।

§ ७११, संपहि एदेणेव गयत्थं सम्मत्तस्स वि जहाणिसेयट्ठिदिपत्तयजहण-
सामितं परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ जेण मिच्छत्तस्स रचिदो अघाणिसेओ तस्स चैव जीवस्स
सम्मत्तस्स अघाणिसेओ कायव्वो । एवरि तित्से उक्कस्सियाए सम्मत्तद्धाए
चरिमसमए तस्स चरिमसमयसम्माइट्ठिस्स जहणणयमघाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ७१२, जेण जीवेण मिच्छत्तस्स जहणणओ जहाणिसेओ पुञ्जुत्तविहाणेण
विरइओ तस्सेव जीवस्स सम्मत्तस्स वि जहणणओ जहाणिसेओ कायव्वो । णवरि
तित्से उक्कस्सियाए वेळावट्ठिसागरोवमपमाणाए सम्मत्तद्धाए चरिमसमए वट्टमागस्स
तस्स चरिमसमयसम्माइट्ठिस्स पयदजहणणसामितं कायव्वं, अण्णहा तव्विहाणोवाया-
भावादो । तं जहा—पुञ्जुत्तविहाणेणागंतूण पढमळावट्ठिं भमिय पुणो विदियळावट्ठीए
अंतोमुहुत्तावसेसे दंसणमोहक्खवणमञ्जुट्ठिय अहियारट्ठिदिदव्वं गुणसेट्ठिणज्जराए
णासेमाणो उदयावल्लियवाहिरट्ठिदमिच्छत्तचरिमफालिदव्वं सव्वं समट्ठिदीए सम्मा-
मिच्छत्तस्सुवरि संकामिय पुणो तेणेव चिहिणा सम्मामिच्छत्तचरिमफालिदव्वं पि सव्वं
सम्मत्तस्सुवरि संकामेदि । एवं तिण्हं पि जहाणिसेयट्ठिदीओ एकदो कादूण पुणो

§ ७११. अब सम्यक्त्वके यथानिवेक स्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामित्व भी इसीसे गतार्थ
है यह वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिसने मिथ्यात्वका यथानिवेकप्राप्त द्रव्य किया है उसी जीवके सम्यक्त्वके
यथानिवेकका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके उत्कृष्ट
कालके अन्तिम समयमें उस सम्यग्दृष्टिके रहनेपर वह अपने अन्तिम समयमें यथा-
निवेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यका स्वामी है ।

§ ७१२. जिस जीवने मिथ्यात्वका जघन्य यथानिवेक द्रव्य पूर्वोक्तविधिसे प्राप्त किया है
उसी जीवके सम्यक्त्वके जघन्य यथानिवेकद्रव्यका भी कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता
है कि जो दो छयासठ सागरप्रमाण सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल है उसके अन्तिम समयमें विद्यमान
हुए उस सम्यग्दृष्टि जीवके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये,
अन्यथा प्रकृत जघन्य स्वामित्वके विधान करनेका और कोई उपाय नहीं है । खुलासा इस प्रकार
है—कोई एक जीव है जिसने पूर्वोक्त विधिसे आकर प्रथम छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण
किया । फिर दूसरे छयासठ सागरमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिये
उद्यत होकर वह अधिकृत स्थितिके द्रव्यका गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा नाश करने लगा और ऐसा
करते हुए वह उदयावलि के बाहर स्थित हुए मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके सब द्रव्यको सम्यग्मि-
थ्यात्वकी समान स्थितिमें संक्रमित करके फिर उसी विधिसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके
सब द्रव्यको भी सम्यक्त्वके ऊपर संक्रमित करता है । इस प्रकार तीनों ही कर्माँकी यथानिवेक
स्थितियोंको एकत्रित करके फिर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके अन्तिम समयमें उन तीनों ही

अक्खीणर्दंसणमोहचरिमसमयम्मि तिसु वि द्विदीसु सम्मत्तरुवेणुदयमागदासु जहण्णय-
मधाणिसेयद्विदिपत्तयं होइ, चरिमसमयअक्खीणर्दंसणमोहणीयस्सेव चरिमसमयसम्माइडि
त्ति सुत्ते विवक्खियत्तादो ।

❀ षिसेयादो च उदयादो च जहण्णयं द्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ७१३. एत्थ सम्मत्तस्से त्ति अहियारसंबंधो । सुगममण्णं ।

❀ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइडिस्स तत्त्पाओग्ग-
उक्कस्ससंकिलिद्वस्स तस्स जहण्णयं ।

§ ७१४. एदस्स सुत्तस्स मिच्छत्तसामित्तसुत्तस्सेव गिरवयवा अत्थपरुवणा
कायव्वा, विसेसाभावादो । एत्तिओ पुणो विसेसो—तत्थ पढमसमयमिच्छाइडिस्स
सामित्तं जादं, एत्थ पढमसमयवेदयसम्माइडिस्से त्ति ।

स्थितियोंके सम्यक्त्वरूपसे उदयमें आनेपर जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है। यहाँ सूत्रमें जो 'चरिमसमयसम्माइडिस्स' पद दिया है सो इससे दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला अन्तिम समयवर्ती जीव ही विवक्षित है।

विशेषार्थ—यहाँ सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी वतलाया है। सो इसे प्राप्त करनेके लिये और सब विधि तो मिथ्यात्वके समान है किन्तु इतनी विशेषता है कि जब उक्त जीवको सम्यक्त्वके साथ दूसरे छ्वासाठ सागरमें परिभ्रमण करते हुए अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाय तब उससे क्षायिकसम्यग्दर्शनकी प्राप्ति करावे और ऐसा करते हुए जब सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयका अन्तिम समय प्राप्त होता है तब यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य द्रव्य होता है।

❀ सम्यक्त्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७१३. इस सूत्रमें 'सम्मत्तस्स' इस पदका अधिकारवशा सन्बन्ध होता है। शेष कथन सुगम है।

❀ जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीव है वह उक्त दोनों स्थितिप्राप्त-द्रव्योंका जघन्य स्वामी है।

§ ७१४. जिस प्रकार मिथ्यात्वविषयक स्वामित्व सूत्रका सर्वांगीण कथन किया है उसी प्रकार इस सूत्रका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनोंके कथनसे कोई विरोधता नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वविषयक स्वामित्वका कथन करते समय प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्वामित्व प्राप्त कराया गया था किन्तु यहाँ पर वह प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिके प्राप्त कराना चाहिये।

विशेषार्थ—आशय यह है कि मिथ्यात्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व लानेके लिये जीवको उपशमसम्यक्त्वसे छह प्रायलिकालके शेष

§ ७१५. संपहि सम्मत्तस्स जहाणिसेयद्विदिपत्तयभंगेण सम्मामिच्छत्तजहाणिसेयद्विदिपत्तयस्स सामिचंपरूवणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

☸ सम्मत्तस्स जहण्णओ जहाणिसेओ जहापरूविओ तीए चेव परूवणाए सम्मामिच्छत्तं गओ । तवो उच्चस्सियाए सम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमए जहण्णयं सम्मामिच्छत्तस्स अधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ७१६. सम्मत्तस्स जहण्णओ जहाणिसेओ जहापरूविओ, तीए चेव परूवणाए अण्णुणाहियाए सम्मामिच्छत्तस्स वि पयदजहण्णसामिओ परूवेयओ । णवरि सव्भुक्कस्ससम्मत्तद्धाए चरिमसमए सम्मत्तस्स णिबद्धजहण्णसामिचं जादं । एवमेत्थ पुण विदियञ्जावट्टिकालम्भंतरे अंतोमुहुत्तावसेसे सम्मामिच्छत्तं पडिवण्णस्स तत्पाओ-ग्गुक्कस्संतोमुहुत्तमेत्तंसम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमयम्मि पयदजहण्णसामिचं होइ चि एत्तिओ चेव विसेसो ।

रहने पर सासादनमे ले जाकर फिर मिध्यात्वमे ले जाया गया था और तब मिध्यात्वके प्रथम समयमें उक्त जघन्य स्वामित्व प्राप्त कराया गया था। किन्तु समयकत्वका उदय मिध्यात्व गुणस्थानमें सम्भव नहीं है, इसलिये जिस जीवको समयकत्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व प्राप्त कराना हो उसे उपशमसम्यक्त्वका काल पूरा होनेपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशनके साथ वेदकसम्यक्त्वमे ले जाय। इस प्रकार जब-यह जीव वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करता है तब इसके उक्त वेदकसम्यक्त्वके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व होता है। यहाँ सम्यक्त्वकी कम से कम उद्दीरण प्राप्त करने के लिये तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशके साथ वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कराया गया है।

§ ७१५. अब सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वके समान ही सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व है यह वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

☸ सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यकी जिस प्रकार प्ररूपणा की है उसी प्ररूपणाके अनुसार कोई एक जीव सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। फिर जब वह सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमें विद्यमान रहता है तब वह सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है।

§ ७१६. जिस प्रकार सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेक द्रव्यका प्ररूपण किया, न्यूनाधिकतासे रहित उसी प्ररूपणाके अनुसार सम्यग्मिध्यात्वके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके सर्वोत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमे सम्यक्त्वका प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ था। किन्तु यहाँ पर दूसरे दृष्टासठ सागरके भीतर अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहने पर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुए जीवके सम्यग्मिध्यात्वके तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तिम समयमे प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है, इतनी ही विशेषता है।

विशेषार्थ—सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको प्राप्त करने के लिये और सब विधि सम्यक्त्व प्रकृतिके समान जानना चाहिये। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता

❁ सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णयं णिसेयादो उदयादो च द्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ७१७. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❁ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइद्विस्स तप्पाओग्गुक्कस्ससंक्किलिद्वस्स ।

§ ७१८. सुगममेदं सुत्तं ।

❁ अयांताणुवंधीणं णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहण्णयं द्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ७१९. सुगममेदं पुच्छावक्कं ।

❁ जो एहंदिद्विदिसंतकम्मेण जहण्णएण पंचिदिए गओ । अंतोसुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवएणो । अयांताणुवंधिं विसंजोइत्ता पुणो पडिवदिदो । रहस्स-

हैं कि दूसरे छथासठ सागरमे जब अन्तर्मुहूर्त काल शेष रह जाय तब इस जीवको सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें ले जाय । और वहाँ जब उसका अन्तिम समय प्राप्त हो तब प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये । सम्यग्मिथ्यात्वका उदय सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये तां इसे उक्त गुणस्थानमें ले गये हैं । तथा सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें जितना स्थान ऊपर जाकर प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है उतने गोपुच्छविशेषोंको कम करनेके लिये यह स्वामित्व सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें न बतलाकर उसके अन्तिम समयमें बतलाया है ।

* सम्यग्मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिद्रव्यप्राप्त द्रव्योंका जघन्य स्वामी कौन है ।

§ ७१७. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्पायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव है वह उक्त स्थितिप्राप्त द्रव्योंका जघन्य स्वामी है ।

§ ७१८. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—इस आशयका सूत्र अनेक बार आ चुका है, इसलिये वहाँ जिस प्रकार वर्णन किया है उसी प्रकार प्रकृतमें भी करना चाहिये । किन्तु सम्यग्मिथ्यात्वका उदय मिश्र गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होने पर इस जीवको सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही ले जाना चाहिये, यहाँ इतनी विशेषता है । शेष कथन सुगम है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामी कौन है ?

§ ७१९. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जिसने एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की ।

कालेण संजोएऊण सम्मत्तं पडिबएणो । वेद्धावट्टिसागरोवमाणि अणुपालियूए
मिच्छुत्तं गओ तस्स आवलियमिच्छाहट्टिस्स जहएणयं पिसेयादो अधा-
णिसेयादो च ट्टिदिपत्तयं ।

§ ७२०. एहं दियट्टिदिसंतकम्मस्स जहण्णयस्सेत्थालंबणमणुवजोगी, अणंताणु-
वंधिं विसंजोयणाए णिससंतीकरिय पुणो पडिवादेण अइरहस्सकालपडिवट्ठेण संजोइय
पडिवण्णवेदयसम्मत्तम्मि अंतोमुहुत्तमेत्तणवकंबंधं घेत्तूण परिभमिदवेद्धावट्टिसागरोवम-
जीवम्मि सामित्तविहाणादो ? ण एस दोसो, सेसकसायणं जुत्तावत्थाए अधापवत्तेण
समट्टिदिसंकमवहुत्तणिवारणहं तदवञ्जुवगमादो । ण च समट्टिदिसंकमस्स जहाणिसेय-
ट्टिदिपत्तयत्ताभावमवलंबिय पच्चवट्ठेयं, जहाणिसित्तसरुवेण समट्टिदीए संकंतस्स
पदेसगस्स तहाभावाविरोहादो । तम्हा गुणिट्ठकम्मंसिओ वा खविदकम्मंसिओ वा
एहं दियजहण्णट्टिदिसंतकम्मेण सह गदो असण्णिपंचिदिएसु तप्पाओग्गजहण्णंतो-
मुहुत्तमेत्तजीविएसुववज्जिय समयविरोहेण देवेसुववण्णो । तदो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं
घेत्तूण अणंताणुवंधिं विसंजोइत्ता पुणो अंतोमुहुत्तेण संजुतो होदूण सव्वरहस्सेण

फिर जो सम्यक्त्वसे च्युत होकर और अनन्तानुबन्धीका संयोजन करके अति शीघ्र
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर जो दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका
पालन करके मिथ्यात्वमें गया । उसे वहाँ गए जब एक आवलि काल होता है तब
वह जीव जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामी है ।

§ ७२०. शंका—प्रकृतमे एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मका आलम्बन करना
अनुपयोगी है, क्योंकि विसंयोजना द्वारा अनन्तानुबन्धीको निःसत्त्व करके फिर सम्यक्त्वसे
च्युत होकर और स्वल्प कालद्वारा अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होकर जो वेदकसम्यक्त्वको
प्राप्त हुआ है और जिसने अन्तर्मुहूर्तप्रमाण नवक समयप्रवद्धोको ग्रहण करके दो छयासठ
सागर काल तक परिभ्रमण किया है उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान किया है । इस
शंकाका आशय यह है कि जब कि विसंयोजनाके बाद पुनः संयुक्त होने पर दो छयासठ
सागरके बाद प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहा है तब इस जीवको प्रारम्भमे एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
सत्कर्मवाला वतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त
होता है तब अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा इसमें शेष कषायोका बहुत समस्थितिसंक्रम न प्राप्त हो
एतदर्थ उक्त वात स्वीकार की है ।

यदि कहा जाय कि जो शेष कषायोका समस्थितिसंक्रम हुआ है उसमें यथानिषेक-
स्थितिपाना नहीं पाया जाता है सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यथानिषेक-
रूपसे समस्थितिमें जो द्रव्य संक्रान्त होता है उसे यथानिषेकस्थितिरूप माननेमें कोई बाधा
नहीं आती । इसलिये गुणितकमांश या क्षपितकमांश जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थिति-
सत्कर्मके साथ तत्प्रायोग्य जघन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयुवाले असंज्ञियमें उत्पन्न होकर यथाविधि
देवोंमें उत्पन्न हुआ । तदनन्तर अन्तर्मुहूर्तमे सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अनन्तानुबन्धीकी

कालेण सम्भत्तं पडिवण्णो । वेद्धावट्टिरागरोवमाणि समयविरोहेण समत्तपणुपाल्लिय तदवसाणे मिच्छरं गदो तस्सावत्तियमिच्छाडडिस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ । ततो परं सेसकसायाणं समद्विदिसंक्रमेण पडिच्छिदवहुदव्वावट्टाणेण जहण्णपावाणुववत्तीदो ।

❀ उदयद्विदिपत्तयं जहण्णयं करुस ?

§ ७२१. अणंताणुबंधिगहणमिहाणुवट्टे । सेसं सुगमं ।

❀ एइंदियकम्मेषेण जहण्णएण तसेसु आगदो । तमिह संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता एइविए गम्भो । असंखेज्जाणि वस्साणि अच्छियूण उवसामयसमयपवट्टेसु गल्लिदेसु

विसंयोजना करके फिर अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होकर अति स्वल्प कालद्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर दो छ्थासठ सागर काल तक यथाविधि सम्यक्त्वका पालन करके अन्तमें मिथ्यात्वमें गया उसके मिथ्यात्वमें गये एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है । एक आवलि कालके बाद जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं होता इसका कारण यह है कि एक आवलिके बाद शेष कषायोंका समस्थितिसंक्रमण होकर अनन्तानुबन्धीमें बहुत द्रव्य प्राप्त हो जाता है, अतः जघन्यपना नहीं बन सकता ।

विशेषार्थ—यहाँ अनन्तानुबन्धीके निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया है । जिसे यह स्वामित्व प्राप्त कराना है उसका प्रारम्भमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मवाला होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इससे विसंयोजनाके दुःखार्थ- जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होता है तब इसके समस्थितिसंक्रमण अधिक नहीं पाया जाता है । यदि ऐसा न मानकर इसके स्थितिसत्कर्मको संबन्धीके योग्य मान लिया जाता तो इससे निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य बहुत हो जाता और तब उक्त द्रव्यको जघन्य प्राप्त करना सम्भव न होता । यही कारण है कि प्रकृतमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मवाले जीवको ग्रहण करके प्रकृत जघन्य स्वामित्व ग्रहण किया गया है । फिर भी यह बचन उपलक्षणरूप है जिससे यहाँ ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका स्थितिसत्कर्म अधिकसे अधिक साधिक दो छ्थासठ सागरप्रमाण हो, क्योंकि जिस स्थल पर जाकर जघन्य स्वामित्व प्राप्त करना है उससे एक समय कम स्थितिके रहते हुए संयुक्त अवस्थामें समस्थितिसंक्रमणके द्वारा निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके अधिक होनेका डर नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

❀ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७२१. इस सूत्रमें 'अणंताणुबंधि' इस पदका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि यहाँ उसकी अनुवृत्ति पाई जाती है । शेष कथन सुगम है ।

❀ जो कोई एक जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया । वहाँ संयमासंयम और संयमको बहुतवार प्राप्त करके और चार वार कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोंमें गया । वहाँ असंख्यात वर्षों तक रहकर उपशामक-सम्बन्धी समयप्रबद्धोंके गल जाने पर पंचेन्द्रियों में गया । वहाँ अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानु-

पंचिदिएसु गदो । अंतोमुहुत्तेण अपांताणुबंधिं विसंजोजित्ता तदो संजोएऊण जहणणएण अंतोमुहुत्तेण पुणो सम्मत्तं लद्धूण वेङ्गावट्टिसागरोवमाणि अपांताणुबंधिणो गालिदा । तदो मिच्छत्तं गदो तस्स आवलियमिच्छा-इट्टिस्स जहण्णयमुदयट्टिदिपत्तयं ।

§ ७२२. ण एत्थ पुणो वि विसंजोइज्जमाणामणंताणुबंधीणं खविदकम्मंसियत्तं णिरत्थयमिदि आसंकणिज्जं, संजुतावत्थाए सेसकसाएहितो पडिद्धिज्जमाण—दव्वस्स जहण्णीकरणेण फलोवलंभादो । तद्भा जो जीवो एइंदिजहण्णपदेससंतकम्पेण सह तसेसु आगदो । तत्थ य संजमासंजमादीणमसइं लंभेण चट्ठक्खुचो कसायाणमुवसामगाए च गुणसेट्टिसख्वेण बहुदव्वगालणं काऊण पुणो एइंदिएसु पल्लिदोवमासंखेज्जभागमेचाकालमच्छिय णिग्गालिदोवसामयसमयपवद्धो समयविरोहेण पंचिदिएसुववज्जिय अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तग्गहणपुरस्सरमणंताणुबंधिं विसंजोइय संजुचो सव्वलहुं सम्मत्तपडिलंभेण वेङ्गावट्टिसागरोवमाणि अधट्टिदीए गालिय पडिवदिदो तस्स आवलियमिच्छाइट्टिस्स पयदजहण्णसामिचं होइ चि सिद्धं ।

बन्धीकी विसंयोजना करके तदनन्तर उससे संयुक्त हो जघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल द्वारा फिरसे सम्यक्त्वको प्राप्त करके दो छयासठ सागर काल तक अनन्तानुबन्धियोंको गलाता रहा । तदनन्तर मिथ्यात्वमें गया । उसे वहाँ गये जब एक आवलि काल होता है तब वह उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२२. यदि यहाँ ऐसी आशंका की जाय कि जब अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना होनेवाली है तब उन्हें पूर्वमे ही क्षपितकर्मांश वतलाना निरर्थक है तो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि संयुक्त अवस्थामे अनन्तानुबन्धीमे शेष कषायोका द्रव्य जघन्य होकर प्राप्त होता है, इसलिये इसकी सफलता है । अतः जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोमे आया और वहाँ संयमासंयमादिककी अनेकवार होनेवाली प्राप्ति द्वारा और चार बार हुई कषायोकी उपशामना द्वारा गुणश्रेणिरूपसे बहुत द्रव्यको गलाकर फिर एकेन्द्रियोंमे पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहकर और वहाँ उपशामकसम्बन्धी समयप्रवद्धोको गलाकर यथाविधि पंचेन्द्रियोंमे उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको ग्रहण करके अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना की । फिर उससे संयुक्त होकर और अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त करके अधःस्थिति द्वारा दो छयासठ सागरप्रमाण स्थितियोंको गलाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए एक आवलि कालके होने पर प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात सिद्ध होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पूर्वमे क्षपितकर्मांशकी विधि वतलाकर फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कराई गई है । इस पर शंकाकारका यह कहना है कि जब आगे चलकर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होनेवाली ही है तब पूर्वमे क्षपितकर्मांशपानेके विधान करनेकी क्या सफलता है । इसका जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि क्षपितकर्मांशकी विधि अन्य कषायो

* बारसकसायाणं णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च जहणणयं कस्स ?

§ ७२३, सुगमं ।

* जो उवसंतकसाओ सो मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहणणयं णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च ।

§ ७२४, एदस्स सुत्तस्सत्थो उदयादो जहण्णभीणट्ठिदियसामित्तसुत्तस्सेव वक्खाण्येव्वो । णवरि एत्थ पढमसमयसामित्तविहाणं साहिप्पाओ भिच्छत्तस्सेव वत्तवो ।

* अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं जहणणयं कस्स ।

§ ७२५, सुगमं ।

* अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मएण तसेसु उववण्णो । तत्थ तप्पाओग्गुकस्सट्ठिदिं वंधमाणस्स जदेही आवाहा तावदिमसमए तस्स जहण्णयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । अइक्कंते काले कम्मट्ठिदिअंतो सइं पि तसो ए आसी ।

पर भी लागू होती है । इससे यह लाभ होता है कि जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होता है तब अन्य कपायोंका कम द्रव्य अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमित होता है । शेष कथन सुगम है ।

* वारह कपायोंके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ।

§ ७२३, यह सूत्र सुगम है ?

* जो उपशान्तकपाय जीव मरकर देव हुआ है वह प्रथम समयवर्ती देव निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२४, जिस प्रकार उदयसे मीनस्थितिविषयक स्वामित्व सूत्रके अर्थका व्याख्यान किया है उसी प्रकार इस सूत्रके अर्थका व्याख्यान करना चाहिये । किन्तु यहाँ जो प्रथम समयमें स्वामित्वका विधान किया है सो मिथ्यात्वके समान इसका अभिप्राय सहित व्याख्यान करना चाहिये ।

* यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७२५, यह सूत्र सुगम है ।

* अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ जो त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है । किन्तु इसके पूर्व कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर जो एक बार भी त्रस नहीं हुआ है । फिर वहाँ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको वाँधते हुए जितनी आवाधा होती है उसके अन्तिम समयमें वह यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२६. एदस्स सुत्तस्सत्थो बुच्चदे । तं जहा—जो जीवो सन्वावासयविद्युद्धीए सुहुमणिगोदेसु कम्मट्टिदिमणुपालिय अभवसिद्धियपाओग्गजहण्णपदेससंतकम्मं काऊण तेण सह सण्णिपंचिदिएसु उववण्णो । एसो च जीवो अइकंते काले कम्मट्टिदीए अब्भंतरे सइं पि तसो ण आसी ! कम्मट्टिदिअब्भंतरे तसपज्जायपरिणामे को दोसो चे ? एइंदियजोगादो असंखेज्जगुणतसकाइयजोगेण तत्थुप्पज्जिय बहुदव्वसंचयं कुणमाणस्स गिरुद्धट्टिदीए जहण्णजहाणिसेयाणुप्पत्तिदोसदंसणादो । तसकाइएसु आगंतूण सम्मतुप्पत्तिसंजमासंजमादिगुणसेट्ठिणिज्जराहिं पयदणिसेयस्स जहण्णीकरण-वावारेणच्छमाणस्स लाहो दीसइ ति णासकणिज्जं, ओकड्डुकड्डुणभाराहारादो जोग-गुणागारस्स असंखेज्जगुणत्तेण अघाणिसेयदव्वस्स तत्थ णिज्जरादो आयस्स बहुत्त-दंसणादो । तम्हा अइकंते काले कम्मट्टिदिअब्भंतरे तसपज्जायपडिसेहो सफलो ति सिद्धं ।

§ ७२७. एत्थ कम्मट्टिदि ति भणिदे पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणवभहिय-एइंदियकम्मट्टिदीए गहणं कायव्वं, सेसकम्मट्टिदिअव्वलंबणे पयदोवजोगिफलविसेसा-णुवलंबादो । जइ एवं पच्छा वि तसभावपत्थणा गिरत्थिया ति ण पच्चवट्ठेयं,

§ ७२६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । जो इस प्रकार है—जो जीव समस्त आवश्यकोकी विद्युद्धिके साथ सूद्धमनिगोदियोमे कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहा और अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म को प्राप्त करके उसके साथ सँझी पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ । किन्तु यह जीव इसके पूर्व कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर एक बार भी त्रस नहीं हुआ ।

शंका—कर्मस्थिति कालके भीतर त्रस पर्यायके योग्य परिणामोंके होनेमें क्या दोष है ?

समाधान—एकेन्द्रियके योगसे असंख्यातगुणो त्रसकायिकोंके योगके साथ त्रसोमे उत्पन्न होकर बहुत द्रव्यका संचय करनेवाले जीवके विवक्षित स्थितिमे जयन्य यथानिषेककी प्राप्ति नहीं हो सकती है । यही वड़ा दोष है जिससे इस जीवको कर्मस्थिति कालके भीतर त्रसोमे नहीं उत्पन्न कराया है । यदि ऐसी आशंका की जाय कि त्रसकायिकोमे आकर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और संयमासंयम आदिके निमित्तसे होनेवाली गुणश्रेणिनिर्जराओके द्वारा प्रकृत निषेकको जघन्य करनेमे लगे हुए जीवके लाभ दिखाई देता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणरूप भागहारसे योगका गुणकार असंख्यातगुणा होनेके कारण यथानिषेक द्रव्यकी वहाँ निर्जराकी अपेक्षा आय बहुत देखी जाती है, इसलिये पिछले वीते हुए समयमे कर्मस्थितिके भीतर त्रसपर्यायका निषेध करना सफल है यह सिद्ध होता है ।

§ ७२७. यहाँ सूत्रमे जो 'कर्मस्थिति' का निर्देश किया है सो उससे पत्यके असंख्यातवें भागसे अधिक एकेन्द्रियके योग्य कर्मस्थितिका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि शेष कर्मस्थितिका अवलम्बन करने पर प्रकृतमे उभयोर्गारूपसे उसका कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता है । यदि ऐसा है तो एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलनेके वाद भी पीछेसे त्रसपर्यायमे उत्पन्न कराना निरर्थक है ।

उक्कड्डणाणिवंधणलाहस्स अंतोमुहुत्तपडिवद्धस्स तत्थ दंसणादो त्ति जाणावणद्वमेद-
मोइण्णं 'तत्थ तप्पाओग्गमुक्कस्सट्ठिदिं वंधमाणस्स' इच्चादि । तत्थुप्पण्णपढमसमए चेव
तप्पाओग्गमुक्कस्ससंकिंत्तेसेण तप्पाओग्गमुक्कस्सट्ठिदिमंतोमुहुत्तमावाहं काऊण वंधइ ।
एवं वंधमाणस्स जेहेही एसा तप्पाओग्गमुक्कस्सिया आवाहा तेत्तियमेत्तकालमुक्कड्डणाए
वावदस्स तस्स तावदिमसमयतसस्स पयदजहण्णसामितं होइ त्ति एसो एदस्स भावत्थो,
उवरि सामित्ताविहाणं पि तत्थ तसकाइयणवगबंधस्सावट्ठणादो । एत्थ संचयादि-
परूवणा जाणिय कायच्चा ।

❀ एवं पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय दुग्गुच्छाणं ।

सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक अन्तर्मुहूर्त काल तक होनेवाला उत्कर्षण-
निमित्तक लाभ वहाँ देखा जाता है । और इसी बातके वतलानेके लिये सूत्रमे 'तत्थ तप्पाओग्ग-
मुक्कस्सट्ठिदिं वंधमाणस्स' इत्यादि वाक्य कहा है । त्रसोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही त्रयायोग्य
उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा तद्योग्य उत्कृष्ट स्थितिको बाँधता है जिसका आबाधा काल अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण होता है । इस प्रकार बन्ध करनेवाले इस जीवके तद्योग्य जितनी उत्कृष्ट आबाधा होती है
उतने काल तक उत्कर्षणमे लगे हुए इस त्रसजीवके अन्तिम समयमे प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता
है यह इस सूत्रका भावार्थ है । इसके आगे स्वामित्वका विधान इसलिये नहीं किया है, क्योंकि
वहाँ त्रसकायिकके नवकवन्धका सद्भाव पाया जाता है । यहाँ पर संचय आदिकी प्ररूपणा
जानकर कर लेनी चाहिए ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करनेके लिये पहले
इस जीवको पर्यके असंख्यातर्वे भागसे अधिक कर्मस्थितिप्रमाण काल तक सूद्ध एकेन्द्रियोंमे
रहने दे । तथा इसका एकेन्द्रियोंमे रहनेका जो काल है उस कालके भीतर इसे त्रसोमे उत्पन्न
कराना युक्त नहीं है, क्योंकि इससे लाभके स्थानमे हानि अधिक है । लाभ तो यह है कि
अपर्षण-उत्कर्षणके द्वारा प्रकृत निषेकका द्रव्य उत्तरोत्तर कम होता जाता है पर जितना यह द्रव्य
कम होता है उससे बहुत अधिक न्यूनतन द्रव्य उसमे प्राप्त होता रहता है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षण
गुणकारसे योगगुणकार असंख्यातगुणा बड़ा है । इसलिये जब तक अभव्यके योग्य जघन्य द्रव्य
नहीं होता तब तक इसे एकेन्द्रियोंमे ही रहने दे । फिर वहाँसे त्रसोमे उत्पन्न करावे, यहाँ उत्पन्न
होने पर तद्योग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे तद्योग्य उत्कृष्ट आबाधा प्राप्त करनेके लिये उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
करावे । फिर आबाधाके अन्तिम समयमे प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त करे । आबाधाके अन्तिम
समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त करानेमें दो लाभ हैं । एक तो त्रसपर्यायमे आने पर जितने
स्थान ऊपर जाकर जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ है उतने गोपुच्छविशेषोंकी हानि देखी जाती है
और दूसरे उदायावृत्तिके सिवा उतने काल तक उत्कर्षण होता रहता है जिससे प्रकृत निषेकका
द्रव्य उत्तरोत्तर सूद्ध होता जाता है । इस प्रकार बारह कथायोके यथानिषेकरिथितप्राप्त द्रव्यका
जघन्य स्वामी कौन है इसका विचार किया ।

❀ इसी प्रकार पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके विषयमें भी जानना
चाहिये ।

§ ७२८. जहा वारसकसायाणं तिण्ह पि द्विदिपत्तयाणं जहण्णसामितं परुविदं तथा एदेसि पि कम्मार्णं परुवेयन्वं, विसेसाभावादो ।

✽ इत्थिण्णुं सयवेद-अरदि-सोणाणमधाणिसेयादो जहण्णायं द्विदिपत्तयं जहा संजलणाणं तथा कायन्वं ।

§ ७२९. अभवसिद्धिययाओग्गजहण्णपदेससतकम्मेण सह तसकाइएसुप्पाइय आवाहाचरिमसमए सामित्तविहाणेण विसेसाभावादो ।

✽ जम्हि अधाणिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं तम्हि चेव णिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं ।

§ ७३०. सुगममेदमप्पणासुत्तं, पुव्विल्लादो अविंसिट्ठपरुवणत्तादो ।

✽ उदयद्विदिपत्तयं जहा उदयादो ऋणद्विदियं जहण्णयं तथा णि रवयवं कायन्वं ।

§ ७३१. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

एवं जहण्णसामितं समत्तं ।

—:०:—

§ ७२८. जिस प्रकार वारह कपायोके तीनो ही स्थितिप्राप्त द्रव्योके जघन्य स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार पूर्वोक्त कर्मोंके विषयमे भी जानना चाहिये, क्योंकि इनके कथनमे कोई विशेषता नहीं है ।

✽ स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका कथन संज्वलनोंके समान करना चाहिए ।

§ ७२९. क्योंकि दोनो स्थलोमे अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसकाधिकोसे उत्पन्न होकर आवाधाके अन्तिम समयमे स्वामित्वका विधान किया है, इसलिए उनके कथनमे कोई विशेषता नहीं है ।

✽ उक्त कर्मोंका जिस स्थलपर जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है उसी स्थलपर जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी कथन करना चाहिये ।

§ ७३०. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि इसका व्याख्यान पूर्वोक्त सूत्रके व्याख्यानके समान है ।

✽ तथा उक्त कर्मोंके जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका सम्पूर्ण कथन उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यके समान करना चाहिये ।

§ ७३१. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ ।

❀ अर्पावहुअं ।

§ ७३२. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं । तं च दुविहं जहणुक्कस्सभेएण ।
तत्थुक्कस्सप्पावहुअपरूवणद्वमुत्तरसुत्तारंभो—

❀ सव्वपयडीएणं सव्वत्थोवसुक्कस्सयमग्गट्टिदिपत्तयं ।

§ ७३३. कुदो ? उक्कस्सजोगेण वद्धेयसमयपवद्धे अंगुलस्सासंखे० भागेण
खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो ।

❀ उक्कस्सयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७३४. एत्थ गुणगारपमाणमोकड्डुकहुणभागहारपदुप्पण्णकम्मट्टिदिणाणागुण-
हाणिसत्तागण्णोण्णभत्थरासिमेत्तं । णत्तरि तिण्णिवेदचहुत्तंजलणार्णं तप्पाओग्गसंखेज्ज-
रूत्रोवट्टिदअंगुलस्सासंखे० भागमेत्तो गुणगारो । एत्थोवट्टणं ठविय सिस्साणं गुणगार-
विसओ पडिवोहो कायव्वो ।

❀ णिसेयट्टिदिपत्तयसुक्कस्सयं विसेसाहियं ।

§ ७३५. केत्तियमेत्तेण ? ओकड्डुकहुणार्हिं गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिददव्व-

* अव अल्पवहुत्वका अधिकार है ।

§ ७३२. अधिकारका निर्देश करनेवाला यह सूत्र सुगम है । वह अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । अब इनमेंसे उत्कृष्ट अल्पवहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७३३. क्योंकि उत्कृष्ट योगसे बंधे गए एक समयप्रबद्धमें अब्हुलके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना इसका प्रमाण है, इसलिये यह सबसे थोड़ा है ।

* उससे उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७३४. यहाँपर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुईं नानागुणहानि-
शालाकाओकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको गुणा करनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकारका प्रमाण है । अर्थात् इस गुणकारके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके गुणित करनेपर उत्कृष्ट यथानिषेकस्थिति-
प्राप्त द्रव्य प्राप्त होता है । यह इसका भाव है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अब्हुलके असंख्यातवें भागमें तत्प्रायोग्य संख्यात अङ्कोका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना तीन वेद और चार संखलनोकी अपेक्षा गुणकार होता है । यहाँपर भागहारको स्थापित करके शिष्योंको गुणकार-
विषयक ज्ञान कराना चाहिये ।

* उससे उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है ।

§ ७३५. शंका—कितना अधिक है ?

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य व्ययको प्राप्त होता है उस

मेत्तेण । तं पुण अघाणिसेयदव्वस्स असखे० भागमेत्तं । तस्स पडिभागो ओकड्हुक्कुहुण-
भागहारो ।

❀ उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७३६. कुदो ? सव्वेसिं कम्माणं गुणसेडिगोबुच्छोदएण पत्तुक्कस्सभावत्तादो ।
एत्थ गुणगारो सम्मतस्स अंगुलस्स असखेदिभागो । लोहसंजलजस्स संखेज्जखुण्णिद-
दिवड्हुगुणहाणिमेत्तो । तिण्णिंसंजलण-तिवेदाणं तप्पाओग्गपल्लिदोवभासंखेज्जदिभागमेत्तो ।
सेसकम्माणमसंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तो । एत्थोवट्टणं ठविय सिस्साणं पडिवोहो
कायव्वो ।

एवमुक्कस्सप्पावहुअं समत्तं ।

❀ जहणयाणि कायव्वाणि ।

§ ७३७. एत्तो उवरि जहणद्विदिपत्तयाणमप्पावहुअं कायव्वमिदि भणिदं
होइ ।

❀ सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स जहणयमग्गद्विदिपत्तयं ।

§ ७३८. किं कारणं ? एगपरमाणुपमाणत्तादो ।

फिरसे वहाँ प्राप्त होनेपर जितना इसका प्रमाण है उतना अधिक है किन्तु यह यथान्त्येकस्थितिप्राप्त
द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । उसका प्रतिभाग अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार है ।

* उससे उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७३६. क्योंकि सभी कर्मोंके गुणश्रेणियोंके उदयसे इस उत्कृष्ट द्रव्यकी प्राप्ति
होती है, इसलिए यह उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्तसे भी असंख्यातगुणा है । यहाँ सम्यक्त्वका गुणकार
अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । लोभसंस्वजनका गुणकार संख्यात अङ्गुलसे गुणित छेद
गुणहानिप्रमाण है । तीन संस्वजन और तीन वेदोंका गुणकार तद्योग्य पत्त्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है । तथा बोप कर्मोंका गुणकार पत्त्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । यहाँ पर
भागहारका स्थापित करके शिष्योंको प्रतिबोध कराना चाहिये ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

* अब जघन्य अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये ।

§ ७३७ अब इससे आगे जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंके अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये,
यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

* मिथ्यात्वका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७३८. क्योंकि इस प्रमाण एक परमाणु है ।

❀ जहणणयं णिसेयद्विदिपत्तयं अणंतगुणं ।

§ ७३६. कुदो ? अणंतपरमाणुपमाणत्तादो ।

❀ जहणणयमुदयद्विदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७४०. कथमेदेसिमुवसमसम्माइद्विपच्छायदपढमसमयमिच्छाइद्विणोदीरिदा-संखेज्जलोगपडिभागियदच्चवपडिबद्धत्तेण समाणसामियाणमण्णोणमवेक्खिय असंखेज्जगुणहीणाहियभावो चि णासंकणिज्जं, समाणसामियत्ते वि दच्चवित्तेसावलंबणेण तथाभावविरोहादो । तं जहा—णिसेयद्विदिपत्तयस्स अहियारद्विदीए अंतरं करेमाणेण उवरिमुक्कड्ढिदपदेसा पुणो संकिलेसवसेणासंखेज्जलोगपडिभाएणोदीरिदा सामित्तविसईकया उदयादो जहणणद्विदिपत्तयस्स पुण अंतोकोडाकोडीमेत्तोवरिमासेसद्विदीहितो ओकड्ढिय उदीरिदसच्चपरमाणु सामित्तपडिग्गहिया तदो जइ वि एकम्मि चे उदसे दोणहं सामित्तं संजादं तो वि णाणेयणिसेयपडिबद्धत्तेण असंखेज्जगुणहीणाहियभावो ण विरुद्धदे । एत्थ गुणयारोकड्ढुकड्ढुणभागहारोवद्विददिवड्ढुगुणहाणिवग्गमेत्तो ।

* उससे जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है ।

§ ७३९. क्योंकि इसका प्रमाण अनन्त परमाणु है ।

* उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४०. शंका—जब कि उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात लोकका भाग देकर जितने द्रव्यकी उदीरणा करता है उसकी अपेक्षा इन दोनोंका स्वामी समान है तब फिर इनमेंसे एकको असंख्यातगुणा हीन और दूसरेको असंख्यातगुणा अधिक क्यों बतलाया है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि इनका स्वामी समान है तथापि द्रव्यविशेषकी अपेक्षा ऐसा होनेमें कोई विरोध नहीं आता । खुलासा इस प्रकार है—निषेकस्थितिप्राप्तकी अपेक्षासे अन्तरको करनेवाले जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिके जिन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण करके ऊपर निक्षेप किया है उनमेंसे संक्षेपशके कारण असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने वे ही कर्मपरमाणु उदीर्ण होकर स्वामित्वके विषयभूत होते हैं । किन्तु जघन्य उदयस्थितिप्राप्तकी अपेक्षा तो अन्तःकोडाकोडीप्रमाण ऊपरकी सब स्थितियोंमेंसे अपकर्षण होकर उदीरणको प्राप्त हुए सब परमाणु स्वामित्वरूपसे स्वीकार किये गये हैं, इसलिये यद्यपि एक ही स्थलपर दोनो स्थितिप्राप्त द्रव्योका स्वामित्व होता है तो भी एक स्थितिप्राप्तमें नाना निषेकोके कर्मपरमाणु हैं और दूसरेमें एक निषेकके कर्मपरमाणु हैं, इसलिए इनके परस्परमें असंख्यातगुणे अधिक और असंख्यातगुणे हीन होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । यहाँ पर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका डेढ़ गुणहानिके वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकारका प्रमाण है ।

❁ जहणणयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७४१. एत्थ गुणगारपमाणमसंखेज्जा लोगा तप्पाओगासंखेज्जखाणि वा । कथमसंखेज्जलोगमेत्तगुणयारुप्पत्ती ? उच्चदे—उदयट्टिदिपत्तयस्स जहणणदव्वे इच्छिज्जमाणे दिवद्धगुणहाणिमेत्तसमयपवद्धे ठविय तेमि ओकड्डुकड्डुणभागहारेण पदुप्पण्णा असंखेज्जा लोगा भागहारसरूवेण ठवेयव्वा । एवं ठविदे इच्छिददव्वमागच्छइ । जहाणिसेयट्टिदिपत्तयस्स पुण जहणणदव्वं संखेज्जावलियमेत्तसमयपवद्धे अंगुलस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिय तत्थेयखंडमेत्तं होइ । एदस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे संखेज्जावलयमेत्तसमयपवद्धाणं वेद्धावट्टिसागरोवमभंतरणाणागुणहार्हाणं विरलिय विगुणिय अण्णोण्णव्भत्थरासिम्मि भागहारत्तेण ठविदे गल्लिदसेसदव्वमागच्छइ । एवं च सव्वदव्वमुव्वरिमअंतोकोडाकोडीमेत्तट्टिदिविसेसेसु विहज्जिय ट्टिदमधाणिसेयजहणणसामित्तविसईकयगोवुच्चपमाणेण कीरमाणं दिवद्धगुणहाणियमाणं होइ त्ति दिवद्धगुणहाणी वि एदस्स भागहारो ठवेयव्वा । एवं ठविदे इच्छिददव्वमागच्छइ । पुणो एदस्मि पुच्चिच्छलदव्वेणोवट्टिदे असंखेज्जा लोगा गुणगारो आगच्छइ ।

।७४२. अहवा जहाणिसेयट्टिदिपत्तयस्स वि असंखेज्जा लोगा भागहारो ।

❁ उससे जघन्य यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४१. यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है या तत्प्रायोग्य असंख्यात अङ्क है ।

शंका—असंख्यात लोकप्रमाण गुणकारकी उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान—उदयस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यको लानेकी इच्छासे डेढ़ गुणहानिप्रमाण समय-प्रबद्धोंको स्थापित करके उनके भागहाररूपसे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके द्वारा उत्पन्न किये गये असंख्यात लोकको स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार स्थापित करनेपर इच्छित द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । किन्तु यथानिपेकस्थितिप्राप्तका जघन्य द्रव्य तो संख्यात आवलिप्रमाण समय-प्रबद्धोंमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग आवे उतना होता है । इसका भागहार स्थापित करनेपर संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंके भागहाररूपसे दो छ्वासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओंका विरलन करके और दूना करके परस्पर गुणा करनेसे जो अन्योन्याभ्रस्त राशि उत्पन्न होती है उसे स्थापित करनेपर गलकर जो द्रव्य ग्रेप रहता है उसका प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार ऊपरके अन्तःकोडाकोडी प्रमाण स्थितिविशेषोंमें जो सब द्रव्य विभक्त होकर स्थित है उसके यथानिपेकके जघन्य स्वामित्वके विषयभूत गोपुच्छके बराबर हिस्से करनेपर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए डेढ़ गुणहानिको भी इसके आगहाररूपसे स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार स्थापित करनेपर इच्छित द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । फिर इसमें पूर्वोक्त द्रव्यका भाग देनेपर असंख्यात लोकप्रमाण गुणकार प्राप्त होता है ।

§ ७४२. अथवा यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी असंख्यात लोकप्रमाण भागहार होता है, ५७

कुदो ? पुव्वपरुविदभागहारे संते पुणो वि ओकङ्कणमस्सियुणुप्पणवेळावट्टिसागरोवम-
न्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणमसंखेज्जपळ्ळिदोवमपढमवग्गमूलमेत्ताणं अण्णोण्णमत्थ-
रासीए असंखेज्जोणपमाणाए भागहारत्तेण पवेसदंसणादो । तदो एदम्मि हेडिमरासिणा
ओवट्टिदे तप्पाओग्गासंखेज्जरुवमेत्तो गुणगारो आगच्छदि ति घेत्तव्वं ।

❀ एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छुत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद हस्स-रइ-भय-
दुगुंछाणं ।

§ ७४३. जहा मिच्छत्तस्स जहण्णओ अप्पावहुग्गआळावो कओ तहा सम्मत्तादि-
पयट्ठीणं पि अण्णआहिओ कायव्वो, विसेसाभावादो । णवरि सामित्ताणुसारेण
गुणयारविसेसो जाणियव्वो ।

❀ अण्णान्ताणुबंधीणं सव्वत्थोवं जहण्णयमग्गट्टिदिपत्तयं ।

§ ७४४. सुगमं ।

❀ जहण्णयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमणंतगुणं ।

§ ७४५. एत्थ वि कारणं सुगमं ।

❀ जहण्णयं णिसेयट्टिदिपत्तयं विसेसाहियं ।

क्योंकि पूर्वीक भागहारके रहते हुए फिर भी अपकर्षणकी अपेक्षा दो छयासठ सागरके भीतर
उत्पन्न हुई पत्थके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण नाना गुणहानिरालाकाओंकी असंख्यात
लोकप्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशिका भागहाररूपसे प्रवेश देखा जाता है । फिर इसे नीचेकी
राशिसे भाजित करनेपर तत्प्रायोग्य असंख्यात अङ्कप्रमाण गुणकार आता है ऐसा यहाँ ग्रहण
करना चाहिए ।

* इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह काषाय, पुरुषवेद, हास्य,
रति, भय और जुगुप्सा इनका भी जघन्य अल्पबहुत्व कहना चाहिए ।

§ ७४३. जिस प्रकार मिथ्यात्वके जघन्य अल्पबहुत्वका कथन किया है न्यूनाधिकताके
बिना उसी प्रकार सम्यक्त्व आदि प्रकृतियोंके अल्पबहुत्वका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि
मिथ्यात्वके कथनसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सबकी
अपेक्षा गुणकार एकसा नहीं है इसलिए अपने अपने स्वामीके अनुसार गुणकार जानना चाहिये ।

* अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७४४. इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

* उससे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है ।

§ ७४५. यहाँ जो जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यसे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको
अनन्तगुणा बतलाया है सो इसका कारण सुगम है ।

* उससे जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है ।

§ ७४६. एदं पि सुगमं, समाणसामियत्ते वि दव्वगयविसेसमस्सियुण विसेसाहिय-
भावस्स पुव्वमेव समत्थियत्तादो ।

❀ जहणण्यसुदयद्विदिपत्तयमसंखेज्ज गुणं ।

§ ७४७. कुदो ? सामित्तभेदाभावे वि सेसकसाएहितो पडिच्चियुणकड्ढिद-
दव्वमाहप्पेण पुच्चिल्लादो एदस्सासंखेज्जगुणत्तदंसणादो । एत्थ गुणगारो असंखेज्जा
लोगा ।

❀ एवमित्थिवेद-णत्तुं सयवेद-अरदि-सोगाणं ।

§ ७४८. जहा अपंताणुवंधिचउक्कस्स जहणणद्विदिपत्तयाणमप्पावहुअं परुच्चियं
एवं पयदकम्माणं पि परुचेयव्वं; दव्वद्वियणयावलंशणे विसेसाणुवलंभादो । पज्जवद्वियणए
पुण अवलंबिज्जमाणे सामित्ताणुसारेण गुणयारविसेसो जाणियव्वो ।

एवमप्पावहुअं समत्तं । तदो द्विदियं ति पदस्स विहासा समत्ता । एत्थेव
'पयडी य मोहणिज्जा' एदिस्से मूलगाहाए अत्थो समत्तो ।

तदो पदेसविहत्ती सचूलिया समत्ता ।

—:०:—

§ ७४६. यह सूत्र भी सुगम है । यद्यपि यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी
एक है तथापि द्रव्यगत विशेषताकी अपेक्षासे विशेषाधिकता होती है इसका समर्थन पहले ही
कर आये हैं ।

❀ उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४७. क्योंकि यद्यपि निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी एक है
तथापि शेष कषायोसे संक्रमित होकर उत्कर्षको प्राप्त हुए द्रव्यके साहाय्यसे पूर्वकी अपेक्षा
यह असंख्यातगुणा देखा जाता है । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है ।

❀ इसीप्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकका अल्पवहुत्व जानना
चाहिये ।

§ ६४८. जिसप्रकार अनन्तानुबन्धियोंके चारो जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योका अल्पवहुत्व कहा
है इसीप्रकार प्रकृत कर्मोंके जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका अल्पवहुत्व भी कहना चाहिये, क्योंकि
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा इनके कथनमे कोई विशेषता नहीं पायी जाती । पर्यायार्थिक नयका
अवलम्बन करने पर तो स्वामित्वके अनुसार गुणकारविशेष जानना चाहिये ।

इसप्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होनेपर 'द्विदियं' पदका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ ।
तथा यहाँ पर 'पयडी य मोहणिज्जा' इस मूल गाथाका अर्थ समाप्त हुआ ।

इसप्रकार चूलिका सहित प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई ।

—:०:—

१ पदेसविहत्तिचुणिसुत्ताणि

पुस्तक ६

पदेसविहत्ती दुविहा—मूलपयडिपदेसविहत्ती उत्तरपयडिपदेसविहत्ती च । तत्थ मूलपयडिपदेसविहत्तीए गदाए उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए एगजीवेण सामित्तं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्ती कस्स ? वादरपुढविजीवेसु कम्मट्ठिदिमिच्छदाउओ तदो उवट्ठिदो तसकाए वेसागरोवमसहस्साणि सादिरेयाणि अचिच्छदाउओ अपचिच्छमाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि दोभवग्गहणाणि तत्थ अपचिच्छमे तेत्तीसं सागरोवमिए णेरइयभवग्गहणे चरिमसमयणेइयस्स तस्स मिच्छत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । एवं वारसकसाय-ञ्जणोकसायाणं । सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तियो को होदि ? गुणिदकम्मसिओ दंसणमोहणीयक्खवओ जम्मि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तियो । सम्मतस्स वि तेणेव जम्मि सम्मामिच्छत्तं समत्ते पक्खित्तं तस्स सम्मतस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं । णडुंसयवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मसिओ ईसाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मसिओ असंखेज्जवस्साउए गदो तम्मि पल्लिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण जम्मि पूरिदो तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मसिओ ईसाणेसु णडुंसयवेदं पूरेदूण तदो कमेण असंखेज्जवस्साउएसु उववण्णो । तत्थ पल्लिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण इत्थिवेदो पूरिदो । तदो सम्मतं लब्धिदूण मदो पल्लिदोवमट्ठिदीओ देवो जादो । तत्थ तेणेव पुरिसवेदो पूरिदो । तदो जुदो मणुसो जादो सव्वलहुं कसाए खवेदि । तदो णडुंसयवेदं पक्खिविदूण जम्मि इत्थिवेदो पक्खित्तो तस्समए पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । तेणेव जाधे पुरिसवेद-ञ्जणोकसायाणं पदेसग्गं कोधसंजलणे पक्खित्तं ताधे कोधसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । एसेव कोधो जाधे माणे पक्खित्तो ताधे माणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । एसेव माणो जाधे मायाए पक्खित्तो ताधे मायासंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । एसेव माया जाधे लोभसंजलणे पक्खित्ता ताधे लोभसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।

(१) पृ० २ । (२) पृ० ६० । (३) पृ० ७२ । (४) पृ० ७६ । (५) पृ० ८२ । (६) पृ० ८८ । (७) पृ० ९१ । (८) पृ० ९६ । (९) पृ० १०४ । (१०) पृ० ११० । (११) पृ० ११२ । (१२) पृ० ११३ । (१३) पृ० ११४ ।

मिच्छत्तस्स जहण्णपदेससंतकम्मिओ को होदि ? सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदि-
मच्छिद्राउओ तत्थ सव्ववहुआणि अपज्जत्तभवग्गहणाणि दीहाओ अपज्जत्तद्धाओ
तप्पाओग्गजहण्णयाणि जोगट्ठाणाणि अभिक्खं गदो । तदो तप्पाओग्गजहण्णियाए
वड्डीए वड्ढिदो । जदा जदा आउअं वंधदि तदा तदा तप्पाओग्गउक्कस्सएसु जोगट्ठाणेसु
वट्ठदि हेट्ठिल्लीणं ट्ठिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदेसतप्पाओग्गं उक्कस्सविसोहिमभिक्खं
गदो । जाधे अभावसिद्धियपाओग्गं जहण्णगं कम्मं कदं तदो तसेसु आगदो । संजमा-
संजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो
वेज्जावट्टिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालेदूण तदो दंसणमोहणीयं खवेदि । अपच्छिम-
ट्टिदिखंडयमविणिज्जमाणयमवणिदमुदयावलियाए जं तं गळमाणं तं गळिदं । जाधे
एक्किस्से ट्टिदीए दुसमयकालट्टिदिगं सेसं ताधे मिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं ।
तदो पदेसुत्तरं दुपदेसुत्तरमेवमणंताणि ट्ठाणाणि तम्मि ट्टिदिविसेसे । केण कारणेण ?
जं तं जहोक्खयागदं तदो उक्कस्सयं पि समयपवद्धमेत्तं । जो पुण तम्मि एक्कम्मि
ट्टिदिविसेसे उक्कस्सगस्स विसेसो असंखेज्जा समयपवद्धा । तस्स पुण जहण्णयस्स
संतकम्मस्स असंखेज्जदिभागो । एदेण कारणेण एयं फहयं । दोसु ट्टिदिविसेसेसु
विदियं फहयं । एवमावलियत्तमयूणमेत्ताणि फहयाणि । अपच्छिमस्स ट्टिदिखंडयस्स
चरिमसमयजहण्णफहयमादि कादूण जाव मिच्छत्तस्स उक्कस्सं ति एदमेगं फहयं ।

सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? तथा चेव सुहुमणिगोदेसु
कम्मद्विदिमच्छिद्रूण तदो तसेसु संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धूण चत्तारि
वारे कसाए उवसामेदूण वेज्जावट्टिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालेदूण मिच्छत्तं गदो ।
दीहाए उव्वेळणद्धाए उव्वेळिदं तस्स जाधे सव्वं उव्वेळिदं उदयावलिया गळिदा
जाधे दुसमयकालट्टिदियं एक्कम्मि ट्टिदिविसेसे सेसं ताधे सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णं
पदेससंतकम्मं । तदो पदेसुत्तरं । दुपदेसुत्तरं । णिरंतराणि ट्ठाणाणि उक्कस्सपदेस-
संतकम्मं ति । एवं चेव सम्मतस्स वि । दोण्हं पि एदेसि संतकम्माणमेगं फहयं ।

अट्टण्हं कसायाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? अभावसिद्धियपाओग्ग-
जहण्णयं काऊण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धूण
चत्तारिवारे कसाए उवसामिदूण एइदिए गदो । तत्थ पळिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-
मच्छिद्रूण कम्मं हदसमुप्पत्तियं कादूण कालं गदो तसेसु आगदो कसाए खवेदि

(१) पृ० १२४-१२५ । (२) पृ० १५६ । (३) पृ० १५७ । (४) पृ० १५६ । (५) पृ० १६२ ।
(६) पृ० १६३ । (७) पृ० १६४ । (८) पृ० १६६ । (९) पृ० १६७ । (१०) पृ० २०२-२०३ । (११) पृ०
२१७ । (१२) पृ० २१८ । (१३) पृ० २४४ । (१४) पृ० २४५ । (१५) पृ० २४६ ।

अपच्छिमे द्विद्विखंडए अवगदे अधद्विदिगलणाए उदयावल्याए गलंतीए एकस्से द्विदीए सेसाए तम्मि जहण्णयं पदं । 'तदो पदेसुत्तरं । गिरंतराणि द्वाणाणि जाव एगद्विद्विसेसस्स उक्कस्सपदं । एदमेगफहयं । एदेण कमेण अट्टण्हं पि कसायाणं समययूणावलियमेत्ताणि फहयाणि उदयावल्यादो । 'अपच्छिमद्विद्विखंडयस्स चरम-समयजहण्णपदमादिं कादूण जावुक्कस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

'अणंताणुबंधीणं मिच्छत्तभंगो । 'णुंसयवेदस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? तथा चेव अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णेण संतकम्मेण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मतं च बहुसो लहधूण चत्ताग्गि वारे कसाए उवसामिदूण तदो तिपलिदो-वमिएसु उववण्णो । तत्थ अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए ति सम्मतं वेत्तूण वेळावट्टि-सागरोवमाणि सम्मतद्धमणुपालिदूण मिच्छत्तं गंतूण णुंसयवेदमणुस्सेसु उववण्णो । सव्वचिरं संजममणुपालिदूण खवेदुमाहत्तो । तदो तेण अपच्छिमद्विद्विखंडयं संछुहमाणं संछुद्धं । उदओ णवरि गिरवसेसो तस्स चरिमसमयणुंसयवेदस्स जहण्णयं पदेससंत-कम्मं । 'तदो पदेसुत्तरं । गिरंतराणि द्वाणाणि जाव तप्पाओग्गो उक्कस्सओ उदओ ति । 'एदमेगं फहयं । 'अपच्छिमस्स द्विद्विखंडयस्स चरिमसमयजहण्णपदमादिं कादूण जाव उक्कस्सपदेससंतकम्मं गिरंतराणि द्वाणाणि । 'एवं णुंसयवेदस्स दो फहयाणि । एवमित्थिवेदस्स । णवरि तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णो । पुरिसवेदस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयपुरिसवेदोदयक्खवगेण धोळमाणजहण्ण-जोगट्टाणे वट्टमाणेण जं कम्मं वद्धं तं कम्ममावलियसमयअवेदो संकामेदि । जत्तो पाए संकामेदि तत्तो पाए सो समयपवद्धो आवलियाए अकम्मं होदि । तदो एगसमय-मोसक्किदूण जहण्णयं पदेससंतकम्मट्टाणं । 'तस्स कारणमिमा परूवणा कायव्वा । पढमसमयअवेदगस्स केत्तिया समयपवद्धा । दो आवलियाओ दुसमऊणाओ । केण कारणेण ? 'जं चरिमसमयसवेदेण वद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलियाए तिचरिम-समयादो ति दिस्सदि दुचरिमसमए अकम्मं होदि । जं दुचरिमसमयसवेदेण वद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलियाए चदुचरिमसमयादो ति दिस्सदि । तिचरिमसमए अकम्मं होदि । 'एदेण कमेण चरिमावलियाए पढमसमयसवेदेण जं वद्धं तमवेदस्स पदमावलियाए चरिमसमए अकम्मं होदि । जं सवेदस्स दुचरिमाए आवलियाए पढमसमए पवद्धं तं चरिमसमयसवेदस्स अकम्मं होदि । जं तिस्से चेव दुचरिमसमय-सवेदावलियाए विदियसमए वद्धं तं पढमसमयअवेदस्स अकम्मं होदि । एदेण

(१) पृ० २५३ । (२) पृ० २५५ । (३) पृ० २५६ । (४) पृ० २६७-२६८ । (५) पृ० २७४ । (६) पृ० २८२ । (७) पृ० २८३ । (८) पृ० २६१ । (९) पृ० २६३ । (१०) पृ० २६४ । (११) पृ० २६५ । (१२) पृ० २६६ ।

कारणेण वेसमयपवद्धेण लहदि अवगदवेदो । सवेदस्स दुचरिमावळियाए दुसमयूणाए चरिमावळियाए सव्वे च एदे समयपवद्धे अवेदो लहदि । एसा ताव एका परूवणा ।^१ इमा अण्णा परूवणा । दोहि चरिमसमयसवेदेहि तुल्लजोगेहि वद्धं कम्मं तेसिं तं संतकम्मं चरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । दुचरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । एवं सव्वत्थ ।^२ एदाहि दोहि परूवणाहि पदेससंतकम्महाणाणि परूवेदव्वाणि ।^३ जहा— जो चरिमसमयसवेदेण वद्धो समयपवद्धो तम्हि चरिमसमयअणिल्लेविदे घोळमाण-जहण्णजोगहाणमादिं कादूण जत्तियाणि जोगहाणाणि तत्तियमेत्ताणि संतकम्महाणाणि ।^४ चरिमसमयसवेदेण उक्कस्सजोगेणे ति दुचरिमसमयसवेदेण जहण्णजोगहाणेणे ति एत्थ जोगहाणमेत्ताणि [संतकम्महाणाणि] लब्भंति ।^५ चरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो दुचरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो तिचरिमसमयसवेदो अण्णदरजोगहाणे ति एत्थ पुण जोगहाणमेत्ताणि पदेससंतकम्महाणाणि [लब्भंति] ।^६ एवं जोगहाणाणि दोहि आवळियाहि दुसमयूणाहि पदुप्पणाणि । एत्तियाणि अवेदस्स संतकम्महाणाणि सांतराणि सव्वाणि । चरिमसमयसवेदस्स एगं फहयं ।^७ दुचरिमसमयसवेदस्स चरमट्टिदिखंडंगं चरिमसमयविणट्टं ।^८ तस्स दुचरिमसमयसवेदस्स जहण्णगं संतकम्म-मादिं कादूण जाव पुरिसवेदस्स ओघुकस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

“कोधसंजलणस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयकोधवेदगेण खवगेण जहण्णजोगहाणे जं बद्धं तं जं वेत्तं चरिमसमयअणिल्लेविदं तस्स जहण्णयं संतकम्मं ।”^९ जहा पुरिसवेदस्स दोआवळियाहि दुसमरूणाहि जोगहाणाणि पदु-प्पणाणि एवदियाणि संतकम्महाणाणि सांतराणि । एवमावळियाए समरूणाए जोगहाणाणि पदुप्पणाणि एत्तियाणि कोधसंजलणस्स सांतराणि संतकम्महाणाणि ।^{१०} कोधसंजलणस्स उदए चोच्चिण्णे जा पढमावळिया तत्थ गुणसेही पविट्टल्लिया । तिस्से आवळियाए चरिमसमए एगं फहयं ।^{११} दुचरिमसमए अण्णं फहयं ।^{१२} एव-मावळियसमयूणमेत्ताणि फहयाणि । चरिमसमयकोधवेदयस्स खवयस्स चरिमसमय-अणिल्लेविदं खंडयं होदि । तस्स जहण्णसंतकम्ममादिं कादूण जाव ओघुकस्सं कोधसंजलणस्स संतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

“जहा कोधसंजलणस्स तहा माण-मायासंजलणाणं ।”^{१३} लोभसंजलणस्स जहण्णगं पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णगेण कम्मेण तसकायं गदो ।

(१) पृ० २६७ । (२) पृ० २६८ । (३) पृ० २६९ । (४) पृ० ३०१ । (५) पृ० ३१५ । (६) पृ० ३१७ । (७) पृ० ३१९ । (८) पृ० ३७३ । (९) पृ० ३७५ । (१०) पृ० ३७६ । (११) पृ० ३७७ । (१२) पृ० ३७८ । (१३) पृ० ३७९ । (१४) पृ० ३८० । (१५) पृ० ३८१ । (१६) पृ० ३८२ । (१७) पृ० ३८३ ।

तस्मि संजमासंजमं संजमं च बहुवारं लद्धाडओ कसाए च उवसामिदाडओ । तदो क्रमेण मणुस्सेसुववण्णो । दीहं संजमद्धमणुपालेदूण कसायक्खवणाए अब्भुद्धिदो तस्स चरिमसमयअथापवत्तकरणे जहण्णमं लोभसंजलणस्स पदेससंतकम्मं । 'एदमादिं कादूण जावुक्कस्सयं संतकम्मं गिरंतराणि द्वाणाणि । 'द्वण्णोकसायाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? अबवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण तसेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारं कसाए उवसामेदूण तदो क्रमेण मणुसो जादो । तत्थ दीहं संजमद्धं कादूण खवणाए अब्भुद्धिदो तस्स चरिम-समयट्ठिदिखंडए चरिमसमयअणिल्लेविदे द्वण्णं कम्मंसाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं । 'तदादियं जाव उक्कस्सियादो एगमेव फहयं ।

पुस्तक ७

'कालो । 'मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जह-ण्णुक्कस्सेण एगसमओ । अणुक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णु-क्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । 'अण्णोवदेसो जहण्णेण असंखेज्जा लोगा ति । अथवा खवगं पडुच्च वासपुधत्तं । 'एवं सेसाणं कम्माणं गादूण गेदव्वं । 'णवरि सम्मत-सम्माभिच्छत्ताणमणुक्कस्सदव्वकालो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । 'उक्कस्सेण वेत्थावट्ठिसागरोवमाणि सारिदेयाणि । 'जहण्णकालो जाणिदूण गेदव्वो ।

'अंतरं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतरं जहण्णुक्कस्सेण अणंतकाल-मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । 'एवं सेसाणं कम्माणं गेदव्वं । णवरि सम्मत-सम्मा-भिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चट्ठसंजललणाणं च उक्कस्सपदेसविहत्तिअंतरं णत्थि । 'अंतरं जहण्णयं जाणिदूण गेदव्वं ।

'णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो जहण्णुक्कस्सभेदेहि । अट्टपदं कादूण सव्व-कम्माणं गेदव्वो । 'सव्वकमाणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वो । 'अंतरं णाणाजीवेहि सव्वकमाणं जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

'अप्पावहुअं । सव्वत्थोवमपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं । 'कोधे उक्कस्स-पदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । 'कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

(१) पृ० ३८४ । (२) पृ० ३८५-३८६ । (३) पृ० ३८६ । (४) पृ० १ । (५) पृ० २ । (६) पृ० ३ । (७) पृ० ४ । (८) पृ० ५ । (९) पृ० ६ । (१०) पृ० ७ । (११) पृ० २५ । (१२) पृ० २६ । (१३) पृ० २७ । (१४) ३७ । (१५) पृ० ५० । (१६) पृ० ५३ । (१७) पृ० ७४ । (१८) पृ० ७५ । (१९) पृ० ७६ ।

लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मिच्छत्ते जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।
 'अपच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोधे जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । 'पच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोहे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्ममणंतगुणं । इत्थिवेदे
 जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । 'हस्से जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । रदीए
 जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । सोगे जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । 'अरदीए
 जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । णडुंसयवेदे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 हुगुंलाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । भए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 माणसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । मायासंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 'लोभसंजलणे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

एत्तो भुजगारं 'पदणिवखेव-वट्टीओ च कायव्वाओ । जहा उक्कस्सयं पदेस-
 संतकम्मं तथा संतकम्महाणाणि । एवं पदेसविहत्ती समत्ता ।

भीणाभीणचूलिया

'एत्तो भीणमभीणं ति पदस्स विहासा कायव्वा । तं जहा । अत्थि ओकहुणादो
 भीणट्ठिदियं उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं संकमणादो झीणट्ठिदियं उदयादो भीणट्ठिदियं ।
 'ओकहुणादो भीणट्ठिदियं णाम किं ? जं कम्मसुदयावलियवभंतरे द्वियं तमोकहुणादो
 भीणट्ठिदियं । जमुदयावलियावाहिरे ट्ठिदं तमोकहुणादो अज्भीणट्ठिदियं । 'उक्कणादो
 भीणट्ठिदियं णाम किं ? जं ताव उदयावलियपविट्ठं तं ताव उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं
 'उदयावलिवाहिरे वि अत्थि पदेसग्गमुक्कहुणादो भीणट्ठिदियं । तस्स णिदरिसणं ।
 तं जहा—जा समयाहियाए उदयावलियाए ट्ठिदी एदिस्से ट्ठिदीए जं पदेसग्गं
 तमादिट्ठं । 'तस्स पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी
 विदिवकंता वद्धस्स तं कम्मं ण सका उक्कड्ढिहुं । 'तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि दुसमया-
 हियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिवकंता तं पि उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं ।
 'एवं गंतूण जदि वि जहणियाए आवाहाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिवकंता तं पि

(१) पृ० १२६ । (२) पृ० १३० । (३) पृ० १३१ । (४) पृ० १३२ । (५) पृ० १३३ ।
 (६) पृ० १७१ । (७) पृ० २३५ । (८) पृ० २३७ । (९) पृ० २३६ । (१०) पृ० २४२ । (११) पृ० २४३ ।
 (१२) पृ० २४४ । (१३) पृ० २४५ । (१४) पृ० २४६ ।

संतकम्ममणंतगुणं । 'माणसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं' । पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 'मायासंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं' । गळुंसयवेदे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । इत्थिवेदस्स जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 'हस्से जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं' । 'रदीए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं' । सोगे जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । अरदीए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । दुगुंछाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 'भए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं' । लोभसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

णिरयगइए सच्चत्थोवं सम्मत्ते जहणपदेससंतकम्मं । 'सम्मामिच्छत्ते जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । अणंताणुबंधिमाणे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं' । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मिच्छत्ते जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'अपच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं' । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । इत्थिवेदे जहणपदेससंतकम्ममणंतगुणं । गळुंसयवेदे जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'हस्से जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । रदीए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । सोगे जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । अरदीए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । दुगुंछाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 'भए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । माणसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायासंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोहसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 'जहा णिरयगइए तहा सच्चासु गईसु । णवरि मणुसगदीए ओघं ।

'एइदिपसु सच्चत्थोवं सम्मत्ते जहणपदेससंतकम्मं । सम्मामिच्छत्ते जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । अणंताणुबंधिमाणे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

(१) पृ० ११२ । (२) पृ० ११३ । (३) पृ० ११४ । (४) पृ० ११५ । (५) पृ० ११६ । (६) पृ० ११७ । (७) पृ० ११८ । (८) पृ० ११९ । (९) पृ० १२० । (१०) पृ० १२१ । (११) पृ० १२२ । (१२) पृ० १२३ । (१३) पृ० १२४ । (१४) पृ० १२६ ।

एदादो द्विदीदो समयुत्ताए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो ।^१ सा पुण का द्विदी । दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया जा आवाहा एसा सा द्विदी । इदाणिमेदिस्से द्विदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया ? जावदिया हेद्विळ्ळियाए द्विदीए अवत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा ।^२ जहेही एसा द्विदी तत्तियं द्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदे-सग्गस्स तं पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भीणद्विदियं । एदादो द्विदीदो समयुत्तरद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तसुक्कड्डणादो भीणद्विदियं । एवं गंतुण आवाहामेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदीए द्विदीए दीसइ तं पि उक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।^३ आवाहासमयुत्तरमेत्तं द्विदि-संतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स तं पि उक्कड्डणादो भीणद्विदियं । आवाधा दुसमयुत्तरमेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदिस्से द्विदीए-दिस्सइ तं पि पदेसग्गमुक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।^४ तेण परमुक्कड्डणादो अज्भीण-द्विदियं । दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एवडिमाए द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

एत्तो समयुत्तराए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो । एत्तो पुण द्विदीदो समयुत्तरा द्विदी कदमा ? जहणिया आवाहा तिसमयूणाए आवलियाए ऊणिया एवडिमा द्विदी ।^५ एदिस्से द्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा । णवरि अवत्थुवियप्पा रूवुत्तरा । एस कपो जाव जहणिया आवाहा समयुत्तरा ति ।^६ जहणियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।^७ एवमुक्कड्डणादो भीणद्विदियस्स अट्टपदं समत्तं ।

एत्तो संकमणादो भीणद्विदियं । जं उदयावलियपविट्ठं तं, णत्थि अण्णो वियप्पो ।

‘उदयादो भीणद्विदियं । जमुदिण्णं तं, णत्थि अण्णं ।

‘एत्तो एणेगभीणद्विदियमुक्कस्सयमशुक्कस्सयं जहणयमजहणयं च ।

सामितं ।^८ मिच्चत्तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो भीणद्विदियं कस्स ? गुणिद-कम्मंसियस्स सन्वल्लुं दंसणमोहणीयं खवेत्तस्स अपच्चिद्विदिखंडयं संखुब्भमाणयं संखुब्भमावलिया समयूगा सेसा तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो भीणद्विदियं ।^९ तस्सेव उक्कस्सयमुक्कड्डणादो संकमणादो च भीणद्विदियं । उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ?^{१०} गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमगुणसेही संजमगुणसेही च एदाओ गुणसेहीओ

(१) पृ० २६७ । (२) पृ० २६८ । (३) पृ० २६९ । (४) पृ० २७० । (५) पृ० २७१ ।
(६) पृ० २७२ । (७) पृ० २७३ । (८) पृ० २७४ । (९) पृ० २७५ । (१०) पृ० २७६ ।
(११) पृ० २७८ । (१२) पृ० २८९ ।

उकङ्कणादो भ्रीणद्विदियं । 'समयुत्तराए उदयावल्याए तिस्से द्विदीए जं पदेसगं तस्स पदेसगस्स जइ' जहणियाए आवाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता तं पदेसगं सका आवाधामेत्तमुकङ्कणउमेक्किस्से द्विदीए णिसिंचिदुं । 'जइ दुसमयाहियाए आवाहाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता तिसमयाहियाए वा आवाहाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता । एवं गंतूण वासेण वा वासपुधत्तेण वा सागरोवमेण वा सागरोवमपुधत्तेण वा ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता तं सब्बं पदेसगं उकङ्कणादो अब्भ्रीणद्विदियं ।

'समयाहियाए उदयावल्याए तिस्से चेव द्विदीए पदेसगस्स एगो समओ पवद्धस्स अइच्छिदो ति अवत्थु । दो समया पवद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु । तिण्ण समया पवद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु । एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया पवद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु । 'तिस्से चेव द्विदीए पदेसगस्स समयुत्तरावल्या वद्धस्स अइच्छिदा ति एसो आदेसो होज्ज ।' तं पुण पदेसगं कम्मद्विदिं णो सका उकङ्कणुं । समयाहियाए आवल्याए ऊणियं कम्मद्विदिं सका उकङ्कणुं । 'एदे वियप्पा जा समयाहियउदयावल्या तिस्से द्विदीए पदेसगस्स ।' 'एदे चेव वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावल्या तिस्से द्विदीए पदेसगस्स ।' 'एवं तिसमयाहियाए चहुसमयाहियाए जाव आवाधाए आवलियूणाए एवदिमादो ति ।

'आवल्याए समयूणाए ऊणियाए आवाहाए एवदिमाए द्विदीए जं पदेसगं तस्स के वियप्पा ? 'जस्स पदेसगस्स समयाहियाए आवल्याए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता तं पि पदेसगमेदिस्से द्विदीए णत्थिय । जस्स पदेसगस्स दुसमयाहियाए आवल्याए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता तं पि णत्थिय । 'एवं गंतूण जहेही एसा द्विदी एत्तिएण ऊणा कम्मद्विदी विदिवकंता जस्स पदेसगस्स तमेदिस्से द्विदीए पदेसगं होज्ज । तं पुण उकङ्कणादो भ्रीणद्विदियं । एदं द्विदिमादिं कादूण जाव जहणियाए आवाहाए एत्तिएण ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता जस्स पदेसगस्स तं पि पदेसगमेदिस्से द्विदीए होज्ज । तं पुण सब्बमुकङ्कणादो भ्रीणद्विदियं । 'आवाधाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता जस्स पदेसगस्स तं पि एदिस्से द्विदीए पदेसगं होज्ज । तं पुण उकङ्कणादो भ्रीणद्विदियं । 'तेण परमव्भ्रीणद्विदियं । 'समयूणाए आवल्याए ऊणिया आवाहा एदिस्से द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

(१) पृ० २५७ । (२) पृ० २५८ । (३) पृ० २५१ । (४) पृ० २५२ । (५) पृ० २५३ । (६) पृ० २५७ । (७) पृ० २५८ । (८) पृ० २६० । (९) पृ० २६१ । (१०) पृ० २६२ । (११) पृ० २६३ । (१२) पृ० २६४ । (१३) पृ० २६५ । (१४) पृ० २६६ ।

कर्मसियस्स कोथं खवेत्तस्स चरिमद्धिद्विखंडयचरिमसमयअसंछुहमाणयस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं । 'उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं' पि तस्सेव । एवं चेव माणसंजलणस्स । णवरि माणद्धिकंडयं चरिमसमयअसंछुहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भ्मीणद्धिदियाणि । 'एवं चेव मायासंजलणस्स । णवरि मायाद्धिकंडयं चरिमसमयअसंछुहमाणयस्स हस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भ्मीणद्धिदियाणि । लोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं कस्स ? गुणिदकम्मसियस्स सव्वसंत-कम्ममावल्लियं पविस्समाणयं पविट्ठं ताधे उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं ।' उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं कस्स ? चरिमसमयसकसायक्खवगस्स ।

'इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचउरहं पि भ्मीणद्धिदियं कस्स ? इत्थिवेद-पूरिदकम्मसियस्स आवल्लियचरिमसमयअसंछोहयस्स तिण्णि वि भ्मीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि ।' उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स ।

पुरिसवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचदुण्हं पि भ्मीणद्धिदियं कस्स ? 'गुणिदकम्म-सियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयस्स आवल्लियचरिमसमयअसंछोहयस्स तस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं चरिमसमयपुरिसवेदस्स ।

णवुंसयवेदस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं कस्स ? गुणिदकम्मसियस्स णवुंसयवेदेण अत्रद्धिदस्स खवयस्स णवुंसयवेदआवल्लियचरिमसमयअसंछोहयस्स तिण्णि वि भ्मीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि । 'उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं तस्सेव चरिमसमयणवुंसयवेदक्खवयस्स ।

द्वण्णोकसायाणमुक्कस्सयाणि तिण्णि वि भ्मीणद्धिदियाणि कस्स ? गुणिद-कम्मसिएण खवएण जाधे अंतरं कीरमाणं कदं तेसिं चेव कम्मसाणमुदयावल्लियाओ पुण्णाओ ताधे उक्कस्सयाणि तिण्णि वि भ्मीणद्धिदियाणि । 'तेसिं चेव उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं कस्स ? गुणिदकम्मसियस्स खवयस्स चरिमसमयअपुक्खकरणे वट्टमाणयस्स । णवरि हस्स-रइ-अरइ-सोमाणं जइ कीरइ भय-दुगुंझाणमवेदगो 'कायव्वो । जइ भयस्स तदो दुगुंझाए अवेदगो कायव्वो । अह दुगुंझाए तदो भयस्स अवेदगो कायव्वो । उक्कस्सयं सामित्तं समत्तमोघेण ।

'एतो जहण्णयं सामित्तं वचइस्सामो । मिच्छत्तस्स जहण्णयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संक्रमणादो च भ्मीणद्धिदियं कस्स ? उवसामओ द्दसु आवल्लियासु सेसासु

(१) पृ० ३०२ । (२) पृ० ३०३ । (३) पृ० ३०४ । (४) पृ० ३०५ । (५) पृ० ३०६ ।
 (६) पृ० ३०८ । (७) पृ० ३०९ । (८) पृ० ३१० । (९) पृ० ३११ । (१०) पृ० ३१२ ।
 (११) पृ० ३१३ ।

काऊण मिच्छत्तं गदो । जाधे गुणसेहिसीसयाणि पढमसमयमिच्छादिहिसस उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं ।

'सम्मत्तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संकमणादो उदयादो च भ्नीणट्टिदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाढत्तो 'अधट्टिदियं'-गलंतं जाधे उदयावळियं पविस्समाणं पविट्ठं ताधे उक्कस्सयमोकड्डणादो वि उक्कड्डणादो वि संकमणादो वि भ्नीणट्टिदियं । तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वमुदयं तमुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं ।

'सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संकमणादो च भ्नीणट्टिदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेमाणस्स सम्मामिच्छत्तस्स अपच्छिमट्टिदिखंडयं संछुब्भमाणयं संछुद्धं उदयावळिया उदयवज्जा भरिदल्लिया तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संकमणादो च भ्नीणट्टिदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेहीओ काऊण ताधे गदो सम्मामिच्छत्तं जाधे गुणसेहिसीसयाणि पढमसमयसम्मामिच्छाइहिसस उदयमागदाणि ताधे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइहिसस उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं ।

'अणंताणुबंधीणमुक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भ्नीणट्टिदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेहीहि अविणहाहि अणंताणुबंधी विसंजोएदुमाढत्तो तेसिमपच्छिमट्टिदिखंडयं संछुब्भमाणयं संछुद्धं तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भ्नीणट्टिदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं कस्स ? संजमासंजम-संजमगुणसेहीओ काऊण तत्थ मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेहिसीसयाणि पढमसमयमिच्छाइहिसस उदयमागयाणि ताधे, तस्स पढमसमयमिच्छाइहिसस उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं ।

'अट्टण्हं कसायाणमुक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भ्नीणट्टिदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ कसायक्खवणाए अब्भुट्टिदो जाधे अट्टण्हं 'कसायाणमपच्छिमट्टिदिखंडयं संछुब्भमाणयं संछुद्धं ताधे उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्नीणट्टिदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं कस्स ? 'गुणिदकम्मंसियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवणगुणसेहीओ एदाओ तिण्णिण गुणसेहीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढमसमयअसंजदस्स गुणसेहिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अट्टकसायाणमुक्कस्सयमुदयादो-भ्नीणट्टिदियं ।

'^{१३}कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भ्नीणट्टिदियं कस्स ? गुणिद-

(१) पृ० २८४ । (२) २८५ । (३) पृ० २८६ । (४) पृ० २८७ । (५) २८८ । (६) पृ० २८९ । (७) पृ० २९२ । (८) पृ० २९३ । (९) पृ० २९४ । (१०) पृ० २९५ । (११) पृ० २९६ । (१२) पृ० ३०० ।

दिस्सइ तं णिसेयद्विदिपत्तयं । 'अधाणिसेयद्विदिपत्तयं' णाम किं ? जं कम्मं जिस्से द्विदीए णिसित्तं अणोक्कड्ढिदं अणुक्कड्ढिदं तिस्से चेव द्विदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेय-द्विदिपत्तयं । 'उदयद्विदिपत्तयं' णाम किं ? 'जं कम्मं उदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सइ तमुदयद्विदिपत्तयं । एदमद्वपदं । एत्तो एक्केक्कड्ढिदिपत्तयं च उविहमुक्कस्समणुक्कस्सं जहणमजहणं च ।

*सामित्तं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं कस्स ? अग्गद्विदिपत्तय-मेक्को वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एगुत्तरियाए वड्डीए जाव ताव उवक्कस्सयं समय-पवद्धस्स अग्गद्विदीए जत्तियं णिसित्तं तत्तियमुक्कस्सेण अग्गद्विदिपत्तयं । 'तं पुण अण्णदरस्स होज्ज । 'अधाणिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं' कस्स ? तस्स ताव संदरिसणा— उदयादो जहण्णयमावाहामेत्तमोसक्किगुण जो समयपवद्धो तस्स णत्थि अधाणिसेय-द्विदिपत्तयं । 'समयुत्तराए आवाहाए एवदिमच्चरिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ अत्थि । तत्तो पाए जाव असंखेज्जाणि पल्लिदोवमवग्गमूलाणि तावदिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ गियमा अत्थि । 'एक्कस्स समयपवद्धस्स एक्किस्से द्विदीए जो उवक्कस्सओ अधाणिसेओ तत्तो केवड्ढिगुणं उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ? तस्स णिदरिसणं । जहा—'ओक्कड्ढुक्कड्ढणाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अधापवत्तसंक्रमेण कम्मस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो । ओक्कड्ढुक्कड्ढणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 'एवदिगुणमेक्कस्स समयपवद्धस्स एक्किस्से द्विदीए उवक्कस्सयादो जहाणिसेयादो उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

'इदाणिमुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं' कस्स ? सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स जत्तियमधाणिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं तत्तो विसेमुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ तस्स जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । 'एदमिह पुण काले सो णेरइओ तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगट्टाणाणि अभिक्खं गदो । 'तप्पाओग्गुक्कस्सयाहि वड्डीहि वड्ढिदो । तिस्से द्विदीए णिसेयस्स उक्कस्सपदं । 'जा जहण्णया आवाहा अंतोमुहुत्तुत्तरा एवदिसमयअणुदिण्णा सा द्विदी । तदो जोगट्टाणाण-मुवरिल्लमद्धं गदो । 'दुसमयाहियआवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए एयसमयाहिय-आवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगमुववण्णो । तस्स उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । 'णिसेयद्विदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव ।

(१) पृ० ३७१ । (२) पृ० ३७२ । (३) पृ० ३७३ । (४) पृ० ३७४ । (५) पृ० ३७६ ।
 (६) पृ० ३७७ । (७) पृ० ३७८ । (८) पृ० ३७९ । (९) पृ० ३८० । (१०) पृ० ३८२ । (११) पृ० ३८३ ।
 (१२) पृ० ३८४ । (१३) पृ० ३८५ । (१४) पृ० ३८६ । (१५) पृ० ३८७ । (१६) पृ० ३८८ ।

'अरदि-सोगाणं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' । 'एवमोघेण सव्वमोहणीयपयडीणं जहणमोकङ्कणादिभ्नीणट्टिदियसामित्तं परूविदं' ।

अप्पावहुअं । सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' । उक्कस्सयाणि ओकङ्कणादो उक्कङ्कणादो संकमणादो च भ्नीणट्टिदियाणि तिण्णि वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । एवं सम्मामिच्छत्त-पण्णारसकसाय-छण्णोकसायाणं । सम्मत्तस्स सव्वत्थोवमुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीण-ट्टिदियाणि उक्कस्सयाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । 'एवं लोभसंजलण-तिण्णिवेदाणं ।

एत्तो जहणयं भ्नीणट्टिदियं' । मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । 'जहा मिच्छत्तस्स जहणयमप्पावहुअं तथा जेसिं कम्मंसाणमुदीरणोदयो अत्थि तेसिं पि जहणयमप्पावहुअं । अणंताणुबंधि-इत्थिवेद-णवुंसयवेद-अरइ-सोगा ति एदे अट्ठ कम्मंसे मोत्तूण सेसाणमुदीरणोदयो । जेसिं ण उदीरणोदयो तेसिं पि सो चेव आलावो अप्पावहुअस्स जहणयस्स । 'णवरि अरइ-सोगाणं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' थोवं । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । 'अहवा इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहणयाणि ओकङ्कणादीणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि । उदयादो जहणयं भ्नीणट्टिदियमसंखेज्जगुण । अरइ-सोगाणं जहणयाणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि । जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं विसेसाहियं' । 'एवमप्पावहुए समत्ते भ्नीणट्टिदियं' ति पदं समत्तं होदि ।

भ्नीणाभ्नीणाहियारो समत्तो ।

ट्टिदियं ति चूलिया

ट्टिदियं' ति जं पदं तस्स विहासा । 'तत्थ तिण्णि अणियोगहाराणि । तं जहा-समुक्कित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च । समुक्कित्तणाए अत्थि उक्कस्सट्टिदिपत्तयं णिसेय-ट्टिदिपत्तय अधाणिसेयट्टिदिपत्तयं उदयट्टिदिपत्तयं च । 'उक्कस्सयट्टिदिपत्तयं णाम किं ? जं कम्मं वंअसमयादो उदए दीसइ त्थमुक्कस्सट्टिदिपत्तयं' । 'णिसेयट्टिदिपत्तयं णाम किं ? जं कम्मं जिस्से ट्टिदीए णिसित्तं ओकङ्कित्तं वा उक्कङ्कित्तं वा तिसंस्सं चेव ट्टिदीए उदए

(१) पृ० ३५५ । (२) पृ० ३५६ । (३) पृ० ३५७ । (४) पृ० ३५८ । (५) पृ० ३५९ । (६) पृ० ३६१ । (७) पृ० ३६२ । (८) पृ० ३६६ । (९) पृ० ३६७ । (१०) पृ० ३६८ । (११) पृ० ३७० ।

जहणण्याणि द्विदिपत्तयाणि कायव्वाणि । 'सव्वकम्ममाणं पि अग्गद्विदिपत्तयं' जहणण्यमेओ पदेसो । तं पुण अण्णदरस्स ढोज्ज । मिच्छत्तस्स णिसेयद्विदिपत्तय-मुयद्विदिपत्तयं च जहणण्यं कस्स ? 'उवसमसम्मत्तपच्चायदरस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स तप्पाओग्गुक्कस्ससंक्किलिट्ठस्स तस्स जहणण्यं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं च । 'मिच्छत्तस्स जहणण्यमध्याणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स ? जो एइंदियद्विदिसंतकम्मणेण जहणणएण तसेसु आगदो अंतोमुहुत्तेण सम्मतं पडिवण्णो । वेद्धावद्विसागरोवमाणि सम्मतमणुपालियूण मिच्छत्तं गदो । तप्पाओग्गउक्कस्सियमिच्छत्तस्स जावदिया आवाहा तावदिमसमयमिच्छाइद्विस्स तस्स जहणण्यमध्याणिसेयद्विदिपत्तयं ।

'जेण मिच्छत्तस्स रचिदो अधाणिसेओ तस्स चेव जीवस्स सम्मतस्स अधाणिसेओ कायव्वो । णवरि त्तिस्से उक्कस्सियाए सम्मतद्धाए चरिमसमए तस्स चरिमसमयसम्माइद्विस्स जहणण्यमध्याणिसेयद्विदिपत्तय । 'णिसेयादो च उदयादो च जहणण्यं द्विदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्मत्तपच्चायदरस्स पढमसमयवेदयसम्माइद्विस्स तप्पाओग्गउक्कस्ससंक्किलिट्ठस्स तस्स जहणण्यं । 'सम्मत्तस्स जहणणओ अहाणिसेओ जहा परुविओ तीए चेव परुवणाए सम्मामिच्छत्तं गओ । तदो उक्कस्सियाए सम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमए जहणण्यं सम्मामिच्छत्तस्स अधाणिसेयद्विदिपत्तयं । 'सम्मामिच्छत्तस्स जहणण्यं णिसेयादो उदयादो च द्विदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्मत्त-पच्चायदरस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइद्विस्स तप्पाओग्गुक्कस्ससंक्किलिट्ठस्स ।

अणंताणुवंधीणं णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहणण्यं द्विदिपत्तयं कस्स ? जो एइंदियद्विदिसंतकम्मणेण जहणणएण पंचिदिए गओ । अंतोमुहुत्तेण सम्मतं पडिवण्णो । अंतोमुहुत्तेण पुणो पडिवदिदो । रहस्सकालेण संजोएऊण सम्मतं पडिवण्णो । वेद्धावद्विसागरोवमाणि अणुपालियूण मिच्छत्तं गओ तस्स आवलियमिच्छाइद्विस्स जहणण्यं णिसेयादो अधाणिसेयादो च द्विदिपत्तयं । 'उदयद्विदिपत्तयं' जहणण्यं कस्स ? एइंदियकम्मणेण जहणणएण तसेसु आगदो । तस्मि संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता एइंदिए गओ । असंखेजाणि वस्साणि अच्चिदूण उवसामयसमयपवद्धेसु गलिदेसु 'पंचिदिएसु गदो । अंतोमुहुत्तेण अणंताणुवंधी विसंजोइत्ता तदो संजोएऊण जहणणएण अंतोमुहुत्तेण पुणो सम्मतं लद्धूण वेद्धावद्विसागरोवमाणि अणंताणुवंधिणो गळिदा । तदो मिच्छत्तं गदो । तस्स आवलियमिच्छाइद्विस्स जहणण्यमुदयद्विदिपत्तयं ।

(१) पृ० ४२४ । (२) पृ० ४२५ । ३) पृ० ४२० । (४) पृ० ४२५ । (५) पृ० ४२६ ।
(६) पृ० ४३७ । (७) पृ० ४३८ । (८) पृ० ४३९ । (९) पृ० ४४० । (१०) पृ० ४४१ ।

उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमगुणसेहिं संजम-
गुणसेहिं च काऊण 'मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेहिंसीसयाणि उदिण्णाणि ताधे
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं । एवं समत्त-सम्पामिच्छत्ताणं पि । ^१णवरि
उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियभंगो ।

^२अणंताणुबंधिचउक्क-अद्वकसाय-छण्णोकसायाणं मिच्छत्तभंगो । णवरि अद्व-
कसायाणमुक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं कस्स ? संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवय-
गुणसेहीओ त्ति एदाओ त्तिण्णि वि गुणसेहीओ गुणिदकम्मंसिएण कदाओ । एदाओ
काऊण अविण्णोसु असंजमं गओ । पत्तेसु उदयगुणसेहिंसीसएसु उक्कस्सयमुदयद्विदि-
पत्तयं । ^३छण्णोकसायाणमुक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं कस्स ? चरिमसमयअपुण्वकरणे
वट्टमाणयस्स । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ भय-दुगुंछाणमवेदओ कायव्वो ।
^४जइ भयस्स तदो दुगुंछाए अवेदओ कायव्वो । अथ दुगुंछाए तदो भयस्स अवेदओ
कायव्वो ।

कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं कस्स ? उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तय जहा
पुरिमाणं कायव्वं । उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स ? कसाए उवसामित्ता पडिवदिदूण
पुणो अंतोमुहुत्तेण कसाया ^५उवसामिदा विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्ह
पुण्णा सा द्विदी आदिट्ठा । तम्हि उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । ^६णिसेयद्विदिपत्तयं
च तम्हि चैव । उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं कस्स ? ^७चरिमसमयकोहवेदयस्स । एवं
माण-माया-लोहाणं ।

^८पुरिसवेदस्स चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कोहसंजलणभंगो । णवरि उदयद्विदि-
पत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स गुणिदकम्मंसियस्स । इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमग्ग-
द्विदिपत्तयं मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सयअधाणिसेयद्विदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तय च
कस्स ? ^९इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतोमुहुत्तस्संतो दो
वारे कसाए उवसामिदा । जाधे विदियाए उवसामणाए जहणयस्स द्विदिवंधयस्स
पढमणियेसद्विदी उदयं पत्ता ताधे अधाणिसेयादो णिसेयादो च उक्कस्सयं द्विदिपत्तयं ।
^{१०}उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्स चरिमसमयइत्थिवेदयस्स
तस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं । ^{११}एवं णवुंसयवेदस्स । णवरि णवुंसयवेदोदयस्से
त्ति भाणिदव्वाणि ।

(१) पृ० ४०० । (२) पृ० ४०२ । (३) पृ० ४०३ । (४) पृ० ४०४ । (५) पृ० ४०५ ।
(६) पृ० ४०६ । (७) पृ० ४१८ । (८) पृ० ४१९ । (९) पृ० ४२० । (१०) पृ० ४२१ ।
(११) पृ० ४२२ । (१२) पृ० ४२३ ।

२ अवतरणसूची

पुस्तक ६

क्रमाङ्क	पृ०	क्रमाङ्क	पृ०	क्रमाङ्क	पृ०
अ ४ अग्रतिष्ठद्दे श्रोतरि	१४८	ब २ वधेषु होत्रि उदग्रो	८०	२ नम्मनुष्यसौ वि य	१२८
व ३ खडगे य खीरुमोहे	१८६	न ५ नदा सप्रतीच्यातिथी-	१८७		

सूचना—टीकाकारने पृष्ठ ६० मे 'प्रज्ञेयकस्यजेनेन' तथा पृष्ठ ६५ मे 'वधे उग्रहृदि' ये दो अक्षर उद्धृत किये हैं। पुस्तक ८ के पृ० २५५ मे भी वधे उग्रहृदि' इतना पदाक्षर उद्धृत है।

३ ऐतिहासिक नामसूची

पुस्तक ६

	पृ०		पृ०		पृ०
अ अन्तत जिन	१	य यतिवृषभगणीद्र	१०७	ब व्याख्यानाचार्य भट्टारक	
उ उच्चारणाचार्य	१०८, ३८७	यतिवृषभगणाचार्य			२४५
		१३५, ३०१, ३४०			

पुस्तक ७

	पृ०		पृ०		पृ०
आ आचार्य (नामान्य)		उ उच्चारणाचार्य	७८, ६३	य यतिवृषभभगवत	६६
३ ३५२		च चूर्णितकान	२५५, २६६, ३२५	यतिवृषभभाचार्य	८
आचार्यभट्टारक	१०२	ज जिनेन्द्रचन्द्र	३३५	वीर (जिन)	३६६

४ ग्रन्थनामोल्लेख

पुस्तक ६

	पृ०		पृ०		पृ०
उ उच्चारणा	११४	च चूर्णित	११४, ३८६	ब वेदना ६, १३, ७५, ३८५	
उपदेश (अपवादजमाय)	२६	म महाकवचत्र	६१	वेदनादिसत्र	२५०
				स सूत्र (वचन)	६२, ६५

पुस्तक ७

	पृ०		पृ०		पृ०
उ उच्चारणा	२८, ५०, ६५, १३३	च चूर्णित	७, २७, ६३, ६७	ब वेदना	३६३
मदिनेदग्गादि चउवीम		ट द्विदिअतिय	३६३	वेदना	५६, ६३, ६७
प्रसियोगहार	२६०				
क कुञ्जन्ध	१६				

५ न्यायोक्ति

पुस्तक ६

महात्मा तस्मात् तदवस्थेन वि ब्रूति । पृ० २०४

'वारसकसायाणं णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं' च जहण्णयं कस्स ? जो उवसंतकसाओ सो गदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहण्णयं णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च । अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं जहण्णयं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण तस्सेसु उववण्णो । तप्पाओग्गुक्कस्सट्ठिदि बंधमाणस्स जहेही आवाहा तावदिमसमए तस्स जहण्णयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । अइक्कते काले कम्मट्ठिदिअंतो सइं पि तसो ण आसी । 'एवं पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं ।' इत्थिण्णुंसयवेद-अरदि-सोगाणमधाणिसेयादो जहण्णयं ट्ठिदिपत्तयं जहा संजल्लाणं तहा कायव्वं । जम्हि अधाणिसेयादो जहण्णयं ट्ठिदिपत्तयं तम्हि चेव णिसेयादो जहण्णयं ट्ठिदिपत्तयं । उदयट्ठिदिपत्तयं जहा उदयादो भ्णीणट्ठिदयं जहण्णयं तहा णिरवयवं कायव्वं ।

'अप्पावहुअं । सव्वपयडीणं सव्वत्थोवग्गुक्कस्सयमग्गट्ठिदिपत्तयं । उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । णिसेयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयं विसेसाहियं ।' उदयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयमसंखेज्जगुणं ।

जहण्णयाणि कायव्वाणि । सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स जहण्णयमग्गट्ठिदिपत्तयं । 'जहण्णयं णिसेयट्ठिदिपत्तयं अणंतगुणं । जहण्णयमुदयट्ठिदिपत्तयं असंखेज्जगुणं ।' जहण्णयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । 'एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं । अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवं जहण्णयमग्गट्ठिदिपत्तयं । जहण्णयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमणंतगुणं । जहण्णयं णिसेयट्ठिदिपत्तयं विसेसाहियं ।' जहण्णयमुदयट्ठिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । एवमित्थिवेद-णुंसयवेद-अरदि-सोगाणं ।

तदो ट्ठिदियं ति पदस्स विहासा समत्ता । एत्थेव पयडीय मोहणिज्जा एदिस्से मूलगाहाए अत्थो समत्तो ।

ट्ठिदियं ति अहियारो समत्तो
तदो पदेसविहत्ती सचूलिया समत्ता ।

परिसिद्धाणि

५७५

एव	७६, १५६, १६६, २४३, २४४, २६१, २६८, ३१७, ३७८, ३८१, ३८४
ओ श्रोत्रुष्मस	३८१
श्रोत्रुष्मसपदेशसंतकम्म	३७६
क कद	१२५, २४३
कम	२५३, २६५, ३८३, ३८५
कम्म	१२५, २४६, २६१, २६८, ३८३
कम्मट्टिदि	७२, १२४ २०२
कम्मंस	३८६
कसाय	१०४, २०२, २४६, २५३, २६८, २८३, ३८५
कसायकखवणा	३८३
कारण	१५७, १६३, २६३, २६६
काल	२४६
केत्तिय	२६३
कोष	११३
कोषसजलण	११०, १११, ३७७, ३७८, ३७९, ३८१, ३८२
ख खवग	३७७
खवणा	३८५
खवय	३८१
खंडय	३८
ग गद	१२४ १२५, २०२, २४६, ३८३
गलमाण	१०५
गालिद	१०५ ३०३
गलन	२४६
गुग्गुलेदि	३०६
गुग्गुलेदि	८१, ६१, ६६, १०४

घ धोलामाणजहयणजोगट्टाण	२६१, ३०१
च च	२४४, २६७, २६६
चट्टु	१२५, २०२, २४६, २४६, २७७ ३८५
चट्टुचरिमसमय	२६४
चरिमट्टिदिखंडग	३७५
चरिमसमय	२६५, ३७५
चरिमसमयअणिल्लेविद	३०१, ३७७, ३८१, ३८६
चरिमसमयअघापवत्तकरण	३८३
चरिमसमयकोषवेदग	३७७, ३८१
चरिमसमयजहयणपद	२५५
चरिमसमयजहयणयफहय	१६७
चरिमसमयट्टिदिखंडय	३८६
चरिमसमयण्डुं सयवेद	२६८
चरिमसमयणेरहय	७३
चरिमसमयदेव	६१
चरिमसमयपुरिसवेदो दय-	
कखवग	२६१
चरिमसमयषवेद	२६४, २६५, ३०१, ३१५, ३१७, ३७३
चरिमाबलिया	२६५, २६६
चुद	१०४
छ छ	३८६
छयणोक्साय	७६, ११०, ३८५
ज जदा	१२५, ३७८
जत्तिय	३०१
जत्तां	२६१
जहक्खवागद	१४७
जररण	२०३, २४६, २६७

जहयणग	१२५, ३७३, ३८३
जहयणजोगट्टाण	३१५
जहयणपदेशसंतकम्मिअ	१२४
जहयणय	१२५, १६२, २०२, २४६, २६७, २६८, २६९, ३७७, ३८४, ३८६
जहयणसंतकम्म	३८१
जहा	३०१, ३७८, ३८२
जाद	१०४, ३८४, ३८५
जाधे	११०, ११३, ११४, १२५, २०३
जाव	१६७, २५३, २५५, २७४, ३७६, ३८१, ३८४, ३८६
जीविदव्वय	२६८
जोगट्टाण	१२४, १२५, ३०१, ३१६
जोगट्टाणमेत्त	३१५, ३१७
ट टाण	१५६, २१८, २५३, २७४, ३८४
ट्टाणपरुवणा	२४३
ट्टिदि	१२५, २४६
ट्टिदिखंडय	१६७, २४६
ट्टिदिविसेस	१५६ १५६, १६४, २०३
ण ण	२६६, ३८३
णवरि	२६८, २६१
णहु मयवेद	६१ १०४ २६७, २६१
ण्डुं सयवेदमणुस	२६८
णिरतर	२१८ २५३, २७४, ३८४
णिसंय	१०५
णेरहयभदग्गहण	७३
णां	२६१
त तत्तियमेत्त	३०१

६ चूर्णिसूत्रगतशब्दसूची

पुस्तक ६

अ	अकम्म	२६१, २६४, २६५, २६६	असंखेजदिभागमेत्त	२४६	उक्कस्सविंसोहि	१२५
	अच्छिदाउअ	७२, १२४	असंखेजवस्साउअ	६६, १०४	उक्करिंसय	३८६
	अट्ट	२४६, २५३	अंतोसुहुत्तावसेस	२६८	उत्तरपयडिपदेसविहत्ति	
	अणंत	१५६	आ आउअ	१२५		२, ७२
	अणंतानुवंधी	२५६	आगद	१२५, २४६, २६७, ३८४, ३८५	उदय	२६८, २७४, २७६
	अणण	२८८, ३८०	आदत्त	२६८	उदयावलिय	१२५
	अणणदरजोग	३१७	आदि	१६७, २५५, ३७६, ३८१, ३८४	उदयावलिया	२०३, २४६, २५३
	अषट्ठिदिगल्लणा	२४६	आदिय	३८६	उवट्ठिद	७२
	अपच्छिम	७२, ७३, १६७, २६६	आवलियसमयअवेद	२६१	उवणण	२६८, २६९, ३८३
	अपच्छिमट्ठिदिखंडय	१२५, २५५, २६८	आवलियसमयूणमेत्त	१६६, ३८१	उवसमिदाउअ	३८३
	अपजत्तद्धा	१२४	आवलिया	२६१, २६४, २६५, ३१७, ३७८, ३७९	उव्वेलाणद्धा	२०३
	अपजत्तभवग्गह	१२४	इ इत्ति	३१५, ३१७	उव्वेज्जिद	२०३
	अब्भुट्ठिद	३८३, ३८५	इत्थिवेद	६६, १०४, २६१	ए एइदिअ	२४६
	अभवसिद्धियपाओग्ग	१२५, २६७, ३८३, ३८५	ईसाण	६१, १०४	एक	१२५, १५६, २०३, २६७
	अभवसिद्धियपाओग्ग-		उ उक्कस्सग	१५६, १६७	एग	१६३, १६७, २४५, २५५, ३७६, ३७९, ३८१, ३८६
	जहणणाय	२४६	उक्कस्सजोग	३१५, ३१७	एगजीव	७२
	अभिकखं	१२५	उक्कस्सपद	२५३	एगट्ठिदिविसेस	२५३
	अवगद	२४६	उक्कस्सपदेसतप्पाओग्ग	१२५	एगफहय	२५३
	अवगदवेद	२६६	उक्कस्सपदेसविहत्तिय	८१	एगसमय	२६१
	अवणिद	१२५	उक्कस्सपदेसंतकम्म	८८, २१८, २५५	एत्तिय	३१६, ३७८
	अविण्णमायण	१२५	उक्कस्सय	७३, ६१, ६६, १०४, ११०, ११३, १५७, २७४, ३८४	एत्थ	३१५, ३१७
	अवेद	२६४, २६५, २६७, ३१६	उक्कस्सविंसोहि	१२५	एव	२४४, २६७, २७६, ३७३, ३८६
	असंखेज	१५६	उक्कस्सविंसोहि	१२५	एवदिय	३७८
	असंखेजदिभाग	६६, १०४, १६२				

इस शब्दानुक्रमणिका में सर्वनाम शब्द और क्रियापद छूटे हैं। शेष पूरे शब्दों का संग्रह है।

परिमिद्धाणि

५७७

वाग्नि	१२१
वाग्निद	१०१
वाग्नि	१२५, २०२, २१६, २६७, ३८५
वि	२१४
विद्युत्	३७५
विदिय	१६५, २६१
विदियभूमय	२६६
विनेष	१५६, २६८
वेद्यावृत्तिसागरोवम	१०५, २०२, २६८
वेल	३७७
वेसमयपवद	२६६
वेसागरोवमसहस्र	७२
वोक्त्रिय	३७६
स समयवद	१५६, २६१, २६२
समयवदमेत	१७

ममयुग	३७८
ममयुगावलिममेत	२५३
मममेत	८८, १०४, १०५, २०२, २४४, २१६, २६७, २६८
मममेतद	२६८, २६७, ३०१
मममिच्छत	८१, ८८, २००, २०३, २४३
मेवेद	२६५, २६६
मेव	२००, २६६, ३१६
मेवचिर	२६८
मेवत्य	२६८
मेववदुश	१०४
मेववदु	१०१
मेवद	२६८
मेवमाग	२६८

मेवम	१२५, २००, २४६, २६७, २६८, ३०३, ३८५
मेवमेद	३८५
मेवमागलम	१२५, २००, २४६, २६७, ३०३, ३८५
मेवमेम	१६२, २४५, २६७, २६८, ३०६, ३०७, ३८५
मेवमेमदुश	३०१, ३०८
मेवमेमिअ	७२, ७३
मेवमेरेय	७२
मेवमेत	५०
मेवमेतर	३१६, ३७८
मेवमेमिगोद	१२५, २००
मेवमेम	१०५, २००, २४६
ह हवममुपचितय	२६६
हेटुल्ल	१०५

पुस्तक ७

अ अरकमेन	४४२
अरकमेद	२५६, २५२
अरकमेदि	३०४
अरकमेदिपत्तय	३७४, ४०५, ४०६, ४०४, ४४६, ४४८, ४५०
अरकमेद	३५०, ३५४
अरकमेदर	३७३
अरकमेदय	२०४
अरकमेदिदि	२३६, २६५, २००
अरकमेद	२६४, ३५६
अरकमेद	२६६, ३२०, ४०३
अरकमेद	२७३, ३०३
अरकमेद	२, २५, ५३

अरकमेतुग	७८, ८५, १११, १२०, १३०, ४४८, ४५०
अरकमेतुगवि	२६२, ३२८, ३५६, ४०३, ४३८, ४४१, ४५०
अरकमेतुगविमाग	७६, ८४, १०५, ११७, १२४
अरकमेतुगहार	३६७
अरकमेतुगद	३७१
अरकमेतुगमेम	३०३
अरकमेतुगदवमाल	५
अरकमेतुगदवमविदिमिअ	०
अरकमेतुगद	२०४
अरकमेतुगद	३०६

अरकमेतुगद	३७१
अरकमेतुग	२७३, २७४
अरकमेतुगदर	३७५, ४२४
अरकमेतुगदवम	३
अरकमेतुगद	२५, २०, ५३, ३०८
अरकमेतुगद	४२१
अरकमेतुगद	३३४, ३१०, ३५४, ४०५, १२१, १३०, १३८, १६१
अरकमेतुगद	३५६
अरकमेतुगद	३३६, ३१०, ३१६
अरकमेतुगद	३१०
अरकमेतुगद	३३८
अरकमेतुगद	४०५

तत्तो	२६१
तत्य २, ७३, १०४, १२५, २४६, २६८, ३७६, ३८५	
तथा	२०२
तदो १०४, १२५, १५६, १५७, २०२, २१७, २५३, २६८, २७४, १६१, ३८३, ३८५	
तथा	२६७
तपाश्रोम	२७४
तपाश्रोमगुणकस	१२५
तपाश्रोमगुणहृणय	१२५
तस १२५, २०२, २४६, २६७, ३८५	
तसकाय	७२, ३८३
तहा	३८२
ताधि ११३, ११४, २०३	
ताद	८६७
ति २१८, २५५, ३८१	
तिचरिमसमय	२६४
तिचरिमसमयसवेद	३१७
त्ति २६८, २७४, २६४	
तिपलिदोवमिअ	३६८, २६१
तुल्ल	२६८
तुल्लजोग	२६८
तेत्तीस	७२, ७३
द दीह १२५, २०२, ३८३, ३८५	
दुचरिम	२६५
दुचरिमसमय	२६५, ३८०
दुचरिमसमयअणिल्लेविद	२६६
दुचरिमसमयसवेद	२६४, ३१५, ३१७, ३७५, ३७६
दुचरिमसमयसवेदावलिया	२६६
दुचरिमावलिया	२६६

दुपदेसुत्तर	१५६, २१८
दुविह	२
दुसमयकालट्टिदिग	१२५
दुसमयकालट्टिदिय	२०३
दुसमयूण	२६३, २६६, ३१६, ३७८
देव	१०४
दो १६४, २४५, २६८, २६६, ३१७	
दोआवालिया	२६३, ३७८
दोफदय	२६१
दोभवगाहण	७३
प पक्खित्त ८१, ८८, १०४, ११०, ११३, ११४	
पटमसमय	२६५
पटमसमयअवेद	२६६
पटमसमयअवेदग	२६३
पटमसमयसवेद	२६५
पटमावलिया	२६५, ३७६
पद	२४६
पदुप्पण	३१६, ३७८
पदेससग्ग	११०
पदेससंतकम्म	७३, ६१, ६६, १०४, ११०, ११३, ११४, १२५, २०२, २०३, २४६, २६७, २६८, २६१, ३७७, ३८३, ३८५, ३८६
पदेससंतकम्मट्टाण	२६१, २६६, ३१७
पदेसविहत्ति	२
पदेसुत्तर	१५६, २१७, २५३, २७४
पवढ	२६५
पयार	२४३
परूवणा	२६३, २६७, २६८, २६६
परूवेदव्व	२६६

पलिदोवम	६६, १०४, २४६
पलिदोवमट्टिदिअ	१०४
पविट्टुल्लय	३७६
पाए	२६१
पि १५७, २४५, २५३, २६८	
पुण	१५६, १६२
पुरिसवेद	१०४, ११०, २६१, ३७७, ३७८
पूरिद	६६, १०४
फ फडुग	१६३
फदय १६४, १६६, १६७, २४५, २५३, २५५, ३७३, ३७६, ३७६, ३८०, ३८१, ३८६	
व बढ २६१, २६४, २६५, २६६, २६८, ३०१	
वहुवार	३८३
वहुलो १२५, २०२, २४६, २६७, ३८५	
वादरपुट्टिविबीव	७२
वारसकाय	७६
म मणुण	१०४, ३८५
मणुत्स	३८३
मद	१०४
माण	११३
माणमायासजलण	३८२
माया	११४
मिच्छत्त	७२, ७३, ८१, १०४, १२५, १६७, २०२, २६८
मिच्छत्तमंग	२५५
मूलपयडिपदेसविहत्ति	२
ल लद्ध	१२५, ३८५
लद्धाउअ	३८३
लोमसजलण	११४, ३८३
व वट्टमाण	२९१

परिसिद्धाणि

३ उक्कट्टुण	२३७, २४२, २४३, २४५, २४६, २४८, २६३, २६४, २६८, २६९, २७०, २७२ २७३, २७८, २८५, २८५, २८७, २८८, ३१२, ३२०, ३२२, ३२८, ३५६
उक्कट्टुद	३४६, ३७०
उक्कस्स	६, ५३, ३७३
उक्कस्सञ्च	३७८
उक्कस्सइत्थिवेद	३५६
उक्कस्सट्ठिदि	३५४
उक्कस्सट्ठिदिपत्तय	३६७, ३६८, ३७२, ३७३, ३९९, ४००, ४०३, ४०४, ४१८, ४२०, ४२२, ४६४, ४२५, ४४०, ४४१, ४४२, ४५५, ४४८, ४४८, ४५१
उक्कस्सपद	३९३
उक्कस्सपदेणविहत्तिञ्च	२
उक्कस्सपदेणविहत्तिञ्चत्त	२६
उक्कस्सपदेणत्तन्म	७४, ७५, ७६, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८५, ८५, ८६ ८८, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९
उक्कस्सपदेणत्तन्मिमत	५
उक्कस्सप	२३५, २७५, ३०६, ३०८, ३०९, ३१५, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९

उक्कस्सपदेणत्तय	३६८
उक्कस्सपकिलित	३४६, ३५४
उक्कस्सिय	४३५, ४३७, ३६२
उक्कस्स	३६२
उक्कस्स	३६७, ३७३, ३७८, ३७९, ३८१, ३८२, ३८८, ३८९, ३९३, ३९४, ३९६, ३९८, ३९९, ४०४, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१९, ४२१, ४२८, ४३३, ४४०, ४४१, ४४६, ४५३, ४५६, ४५८, ४६१, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७८, ४७९, ४८६, ४८८, ४४५
उक्कस्सपदेणत्तन्मिमत	४०३
उक्कस्सपद	३०७, ३०८
उक्कस्सपदिकिलित	३५०
उक्कस्सपदिल	३०५, ३५१
उक्कस्सपदिलपद	२४२, ३०९, ३७३
उक्कस्सपदिलपदिल	२३६, ३१३, ३५१
उक्कस्सपदिलपदिलत्त	२३६
उक्कस्सपदिलपदिलत्त	२४३, २४७, २५१, २५८, २६७, ३०८

उक्कस्सपदेणत्तय	३७४, ४००
उक्कस्सपदेणत्तय	३५९
उक्कस्सपदेणत्तय	३०७
उक्कस्सपदेणत्तय	३६४
उक्कस्सपदेणत्तय	३३४, ३४०, ३४६, ३५४, ३८९, ३९५, ४४२
उक्कस्सपदेणत्तय	३३९
उक्कस्सपदेणत्तय	३२०, ४२५, ४३६, ४३८
उक्कस्सपदेणत्तय	३२२, ३५०, ४४२
उक्कस्सपदेणत्तय	३१२
उक्कस्सपदेणत्तय	४०६, ४२१
उक्कस्सपदेणत्तय	४०, ३५०, ३५४, ४४०
उक्कस्सपदेणत्तय	३५४, ३०६, ४०१
उक्कस्सपदेणत्तय	१०४
उक्कस्सपदेणत्तय	२४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २५३, २६१, २६२, २६३, २६४, २६६, २६७, २७०
उक्कस्सपदेणत्तय	४२४, ४१०
उक्कस्सपदेणत्तय	९१, १२६, ३१०, ३५०, ३५४
उक्कस्सपदेणत्तय	३५०, ३५४, ४१०
उक्कस्सपदेणत्तय	४३०
उक्कस्सपदेणत्तय	४३८
उक्कस्सपदेणत्तय	३०४, ३७४, ३८८, ३८९
उक्कस्सपदेणत्तय	३८३
उक्कस्सपदेणत्तय	२५१
उक्कस्सपदेणत्तय	२, ५३

अघट्टिदिय	२८५
अघना	३
अघाणिसेअ	३७७, ३७८, ४३५
अघाणिसेय	४२१, ४३८, ४३९, ४४५
अघाणिसेयट्टिदिपत्तय	
३६७, ३७१, ३७७	
३७८, ३८२, ३८९,	
३९५, ४०५, ४०६,	
४२०, ४३०, ४३५,	
४३७, ४४२, ४४६,	
४४९, ४५०	
अघापवत्तसंकम	३८१
अद्ध	३९४
अपच्चकखायामाण	७४, ८३, ९३ १०९, ११८
अपच्छिम	३३४
अपच्छिमट्टिदिरखड्य	२७६, २८७, २९२, २९५
अपच्छिममणुस्समवगाहण	३४६
अपडिबदिद	३५४
अपरिसेस	२५८
अपावहुअ	७४, ३५६, ३५९, ३६७, ४४६
अण्डुट्टिद	२९८
अभवसिद्धियपाओगा	३३४, ४४२
अभिवत्तं	३९२
अरइ	३१०, ३५१, ३५४, ३५९, ३६१, ३६२, ४०४
अरदि	८०, ८७, ९७, ११५, १२१, १३२ ३५०, ३५१, ३५५, ४४५, ४५१

अचत्थु	२५१
अचत्थुवियप्प	२६७, २७१
अवहारकाल	३८१
अवेदअ	४०४, ४८५
अवेदग	३१०, ३११, असंखेज २, ३, -५, ५३, ३७७, ४४०
असंखेजगुण	८३, ९२, ९३, १०३, १०५, १०७, १०९, ११३, ११५, ११७, ११८, १२०, १२५, १२६, १२९, ३५७, ३५८, ३६२, ३८१, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५१
असंखेजदिभाग	३४०, ३५०, ३५४, ३८१
असंखुहमाणय	३००
असजद	३३४
असंजम	२९६, ३३४, ४०३
अह	३११
अहवा	३६२
आ आगद	२८९, २९६, ३४०, ३५०, ३५४, ४२०, ४४०
आगय	२७९, २९३
आदत्त	२८४, २९२
आदि	२६३
आदिट्ट	२४३, ४०६
आदेस	२५२
आवाधा	२६०, २६५
आवाधाहुसमयुत्तरमेत्त- ट्टिदिसंतकम्म	२६९
आवाहा	२४६, २४७, २४८, २६१ २६३, २६६, २६७, २७०, २७१, २७२, ३७८, ३९४, ४०६, ४३०, ४४२

आवाहमेत्त	३७७
आवाहमेत्तट्टिदिसंतकम्म	२६८
आवाहासमयुत्तरमेत्त	२६९
आलाव	३५९
आवलय	३०३
आवलयउववण	३२७
आवलयचरिमसमय- असंखोहय	३०७
आवलयपडिभगा	३४६, ३५४
आवलयपदमसमय- असंखोहय	३०५
आवलयमिच्छादट्टि	३१९
आवलयमिच्छादट्टि	४३९, ४४१
आवलयवेदयसममाहट्टि	३२१
आवलयसमयमिच्छादट्टि	३३३
आवलयसममामिच्छादट्टि	३२२
आवलयिया	२४४, २४५, २५१, २५३, २६१, २६२, २६६, २६७, २७०, ३१२
आवलयिण	६६०
आसाण	३१२
इत्थि	३५९, ४४५
इत्थिवेद	८६, ९७, ११३ १२०, १३०, ३०५, ३३९, ३४६, ३६२, ४२०, ४५१
इत्थिवेदपुरिसवेदकम्मसिअ	४२१
इत्थिवेदपुरिदकम्मसिय	३०५
इत्थिवेदसजद	४२१
इत्थाणि	२६७, ३८९
इदि	३२२

परिसिद्धाणि

गुण्युक्कम्मसिय २७६,
 २८७, २९६, ३०३,
 ३०७, ३०९,
 ४२०, ४२२
 गुण्येदि २७९, २९६,
 ३३४, ४०३
 गुण्येदिलीस्य २७९,
 २८८, २९३, २९६,
 ३००, ४००
 च च २६, २४१, २५२,
 २५८, २७१, २७९,
 २८४, २८७, २८८,
 ३०२, ३०३, ३०८,
 ३०९, ३१२, ३२०,
 ३२२, ३२८, ३३४,
 ३४०, ३४६, ३५०,
 ३५४ ३५६, ३५९,
 ३६७, ३७०, ३७१,
 ३७३, ३९५, ३९९,
 ४१८, ४२०, ४२१,
 ४२४, ४२५, ४३५,
 ४३६, ४३७, ४३८,
 ४३९, ४४०,
 ४४२, ४४५
 नठ ३०२, ३०३, ३०८,
 ३३४, ३४०,
 ३५४, ४४०
 नठन्वित् ३७३
 नठसन्त्वाय ३२२
 नठुनमयारिय २६०
 नठुन्त्वाय २६
 चरिमसमयअसंखुहमाण्य ३०२, ३०३
 चरिमसमयहृत्सिन्दे-
 क्खवय ३०६
 चरिमसमयइत्सिन्देय ४२२
 चरिमसमयउदयत्सिदि-
 पत्तय ४२०
 चरिमसमयकोहवेदय ४१९
 चरिमसमयण्डुस्यवेद-
 क्खवय ३०८
 चरिमसमयपुरिसवेदय ३०७
 चरिमसमयसकसायखवग ३०४
 चरिमसमयसम्मार्दट्टि ४३५
 छ छ ३१२
 छरणोक्तसाय ३०८, ३५७,
 ४०३, ४०४
 ज ज २४४, २४५, २४७,
 २४८, ३१०, ३११,
 ४०४, ४०५
 जदि २४६
 जत्तिय ३७४, ३८९
 जत्तय ३७३
 जदेही २६३, २६८, ४४२
 जहण्य ३, ५, ५३, ३५६,
 ३७३, ३८९, ४२३
 जहण्यअ ३३४, ३५०,
 ४३०, ४३७, ४३८,
 ४४०, ४४२
 जहण्यकाल ७
 जहण्यपदेसलंनम्म १००, १०३, १०५,
 १०७, १०९, ११०,
 ११२, ११३, ११४,
 ११५, ११६, ११७,
 ११८, ११९, १२०,
 १२१, १२०, १२४,
 १२६, १२९, १३०,
 १३१, १३२, १३३

वहण्यय २७, २७५,
 ३१२, ३१९, ३२०,
 ३२१, ३२२, ३२७,
 ३३३, ३३४, ३३९,
 ३४०, ३६१, ३६२,
 ३७७, ४२१, ४२४,
 ४२५, ४३०, ४३५,
 ३३६, ४३७, ४३८,
 ४४८, ४४०, ४४१,
 ४४२, ४४५, ४४७,
 ४४८, ४४९, ४५०
 जहण्यय २४६, २४७,
 २६३, २७०, २७१,
 २७२, ३९४
 जहण्ययुक्कत्त २, २५
 जहा १२३, २३४, २३७,
 ३५९, ३६७, ४०५,
 ४३७, ४४५
 जहायित्तय ४३७
 जहायित्तिय ३८२
 जाद ३२२, ३३४, ३४६,
 ३५०, ३५४, ४४२
 जाधे २७९, २८५, २८८,
 २९३, २९४, ३०८
 ३४६, ३५०, ४००,
 ४२१
 जान २६०, २६३, २७१,
 ३३४, ३४०, ३५०,
 ३५४, ३७४, ३७७
 जानविय २६७, ४३०
 जीज ४३५
 जोगट्टाय ३९२, ३९४
 क नीणाट्टियय २३७, २३९,
 २४२, २४३, २४५,
 २४६, २४९, २६३,
 २६४, २६८, २६९,
 २६२, २७३, २७४,
 २७६, २७८, २७९,

परिसिद्धाणि

त्ति २५१, २५२, ३३५.
 ३५०, ३५५, ३५६,
 ४०३, ४२३
 कुल्ल ३५०, ३५८, ३६१,
 ३६२
 वेत्तीसगागरोविनित्र ३५०
 थ योव ३६१, ३६२, ३०६
 द दसवत्सहस्त्रिन्त्र ३५०
 वंसरामोहलीय ३०६,
 २८४, २८५
 वंसरामोहलीयक्ववयगुण-
 तेलिनीय ४०३
 दुगुहा ८०, ८७, ६८,
 ११५, १२१, १३२,
 ३१०, ३११, ३२२,
 ३५४, ४०४, ४०५,
 ४४४ ४५०
 दुसननवेव ३५१
 दुत्तमवाहिय २५५, २४८,
 २५८, २६२
 दुत्तमवाहियआवाहा-
 चरिन्मयअणुदिरण ३६५
 दुत्तमयुत्तर २७२
 दुत्तमयूर २६७, १००
 देव ३२२, ३४०, ३५०,
 ३५४, ४४२
 देवी ३५०, ३४६,
 देव्या ३५०, ३५४
 देवपुत्रमोदिमन्त्र ३३४
 दो २५१, ३०४, ४२१
 प मगलान्तमारा ७५, ८२,
 ६४, ११०, ११६, १३०
 मन्दि ४३२ ४४१
 मन्दि ३४६, ३५१
 मन्दि ३२९, ३३०,
 ३३६
 मन्दि ३३८

३
 पञ्च ४०३, ४२१
 पत्त ४२१
 पद्मशिलेयिष्टि ४२१
 पद्मसमयअन्वव २६६
 पद्मसमयएङ्गदिय ३४१
 पद्मसमयदेव . २२, ४४२
 पद्मसमयमिच्छाईष्टि
 २७६, २६३, ३१२,
 ३२८, ४२५
 पद्मसमयवेवयत्तमाईष्टि
 ३२०, ४४६
 पद्मसमयत्तमाईच्छा-
 ईष्टि २८२, ३२२, ४३८
 पद्मसमयवन्त्रम ३३४
 पयणारसन्नाय ३५७
 पद २३५, २३६
 पदशिक्लेव ३०४ ४२४
 पदेत्त २४३, २४४.
 पदेत्तगा २४५, २४०, २४८,
 २५१, २५२ २५३,
 २५७, २५८, २६१,
 २६२, २६३, २६४,
 २६८, २६९

३७७
 पाप १०४, २४५, २४६,
 २६२, २६३, २६४,
 २६८, २६९, २६९,
 २६४, २६५, ३००,
 ३०२, ३०३, ३०५,
 ३०६, ३०७, ३२०,
 ३२८, ३३४, ३५१,
 ३५६, ३६६, ४००,
 ४२४, ४४२
 पुत्रवि ३०६
 पुत्र २५३, २६३, २६४,
 २६७, २६८, २७०,
 ३७५, ३६२, ४२४
 पुत्रो ४३८, ४४१
 पुत्रण ३०८, ४०६
 पुत्रिमाण ४०५
 पुत्रिवेद २६, ८१, ८८,
 ६८, ११२, १२०,
 १३०, ३०६ ३०७,
 ३२२, ४२०,
 ४४४, ४५०
 पुत्र ३५६
 पुत्रमोडाउअ ३३१
 पुत्रमोडि ३४०, ३४४,
 ३५०, ३५४
 पोगलपरियट्ट २, २५, ५३
 व वड २६९, २५२
 वंथमाण ४४२
 वयसमय ३३८
 बहुमो ३२८, ३३४, ३४०,
 ३५०, ३५६, ४४०
 वारन्नाय ४४२, ४५०
 म मय ८१, ८७, ६८, ११६,
 १२२, १३२, २१०,
 ३११, ३२२, ३५१
 ४०४, ४०५
 ११४, ३५१
 मन्दि २८

२८४, २८५, २८६,
२८७, २८८, २८९,
२९२, २९३, २९४,
२९५, २९६, ३००,
३०२, ३०३, ३०४,
३०५, ३०६, ३०७,
३०८, ३०९, ३१२,
३१९, ३२०, ३२१,
३२२, ३२७, ३२८,
३३३, ३३४, ३३९,
३४०, ३४१, ३४६,
३५१, ३५४, ३५५,
३५६, ३५७, ३५८,
३६१, ३६२, ४४५
भीष्मभीष्म १३५
ठ ट्टिद २३९
ट्टिदि २४३, २४७, २५१,
२५२, २५७, २५८,
२६१, २६३, २६४,
२६६, २६७, २६८,
२६९, २७०, ३४०,
३४६, ३५१, ३७०,
३७१, ३७८, ३८२,
३९३, ३९४, ४०६
ट्टिदिकंडय ३०२
ट्टिदिपत्तय ४२०, ४२१,
४२३, ४३६, ४३८,
४३९, ४४५
ट्टिदिवंध ४२१
ट्टिदिसंतकम्म २६८, २६९
ट्टिय २३९
ठ ठिदिय ३६६
ण २६, १०४, २४४,
२६२, २७२, २७३,
२७४, ३५९, ४४२
णारि ५, २६, १२३,
२७१, ३०२, ३०३,
३१०, ३२२, ३६१,
३७७, ४०३, ४२०,
४२३, ४३५

णुसंयवेद ८०, ८७, ९७,
११३, १२०, १३२,
३८७, ३३४, ३४०,
३५६, ३५९, ३६२,
४२३, ४४५, ४५१
णुसंयवेदत्रावलिय- चरिमसमयत्रसंछोहय ३०७
णुसंयवेदोदय ४२३
णारणाजीव ५०, ५३
णाम २३९, २४२, २४९,
३६८, ३७०, ३७१,
३७२
णिक्वित्त ३५१
णिग्गलिद ३३४, ३४०,
३५४
णिदरिसण ३७८
णियमा ३७७
णिरयगइ १२३
णिरयगदि ८२
णिरवयव ४४५
णिरंतर २५१
णिसित्त ३७०, ३७१, ३७४
णिसेय ३९३, ४३८,
४२१, ४३६,
४३९, ४४५
णिसेयट्टिदिपत्तय ३६७,
३७०, ३९९, ४१८,
४२०, ४२४, ४२५,
४४२, ४४६, ४४८,
४५०
णोदन्व ४, ७, २६, २७
णोरइअ ३८९, ३९२
णोरइय ३८९
णो २५३, ३२९
त तत्तिय २६८, ३७४
तत्तो ३७७, ३७८, ३८९
तत्थ ३४०, ३५०, ३५४,
३६७, ३७३, ४४२

तदो २६७, ३११, ३२८,
३३४, ३४०, ३४६,
३५०, ३५४, ३६४,
४०५, ४३७, ४४१
तप्पाओगाउक्कत्सय ३४१,
३९२
तप्पाओगाउक्कत्ससंक्किलिट्ठ ४३६
तप्पाओगाउक्कत्सिय ३९३,
४३०
तप्पाओगासन्वरहत्स ३४०
तप्पाओगुक्कत्सट्टिदि ४४२
तप्पाओगुक्कत्ससंक्किलिट्ठ ४२५, ४३८
तस ३४०, ३५०, ३५४,
४३०, ४४०, ४४२
तहा १२३, २३४, ३५९,
४४५, २७९, ८८५
ताघे २८८, २८९, २९३,
२९५, ३०३, ३०८,
३५१, ४००, ४२१
ताव २४२, २४९, ३३४,
३४०, ३७४, ३७७
तावदिमसमअ ४४२
तावदिमसमयपवद्ध ३७७
तावदिमसमयमिच्छाइट्टि ४३०
ति २३५, २५१, २६५,
२९६, ३००, ३०३,
३०५, ३०७, ३०८,
३२८, ३३९, ३५०,
३५१, ३५७, ३५८,
३६१, ३६२, ३६३,
३६७ ४०३
तिण्णिवेद ३५८
तिपलित्तोवमिअ ३३४,
३३९
तिसमयाहिय २४८, २६०
तिसमयूण २७०

मंजमासजम	३२८, ३३४, ३४०, ३५०, ३५४, ४४०
सजमासंजमगुणसेदि	२७६, ३६६
संजमासंजम-संजमगुण- सेदि	२८८, २६२
सजमासंजमसजमदसण- मोहणीयकखण- गुणसेदि	२६६
संजोहद	३२८
सदरिसया	३७७
संजलया	४४५
संतकम्मट्टाया	२३४
सत्तम	३८६
समच	२६६, २७०, २७३, ३११
समय	२५१
समयपयद	३७४, ३७७, ३७८, ३८२
समयाहिय	२४३, २४४, २५३, २६३, २६२
समयाहियउदयावलिा	२५७
समयुत्तर	२४७, २६४, २६६, २७०, २७१, ३७८

समयुत्तरट्टिदिसंतकम्म	२६८
समयुत्तरावलिा	२५२
समयूण	२६१, २६६, २७६,
समुक्कित्तया	३६७
सम्मत्त	५, २६, ७८, ८४, ६१, १००, १०४, ११६, १२४, २८४, ३२०, ३२८, ३३४, ३५४, ३५७, ४००, ४३०, ४३५, ४३७, ४३८, ४३६, ४४१, ४५०
सम्मत्तद्धा	४३५
सम्मामिच्छत्त	५, २६, ७६, ८२, ६२, १०३, १०४, ११६, १२४, २८७, २८८, ३२०, ३५०, ४००, ४३७, ४३८, ४५०
सम्मामिच्छत्तद्धा	४३७
सव्व	२४८, २६३, २८६
सव्वकम्म	५०, ५३, ४२४
सव्वथोव	७४, ८२, ६१, १००, ११६, १२४, ३५६, ३५७, ३५८, ४४६, ४४७, ४५०

सव्वपयटि	४४६
सव्वमोहणीयपयटि	३५६
सव्वलुट्टु	२७६, २८४, २८७
सव्वसत्तकम्म	३०३
सागरोवम	२४८
सागरोवमपुयत्त	२४८
साधिरैय	६
सामित्त	२७५, ३११, ३१२, ३६७, ३७४
सुहुमणिओअ	३२८
सुहुमणिगोद	३४०
से	३५१
सेस	४, २६, ६०, २६८, २६६, २७६, ३१२, ३५७, ३५८, ३५६, ३६१
सोग	८०, ८७, ६७, १२१, १३१, ३१०, ३५०, ३५१, ३५५, ३५६, ३६१, ३६२, ४०४, ४४५, ४५१
ह हस्स	७८, ८५, ६६, ११४, १२१, १३१, ३२२, ३१०, ३५०, ४०४, ४४४, ४५०
हेट्टिमिय	२६७

७ जयधवलान्तर्गतविशेषशब्दसूची

पुस्तक ६

प	पद्मपुरमपदेगविरसि	२	उ	उफणुणाणमित्त	१०६	क	कम्मट्टिदि ७३, ७४, ७७,
	पत्तपारभाग	५		उज्ज्वलपदेगविरसि	२		१३४
पा	पाण्डु रत्तम	५		उत्तरपविराजे-		कणायभाग	५१
र	रविपौर	१०१		भागाभाग	५०	काण्डवत्तसुवदत्त	५६

भव	३३४
भाण्डिद्व	४२३
भुजगार	१३३
म मशुसगदि	१२३
मशुस्त	३३४, ३४०, ३५०, ३५४
मद	३२२, ४४२
माण	४१६
माणसंजलण	८२, ८८, ६८, ११२ १२२, १३२, ३०२
माया ७५, ७६, ८२, ८३, ८४, ६४, ६५, ६८, ११०, १११, ११७, ११६ १२६, १२६, १३०, ४१६	
मायाट्टिकिंडय	३०३
मायासंजलण	६० ११३, १२२. १३३, ३०३
मिच्छुत्त	२, २५, ७८, ८५, ६६, १०७, ११७, १२६, २७६, २७६, ३१२, ३२८, ३४०, ३४६, ३५६, ३५८, ३७४, ४००, ४२४, ४३०, ४३५, ४३६, ४४१, ४४७
मिच्छुत्तद्धा	३४०
मिच्छुत्तमंग	४०३, ४२०
र रइ	३१०, ३५०, ४०४, ४४४, ४५०
रचिद	४३५
रदि	७६, ६६, ११५, १२१, १३१, ३२२
रहस्तकाल	४३८
रुत्तर	२६७, २७१
ल लद्ध	३३४ ३४०
लभिदाउत्र	३२८

लोग	३
लोम ७५, ७६, ८३, ८४, ६४, ६५, ६६, १०७, ११० १११, ११६, १२०, १२६, १२६	
लोमसंजलण	८३, ६०, ११६ १३३, ३५८
लोह	१३०, ४१६
लोहसंजलण	१२२, ३०३
व वट्टमाणय	३०६, ४०४
वट्टि	३७४, ३६३
वस्त	४४०
वा	२४८, ३७०, ३७३, ३७४
वार	३२८, ३३४, ३४०, ३५०, ३५४, ४२१, ४४०
वास	२४८
वासपुधत्त	३, २४८
वि	२४३, २४४, २४५, २४६, २८५, ३०२, ३०३, ३०५, ३०७, ३०८, ३३६, ३४०, ३४०, ३५७, ३५८, ३६१, ३६२, ४०३, ४२०
विकट्टिद	३४०, ३४६
विदिकंत	२४४, २४५, २४६ २४७, २४८, २६२, २६३, २६४
विदिय	४०६, ४२१
वियप्य	२५७, २५८, २६१, २६६, २७०, २७१, २७३
विसेसाहिय	७५, ७६, ७८, ७६, ८०, ८१, ८२, ८३. ८४, ८५, ८६,

८७, ८८, ६०, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, १०७, ११०, १११, ११२, ११३, ११५, ११६, ११७, ११६, १२०, १२१, १२२, १२६, १२६, १३०, १३१, १३२, १३३, ३५७, ३६१, ३६२, ४४६, ४५०	
विसेसुत्तरकाल	३८६
विहासा	२३५, ३६६
वेष्ठावट्टिसागरोवम	६, ३२८, ३३४, ४२०, ४३६, ४४१
वेदयमाण	३५४
वेमाणिअ	३५४
वेमाणियदेवी	३४६
स सह	४४२
सकारण	६६
सक	२४४, २४७, २५३
संकमाण	२३७, २७३, २७८, २८०, २८४, २८५, २८७, २८८, ३१२, ३२०, ३२२, ३२८, ३५६
सकिलेस	३४१
सलेजगुण	७६, ८१, ८६, ६७, ११५, १२१, १२१
संदुद्ध	२७६, २८०, २६२, २६५
संदुभमाणय	२७६, २८०, २६२, २६५
संजम	३२८, ३३४, ३४०, ३४६, ३५०, ३५४, ४४०
संजमगुणनेदि	२०६. ३६६
संजमगुणनेदिगीगय	४०३

कोहसंजलणभाग	५५	द	दंसेखावरणीयभाग	५	मोहणीयभाग	५		
ग	गुणसंकम	८३	दुगुच्छामाग	५२	र	रदि-अरदिअश्वोगाढभाग		
	गौदभाग	५	पदेसमागाभाग	५०		५१		
छ	छेदभागहार	१७१	प	पयडिगोडुच्छा	१३६, १३८	ल	लोमसंजलणभाग	५५
ज	जहावस्वयागद	१५७		पुरिसवेद	१०१		लोहसंजलणदव	५६
	जीवभागाभाग	५०	फ	फह्य	१६३	व	विगिदिगोडुच्छा	१४१
ट	ट्टाण	१५७	ब	बादर	७३		वेदणीयभाग	५
	ट्टाणपरुवणा	१६६		बादरपुटविजीवआउअ७४			वेदभाग	५१, ५२
ण	णाखावरणीयभाग	५	भ	भयभाग	५२	स	सत्तिट्टिदि	७७
	णामभाग	५	म	मायसंजलणदव	५६		सम्मत्तभाग	५८
	णाकसायभाग	२५		मायसंजलणभाग	५५		सम्भामिच्छत्तभाग	५६
त	तसबंधगद्धा	६१		मायासंजलणदव	५६		संजमकाडग	२५०
थ	थावरबंधगद्धा	६१		मायासंजलणभाग	५५	ह	हस्स-योगभाग	५२
				मिच्छत्तभाग	५७, ६५		हदसमुपपत्तिय	२५१

पुस्तक ७

अ	अभाषिसेयट्टिदिपत्तय	३७२	उ	उदयट्टिदिपत्तय	२७३	ख	खिसेयट्टिदिपराय	३७०
	अप्याबहुअ	३६७	ओ	ओकडडया	२३७	व	विहासा	२३६
आ	आदिट्टु	२४३	च	चहुगादिणिगोद	२	स	समुफित्तणा	२३७, ३६७
	आदेश	२५२		चूलिया	३३६		सहाव	२४२
	आसाण	३१३	ठ	ठिदिय	३६६		संकम	२२८
उ	उकडडया	२३८	ण	णिच्चणिगोद	२		सामित्त	३६७
	उकस्सट्टिदिपत्तय	३६८						